



प्रस्तावना.

जेम कोइ एक पदार्थनी बनावट करवामां मात्र एकज बनावनारनी पण एवी खूवी होय ठे के ते एकज वस्तुने जूदा जूदा शैकडा प्रकारना रू पमां लावी शके ठे, तो ते तेहिज वस्तु जूदा जूदा पुरुषोनी बनावटथी जूदा जूदा आकार वाली थाय, तेमां तो वली केवुंज शुं ? तेम प्रत्येक ग्रंथनी रचना करनारा महान्पुरुषोमां पण एज रीत जाणी लेवी.


श्रीजैनशासनने विषे एक द्रव्यानुयोग, बीजो गणितानुयोग, त्रीजो चरण करणानुयोग, अने चोथो धर्मकथानुयोग. ए चार अनुयोग कह्या ठे ते चारेमां द्रव्यानुयोग मुख्य गणाय ठे. हवे ते द्रव्यानुयोगना विषय जेमां मुख्यत्वेन आ वेला होय एवा हजारो ग्रंथो ठे परंतु तेमां जे ग्रंथ घणोज सरस हशे, ते पण कोइ न्याय निपुणविद्वाननो आश्रय दीधा विना साधारण जनथी समजा इ शकाय नही एवा कठिन विषय अवश्य द्रव्यानुयोग संबधि ग्रंथोमां होय ठे, ते एवा ग्रंथोने अवलोकन करनारा सज्जनो सारी पेटें जाणता हशे.

परंतु आ अध्यात्मसार प्रश्नोत्तर नामक ग्रंथनी रचना करनार पंक्ति कुंवरविजयजी ठे तेमणे यद्यपि आ ग्रंथने विषे घणुं करीने द्रव्यानुयोग नीज वक्तव्यता करी जणाय ठे तथापि ते एवी सरलताथी वार्त्तिक रूपें गुर्जर जाषामां लखी ठे के मात्र एक नवतत्त्व प्रकरणनो जेणे बरोबर गु रुमुखें अच्युस करेलो होय अने थोडी घणी नय प्रमुखनी वातो गुरुमुखें धारेली होय तेवा सामान्य जनने पण आ ग्रंथ मांहेली वातो सेहेज समजवामां आवी जाय, एवी युक्ति पूर्वक रचना करी ठे तेथी द्रव्यानु योगने जाणवानी रुची वाला विवेकी पुरुषोने प्रथम द्रव्यानुयोग रूप समुद्रमां प्रवेश करवाने आ पुस्तक खरे खरुं नौकासमान ठे.

आ ग्रंथमां जीवादिक नवतत्त्व मांहेला कया कया पदार्थमां केटलां केटलां तत्त्व पामीयें? तथा ते शिवाय बीजी पण प्रसंगें ए नवतत्त्व संबधि अनेक वातो आवेली ठे, तथा निश्चय व्यवहार नयें करी, नैगमादि सात नयें करी, चार निक्षेपे करी, तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल अने जावनी चोचंगीयें करी, प्रत्यक्षादि प्रमाणे करी, तेमज सप्तचंगी, पंचचंगी, त्रिचंगी आदिकें करी अनेक पदार्थों नां स्वरूप सविस्तर पणे देखाड्यां ठे, तेनो सामान्य सारांश अनुक्रमणिकामां सूचव्यो ठे, अने पूर्ण खुलासो ग्रंथ अवलोकन करवाथी थशे. किं बहुना.



आ ग्रथमांहेला विषयोनी अनुक्रणिका.



अंक.	विषय.	पृष्ठ.
१	श्रीजिनस्तुति रूप मंगलाचरणादि.	१
२	श्रीअरिहंतना, जगवंतादिक वार विशेषणोना अर्थ.	४
३	जीवादिक नव तत्त्वने तत्त्व कही बोलाव्यां तेनुं स्वरूप. ..	५
४	नव तत्त्वमां हेय केटला, हेय केटला अने उपादेय केटला?	६
५	बाशठ मार्गणा स्थानमध्ये कयामार्गणास्थानमां चारगतिमां थी कयी गतिना केटला जीव जेद पामीयें तेनो यंत्र.	७
६	जीवने शाश्वत कहीयें किंवा अशाश्वत कहीयें तेनुं स्वरूप.	१०
७	जीवनां ड्रव्यप्राण अने जावप्राणनुं स्वरूप.	१०
८	वाटें वहेता जीवनांकेटला प्राण पामीयें? एनुं स्वरूप.	११
९	जीवने व्यवहारनयें नित्यानित्य कहीयें तेनुं स्वरूप.	११
१०	जीवने निश्चयनयें नित्यानित्य कहीयें तेनुं स्वरूप.	११
११	पुजल, पुजलने नथी ग्रहण करता ते कया नयें करीने तथा पुजल पुजलने ग्रहण करे ठे ते कया नयें करीने. ...	१२
१२	जीव, पुजने ग्रहण कया नयें करी करे ठे तथा जीव पुजल ने नथी ग्रहण करतो ते कया नयें करी ने ? तेनुं स्वरूप.	१२
१३	नवतत्त्वमांथी आदरवा योग्य केटलां तत्त्व ठे. ..	१२
१४	नवतत्त्व मांहेला ड्रव्यजीवमां केटलां तत्त्व पामीयें	१२
१५	नवतत्त्व मांहेला जावजीवमां केटलां तत्त्व पामीयें	१३
१६	नवतत्त्व मांहेला मिथ्यात्वी जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें	१४
१७	नवतत्त्व मांहेला समकेति जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें	१४
१८	नवतत्त्व मांहेला अजव्य जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें	१४
१९	नवतत्त्व मांहेला जव्य जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१४
२०	नवतत्त्व मांहेला रूपी अजीवमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१५
२१	नवतत्त्व मांहेला पुण्यमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१५
२२	नवतत्त्व मांहेला पापमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१५

अंक.	विषय.	पृष्ठ.
२४	नवतत्त्व मांहेला आश्रवमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१५
२४	नवतत्त्व मांहेला संवरमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१५
२५	नवतत्त्व मांहेला निर्झरामां केटलां तत्त्व पामीयें. ...	१६
२६	नवतत्त्व मांहेला वंधतत्त्वमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१६
२७	नवतत्त्व मांहेला ड्रव्यमोक्षपदमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१६
२७	नवतत्त्व मांहेला ज्ञावमोक्षपदमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१६
२९	नवतत्त्वमां मूल तत्त्व केटलां पामीयें.	१७
३०	जीव अने अजीव ए मूल वे तत्त्वनां उत्तर तत्त्व केटलां	१७
३१	नवतत्त्वनां ज्ञेदांतर तत्त्व केटलां थाय.	१७
३२	नवतत्त्वमां अरूपी तत्त्व केटलां अने रूपी तत्त्व केटलां ...	१९
३३	नवतत्त्वनां वशे ठहोंतेर ज्ञेदमां अरूपी केटलांने अरूपी केटलां.	१९
३४	नवतत्त्वमांथी निगोदना जीव आश्रयी केटलां तत्त्व पामीयें.	२०
३५	नवतत्त्वमांथी नरकगतिनां जीव आश्रयी केटलां तत्त्व पामीयें.	२०
३६	नवतत्त्वमांथी ज्वरतक्षेत्रे मनुष्यगति आश्रयी केटलांतत्त्व पामीयें.	२०
३७	नवतत्त्वमांथी महाविदेहनां मनुष्यमां केटलां तत्त्व पामीयें.	२०
३७	नवतत्त्वमांथी तिर्यचगति आश्रयी केटलां तत्त्व पामीयें.	२०
३९	नवतत्त्वमांथी व्यंतर, ज्वनपति, ज्योतिषी, वैमानिक अने नव त्रैवेयकना देव आश्रयी केटलां तत्त्व पामीयें. . .	२१
४०	नवतत्त्वमांथी पंचानुत्तरना देव आश्रयी केटलां तत्त्व पामीयें.	२१
४१	नवतत्त्वमांथी ईषत्प्राग्ज्ञारपृथ्वीना जीवोमांकेटलां तत्त्वपामीयें.	२१
४२	नवतत्त्वमांथी ड्रव्य समकेती जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें.....	२१
४३	नवतत्त्वमांथी ज्ञावसमकेती जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें.	२१
४४	नवतत्त्वमांथी ड्रव्यलिंग श्रावकमां केटलां तत्त्व पामीयें.	२२
४५	नवतत्त्वमांथी ड्रव्य श्रावकमां केटलां तत्त्व पामीयें.	२२
४६	नवतत्त्वमांथी ज्ञावश्रावकमां केटलां तत्त्व पामीयें.	२२
४७	नवतत्त्वमांथी ज्ञावलिंग श्रावकमां केटलां तत्त्व पामीयें. ...	२२
४७	नवतत्त्वमांथी ड्रव्यज्ञानमां केटलां तत्त्व पामीयें.	२२
४८	नवतत्त्वमांथी ज्ञावज्ञानमां केटलां तत्त्व पामीयें.	२३

अंक.	विषय.	पृष्ठ.
५०	नवतत्त्वमांथी क्रोधादि चार कषायमां केटलां तत्त्व पामीयें.....	१३
५१	नवतत्त्वमांथी ज्ञावलिंग आचार्यमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१३
५२	नवतत्त्वमांथी द्रव्यलिंग आचार्यमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१४
५३	नवतत्त्वमांथी द्रव्य आचार्यमां केटलां तत्त्व पामीयें.....	१४
५४	नवतत्त्वमांथी ज्ञाव आचार्यमां केटलां तत्त्व पामीयें.....	१४
५५	नवतत्त्वमांथी द्रव्य अरिहंतमां केटलां तत्त्व पामीयें.....	१४
५६	नवतत्त्वमांथी ज्ञाव अरिहंतमां केटलां तत्त्व पामीयें.....	१४
५७	नवतत्त्वमांथी द्रव्यसिद्धमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१५
५८	नवतत्त्वमांथी ज्ञावसिद्धमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१६
५९	नवतत्त्वमांथी द्रव्य चारित्रमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१६
६०	नवतत्त्वमांथी ज्ञाव चारित्रमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१६
६१	नवतत्त्वमांथी द्रव्य साधुमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१७
६२	नवतत्त्वमांथी ज्ञाव साधुमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१७
६३	नवतत्त्वमांथी द्रव्यलिंग साधुमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१८
६४	नवतत्त्वमांथी ज्ञावलिंग साधुमां केटलां तत्त्व पामीयें.	१८
६५	नवतत्त्वमांथी जीवने शत्रुरूप केटलां तत्त्व पामीयें.	१९
६६	नवतत्त्वमांथी जीवने बोलावा रूप केटलां तत्त्व पामीयें.	१९
६७	नवतत्त्वमांथी जीवने बाणोतर रूप केटलां तत्त्व पामीयें.....	२०
६८	नवतत्त्वमांथी जीवने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें.	२०
६९	नवतत्त्वमांथी जीवने घररूप केटलां तत्त्व पामीयें.....	२०
७०	नवतत्त्वमांथी रूपी अजीवने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें.	२१
७१	नवतत्त्वमांथी अजीवने शत्रुरूप केटलां तत्त्व पामीयें.	२१
७२	नवतत्त्वमांथी अजीवने रोकवा रूप केटलां तत्त्व पामीयें.....	२१
७३	नवतत्त्वमांथी अजीव केटलां तत्त्वने रोक्री शके ठे.....	२१
७४	नवतत्त्वमांथी अजीवें केटलां तत्त्वनुं घर दीतुं नथी.	२२
७५	नवतत्त्वमांथी पुण्यने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें.....	२२
७६	नवतत्त्वमांथी पुण्यने शत्रुरूप केटलां तत्त्व पामीयें.....	२२
७७	नवतत्त्वमांथी पुण्यनां प्रतिपद्दीरूप केटलां तत्त्व पामीयें.	२२

अंक.	विषय.	पृष्ठ.
७०	नवतत्त्वमांथी पुण्यने रोकवारूप केटलां तत्त्व पामीयें.	३१
७१	नवतत्त्वमांथी पुण्य केटलां तत्त्वने रोकी शके ठे.	३१
७०	नवतत्त्वमांथी पुण्ये केटलां तत्त्वनुं घर दीतुं नथी.	३१
७२	नवतत्त्वमांथी पापनेमित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें.....	३३
७२	नवतत्त्वमांथी पापने शत्रुरूप केटलां तत्त्व पामीयें.....	३३
७३	नवतत्त्वमांथी पापनां प्रतिपद्हीरूप केटलां तत्त्व पामीयें.	३३
७४	नवतत्त्वमांथी पापने रोकवा रूप केटलां तत्त्व पामीयें.	३३
७५	नवतत्त्वमांथी केटलां तत्त्वने पाप रोकी शके ठे.	३३
७६	नवतत्त्वमांथी पापें केटलां तत्त्वनुं घर दीतुं नथी.....	३३
७७	नवतत्त्वमांथी आश्रवने मित्र रूप केटलां तत्त्व पामीयें.	३४
७७	नवतत्त्वमांथी आश्रवने शत्रुरूप केटलां तत्त्व पामीयें.	३४
७८	नवतत्त्वमांथी आश्रवने रोकवा रूप केटलां तत्त्व पामीयें,....	३४
७९	नवतत्त्वमांथी केटलां तत्त्वने आश्रव रोकी शके ठे.....	३४
७९	नवतत्त्वमांथी आश्रवें केटलां तत्त्वनुं घर दीतुं नथी.	३४
७९	नवतत्त्वमांथी संवरने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें.	३४
७९	नवतत्त्वमांथी केटलां तत्त्वने संवर रोकी शके ठे.	३४
७९	नवतत्त्वमांथी केटलां तत्त्वने संवरनी साथे प्रीति ठे.	३५
७९	नवतत्त्वमांथी संवरने घररूप केटलां तत्त्व पामीयें.	३५
७९	नवतत्त्वमांथी केटलां तत्त्वने निर्झारा वाले ठे.	३५
७९	नवतत्त्वमांथी केटलां तत्त्व निर्झराने स्वामिरूप ठे.....	३५
७९	नवतत्त्वमांथी केटलां तत्त्वनी साथे निर्झराने प्रीति ठे.	३६
७९	नवतत्त्वमांथी केटलां तत्त्वनुं घर निर्झरारयें दीतुं नथी.	३६
१००	नवतत्त्वमांथी बंधने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें.	३६
१०१	नवतत्त्वमांथी बंधने शत्रुरूप केटलां तत्त्व पामीयें.....	३६
१०२	नवतत्त्वमांथी केटलां तत्त्वने बंध रोकी शके ठे.	३६
१०३	नवतत्त्वमांथी बंधतत्त्वने कयुं तत्त्व रोकी शके ठे.	३६
१०४	नवतत्त्वमांथी बंधे केटलां तत्त्वनुं घर दीतुं नथी.	३७
१०५	नवतत्त्वमांथी अव्यनिद्ध परमात्माने शत्रुरूप केटलां तत्त्व ठे.	३७

अंक.	विषय.	पृष्ठ.
१०६	नवतत्त्वमांथी द्रव्यसिद्ध परमात्माने मित्ररूप केटलां तत्त्व ठे.	३७
१०७	नवतत्त्वमांथी द्रव्य सिद्धपरमत्माने वाणोतररूप केटलां तत्त्व ठे.	३७
१०८	नवतत्त्वमांथी द्रव्यसिद्ध परमात्माने घर रूप केटलां तत्त्व ठे.	३८
१०९	नवतत्त्वमांथी ज्ञावसिद्ध परमात्माने घर रूप केटलां तत्त्व ठे.	३८
११०	सिद्धपरमात्माने सुख केटलुं ठे.	३९
१११	सिद्धना जीव अक्रियठतां सात राज उंचारह्यातेक्रियाकेम करी.	३९
११२	सिद्धना जीवने कर्म केम लागतां नथी तेना हेतु देखाड्या ठे.	४०
११३	सिद्धना जीवो संबंधी सुखनो स्वाद.	४०
११४	सिद्धि किहांठे, मुक्ति किहां ठे, तथा मोक्षपद किहां ठे ?....	४०
११५	सिद्धने मोक्षपुरीमां धर्म ठे किंवा धर्म नथी.....	४१
११६	नवतत्त्वमांथी विसखज्ञावमां केटलां तत्त्व पामीयें.	४१
११७	नवतत्त्वमांथी अशुजप्रकारें विसखज्ञावमां केटलां तत्त्व पामीयें.	४२
११८	नवतत्त्वमांथी शुजप्रकारें विसखज्ञावमां केटलां तत्त्व पामीयें.	४२
११९	नवतत्त्वमांथी अलिस खज्ञावमां केटलां तत्त्व पामीयें.	४२
१२०	द्रव्यथकी षडावश्यकनुं स्वरूप ते शुं ?	४३
१२१	नवतत्त्वमांथी द्रव्यथकी सामायिकादिक ठए आवश्यकमांहे लां कया कया आवश्यकमां केटलां तत्त्व पामीयें.	४३
१२२	द्रव्यथकी सामायिकादिक ठए आवश्यकरूप करणी करवी तेनुं फल विशेष रीतें नयनी युक्तियें करी समजाव्युं ठे.....	४५
१२३	ज्ञाव थकी षडावश्यकनुं स्वरूप देखाड्युं ठे.	४६
१२४	ज्ञाव थकी षडावश्यक रूप करणी करवी तेनो हेतु शुं ?	४६
१२५	नवतत्त्वमांथी ज्ञावथकी सामायिकादिक ठए आवश्यकमां हेला कया कया आवश्यकमां केटलां केटलां तत्त्व पामीयें.	४९
१२६	नवतत्त्वमांथी रमणिक तत्त्व केटलां पामीयें.....	५१
१२७	नवतत्त्वमांथी अशुजप्रकारें रमणिकखज्ञावमांकेटलांतत्त्वपामीयें.	५१
१२८	नवतत्त्वमांथी शुजप्रकारें रमणिकखज्ञावमांकेटलां तत्त्व पामीयें.	५१
१२९	नवतत्त्वमांथी शुद्ध प्रकारें रमणिकखज्ञावमांकेटलांतत्त्वपामीयें.	५१
१३०	नवतत्त्वमांथी निश्चयथकी रमणिक खज्ञावमां केटलां तत्त्व ठे.	५२

श्रंक्र.	विषय.	पृष्ठ.
१३१	नवतत्त्वमांथी ध्याता रूप केटलां तत्त्व पामीयें.	५१
१३२	नवतत्त्वमांथी अशुजप्रकारें ध्याता रूपमां केटलां तत्त्व पामीयें.	५३
१३३	नवतत्त्वमांथी शुजप्रकारें ध्याता रूपमां केटलां तत्त्व पामीयें.	५३
१३४	नवतत्त्वमांथी शुद्ध प्रकारें ध्याता रूपमां केटलां तत्त्व पामीयें.	५३
१३५	नवतत्त्वमांथी वहिरात्मामां केटलां तत्त्व पामीयें.	५३
१३६	नवतत्त्वमांथी अंतरात्मामां केटलां तत्त्व पामीयें.	५४
१३७	नवतत्त्वमांथी द्रव्य परमात्मामां केटलां तत्त्व पामीयें.	५५
१३८	नवतत्त्वमांथी जावपरमात्मामां केटलां तत्त्व पामीयें.	५५
१३९	सिद्ध परमात्माना स्वरूपमां ज्ञान, ज्ञाता ने ज्ञेय रूप त्रिजंगी.	५५
१४०	सिद्ध जगवानना स्वरूपमां कर्ता कारणने कार्य रूप त्रिजंगी.	५५
१४१	सिद्ध जगवानना स्वरूपमां ध्यान ध्याताने ध्येय रूप त्रिजंगी.	५५
१४२	नवतत्त्वमांथी अशुज ध्यानमां केटलां तत्त्व पामीयें.	५६
१४३	नवतत्त्वमांथी शुज ध्यानमां केटलां तत्त्व पामीयें.	५६
१४४	नवतत्त्वमांथी शुद्ध ध्यानमां केटलां तत्त्व पामीयें.	५६
१४५	नवतत्त्वमांथी कर्मफल चेतनामां केटलां तत्त्व पामीयें.	५६
१४६	नवतत्त्वमांथी ज्ञान चेतनामां केटलां तत्त्व पामियें.	५७
१४७	नवतत्त्वमांथी अशुजप्रकारें कर्मचेतनामां केटलां तत्त्व पामीयें.	५७
१४८	नवतत्त्वमांथी शुजप्रकारें कर्मचेतनामां केटलां तत्त्व पामीयें.	५८
१४९	नवतत्त्वमांथी आर्त रौद्रध्याननी जावनामां केटलां तत्त्व ठे.	५८
१५०	नवतत्त्वमांथी धर्मध्यान शुक्लध्याननी जावनामां केटलां तत्त्व ठे.	५८
१५१	नवतत्त्वमांथी अशुजप्रकारें जीवने बाधकरूप केटलां तत्त्व ठे.	५८
१५२	नवतत्त्वमांथी शुज प्रकारें जीवने बाधकरूप केटलां तत्त्व ठे.	५८
१५३	नवतत्त्वमांथी शुजप्रकारें जीवने साधकरूप केटलां तत्त्व ठे.	५९
१५४	नवतत्त्वमांथी कर्त्तारूपमां केटलां तत्त्व पामियें एमां साते नयें करी जीवने शुजाशुजना कर्त्तापणानुं स्वरूप ठे.	५९
१५५	नवतत्त्वमांथी अशुजप्रकारें कर्त्तारूपमां केटलां तत्त्व ठे.	६१
१५६	नवतत्त्वमांथी शुजप्रकारें कर्त्तारूपमां केटलां तत्त्व ठे.	६२
१५७	नवतत्त्वमांथी शुद्धप्रकारें कर्त्तारूपमां केटलां तत्त्व ठे.	६२

अंक.	विषय.	पृष्ठ.
१५८	नवतत्त्वमांथी जीवने अशुच कारणरूप केटलां तत्त्व ठे.	६२
१५९	नवतत्त्वमांथी जीवने शुच कारणरूप केटलां तत्त्व ठे.	६२
१६०	नवतत्त्वमांथी जीवने शुद्ध कारणरूप केटलां तत्त्व ठे.	६३
१६१	नवतत्त्वमांथी निश्चयनयथकी कार्यरूप केटलां तत्त्व ठे.	६३
१६२	नवतत्त्वमांथी लौकिक मार्गमांहे केटलां तत्त्व ठे.	६३
१६३	नवतत्त्वमांथी लोकोत्तर मार्गमांहे केटलां तत्त्व ठे.	६३
१६४	नवतत्त्वमांथी जीवने बाधक दशा केटलां तत्त्वनी साथे ठे.	६४
१६५	नवतत्त्वमांथी जीवने साधक दशा केटला तत्त्वनी साथे ठे.	६४
१६६	नवतत्त्वमांथी जीवने सिद्ध दशा केटलां तत्त्वनी साथे ठे.	६४
१६७	नवतत्त्वमांथी संसारव्यापि केटलां तत्त्व पामीयें.	६४
१६८	नवतत्त्वमांथी सिद्धव्यापि केटलां तत्त्व पामीयें.	६५
१६९	नवतत्त्व साते नयें करी जीवनुं गुणीपणुं केम जाणीयें.	६५
१७०	नवतत्त्वमांथी जीवने अशुच गुणरूप केटलां तत्त्व पामीयें.	६५
१७१	नवतत्त्वमांथी जीवने शुच गुणरूप केटलां तत्त्व पामीयें.	६५
१७२	नवतत्त्वमांथी जीवने शुद्ध गुणरूप केटलां तत्त्व पामीयें.	६६
१७३	नवतत्त्वमांथी जीवने निश्चय गुणरूप केटलां तत्त्व पामीयें.	६६
१७४	नवतत्त्वमांथी प्रत्यक्ष ज्ञानमां केटलां तत्त्व पामीयें.	६६
१७५	नवतत्त्वमांथी परोक्ष ज्ञानमां केटलां तत्त्व पामीयें.	६६
१७६	नवतत्त्वमांथी स्वाभाविक तत्त्व केटलां पामीयें.	६७
१७७	नवतत्त्वमांथी विज्ञाविक तत्त्व केटलां पामीयें.	६७
१७८	नवतत्त्वमांथी समकेतिने साध्य साधनरूप केटलां तत्त्व ठे.	६७
१७९	नवतत्त्वमांथी मिथ्यास्वीने साध्य साधनरूप केटलां तत्त्व ठे.	७०
१८०	नवतत्त्वमांथी डव्यनयमां केटलां तत्त्व पामीयें.	७०
१८१	नवतत्त्वमांथी ज्ञाननयमां केटलां तत्त्व पामीयें.	७०
१८२	नवतत्त्वमांथी अहीछीप व्यापि केटलां तत्त्व पामीयें.	७१
१८३	नवतत्त्वमांथी अहीछीपथी बाहेर केटलां तत्त्व पामीयें.	७१
१८४	नवतत्त्वमांथी उर्ध्वलोकमां केटलां तत्त्व पामीयें.	७१
१८५	नवतत्त्वमांथी तिर्था लोकमां केटलां तत्त्व पामीयें.	७१

अंक.	विषय.	पृष्ठ.
१८६	नवतत्त्वमांथी अधोलोकमां केटलां तत्त्व पामीयें.	११
१८७	नवतत्त्वमांथी व्यवहारनयमां केटलां तत्त्व पामीयें एमां व्यवहारनयना उपचरितादिक ठ जेदनुं स्वरूप देखाड्युं ठे.	११
१८८	नवतत्त्वमांथी निश्चयनयमां केटला तत्त्व पामीयें.	१३
१८९	जीवनां व्यवहार प्राण कयां अने निश्चय प्राण कयां.	१३
१९०	एक मुष्टिमां केटला जीव पामीयें.	१४
१९१	ठ ड्रव्य मांहेला एक मुठीमां केटला ड्रव्य पामीयें.	१४
१९२	पांचशे त्रेशठ जेद मांहेला केटला जेदना जीव मरण पामे.	१५
१९३	अध्यात्म स्वरूपनी जावनाना वावन दोहा....	१५
१९४	निश्चय तथा व्यवहारथी सुदेव, सुगुरु अने सुधर्म तथा एनां प्रतिपक्षी कुदेव, कुगुरु अने कुधर्मनुं स्वरूप....	१६
१९५	निश्चय तथा व्यवहारथी पांच महाव्रतनुं स्वरूप.	१९
१९६	हिंसा करता नथी अने हिंसानां फल जोगवे ठे तेनुं स्वरूप.	८२
१९७	हिंसा करे ठे अने हिंसानां फल जोगवता नथी तेनुं स्वरूप.	८३
१९८	हिंसा करे ठे अने हिंसानां फल पण जोगवे ठे तेनुं स्वरूप.	८३
१९९	हिंसा करता नथी अने हिंसानां फल जोगवता नथी तेनुं स्वरूप.	८४
२००	उपरथी साधुपणा सहित अने अंतरथकी साधुपणारहितनुं स्वरूप.	८५
२०१	अंतरथी साधुपणा सहित अने उपरथी साधुपणा रहितनुं स्वरूप.	८६
२०२	उपरथी साधुपणा रहित अने अने अंतरथी साधुपणा रहितनुं	८७
२०३	उपरथी साधुपणा सहित अने अंतरथी साधुपणा सहितनुं	८८
२०४	पड्डव्य नवतत्त्वनुं स्वरूप ड्रव्य क्षेत्र काल जावनी चोचंगीयें.	८९
२०५	ड्रव्य, क्षेत्र, काल अने जावमांथी कोण कोणथी सूक्ष्म ठे....	९१
२०६	पड्डव्य नवतत्त्वनुं स्वरूप नामादिक चार निक्षेपे देखाड्युं ठे.	९२
२०७	वारे व्रत उपर चार निक्षेपा तथा ड्रव्य, क्षेत्र, काल, जाव.	९७
२०८	क्रोध, मान, माया, लोभ उपर चार निक्षेपा.	१०४
२०९	दान, लाज, जाव, रूप, अनुभव, मनुष्यगति, मनुष्यपुरुष, मनुष्यस्त्री, ए प्रत्येक उपर चार निक्षेपा उतास्या ठे.	१०५
१०	अनादि अनन्तादिक चार जांगि करी पड्डव्य तथा नवतत्त्वनुं	

अंक.	विषय.	पृष्ठ.
	स्वरूप निश्चय अने व्यवहारनयने मते देखाड्युं ठे.	१०८
१११	ठ ड्रव्यना परस्पर संबंधनी चोजंगी देखाडी ठे.	११३
११२	पांच समवाय कारणने प्रश्नोत्तरें करी निर्झाख्यां ठे.	११४
११३	समकेतनुं स्वरूप षट्कारकें करी देखाड्युं ठे.	११६
११४	मोक्ष निःकर्मावस्थानुं स्वरूप षट्कारकें करी देखाड्युं ठे.	११६
११५	नवप्रकारना नियाणानुं स्वरूप देखाड्युं ठे.....	११६
११६	अरिहंतादिक नवपद एटले सिद्धचक्रना यंत्रनुं स्वरूप सात नये करी तथा चार निक्षेपें करी तथा प्रत्यक्ष अने परोक्ष ए वे प्रमाणे करी तथा ड्रव्य, क्षेत्र, काल अने जावनी चोजंगीयें करी तथा चौद गुणठाणे करी तथा गुणे करी तथा नवतत्त्वें करी तथा गुणी गुणें करी तथा पांचवणें करी तथा देव, गुरु अने धर्मनी जलखाणे ए दशजांगे करी देखाड्युं ठे.	११७
११७	सातनयमां ड्रव्यनय केटला अने जावनय केटला.....	१२०
११८	अष्टावीश उपनयनुं स्वरूप, एमां व्यवहार नयना ठ जेद ठे.	१२०
११९	ड्रव्य अने जावनुं स्वरूप सातनयें जलखाव्युं ठे.	१३४
१२०	निश्चय तथा व्यवहारनयें करी नवतत्त्व, षट्द्रव्यनुं स्वरूप.	१३५
१२१	नैगमादि सातेनयें करीधर्मास्तिकायनुं स्वरूप.	१३६
१२२	नैगमादि सातेनयें करी अधर्मास्तिकायनुं स्वरूप.....	१३७
१२३	नैगमादि सातेनयें करी आकाशास्तिकायनुं स्वरूप.	१३७
१२४	नैगमादि सातेनयें करी कालद्रव्यनुं स्वरूप.	१३८
१२५	नैगमादि सातेनयें करी पुजलास्तिकायनुं स्वरूप!....	१३८
१२६	नैगमादि सातेनयें करी जीव ड्रव्यनुं स्वरूप.	१३९
१२७	नैगमादि सातेनयें करी पुण्यादिक सात तत्त्वनुं स्वरूप.	१४२
१२८	नैगमादि सातेनयें करी देवतानुं स्वरूप.	१४४
१२९	नैगमादि सातेनयें करी नारकी जीवनुं स्वरूप.	१४५
१३०	नैगमादि सातेनयें करी राजानुं स्वरूप.	१४५
१३१	नैगमादि सातेनयें करी मनुष्यनुं स्वरूप.	१४६
१३२	नैगमादि सातेनयें करी सामायिकनुं स्वरूप.	१४६

अंक.	विषय.	पृष्ठ.
२३३	एक आकाश प्रदेशमां षट्द्रव्यनुं तथा सातनयनुं स्वरूप.	१४७
२३४	नैगमादि सातेनयें करी जिनदास नामा शैठें श्रावक पुत्र प्रत्यें पूव्युं के तुं किहां रहे ठे इत्यादि नय स्वरूप ठे.....	१४७
२३५	नैगमादि सातेनयें करी जीवनुं स्वरूप.	१४९
२३६	नैगमादि सातेनयें करी ज्ञाननुं स्वरूप.	१५०
२३७	नैगमादि सातेनयें करी साधर्मिपणानुं स्वरूप.	१५१
२३८	नैगमादि सातेनयें करी धर्मनुं स्वरूप.	१५१
२३९	नैगमादि सातेनयें करी सिद्ध जगवाननुं स्वरूप.	१५२
२४०	नयनी अपेक्षायें करी नव तत्त्वनुं स्वरूप.	१५३
२४१	सातेनयें करी नव तत्त्वनुं स्वरूप एमां अजीवनां ५६० जेद.	१५४
२४२	जिनमंदिर उपर उत्सर्ग अपवादें सात नय उताख्या ठे.	१५६
२४३	घट उपर उत्सर्ग अपवादें सातनय उताख्या ठे.	१५७
२४४	घर उपर उत्सर्ग अपवादें सात नय उताख्या ठे.	१५७
२४५	राज्य उपर उत्सर्ग अपवादें सातनय उताख्या ठे.....	१५९
२४६	धर्मीजीवने समकेतनी स्थिरता करवा सारु सातनयनुं स्वरूप.	१६०
२४७	जहागति तहामति ए वचनने अनुसारें सातनय.....	१६२
२४८	अष्टावीश उपनयमां प्रथम द्रव्यास्तिकनयना दश जेदनुंस्वरूप.	१६२
२४९	पर्यायास्तिक नयना ठ जेदनुं स्वरूप.	१६३
२५०	नैगमादि सात नयना जेदो तथा तेनुं स्वरूप.	१६३
२५१	विशेषावश्यकने अनुसारें सात नयना जेद.	१६६
२५२	नित्यानित्यादि आठपदें निश्चय व्यवहार नयें जीवनुं स्वरूप.	१६६
२५३	द्रव्य समकेतादिक नव प्रकारना समकेतनुं स्वरूप.	१६७
२५४	जीवने कर्मना कर्त्तापणामां अने जोक्तापणामां नैगमादि सातनय मांहेला केटला नय पामीयें.	१७२
२५५	जीवने स्वरूपना कर्त्तापणामां केटला नय पामीयें.	१७३
२५६	जीवने स्वरूपना जोक्ता पणामां केटला नय पामीयें.	१७४
२५७	जीव कर्मनो अकर्त्ता तथा अजोक्ता कया नयें करी जाणवो.	१७५
२५८	संज्ञा उपर सातनयमां चार निक्षेपा उत्सर्गापवादे कख्याठे.	१७५

अंक.	विषय.	पृष्ठ.
१५९	सातनयमां त्रण निक्षेपानुं उत्सर्गापवादं स्वरूप.	१७७
१६०	समकेतरूप रत्नो लाज केवीरीतें पामीयें.	१७८
१६१	ठ ड्रव्यमां हेय, ज्ञेय, उपादेय तथा ठड्रव्यना गुण पर्याय अने ठ ड्रव्यना पर्यायनुं परस्पर साधर्मीपणुं दर्शाव्युं ठे.	१७९
१६२	ठ ड्रव्यमां परिणामि केटला अने अपरिणामि केटला.	१८१
१६३	ठ ड्रव्यमां जीव केटलां अने अजीव केटलां.	१८२
१६४	ठ ड्रव्यमां मूर्ति केटलां अने अमूर्ति केटलां.	१८३
१६५	ठ ड्रव्यमां सप्रदेशीकेटलां अने अप्रदेशी केटलां.	१८३
१६६	ठ ड्रव्यमां एक केटलां अने अनेक केटलां.	१८३
१६७	ठड्रव्यमां क्षेत्रकेटलां अने क्षेत्री केटलां एमां पुज्जलनो विचारठे.	१८४
१६८	ठ ड्रव्यमां सक्रिय केटलां अने अक्रिय केटलां.	१८६
१६९	ठ ड्रव्यमां नित्य केटलां अने अनित्य केटलां.	१८७
१७०	ठ ड्रव्यमां कारण केटलां अने अकारण केटलां.	१८९
१७१	ठ ड्रव्यमां कर्ता केटलां अने अकर्ता केटलां.	१८९
१७२	ठ ड्रव्यमां सर्वव्यापि केटलां अने देशव्यापि केटलां.	१९१
१७३	ठ ड्रव्यमां अप्रवेशी पणानुं स्वरूप.	१९१
१७४	ठ ड्रव्यमां एक अनेकादिक आठ पदानुं स्वरूप.	१९२
१७५	सम्यक्त्वनुं स्वरूप.	१९५
१७६	समकेतनी निःसर्गरुचि आदिक दशप्रकारनी रुचिनुं स्वरूप.	१९६
१७७	ठ ड्रव्यमां अस्तित्व, वस्तुत्व, ड्रव्यत्व, प्रमेयत्व, सत्त्व, अने अ गुरुलघु ए ठ ठ सामान्य गुण कह्याठे. तथा निगोदनुं स्वरूप.	१९८
१७८	जीवने स्वरूपनुं ध्यान करवा रूप विचार कह्यो ठे.	२०५
१७९	ठड्रव्यमां अगीयारसामान्य स्वज्ञाव निश्चयव्यवहारशीकह्योठे.	२०७
१८०	ठ ड्रव्यमां चेतनत्वादि विशेष स्वज्ञाव कह्या ठे.	२१०
१८१	नवतत्त्व तथा षट्द्रव्यनुं स्वरूप अनेक नयनी अपेक्षायें ड्रव्य अने ज्ञावनी चोचंगीयें करी देखाड्यो ठे.	२१२
१८२	नवतत्त्व तथा षट्द्रव्यनुं स्वरूप कर्ता, कारण अने कार्य रूप, त्रिचंगीयें करी देखाड्युं ठे. तथा समकेतनी प्रसंसा.	२१८

- श्रंक. विषय. पृष्ठ.
- २७३ सिद्धपरमात्माना पंदर जेद कही देखाड्या ठे. २२२
- २७४ नामथकी, क्षेत्रथकी, कालथकी, जावथकी, अव्यथकी, गुणथकी, तथा, उत्पाद, व्यय अने ध्रौव, ए नवजांगे सिद्धनुं स्वरूप. २२२
- २७५ नित्य अनित्यादिक आठ पदें करी सिद्धनुं स्वरूप. २२३
- २७६ सिद्धपरमात्मानुं स्वरूप स्यादस्ति स्यान्नास्तिनी सप्तजंगी तथा नित्य अनित्यनी सप्तजंगी आदिक अनेक सप्तजंगीयेंकरी कहुं. २२४
- २७७ सिद्धपरमात्मानां ज्ञानगुणमां, दर्शनगुणमां, चारित्रगुणमां, अने वीर्यगुणमां, पद कारक लगाव्याठे. २२७
- २७८ सिद्धना स्वरूपमां एकरूप, असंख्यरूप, असंख्य अनंतरूप, अनंत अनंतरूप अने अनंत अनंत धर्मरूप ए पंचजंगी कही ठे. २२८
- २७९ चारनिक्षेपें करी सिद्धपरमात्मानुं स्वरूप कहुं ठे. २२९
- २८० सिद्धपरमात्मानां अज्ञोगी, उपज्ञोगी अने ज्ञोगी एत्रिजंगी कही ठे २२९
- २८१ सिद्धमां नित्यस्वजाव, अनित्यस्वजाव, अस्ति, नास्ति, योगी, अयोगी, कर्ता, अकर्ता, जव्यस्वजाव, अजव्यस्वजाव, लाज, अलाज, ग्राहक, अग्राहक, स्थिर, अस्थिर, रक्षक, अरक्षक, अचलित, चलित, रमणिक, अरमणिक, व्यापक, अव्यापक स्वजाव. २३०
- २८२ सिद्धपरमात्माना अन्वयी गुण लख्या ठे. २३२
- २८३ सिद्धपरमात्मानां दानादिक पांचनी अनंतता दर्शावी ठे. २३३
- २८४ सिद्धनी उलखाण जेणे नथी करी तेने उपदेश कह्यो ठे. २३४
- २८५ पांच ज्ञान तथा ठ अव्यनुं स्वरूप, रूपी अरूपीपणे, निश्चय अने व्यवहारनयें, उत्सर्ग अपवादे करी, देशव्यापी सर्वव्यापीपणे, प्रत्यक्ष अने परोक्ष, ए वे प्रमाणें करी तथा कर्ता कारण अने कार्यरूप त्रिजंगीयें करी कहुं ठे. २३५
- २८६ जे जाणें, आदरे ने पाळे तथा जे जाणें न आदरे अने न पाळे, तथा जे जाणें न आदरे अने पाळे, तेनो स्वरूप तेमज न जाणें न आदरे अने न पाळे इत्यादिक अजाणनी चोत्रंगीनुं स्वरूप. २३९
- २८७ अंशममातिना दोहा तथा चोपाद्य प्रशंसा रूप. २४१
- २८८ केडला एक जाणवा योग्य वृद्धक बोल दाखल कऱ्या ठे. २४३

॥ श्रीजिनाय नमः ॥

॥ अथ ॥

॥ श्री अध्यात्मसारप्रश्नोत्तरग्रंथः प्रारभ्यते ॥

॥ श्लोक ॥

॥ चेतःकैरवकौमुदीसहचरः स्याद्वादविद्याकरः, कैवल्यद्रुममंजरीमधुकरः
संपल्लतांजोधरः॥ मुक्तिस्त्रीकमनीयजालतिलकःसर्द्धर्मदःशर्मकृत, श्रीमद्गीर-
जिनेश्वरस्त्रिजुवने द्वैमंकरः पातु वः॥१॥खिमाविजय जिन उत्तम पद, तेहने
सेवे सुरनर वृंद ॥ निजरूप प्रगटे श्री वरसंत, कुंवर कहे प्रश्नोत्तर वृत्तं॥२॥

॥ दोहा ॥

॥ हितोपदेश करवा जणी, ए प्रश्नोत्तर ग्रंथ ॥ ज
णशे गुणशे जे जविक, लेहेशे ते शिवपंथ ॥ ३ ॥

तिहां प्रथम श्री जिनस्तुति लखियें ठैयें.

॥ जय जगवान्, त्रैलोक्य तारण, अशरण शरण, परमात्मा, परमेश्वर,
जगन्नयाधार, कृपावतार, महिमानिधान, ज्ञापितसकलनिधान, समग्र
जंतुना करुणाबंधु, जव्य जीवोने धर्म पमाडता, जवसिंधुमां अनाथनाथ,
शिवपुर साथ, परमदयाल, वचन रसाल, जगद्रुपकारी, वंदे नर नारी,
तथा जे सुधासंयमी, निर्ग्रथपंथ पालता, चारित्र दूषण टालता, सर्व
जीवने हित करता, आव्याने उद्धरता एवा चौद हजार मुनिवरें परवस्था
अलंकस्था क्रोडो गमे देवतायें सेवित, अनंतज्ञानमय, अनंतदर्शनमय,
अनंतचारित्रमय, अनंततपोमय, अनंतदानमय, अनंतवीर्यमय, अनंत
लाजमय, अनंतजोगमय, अनंतउपजोगमय, क्रोधरहित, मानरहित,
मायारहित, लोचरहित, हास्यरहित, रतिरहित, अरतिरहित, जयरहित,
शोकरहित, डुगंधारहित, रागरहित, द्वेषरहित, मोहरहित, मिथ्यात्वरहित
निद्रारहित, कामरहित, अज्ञानरहित, कंदर्परहित, रोगरहित, निरालंबी
निराशी, निरुपाधि, निर्विकारी, अनंतचतुष्टयी, अक्षय, अचल, अकल,
अमल, अगम, अनामी, अकर्मा, अवंधक, अनुदय, अज्ञेदी, अवेदी, अ
छेदी, अखेदी, असखायी, अलेशी, अनवगाही, अव्यापी, अनाश्रयी, अ

कंप, अस्खलित, अविरोध, अनाश्रव, अलख, अशोक, अलोक, लोका
लोकज्ञायक, शुरू, बुरू, खजावरमणी, सहजानंदी, एक, असंख्य, अनंत
गुणें करी विराजमान, एवा अनंत सुखना जोगी, त्रैलोक्यना राजा, त्रैलो
क्यना पति, त्रैलोक्यस्वामी, त्रैलोक्यनाथ, त्रैलोक्यतिलक, त्रैलोक्यने विषे
मुकुट मुद्रासमान, त्रैलोक्यने विषे ठत्र समान, त्रैलोक्यने विषे सूर्यसमान
उद्योतना करनार, मिथ्यात्वरूप अंधकारना टालनार, चंद्रमानी घेरें शीत
खताना करनार. विषय कषायरूप बलतराना टालनार, जक्तवत्सल, जगन्न
थना हितकारी, जगन्नयना प्रीतिकारी, जगन्नय उपकारी, करुणासागर, ज
वसमुद्रथी पार उतारनार, तथा उक्तं च ॥ अशोकवृद्धः सुरपुष्पवृष्टि, दिव्य
ध्वनिश्रामरमासनं च, जामंरुलं कुंडु जिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वरा
णाम् ॥ १ ॥ ए आठ प्रातिहार्यनी संपदायें करी विराजमान तथा पूजाति
शय, वचनातिशय, ज्ञानातिशय अने अपायापगमातिशय, ए चार अतिशय
पूर्वोक्त आठ प्रातिहार्य साथें मेलवीयें तेवारें वार थाय, ते वार गुणें करी
शोचिंत तेमज चार अतिशय सहजनां जन्मथकी होय, अने कर्मक्षय थया
थकी अगीयार तथा देवताना करेला उंगणीश मलीने चोत्रीश अतिशयें
करी विराजमानथका एवा श्री वीर जगवान् चोवीशमा तीर्थकर ते जव्य
प्राणीयोने हितोपदेश करता मिथ्यात्वरूप अंधकारने चूरता थका श्री
राजगृही नगरीना उद्यानने विषे समोसखा, ते वखतें हर्षे जक्तियें जाविक
थका जवनपति, व्यंतर, ज्योतिपी अने वेमानिक, ए चार निकायना देवतायें
मलीने रूप, सुवर्ण तथा रत्नमय त्रण गढनी रचना करी, तेना मध्यमां रत्न
जटित सिंहासनने विषे श्रीवीर जगवान् वेठा, मस्तकें त्रण ठत्र शोभे ठे,
घार चामर बीजाय ठे. सुर, असुर, मनुष्यमां स्त्री, पुरुष, विद्याधर, किन्नर,
गंधर्व, इत्यादिक सर्वे पर्यदा मली, ते वखतें श्री श्रेणिकराजा पण अंतःपुर
सहित चतुरंगिणी सेना खड्गने अति प्रमोद सहित श्रीसमवसरणने विषे
आवी प्रभुने बांदीने वेठो अने बीजां पण सह्य यथोचित स्थानकें वेठा.
प्रभुयें पण बाणीना पांत्रीश गुणें करी दिव्यध्वनियें देशना आ
पवा मांती, ते देशना केवी होय? तो के सह्यशक्तिमंत अर्क माग
धी जापानां होय, म्वर उदात्तपणे होय, मेघध्वनिनी परें होय, सर्व
जिघ्रसां मेढ उचित प्रसुग्ग गुण सहित होय, अतिविस्तारपणे होय,

त्रणे काल मलती होय, पदसापेक्षपणें होय, प्रशस्ति विशेषें होय, अक्षर पदनी चातुरी होय, मालकोश रागमां होय, श्रोतानां मनने राजी कर नारी होय, सूत्र थोडुं अने अर्थ घणो होय, विविधप्रकारें श्रोताने बोध दायक होय, नय जंग प्रमाण सहित होय, चित्तने तथा श्रोत्रेंद्रियने सुखकारी होय, यथार्थपणे सुबोधकारी होय, कारक प्रमुख सहित होय, षड्द्रव्यादिक वि जेनोशुरूपणे होय, श्रवणशी श्रोताना रोग नाश पामे, पडढंदा उठे, परस्पर विरोध नहिं, वचनमांहे संदेह नही, वादी दूषण आपी शके नहिं, श्रोताना संदेह टले, बाल गोपाल सर्वे समजे, कोझनां मर्म जांखे नहीं, जेमां पोताना स्तुति तथा पारकी निंदा नही, लोक प्रशंसा करे, श्रोताने आश्चर्य उपजे, अति बह्वच उद्धित नही, वचमां अंतराय पडे नहिं, श्रोतानां दुःख टाले, जेमां ग्रामिक वचन न होय, एक योजनमां सरखी संजलाय, जेनो फलविभेद नही, सहुको पोत पोतानी जाषामां समजी जाय, आषाढना मेघनी परें प्रणमे, संशय छेदनकारिणी, चतुर्विधसंधमनोहारिणी, चतुर्विधधर्मप्रकाशिनी, जविजनकर्णामृतस्रवणी, सकलकुमतिविद्राविणी, संसारसमुद्रतारिणी, सर्वसंशयनिवारिणी, सुखकारिणी, बहुल मिथ्यात्व तिमिरपमल दिनकरा नुकारिणी, एवी वाणी ते नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत्य, असत्य, वक्तव्य, अवक्तव्य, नाम, द्रव्य, क्षेत्र, काल, जाव, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, नय, निक्षेपा, कारक, प्रमाण, समवाय, द्रव्यास्तिक नय, पर्यायास्तिक नय, कर्त्ता, कारण, कार्य, निश्चय, व्यवहार, उत्सर्ग, अपवाद, हेय, ज्ञेय, उपादेय, चौजंगी, त्रिजंगी, सप्तजंगी, अनेकजंगी, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्झारा, बंध, मोक्ष, धर्म, अधर्म, आश्रव, परआश्रव, अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, इत्यादिक सर्वे गुणोपदेशिनी, सर्वे जाषावबोधिनी, जगवान् देशना देता ह्वा, ते कहीयें ठैयें.

॥ अत्र गाथा ॥ जीवाजीवा पुष्पं, पावासव संवरो य निष्कारणा ॥ बंधो मुखो य तहा, नव तत्ता हुंति नायवा ॥१॥ श्रीवीतराग देवें त्रिगडा गढने विषे वेसीने बार पर्षदामां ए रीतें उपदेश कह्यो केः— जीवादिक नव तत्त्वने जे निपुण बुद्धियें करी जाणे, तेने ज्ञानी कहीयें, अंतरंग सईहे, तेने समकित्ती कहीयें, “अणुवजंगो दवं” ए श्री अनुयोगद्वार सूत्रनुं वचन ठे, वली कहुं ठे जे पद, अक्षर, मात्रा सहित शुरु सिद्धांत वांचता पूठतां

अर्थ करे ठे, गुरुमुखें सर्वहे ठे, तेपण शुद्ध निश्चयें आत्मसत्ता उलख्या विना सर्व द्रव्य निक्षेपे ठे अने जे जाव विना मात्र एकलुं द्रव्य ठे ते पुण्यबंधनुं कारण ठे परंतु मोक्षनुं कारण नथी. एटले जे करणीरूप कष्ट तपस्या करे ठे परंतु जीव अजीवनी सत्ता उलखी नथी तेने जगवतीसूत्रमां अत्रती अपचरकाणी कह्या ठे, तथा जे एकद्वी बाह्य करणी करे ठे अने पोताने साधु कहेवरावे ठे ते मृषावादी ठे “ए मुणी रस्रवासेण” मिति श्रीउत्तराध्ययनसूत्रवचनात् ॥ तथा “नाणेण य मुणी होइ” ए वचनें जे ज्ञानी ते मुनि ठे अने अज्ञानी ते मिथ्यात्वी ठे.

तथा गणितानुयोग जे नारकी देवाता प्रमुखना बोल अथवा यति श्रावकनो आचार जाणीने कोइक कहे जे अमें ज्ञानी ठैयें परंतु ते ज्ञानी कहे वाय नहिं जे द्रव्य गुण पर्यायनुं स्वरूप जाणे तेनेज ज्ञानी कहीयें. एम श्रीउत्तराध्ययनना मोक्षमार्गाध्ययनमां कल्युं ठे, तथा च तत्पाठः ॥ एवं पंचविहं नाणं, द्वाण य गुणाण य ॥ पद्यवाण य सवेसिं, जं नाणीहिय दंसियं ॥ १ ॥ ग वस्तु सत्ता जाण्या विना ज्ञानी नही, परंतु नव तत्त्व, षड्द्रव्यनुं स्वरूप उलखे, ते समकित्ती कहेवाय. एवा ज्ञान, दर्शन, विना जे कहे, के अमें चारित्रीया ठैयें, ते पण मृषावादी ठे जे माटें श्री उत्तराध्ययनमां “णो दंसण णाणेण विणा ए हुंति चरण गुणा” ए वचन ठे माटें आज केटला एक ज्ञानहीन थका मात्र क्रियानो आरंवर देखाडे ते उग ठे, तेहनो संग करवो नहिं केम के? ग बाह्यकरणी अन्नव्यने पण आवे ठे माटे तेउपर राचवुं नहिं.

तथा आत्मस्वरूप उलख्या विना सामायिक, पडिकमणुं, पचरकाण प्रमुख जे ठे ते द्रव्य निक्षेपामां पुण्याश्रव ठे, परंतु संवर नथी. श्रीजगवतीसूत्रमां “आया खलु सामाश्यं” ए आलावाची जाणवुं. तथा जीवनुं स्वरूप जाण्या विना तप, संयम, पुण्यप्रकृति देवजननुं कारण ठे. उक्तं च “पुवत संहित्वमंजमेणं देवलोण उववद्यंति णोचेव णं आया जावतवयाय” ए आयाची श्रीजगवतीसूत्रमां कह्यो ठे, एवुं सांनलीने शिष्य स्तुति करी पूठे ठे, प्रहुर्यें गवंत ! एटले ज्ञानवंत, अर्थात् सर्व प्रकारें करी लोकालोकना पवा मांती, १ ठे तेने जगवान् कहीयें. २ हे जिनगज ! तिहां जिन एटले थी जापानां ह एवा जे सामान्य केवली तेने विपे राजा समान तेने जिजाजिजमां मेजडे हे अलग ! एटले जेनुं स्वरूप कोइ प्रकारें लख्यामां

आवे नहीं, तेने अलख कहियें ४ हे चिद्घन ! एटले चिद् कहेतां ज्ञान तेनो घन केतां समूह एवुं जेनुं स्वरूप तेने चिद्घन कहियें. ५ हे चिदानंद ! तिहां चिद् एटले ज्ञान अने आनंद एटले चारित्र, एटले ज्ञान अने चारित्रमय जेनुं स्वरूप ठे, तेने चिदानंद कहीयें. ६ हे निरंजन ! एटले जेना आत्मप्रदेशने विषे कर्मरूप अंजन नथी तेने निरंजन कहीयें. ७ हे वीतराग ! एटले वीत केतां वीत्या ठे राग अने द्वेष जेना तेने वीतराग कहीयें. ८ हे सत्चिदानंद ! एटले (सत् के०) दर्शन अने (चिद् के०) ज्ञान तथा (आनंद के०) चारित्र एटले दर्शन, ज्ञान अने चारित्रमय जेहनुं स्वरूप ठे तेने सच्चिदानंद कहियें. ९ हे अरिहंत ! एटले (अरि के०) कर्मरूप वैरी तेने अव्यथकी अने जावथकी जेणें (हंत के०) हण्णा ठे तेने अरिहंत कहियें. १० हे तीर्थकर ! एटले (तीर्थ के०) साधु, साध्वी, श्रावक अने श्राविका रूप चतुर्विध संघ, तेनी स्थापनाना (कर के०) कर नार तेने तीर्थकर कहियें. ११ हे परमात्मा ! एटले (परम के०) उत्कृष्ट त्रण जगतने पूजवा योग्य ठे आत्मा जेनो तेने परमात्मा कहीयें. १२ हे परमेश्वर ! एटले (परम के०) उत्कृष्टी (ईश्वर के०) ठकुराश् अर्थात् ज्ञान, दर्शन अने चारित्र रूप जे लक्ष्मी, ते जेणें प्रगट करी ठे तेने परमेश्वर कहियें. ए रीतें स्तवन करीने शिष्य प्रश्न पूठे ठे.

१३ शिष्यः—नव तत्त्वमां जीवने तत्त्व कही बोलाव्यो तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—ज्ञानादिक गुणें करी चेतना सहित ठे, निश्चय नयें करी सत्तायें सिद्ध समान अने व्यवहार नयें करी शुभाशुभ कर्मनो जोक्ताठे, ए एनुं तत्त्व जाणवुं.

१४ शिष्यः—अजीवने तत्त्व कही बोलाव्यो तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—ज्ञानादिक चेतना रूप गुणें करी रहित जड स्वभाव वादो अने जेने सुख दुःखनुं ज्ञान नथी ए एनुं तत्त्व जाणवुं.

१५ शिष्यः—पुण्यने तत्त्व कही बोलाव्युं तेनो श्यो परमार्थ ? जेमागें

गुरुः—जेम साकरनुं तत्त्व मीठाश ठे, तेम एना मीठा विपाक, व्यनात्रण गवे ठे ते पुण्य कहेवाय ठे, ए एनुं तत्त्व जाणवुं. ११ ठे, पांचमा

१६ शिष्यः—पा तत्त्व कही बोलाव्युं तेनो श्यो परमेष्वे जेटला जेद

गुरुः—जेम अफीणुं तत्त्व कडवाश ठे तेम एना कडवाश जेदमांथी जे जोगवे ठे ए एनुं त व जाणवुं. ११ ठे.

१७ शिष्यः—आश्रवने तत्त्व कही बोलाव्यो, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—पुण्य तथा पाप ए वे तो कस्यां आवे ठे अने आश्रव तो कस्यां पण आवे अने अणकस्यां पण आवे, जे कारणें पुण्य पापनां जे दलीयां ठे, ते आश्रवरूप ठे तेतो कस्यां आवे ठे, अने अव्रतिपणानां जे आश्रव ठे, तेतो अणकस्यां आवे ठे, अहीयां फरी शिष्यें पूबहुं के अणकस्यां आश्रव केम आवे ? तेवारें गुरुयें कहुं जे एकेंद्रियने पण अव्रतिपणे अ ठारे पाप स्थानकनां अणकस्यां आश्रव आवे ठे, एम जगवतीसूत्रमां कहुं ठे, माटे आश्रव कस्यां पण आवे अने अणकस्यां पण आवे, ए एनुं तत्त्व ठे.

१८ शिष्यः—संवरने तत्त्व कही बोलाव्यो, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—आवता कर्मने रोके एटले शुज कर्मनां दलीयांने पण रोके अने अशुज कर्मनां दलीयांने पण रोके, तेथी आवता कर्मने रोके, ए एनुं तत्त्व.

१९ शिष्यः—निर्झराने तत्त्व कही बोलाव्यो, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—संवर तो मात्र आवता कर्मने रोके ठे, पण निर्झरा तो अग्निरूप ठे एटले अंतरमां पेशीने शुज कर्मनां दलीयांने पण वादी नाखे, अने अ शुज कर्मनां दलीयांने पण वादी नाखे, अर्थात् सत्तायें शुजाशुजनां दली यां रक्षां ठे, तेने निर्झरावे, ए एनुं तत्त्व जाणवुं.

२० शिष्यः—बंधने तत्त्व कही बोलाव्यो, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—शुजनां दलीयां पण बांधे, अने अशुजनां दलीयां पण बांधे, एज एनुं तत्त्व जाणवुं जे ए शुजने पण बांधे अने अशुजने पण बांधे.

२१ शिष्यः—मोहने तत्त्व कही बोलाव्यो, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—चार वा ग्यान, वैवल दर्शन अने यथाख्यातचारित्र रूप जे लक्ष्मी ते एवाणे केवल ज्ञान नपने इत्यमोहा कहीयें. अने जे सर्व कर्मथकी मूकाणा ते जा जेणें प्रगट करी, तेणें देवुं तत्त्व जाणवुं. ए रीतिं श्री वीतराग देवें त्रिगडाने विषे कहीयें. ए एतीसूत्रेश कख्यो, ते उपदेशमां ए नवेने तत्त्व करी बोलाव्यां.

अपदाने उरान्त ! एतत्त्वमां देय एटले ठांरवा योग्य केटला तत्त्व पामीयें ?

पदा ३—ए नव तत्त्व नयें करी पुण्य, पाप, आश्रव अने वंच, ए चार तत्त्व जी र्धी ज्ञानरत्ना ह्य ठे. केम के ए चारमां पुण्य जे ठे, ते शुजप्रकृतिरूप कर्मनो ज्ञानिजनां मेळ प ठे, ते अशुज प्रकृतिरूप कर्मनो उदय ठे. माटें ए वे

कर्म ठे अने ते कर्म तो जीवने मोक्षमार्गने विषे विघ्नकर्ता ठे, तेमाटे निश्चय नयने मते करी शुभाशुभ विकाररूप जे वेदनीय कर्म ते जीवने ठांक्वा योग्य ठे अने व्यवहार नयने मते तो एक पुण्य आदरवा योग्य ठे, केम के मोक्षनगरें जातां जीवने विघ्नना करनारा एवा जे क्रोध, मान, माया, लोभ आधि, व्याधि, जन्म, जरा, मरण, शोक, पीडा, विषय, कषाय, निद्रा, म मता, मूर्खा, अज्ञान, मिथ्यात्व, अव्रत, आदिक अनेक मोहराजाना सुजटो फरे ठे, ते सर्व जीवने मोक्षमार्गें जातां विघ्नकर्ता ठे, माटे तिहां पुण्यरूप वला वो ठावको जलो रूडो होय, तो निर्विघ्नपणे जीव, मोक्ष नगरें पहाँचे, तेथी व्यवहार नयने मते पुण्य आदरवा योग्य ठे केम के समकित्ती जीव एने बोला वारूप करी जाणे ठे, एटले जिनराजनां वचनमां बे नय प्रमाण ठे एमां जो कोइ एक नय उहापे, तो तेनुं वचन अप्रमाण जाणवुं.

३३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमां ज्ञेय एटले जाणवा योग्य केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः— जीव अने अजीव ए बे तत्त्वनुं स्वरूप जाणवा योग्य ठे, तेवारें फरी शिष्यें पूढ्युं जे जीवनुं स्वरूप शुं ठे ? तेवारें गुरु कहे ठे. नैगम अने संग्रहनयें करी सर्व जीव सत्तायें एक रूप ठे, केम के ज्ञानादिक चेतना गु णें करी सहित सर्वजीव एकरूप ठे सत्तायें सरखा सिद्ध समान ठे, माटे एक जेदें सर्व जीव कहीयें अने व्यवहार नयें करी तो जीवना चौद जेद वत्रीश जेद तथा पांचशोने त्रेशठ जेद आय ठे, तेनो विचारवाशठ मार्गणा थी धारवो, तेनी गाथा लखीयें तैयें “गइ इंदीए काए, जोए वेए कसाय नाणे य ॥ संजम दंसण लेसा, जव सम्मे सन्नि आहारे ॥ १ ॥ ए वाशठ मार्ग णानो यंत्र नीचें लख्यो ठे, तेथी पांचशो त्रेशठ जेदनो विवरो समजी लेवो.

तिहां पहेला कोठामां वाशठ मार्गणाना नाम लख्यां ठे, बीजा कोठामां नारकी जीवना चौदजेद मांहेला जे मार्गणाने विषे जेटला जेद पामीयें ते देखाड्या ठे, त्रीजा कोठामां तिर्यचना अडतालीश जेद मांहेला जे मार्ग णाने विषे जेटला जेद पामीयें ते देखाड्या ठे. चोथा कोठामां मनुष्यना त्रण शो त्रण जेदमांथी जे मार्गणामां जेटला जेद पामीयें ते देखाड्या ठे, पांचमा कोठामां देवताना एकशो अछाणुं जेदमांथी जे मार्गणाने विषे जेटला जेद पामीयें ते देखाड्या ठे. षष्ठा कोठामां शरवाले पांचशो त्रेशठ जेदमांथी जे मार्गणायें जेटला जेद पामीयें तेना शरवाला देखाड्या ठे.

॥ अथ द्विषष्टिमार्गणायां पंचशताधिकत्रिषष्टिजीवज्ञेदानां यंत्रमिदम् ॥

वाशठ मार्गणा स्थाननां नाम.	नारकी. १४	तिर्यच. ४८	मनुष्य. ३०३	देवता. १९८	सर्व संख्या. १६३
१ देवगति.	०	०	०	१९८	१९८
२ मनुष्यगति.	०	०	३०३	०	३९३
३ तिर्यचगति.	०	४८	०	०	४८
४ नरकगति.	१४	०	०	०	१४
५ एकेंद्रियजाति	०	२२	०	०	२२
६ वेंद्रियजाति.	०	२	०	०	२
७ तेंद्रियजाति.	०	२	०	०	२
८ चौरिंद्रियजाति	०	२	०	०	२
९ पंचेंद्रियजाति	१४	२०	३०३	१९८	५३५
१० पृथ्वीकाय.	०	४	०	०	४
११ अप्काय.	०	४	०	०	४
१२ तेजकाय.	०	४	०	०	४
१३ वायुकाय.	०	४	०	०	४
१४ वनस्पतिकाय.	०	४१२	०	०	४१२
१५ त्रसकाय.	१४	२६	३०३	१९८	५४१
१६ मनोयोग.	७	५	१०१	९९	२१२
१७ वचनयोग.	७	१३	१०१	९९	२२०
१८ काययोग.	१४	४८	३०३	१९८	५६३
१९ स्त्रीवेद.	०	१०	२०२	१२८	३४०
२० पुरुषवेद.	०	१०	२०२	१९८	४१०
२१ नपुंसकवेद.	१४	४८	१३१	०	१९३
२२ क्रोध.	१४	४८	३०३	१९८	५६३
२३ मान.	१४	४८	३०३	१९८	५६३
२४ नावा.	१४	४८	३०३	१९८	५६३
२५ खोज.	१४	४८	३३०	१९८	५६३

बाशठ मार्गणा स्थाननां नाम.	नारकी. १४	तिर्यच. ४८	मनुष्य. ३०३	देवता. १९८	सर्वे संख्या. ५६३
२६ मतिज्ञान.	१३	१०	२०२	१९८	४२३
२७ श्रुतज्ञान.	१३	१०	२०२	१९८	४२३
२८ अवधिज्ञान.	१३	५।१०	३०	१९८	२४६।२५१
२९ मनःपर्यवज्ञान	०	०	१५	०	१५
३० केवलज्ञान.	०	०	१५	०	१५
३१ मतिअज्ञान.	१४	४८	३०३	१९०	५३५
३२ श्रुतअज्ञान.	१४	४८	३०३	१९०	५३५
३३ विचंगज्ञान.	१४	१०।५	३०।१५	१९०	२२४।२०४
३४ सामायिक.	०	०	१५	०	१५
३५ ठेदोपस्थाप०	०	०	१०	०	१०
३६ परिहारविशु०	०	०	१०	०	१०
३७ यथाख्यात.	०	०	१५	०	१५
३८ सूक्ष्मसंपराय.	०	०	१५	०	१५
३९ देशविरति.	०	५	१५	०	२०
४० अविरति.	१४	४८	३०३	१९८	५६३
४१ चक्षुर्दर्शन.	७	११	१०१	९९	२१८
४२ अचक्षुर्दर्शन.	१४	४८	३०३	१९८	५६३
४३ अवधिदर्शन.	१३	१०।५	३०	१९८	२५१।२४६
४४ केवलदर्शन.	०	०	१५	०	१५
४५ कृष्णलेश्या.	६	४८	३०३	७२	४२९
४६ नीललेश्या.	६	४८	३०३	७२	४२९
४७ कापोतलेश्या.	६	४८	३०३	७२	४२९
४८ तेजोलेश्या.	०	१३	२०२	९८।१२८	३१३।३४३
४९ पद्मलेश्या.	०	१०	३०	२६	६६
५० शुक्ललेश्या.	०	१०	३०	४४	८४
५१ ज्वयजीव.	१४	४८	३०३	१९८	५६३

वाशठ मार्गणा स्थाननां नाम.	नारकी. १४	तिर्यच. ४०	मनुष्य. ३०३	देवता. १९०	सर्व संख्या. ५६३
५१ अन्नव्यजीव.	१४	४०	३०३।१३१	१९०।१४०	५३५।३३३
५३ उपशमसम०	७	५	१०१	९०	२०३
५४ द्वायिकसम०	६	२	९०	७०	१६०
५५ द्वायोपशमस	१३	१०	२०२	१९०	४२३
५६ मिश्रसमकित	७	५	१०१	८५	१९०
५७ साखादन.	७	२१	२०२	१७०	४००
५८ मिथ्यात्व.	१४	४०	३०३	१७०	५३५
५९ संझी.	१४	१०	२०२	१९०	४२४
६० असंझी.	०	३०	१०१	०	१३९
६१ आहारी.	१४	४०	३०३	१९०	५६३
६२ अणाहारी.	७	२४	२१७	९९	३४७

॥ इति द्विषष्टिमार्गणायां पंचशताधिक त्रिषष्टिजीव
जेदानां यंत्रं समाप्तम् ॥

२४ शिष्यः—जीवने शाश्वतो कहीयें किं वा अशाश्वतो कहीयें ?

गुरुः—निश्चय नयने मत्तें जीव शाश्वतो ठे अने व्यवहारनयने मत्तें जीव अशाश्वतो ठे, केम के निश्चय नयने मत्तें जीव ठेद्यो ठेदाय नहीं अने जेद्यो जेदाय नहीं सत्तायें शाश्वतो सिद्ध समान ठे, अने व्यवहारनयने मत्तें तो एकेंझी. वेंझी, तेंझी, चौरिंझी, देवता, नारकी, मनुष्य, तिर्यच एम अनेक प्रकारें जीव, गति संवधीया जव करे ठे. वली तिहांथी मरण पामे ठे. वली तिहांज पाठो जइ उपजे ठे. एम अनेक प्रकारें जन्म मरणनां दुःख जोगवे ठे, माटें जीव अनेकविध ठे तेथी व्यवहार नयने मत्तें जीव अशाश्वतो कहीयें.

२५ शिष्यः—जीवनां इव्यप्राण ते शुं ? अने नावप्राण ते शुं ?

गुरुः—मंत्रहनयने मत्तें, ते जे गतिनुं आयु इहां वांध्युं ठे ते गतिनां इव्य प्राण कहीयें. जो देवतानुं ०४यु वांध्युं होय, तो तेने इव्यदेव कहीयें. तेवारें ते देवतानी गतिनां इव्यप्राण थयां, अने जो नारकीनुं आयु वांध्युं होय, तो तेने इव्य नारकी कहीयें. तेवारें नरकगतिनां इव्यप्राण थयां.

हवे जावप्राण कहे ठे:—जे गतिनुं आयु इहां बांध्युं हतुं ते गतिमां जइ उपन्यो, एटले व्यवहारनयने मतें तिहां जावप्राण प्रगट थयां माटे तेने जावप्राण कहीयें. अर्थात् आपणे आगल मनुष्यगतिनुं आयु बांध्युं हतुं ते वारें तिहां मनुष्यगतिनां द्रव्यप्राण हतां अने इहां हमणां मनुष्यगति पणे मनुष्यमां जोगवीयें ठैयें, ते जावप्राण कहीयें. ए रीतें द्रव्यप्राण तथा जावप्राणनुं स्वरूप संग्रहनय अने व्यवहारनयने मतें जाणवुं.

वक्षी निश्चय अने व्यवहारनयने मतें द्रव्यप्राण तथा जावप्राणनुं स्वरूप कहे ठे:—एटले हमणां इहांनी गति संबधी जे प्राण जोगवीयें ठैयें, ते द्रव्यप्राण कहीयें. अने जे अंतरंग ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य अने उपयोग जे सत्तागतें जीवने रह्यां ठे, ते जावप्राण कहीयें.

१६ शिष्य:—वाटें वहेतां जीवनां केटलां प्राण पामीयें ?

गुरु:—द्रव्यथकी तो जे गतिनुं आयु बांध्युं ठे, ते गतिनां जेटलां प्राण होय, तेटलां पामीयें. जो एकेंद्रियनुं आयु बांध्युं होय, तो चार प्राण पामीयें, जो वेंद्री, तेंद्रीनुं आयु बांध्युं होय, तो ष, सात प्राण पामीयें, जो चौरिंद्रीनुं आयु बांध्युं होय, तो आठ प्राण पामीयें अने जो पंचेंद्रीनुं आयु बांध्युं होय तो नव, दश प्राण पामीयें. ए रीतें द्रव्यथकी तो जे गतिनुं आयु बांध्युं होय, ते गतिनां तेटलां प्राण पामीयें अने जावथकी आगद्वयुं आयुष्य जे समयें पूर्ण थयुं, ते समयें आगदी गतिनुं द्रव्यआयुखुं सत्तायें बांध्युं हतुं, ते जावपणे उदय थयुं एटले वाटें वहेतां एक समय तथा बे समय लागे, ते वेलायें जाव आउखुं जोगव्युं, तेमाटे वाटें वहेतां जावप्राण एकज पामीयें.

१७ शिष्य:—जीवने व्यवहारथकी नित्य कहीयें ठैयें तेमज व्यवहारथकी अनित्य पण कहीयें ठैयें, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरु:—जे गतिमां जीव वेगो ठे ते गतिमां व्यवहार थकी नित्य कहीयें अने समयें समयें आयु घटे ठे तेणें करी व्यवहारथकी अनित्य पण कहीयें.

१८ शिष्य:—जीवने निश्चैथकी नित्य कहीयें ठैयें तेमज निश्चै थकी अनित्य पण कहीयें ठैयें तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरु:—द्रव्यथकी जीव असंख्यातप्रदेशी शाश्वतो नित्य ठे, तेथी नित्य कहीयें अने पर्यायथकी तो समय समय अनंतो उत्पाद व्ययरूप अगुरु लघु

वाशठ मार्गणा स्थाननां नाम.	नारकी.	तिर्यच.	मनुष्य.	देवता.	सर्व संख्या.
	१४	४८	३०३	१९८	५६३
५१ अन्नव्यजीव.	१४	४८	३०३।१३१	१९०।१४०	५३५।३३३
५३ उपशमसम०	७	५	१०१	९०	२०३
५४ द्वायिकसम०	६	२	९०	७०	१६८
५५ द्वायोपशमस	१३	१०	२०२	१९८	४२३
५६ मिश्रसमकित	७	५	१०१	८५	१९८
५७ सास्त्रादन.	७	२१	२०२	१७०	४००
५८ मिथ्यात्व.	१४	४८	३०३	१७०	५३५
५९ संझी.	१४	१०	२०२	१९८	४२४
६० असंझी.	०	३८	१०१	०	१३९
६१ आहारी.	१४	४८	३०३	१९८	५६३
६२ अणाहारी.	७	२४	२१७	९९	३४७

॥ इति द्विपष्टिमार्गणायां पंचशताधिक त्रिपष्टिजीव
जेदानां यंत्रं समाप्तम् ॥

२४ शिष्यः—जीवने शाश्वतो कहीयें किं वा अशाश्वतो कहीयें ?

गुरुः—निश्चय नयने मते जीव शाश्वतो ठे अने व्यवहारनयने मते जीव अशाश्वतो ठे, केम के निश्चय नयने मते जीव ठेद्यो ठेदाय नहीं अने जेद्यो जेदाय नहीं सत्तायें शाश्वतो सिरू समान ठे, अने व्यवहारनयने मते तो एकेझी. वेंझी, तेंझी, चोरिंझी, देवता, नारकी, मनुष्य, तिर्यच एम अनेक प्रकारं जीव, गति संवधीया नव करे ठे. वली तिहांथी मरण पामे ठे. वली तिहांज पाठो जइ उपजे ठे. एम अनेक प्रकारं जन्म मरणनां दुःख जोगवे ठे, माटे जीव अनेकविध ठे तेथी व्यवहार नयने मते जीव अशाश्वतो कहीयें.

२५ शिष्यः—जीवनां डव्यप्राण ते शुं ? अने ज्ञावप्राण ते शुं ?

गुरुः—संप्रहृनयने मते, जे गतिनुं आयु इहां वांध्युं ठे ते गतिनां डव्य प्राण कहीयें. जो देवतानुं ०४यु वांध्युं होय, तो तेने डव्यदेव कहीयें. तेवारं ते देवतानां गतिनां डव्यप्राण थयां, अने जो नारकीनुं आयु वांध्युं होय, तो तेने डव्य नारकी कहीयें, तेवारं नरकगतिनां डव्यप्राण थयां.

हवे जावप्राण कहे ठे:—जे गतिनुं आयु इहां बांध्युं हतुं ते गतिमां जइ उपन्यो, एटले व्यवहारनयने मतें तिहां जावप्राण प्रगट थयां माटे तेने जावप्राण कहीयें. अर्थात् आपणे आगल मनुष्यगतिनुं आयु बांध्युं हतुं ते वारें तिहां मनुष्यगतिनां द्रव्यप्राण हतां अने इहां हमणां मनुष्यगति पणे मनुष्यमां जोगवीयें ठैयें, ते जावप्राण कहीयें. ए रीतें द्रव्यप्राण तथा जावप्राणनुं स्वरूप संग्रहनय अने व्यवहारनयने मतें जाणवुं.

वली निश्चय अने व्यवहारनयने मतें द्रव्यप्राण तथा जावप्राणनुं स्वरूप कहे ठे:—एटले हमणां इहांनी गति संवंधी जे प्राण जोगवीयें ठैयें, ते द्रव्यप्राण कहीयें. अने जे अंतरंग ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य अने उपयोग जे सत्तागतें जीवने रद्यां ठे, ते जावप्राण कहीयें.

२६ शिष्य:—वाटें वहेतां जीवनां केटलां प्राण पामीयें ?

गुरु:—द्रव्यथकी तो जे गतिनुं आयु बांध्युं ठे, ते गतिनां जेटलां प्राण होय, तेटलां पामीयें. जो एकेंद्रियनुं आयु बांध्युं होय, तो चार प्राण पामीयें, जो बैद्री, तेंद्रीनुं आयु बांध्युं होय, तो ठ, सात प्राण पामीयें, जो चौरिंद्रीनुं आयु बांध्युं होय, तो आठ प्राण पामीयें अने जो पंचेंद्रीनुं आयु बांध्युं होय तो नव, दश प्राण पामीयें. ए रीतें द्रव्यथकी तो जे गतिनुं आयु बांध्युं होय, ते गतिनां तेटलां प्राण पामीयें अने जावथकी आगद्वयुं आयुष्यजेस मयें पूर्ण थयुं, ते समयें आगली गतिनुं द्रव्यआयुखुं सत्तायें बांध्युं हतुं, ते जावपणे उदय थयुं एटले वाटें वहेतां एक समय तथा वे समय लागे, ते वेलायें जाव आयुखुं जोगव्युं, तेमाटे वाटें वहेतां जावप्राण एकज पामीयें.

२७ शिष्य:—जीवने व्यवहारथकी नित्य कहीयें ठैयें तेमज व्यवहार थकी अनित्य पण कहीयें ठैयें, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरु:—जे गतिमां जीव वेगो ठे ते गतिमां व्यवहार थकी नित्य कहीयें अने समयें समयें आयु घटे ठे तेणें करी व्यवहारथकी अनित्य पण कहीयें.

२८ शिष्य:—जीवने निश्चैथकी नित्य कहीयें ठैयें तेमज निश्चै थकी अ नित्य पण कहीयें ठैयें तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरु:—द्रव्यथकी जीव असंख्यातप्रदेशी शाश्वतो नित्य ठे, तेथी नित्य क हीयें अने पर्यायथकी तो समय समय अनंतो उत्पाद व्ययरूप अगुरु वधु

पर्याय हानि वृद्धि करे ठे, माटे अनित्य कहियें, ए रीतें निश्चयथकी नित्या नित्यनुं स्वरूप जाणवुं. एम जीवनुं स्वरूप सामान्य प्रकारें कछुं.

शिष्यः—जीवनुं स्वरूप तो कछुं पण अजीवनुं स्वरूप केम जाणीयें ?

गुरुः—अजीवनो मूल जेद तो एक ठे अने उत्तरजेद चौद ठे तथा जेदां तर तो पांचशे ने शाठ ठे तेमां पण पांचशेने त्रीश जेद तो रूपी ठे अने त्रीश जेद अरूपी ठे, एनुं विशेष स्वरूप गुरुमुखथकी जली रीतें जाणवुं.

शए शिष्यः—पुजल, पुजलने नथी ग्रहण करतांते कया नयें करीने? तथा पुजल, पुजलने ग्रहण करे ठे ते कया नयें करीने ?

गुरुः—निश्चयनयें करी पुजल परमाणुआ मली खंध थता नथी जो निश्चयनयें करी परमाणुआ मली खंध थता होय, तो ते खंध कोइ वारें विखरायज नहीं अने व्यवहार नयें पुजल परमाणुआ मली खंध थाय ठे ते पाठा विखरे पण ठे, ते माटे व्यवहारनयें करी पुजल पुजलने ग्रहे ठे अने निश्चयनयें करी पुजल पुजलने ग्रहण नथी करता ए परमार्थ जाणवो.

३० शिष्यः—जीव पुजलने ग्रहण करे ठे, ते कया नयें करीने ग्रहण करे ठे ? अने जीव पुजलने नथी ग्रहण करतो ते कया नयें करीने ?

गुरुः—व्यवहार नयने मतें जीव, राग द्वेषरूप अशुभ परिणामें करी स मय समय अनंता कर्मवर्गणाना पुजल ग्रहे ठे अने निश्चयनयने मतें तो जीव स्वसत्ताने ग्रहण करे ठे परंतु जो निश्चय नयने मतें जीव, कर्मपुजलने ग्रहण करतो होत तो कोइकालें सिद्धि पामत नहीं ते माटें निश्चयन यने मतें जीव पोतानी सत्ताने ग्रहण करे ठे अने व्यवहार नयने मतें जीव, कर्मपुजलनुं ग्रहण करे ठे ए रीतें जीव तथा अजीव, ए वे तत्व ज्ञेय एटले जाणवा योग्य ठे: तेनो परमार्थ संक्षेपमात्र कह्यो.

३१ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी उपादेय एटले आदरवा योग्य केटलां तत्व ठे ?

गुरुः—नव तत्वमां त्रण तत्व आदरवा योग्य ठे, केम के जीव पोताना स्वरूपमां रमे. तेवारें संवर कहियें अने जेवारें जीव संवरमां रहे तेवारें समय समय अनंतां कर्मनी निर्झरा करे ठे अने जेवारें निर्झरा थाय, तेवारें जीव मोक्षपद पाने माटे संवर. निर्झरा अने मोक्ष, ए त्रण तत्व उपादेय ठे.

३२ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी इत्यजीवमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—“आपुवर्तगोदवं” ए अनुयोगद्वार सूत्रनुं वचन ठे एटले शब्द

नयने मतें जेने स्वपरनी वेंचणरूप उपयोग वर्ततो नथी तेने अनुपयोगी द्रव्य जीव कह्दीयें, तेमां ठ तत्त्वपामीयें. ते मध्ये एक तो जीवतत्त्व अने सत्तायें पुण्य पापनां दलीयां अजीवरूप अनंतां लागीं रह्यां ठे, ते आश्रवजूत जाणवां. एटले जीव, अजीव, पुण्य, पाप अने आश्रव, ए पांच तत्त्व थयां. अने ए दलीये जीव बंधाणो ठे माटे ठहुं बंधतत्त्व पण ठे, ए रीतें द्रव्य जीवमां नव तत्त्व मांहेलां ठ तत्त्व जाणवां.

३३ शिष्यः—नव तत्त्व मांहेला जावजीवमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः— जावजीवमां आठ तत्त्व पामीयें. तथा नव तत्त्व पण पामियें. अने त्रण तत्त्व पण पामीयें. तेमां प्रथम आठ तत्त्व आवी रीतें पामीयेंः— के “ उवउगोचावं ” ए अनुयोगद्वार सूत्रनुं वचन ठे. एटले जे जीवने शब्द नयने मतें स्व परनी वेंचणरूप स्वरूपज्ञोग उपयोग वर्ते ठे, तेने उपयोगी जावजीव कह्दीयें. तेमां आठ तत्त्व पामीयें. तेनां नाम कहे ठे. एक तो जीव अने सत्तायें पुण्य पापनां दलीयां अजीवरूप अनंतां रह्यां ठे, ते आश्रवजूत जाणवां, एटले जीव, अजीव, पुण्य, पाप अने आश्रव, ए पांच तत्त्व थयां, अने ए दलीये जीव बंधाणो ठे, माटे ठहुं बंधतत्त्व पण थयुं अने स्व परनी वेंचण करी जीव स्वरूपमां रहे, तेवारें तेने सातमुं संवरतत्त्व कह्दीयें. तथा जीव ज्यां सुधी संवरमां रहे, त्यां सुधी समयें समयें अनंतां कर्मनां दलीयां निर्झरावे, ते आठमुं निर्झरातत्त्व पामीयें. एम आठ तत्त्व पामीयें.

तथा समजिरूढ नयने मतें केवलीने जावजीव कह्दीयें. तेमां नवे तत्त्व पामीयें. ते आवी रीतेंः— एक तो केवलीनो जीव, अने सत्तायें पुण्य पापनां दलीयां अजीव रूप अनंतां रह्यां ठे ते आश्रवप्राय जाणवां एटले जीव, अजीव, पुण्य, पाप अने आश्रव, ए पांच तत्त्व थयां. ए दलीयायें केवलीने वांधी राख्या ठे, तेथी मोक्षपुरीयें जतां रोकणा वे, माटे ए ठहुं बंधतत्त्व जाणवुं. अने स्वसत्ता तथा परसत्तानी वेंचण करी शुक्लध्यानना बीजा त्रीजा पाया वचालें रह्या थका स्वरूपमां वर्ते ठे ते सातमुं संवर तत्त्व ठे, अने संवरमां रहेतां समयें समयें अनंतां कर्म निर्झरावे ठे, ते आठमुं निर्झरा तत्त्व ठे, अने निर्झरा थइ तेवारें वारमे गुणठाणे अज्ञान, राग, द्वेष अने मोहनी य कर्म खपावीने तेरमे गुणठाणे केवलज्ञान पाम्या ठे एटले एमने द्रव्यथी मोक्ष पद कह्दीयें. ए नवमुं मोक्ष तत्त्व थयुं. ए रीतें नव तत्त्व पामीयें.

तथा एवंजूत नयने ममें सिद्धने जावजीव कहीयें तेमां त्रण तत्त्व पा मीयें, ते आवी रीतें:—एक तो सिद्धनो जीव पोतें जीवतत्त्व ठे, तथा यथा ख्यात चारित्ररूप गुणें करी पोताना स्वरूपमां रमण करे ठे ते वीजुं सं वर तत्त्व कहीयें. अने जावमोक्ष पद पाम्या ठे, ते त्रीजुं मोक्षतत्त्व कहीयें. एम एवंजूत नयने मतें सिद्धजावजीवमां त्रण तत्त्व पामीयें. ए परमार्थ.

३४ शिष्य:—नव तत्त्व मांहेला मिथ्यात्वी जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें? गुरु:—मिथ्यात्वीने द्रव्यजीव कहीयें. तेमां आगल कहांतेरीतें ठ तत्त्व पामीयें.

३५ शिष्य:—नव तत्त्व मांहेलां समकेती जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें? गुरु:—समकेती जीवमां आठ तत्त्व पामीयें, नव तत्त्व पण पामीयें, अने त्रण तत्त्व पण पामीयें, तेमां आठ तत्त्व आवी रीतें:—शब्द नयने मतें स्वप रनी वेंदृचण करी सत्तागतना उपयोगमां जेनो जाव वत्तें ठे, तेने समकेती जी व कहीयें. तेमां आगल जावजीवमां कहां तेज रीतें आठ तत्त्व पामीयें.

तथा समजिरूढ नयने मतें केवली जगवान् पण द्वायिक समकेत वंत ठे तेमां आगल जावजीवमां कहां तेज रीतें नव तत्त्व पामीयें.

तथा—एवंजूत नयने मतें सिद्ध जगवान् पण द्वायिक समकेती ठे ते मां आगल कहां ते रीतें अहिंआं पण त्रण तत्त्व जाणी लेवां, ए रीतें नव तत्त्वमांथी समकेती जीवमां आठ, नव अने त्रण तत्त्वतुं स्वरूप जाणवुं.

३६ शिष्य:—नव तत्त्व मांहेला अजव्य जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें? गुरु:—अजव्यजीवमां आगल द्रव्य जीवमां कहां ते रीतें ठ तत्त्व पामीयें.

३७ शिष्य:—ए नव तत्त्व मांहेला जव्य जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें? गुरु:—जव्यजीवमां ठ तत्त्व, आठ तत्त्व, नव तत्त्व अने त्रण तत्त्व पण पामीयें. ते आवी रीतें के, जे जव्यजीव मिथ्यात्वी होय, तेमां आगल द्रव्यजी वमां कहां ते रीतें ठ तत्त्व पामीयें अने जे जव्यजीव समकेती होय तेमां आगल कथा प्रमाणें आठ तत्त्व पामीयें तथा केवलीजव्यजीवमां आगल कथा प्रमाणें नव तत्त्व पामीयें अने सिद्धने पण जव्यजीव कहीयें, तेमां आगल कथा प्रमाणे त्रण तत्त्व पामीयें. ग रीतें द्रव्यजीव, जावजीव, मि थ्यात्वी जीव, समकेती जीव. अजव्य जीव अने जव्य जीव, ए ठ प्रकारें जीवतुं स्वरूप सामान्यें करी जाणवुं. एवुं मांनली शिष्य प्रश्न करे ठे. शिष्य:—

ते केवली जगवान्ने तथा सिद्ध जगवान्ने जव्य जीव कथा, तो हजी शुं सं

सारमां जव करवा वाकी रह्या ठे ? गुरुः—ए वचन मूर्खापणानुं बोले ठे, जे कारणे जेने पलटण स्वज्ञाव ठे तेने जव्य स्वज्ञाव कहीयें. अने अपलटण स्वज्ञावने अजव्य स्वज्ञाव कहीयें माटे केवलीने तथा सिद्धने तो समय समय अनंता पर्यायिनो उत्पाद व्ययरूप स्वज्ञाव पलटाइ रह्यो ठे, तेणें करी अनंतुं सुख जोगवे ठे, तेमाटें एमां जव्य स्वज्ञाव जाणवो.

३८ शिष्यः—ए नव तत्त्व मांहेला रूपी अजीवमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—कोइ जीवने सत्तायें पुण्य अने पापनां दलीयां आश्रवरूप अनंतां लाग्नां ठे, ते सर्व दलीयां अजीव ठे माटे पुण्य, पाप, आश्रव अने अजीव, ए चार तत्त्व थयां अने ए दलीयां मली बंधाय ठे एटले पांचमुं बंधतत्त्व पण थयुं. एम रूपी अजीवमां पांच तत्त्व पामीयें.

३९ शिष्यः—ए नव तत्त्व मांहेला पुण्यमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—कोइ जीव पुण्य बांधे, तेवारें चार तत्त्व पामीयें, ते आवी रीतें जे पुण्यनां दलीयां पोतें अजीव ठे, ते आश्रवरूप जाणवां एटले पुण्य, अजीव अने आश्रव, ए त्रण तत्त्व थयां. तथा ए दलीयां मली बंधाय ठे ते चोथुं बंधतत्त्व थयुं. ए रीतें पुण्यमां चार तत्त्व पामीयें.

४० शिष्यः—ए नव तत्त्व मांहेला पापमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—कोइ जीव जेवारें पाप बांधे, तेवारें चार तत्त्व पामीयें, ते आवी रीतें—पापनां दलीयां पोतें अजीवरूप ठे ते आश्रवरूप जाणवां एटले पाप, अजीव अने आश्रव, ए त्रण तत्त्व थयां अने ए पापनां दलीयां मली बंधाय ठे ते चोथुं बंधतत्त्व थयुं. ए रीतें पापमां चार तत्त्व जाणवां.

४१ शिष्यः—नव तत्त्वमांहेला आश्रवमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—जेवारें जीव, आश्रवनुं ग्रहण करे, तेवारें पांच तत्त्व पामीयें, ते आवी रीतें—पुण्य अने पापनां दलीयां अजीवरूप ठे ते पण आश्रव प्राय जाणवां. एटले पुण्य, पाप, अजीव अने आश्रव, ए चार तत्त्व थयां अने ए दलीयां मली बंधाय ठे, ते पांचमुं बंधतत्त्व जाणवुं.

४२ शिष्यः—नव तत्त्व मांहेला संवरमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—जेवारें जीव स्वपरनी वेंचणरूप स्वज्ञावमां आवे, तेवारें संवर कहेवाय, अने संवरमां जेटली वार जीव रहे, तेटली वार निर्झरा पण अ वश्य करे एटले जीव, संवर अने निर्झरा, ए त्रण तत्त्व संवरमां पामीयें.

४३ शिष्यः— नव तत्त्व मांहेला निर्झरामां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः— जेवारें जीव तत्त्वातत्त्व विचाररूप उपयोगमां वत्तें, तेवारें संवर कहीयें अने संवरमां जीव रहे, तिहां सुधी समय समय अनंता कर्मनी निर्झरा करे एटले जीव, संवर अने निर्झरा, एत्रण तत्त्व निर्झरामां पामीयें.

४४ शिष्यः— नव तत्त्वमांशी वंध तत्त्वमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—कोई जीव कर्म वांधे तेवारें पुण्य, पाप अने आश्रव तेनां दलीयां होय, तेने अजीव कहीयें. ते दलीयां कर्मरूप मली सर्व वंधाय ठे. ए रीतें पुण्य, पाप, आश्रव, अजीव अने वंध, ए पांच तत्त्व वंधमां पामीयें.

४५ शिष्यः—नव तत्त्वमांशी द्रव्यमोक्षपदमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—द्रव्यमोक्षपद तो अज्ञान, राग, द्वेष अने मोहनीय कर्मनो वार मे गुणठाणे क्षय कस्यो अने तेरमे गुणठाणे केवल ज्ञान पाम्या एवा केवली जगवान् तेने द्रव्यमोक्षपद कहीयें, तेमां तो ए नवे तत्त्व पामीयें. ते आवी रीतें—एक तो केवली जगवाननो जीव ते पोतें जीवतत्त्व ठे अने तेने सत्तायें पुण्य पापनां दलीयां अजीवरूप अनंतां रह्यां ठे, ते आश्रवरूप जाणवां. एटले जीव, अजीव, पुण्य, पाप अने आश्रव, ए पांच तत्त्व थयां. अने ए दलीये केवलीने वांधी राख्या ठे, तेणें करी मोक्षमां जतां रोकाणा ठे माटे ठहुं वंधतत्त्व थयुं अने स्वसत्ता परसत्तानी वेंचण करी शुक्लध्याना वीजा व्रीजा पाया वचादें रह्या थका स्वरूपमां वत्तें ठे, ते सातमुं संवरतत्त्व थयुं अने संवरमां रहेतां समय समय अनंतां कर्म निर्झरावे ठे, ते आठमुं निर्झरातत्त्व कहीयें तथा अज्ञान, राग, द्वेष अने मोहनीय कर्म वारमे गुणठाणे तपावीने द्रव्यमोक्षपद पाम्या ठे, ते नवमुं मोक्ष तत्त्व कहीयें. ए रीतें द्रव्यमोक्षपदमां नवे तत्त्व पामीयें.

४६ शिष्यः—नव तत्त्वमांशी नावमोक्षपदमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—नावमोक्षपदमां त्रण तत्त्व पामीयें, केम के जे समस्त कर्मक्षय करीने लोकनी अंतें विराजमान वत्तें, तेने नावमोक्षपद कहीयें. तेसां एक तो जीवतत्त्व अने यथाग्यात चारित्ररूप गुणें करीने पोताना स्वरूपमां रसए करे ठे ते वीजुं संवर तत्त्व कहीयें अने नाव मोक्षपद पाम्या ठे ते वीजुं मोक्ष तत्त्व जाणवुं. ए नावमोक्षपदमां त्रण तत्त्व जाणवां. ए रीतें ए नव तत्त्वतुं स्वरूप जे जाणें, तेने ज्ञानी कहीयें अने जे अंतरंग प्रतीने सर्व

हे, तेने समकेती कहीयें. एवा समकेत सहित जे जीव ठे, तेनी सर्व करणी देखे ठे, एवं सांजलीने फरी शिष्य पूठे ठे.

४९ शिष्यः—ए नवतत्त्वमां मूल तत्त्व केटलां पामीयें ?

गुरुः—मूलतत्त्व तो एक जीव अने बीजो अजीव ए बे तत्त्व पामीयें.

तिहां जीवमां चार तत्त्व थाय, ते आवी रीतें:—जीव, जेवारें स्वसत्ता अने प रसत्तानी वेंचण करी स्वरूपमां रमे, तेवारें संवर कहीयें, अने संवरमां जीव वत्ते, तेवारें समय समय अनंतां कर्म निर्जरावे, तेथी निर्जरा तत्त्व थाय. ते निर्जरा थाय तेवारें मोक्ष पामे, ए रीतें जीव, संवर, निर्जरा अने मोक्ष ए चार तत्त्व जीवमां जाणवां. अने अजीवमां पांच तत्त्व थाय ते कहे ठे.

पुण्य अने पापरूप जे आश्रवनां दलीयां ठे ते अजीव कहीयें. अने ए दलीयां मली बंधाय ठे ते बंध कहीयें एटले पुण्य, पाप, आश्रव, अ जीव अने बंध, ए रीतें अजीवमां पांच तत्त्व थाय, एटले जीवमां चार अने अजीवमां पांच मली नव तत्त्व ठे, अने मूल तत्त्व बे जाणवां.

४७ शिष्यः—पूर्वें कहेलां मूल बे तत्त्वनां उत्तर तत्त्व केटलां पामीयें ?

गुरुः—गाथा ॥ जीवाजीवा पुणं, पावासव संवरो य निज्जरणा ॥ बंधो

मुक्को य तहा, नव तत्ता हुंति नायवा ॥१॥ अर्थः—एक(जीव के०)जीव तत्त्व बीजुं (अजीवा के०) अजीवतत्त्व, त्रीजुं (पुणं के०) पुण्यतत्त्व, चोथुं (पाव के०) पाप तत्त्व, पांचमुं (आसव के०) आश्रव तत्त्व, ठहुं (संवरो के०) संवर तत्त्व, (य के०) वली सातमुं (निज्जरणा के०) निर्जरा तत्त्व, आठमुं (बंधो के०) बंधतत्त्व, नवमुं (मुक्को के०) मोक्षतत्त्व, ए (नवतत्ता के०) नव तत्त्व (हुंति के०) होय ते (नायवा के०) निपुणबुद्धियें करी जाणवां. एटले ए नवतत्त्व निपुण बुद्धियें करीने जाणे, ते ज्ञानी जाणवा अने ए न व तत्त्व अंतरंग प्रतीतें करीने सईहे तेने समकेती जाणवा. माटे ए नव त त्वनुं स्वरूप अनेक रीतें जिन जिन प्रकारें गुरुमुखथी धारुं, केम के जे प्राणीने ए जीवादिक नव पदार्थनुं जाणपणुं ठे, तेने समकेती कहीयें अ ने समकेत विना अज्ञान दशायें करी सर्व करणी आंक विनानां मीमांसर खी व्यर्थ जाणवी एटले अज्ञानी जीव जीवस्वरूपना उपयोग विना ड्रव्य जीव ठे “अणुवज्जगोदवं” इति अनुयोग द्वार सूत्रवचनात् ॥

एटले पूजा, प्रज्ञावना, दान, शील, तप, क्रिया, ध्यान, स्मरण, ज्ञा

४३ शिष्यः—नव तत्त्व मांहेला निर्झरामां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—जेवारें जीव तत्त्वातत्त्व विचाररूप उपयोगमां वत्तें, तेवारें संवर कहीयें अने संवरमां जीव रहे, तिहां सुधी समय समय अनंता कर्मनी निर्झरा करे एटले जीव, संवर अने निर्झरा, एत्रण तत्त्व निर्झरामां पामीयें.

४४ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी वंध तत्त्वमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—कोई जीव कर्म वांधे तेवारें पुण्य, पाप अने आश्रव तेनां दलीयां होय, तेने अजीव कहीयें. ते दलीयां कर्मरूप मली सर्व वंधाय ठे. ए रीतें पुण्य, पाप, आश्रव, अजीव अने वंध, ए पांच तत्त्व वंधमां पामीयें.

४५ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी ड्रव्यमोक्षपदमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ड्रव्यमोक्षपद तो अज्ञान, राग, द्वेष अने मोहनीय कर्मनो वार मे गुणगणे ह्य कस्यो अने तेरमे गुणगणे केवल ज्ञान पाम्या एवा केवली जगवान् तेने ड्रव्यमोक्षपद कहीयें, तेमां तो ए नवे तत्त्व पामीयें. ते आची रीतें—एक तो केवली जगवाननो जीव ते पोतें जीवतत्त्व ठे अने तेने सत्तायें पुण्य पापनां दलीयां अजीवरूप अनंतां रह्यां ठे, ते आश्रवरूप जाणयां. एटले जीव, अजीव, पुण्य, पाप अने आश्रव, ए पांच तत्त्व थयां. अने ए दलीये केवलीने वांधी राख्या ठे, तेणें करी मोक्षमां जतां रोकाणा ठे माटे ठहुं वंधतत्त्व थयुं अने स्वसत्ता परसत्तानी वेंचण करी शुद्ध्या नना दीजा प्रीजा पाया वचाळें रह्या थका स्वरूपमां वत्तें ठे, ते सातमुं सं परतत्त्व थयुं अने संवरमां र्दतां समय समय अनंतां कर्म निर्झरावे ठे, ते आठमुं निर्झरातत्त्व कहीयें तथा अज्ञान, राग, द्वेष अने मोहनीय कर्म वाग्मे गुणगणे गपावीने ड्रव्यमोक्षपद पाम्या ठे, ते नवमुं मोक्ष तत्त्व कहीयें. ए रीतें ड्रव्यमोक्षपदमां नवे तत्त्व पामीयें.

४६ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी तावमोक्षपदमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—तावमोक्षपदमां त्रण तत्त्व पामीयें, केस के जे समस्त कर्महाय करीने लोकनी अंतें विगजमान वत्तें, तेने तावमोक्षपद कहीयें. तेसां एक तो जीवतत्त्व अने दशाग्यान चाग्त्ररूप गुणें करीने पोताना स्वरूपमां समस्त वत्तें ठे ते दीहुं संवर तत्त्व कहीयें अने ताव मोक्षपद पाम्या ठे ते दीहुं मोक्ष तत्त्व जाणवुं. ए तावमोक्षपदमां त्रण तत्त्व जाणवां. ए रीतें ए नव तत्त्वतुं स्वरूप जे जाणें, तेने ज्ञानी कहीयें अने जे अंतरंग प्रतीने सर्व

हे, तेने समकेती कहीयें. एवा समकेत सहित जे जीव ठे, तेनी सर्व करणी लेखे ठे, एउं सांजदीने फरी शिष्य पूठे ठे.

४७ शिष्यः—ए नवतत्त्वमां मूल तत्त्व केटलां पामीयें ?

गुरुः—मूलतत्त्व तो एक जीव अने बीजो अजीव ए बे तत्त्व पामीयें.

तिहां जीवमां चार तत्त्व थाय, ते आबी रीतें:—जीव, जेवारें स्वसत्ता अने प रसत्तानी वेंचण करी स्वरूपमां रमे, तेवारें संवर कहीयें, अने संवरमां जीव वत्तें, तेवारें समय समय अनंतां कर्म निर्झरावे, तेथी निर्झरा तत्त्व थाय. ते निर्झरा थाय तेवारें मोक्ष पामे, ए रीतें जीव, संवर, निर्झरा अने मोक्ष ए चार तत्त्व जीवमां जाणवां. अने अजीवमां पांच तत्त्व थाय ते कहे ठे.

पुण्य अने पापरूप जे आश्रवनां दलीयां ठे ते अजीव कहीयें. अने ए दलीयां मदी बंधाय ठे ते बंध कहीयें एटले पुण्य, पाप, आश्रव, अ जीव अने बंध, ए रीतें अजीवमां पांच तत्त्व थाय, एटले जीवमां चार अने अजीवमां पांच मदी नव तत्त्व ठे, अने मूल तत्त्व बे जाणवां.

४८ शिष्यः—पूर्वें कहेलां मूल बे तत्त्वनां उत्तर तत्त्व केटलां पामीयें ?

गुरुः—गाथा ॥ जीवाजीवा पुष्णं, पावासव संवरो य निज्जरणा ॥ बंधो मुखो य तहो, नव तत्ता हुंति नायवा ॥१॥ अर्थः—एक(जीव के०) जीव तत्त्व बीजुं (अजीवा के०) अजीवतत्त्व, त्रीजुं (पुष्णं के०) पुण्यतत्त्व, चोथुं (पाव के०) पाप तत्त्व, पांचमुं (आसव के०) आश्रव तत्त्व, ठहुं (संवरो के०) संवर तत्त्व, (य के०) वदी सातमुं (निज्जरणा के०) निर्झरा तत्त्व, आठमुं (बंधो के०) बंधतत्त्व, नवमुं (मुखो के०) मोक्षतत्त्व, ए (नवतत्ता के०) नव तत्त्व (हुंति के०) होय ते (नायवा के०) निपुणबुद्धियें करी जाणवां. एटले ए नवतत्त्व निपुण बुद्धियें करीने जाणे, ते ज्ञानी जाणवा अने ए न व तत्त्व अंतरंग प्रतीतें करीने सईहे तेने समकेती जाणवा. माटें ए नव त त्वनुं स्वरूप अनेक रीतें जिन्न जिन्न प्रकारें गुरुमुखथी धारतुं, केम के जे प्राणीने ए जीवादिक नव पदार्थनुं जाणपणुं ठे, तेने समकेती कहीयें अ ने समकेत विना अज्ञान दशायें करी सर्व करणी आंक विनानां मीनां सर खी व्यर्थ जाणवी एटले अज्ञानी जीव जीवस्वरूपना उपयोग विना डव्य जीव ठे “अणुवर्जगोदब” इति अनुयोग द्वार सूत्रवचनात् ॥

एटले पूजा, प्रज्ञावना, दान, शील, तप, क्रिया, ध्यान, स्मरण, ज्ञा

४३ शिष्यः— नव तत्त्व मांहेला निर्झरामां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः— जेवारें जीव तत्त्वातत्त्व विचाररूप उपयोगमां वत्तें, तेवारें संवर कहीयें अने संवरमां जीव रहे, तिहां सुधी समय समय अनंता कर्मनी निर्झरा करे एटले जीव, संवर अने निर्झरा, एत्रण तत्त्व निर्झरामां पामीयें.

४४ शिष्यः— नव तत्त्वमांथी बंध तत्त्वमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—कोई जीव कर्म बांधे तेवारें पुण्य, पाप अने आश्रव तेनां दलीयां होय, तेने अजीव कहीयें. ते दलीयां कर्मरूप मली सर्व बंधाय ठे. ए रीतें पुण्य, पाप, आश्रव, अजीव अने बंध, ए पांच तत्त्व बंधमां पामीयें.

४५ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी ड्रव्यमोक्षपदमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ड्रव्यमोक्षपद तो अज्ञान, राग, द्वेष अने मोहनीय कर्मनो वार मे गुणठाणे क्षय कस्यो अने तेरमे गुणठाणे केवल ज्ञान पाम्या एवा केवली जगवान् तेने ड्रव्यमोक्षपद कहीयें, तेमां तो ए नवे तत्त्व पामीयें. ते आयी रीतें—एक तो केवली जगवाननो जीव ते पोतें जीवतत्त्व ठे अने तेने सत्तायें पुण्य पापनां दलीयां अजीवरूप अनंतां रह्यां ठे, ते आश्रवरूप जाण्यां. एटले जीव, अजीव. पुण्य, पाप अने आश्रव, ए पांच तत्त्व अयां. अने ए दलीये केवलीने बांधी राग्या ठे, तेणें करी मोक्षमां जतां रोकाणा ठे माटे ठहुं बंधतत्त्व अयुं अने स्वमत्ता परसत्तानी वेंचण करी शुद्धध्याना वीजा व्रीजा पाया वचायें ग्या अने वातमंसं

गुरुः— ज्ञेदांतर तत्त्व (११६) पामीयें ॥ अत्र गाथा ॥ चउदस चउदस वाया, लीसा वासीय हुंति वायाला ॥ सत्तावनं वारस, चउ नव ज्ञेया कमे ऐसिं ॥ १ ॥ अर्थः— जीव तत्त्वना चउद. ज्ञेद, अजीवना चउद, पुण्यना वहें तादीश, पापना व्यासी, आश्रवना वहेंतादीश, संवरना सत्तावन, निर्झराना वार, बंधना चार अने मोक्षना नव, एवं सर्व मली (११६) ज्ञेद ठे, तेने ज्ञे दांतर कहीयें. तेनो विस्तारें परमार्थ, गुरुमुखथी जाणवो.

१० शिष्यः—नव तत्त्वमां अरूपी तत्त्व अने रूपी तत्त्व केटलां पामीयें ?

गुरुः—एक जीवतत्त्व, वीजुं संवरतत्त्व, त्रीजुं निर्झरातत्त्व, चोथुं मोक्ष तत्त्व, ए चार अरूपी जाणवां अने एक पुण्यतत्त्व, वीजुं पापतत्त्व, त्रीजुं आश्रव तत्त्व, चोथुं बंधतत्त्व, ए चार रूपी जाणवां अने एक अजीव तत्त्व मिश्र जाणवुं. उक्तं च ॥ गाथा ॥ जीवो संवर निझर, मुखो चत्तारि हुंति अरूवी ॥ रूवे बंधासव पुण, पावा मिस्स हुंति अजीवा ॥ १ ॥ इति ॥

११ शिष्यः—ए नव तत्त्वना बशेने बहोतेर ज्ञेद ठे, तेमां अरूपी ज्ञेद के टला पामीयें अने रूपी ज्ञेद केटला पामीयें ?

गुरुः—धर्मास्तिकायना खंध, देश अने प्रदेश, ए त्रण ज्ञेद तथा अधर्मास्ति कायना खंध, देश अने प्रदेश, ए त्रण ज्ञेद तथा आकाशास्तिकायना खंध, देश अने प्रदेश, ए त्रण ज्ञेद अने कालनो एक ज्ञेद, ए सर्व मली दश ज्ञेद, अजीव तत्त्वना अरूपी जाणवा, अने संवरना सत्तावन ज्ञेद, निर्झराना वार ज्ञेद, मोक्षना नव ज्ञेद, ए सर्व मली अष्टाशी ज्ञेद अरूपी जाणवा. हवे रूपी ज्ञेद कही देखाडे ठे, पुजलना खंध, देश, प्रदेश अने परमाणु ए चार ज्ञेद, जीव ना चौद ज्ञेद, पुण्यना वहेंतादीश ज्ञेद, पापना व्याशी ज्ञेद, आश्रवना वहेंता दीश ज्ञेद, बंधना चार ज्ञेद, ए रीतें सर्व मली (१०८) ज्ञेद रूपी जाणवा. एनी साथें पूर्वोक्त (१०८) ज्ञेद अरूपी मेलवीयें तेवारें सर्व मली नवे तत्त्वना (११६) ज्ञेद थाय. एटले आगला प्रश्नमां जीवने अरूपी कही बोलाव्यो ते निश्चय नयने मतें जाणवो अने आ ठेकाणें नव तत्त्वना (११६) ज्ञे द्रमां जीवना चौदज्ञेद रूपीपणे गण्णा ते व्यवहार नयने मतें जाणवुं ॥ गा था ॥ धम्माधम्मागासा, तिय तिय अरूडा अजीव दसगा य ॥ सत्तावनं संवर, निझर छुदस मुत्ति नवगा य ॥ १ ॥ अष्टासीय अरूवी, संपइ जणा मि जेय रूवीणं ॥ परमाणु देस पइसा, खंधा चउ अजीव रूवीणं ॥ २ ॥

न, ए सर्व जावनिक्षेपे समकित सहित लाजकारी ठे. अहीयां कोइ कहे ठे जे मनःपरिणामदृढ करीने करीयें ते जाव कहीयें एवचन मृषा ठे. एतो सुखनी वांठायें ममत्वी पणे घणाय करे ठे परंतु ते जावमां गणाय नहीं. इहां तो जे सूत्र साखें श्री वीतरागनी आज्ञायें हेय उपादेयनी परीक्षा करी शुजाशुज अजीव रूप जे आश्रव बंध ते उपरें (हेय के०) त्यागबुद्धि तथा जीवना स्वगुण, संवर, निर्झरा अने मोक्ष, तेने (उपादेय के०) आदरवा योग्य परिणाम ते जाव कहीयें. एटले शुजाशुजरूपी गुण ते द्रव्य ठे, अने अरूपी गुण ते जाव ठे. एटले जे कारण मन, वचन अने कायाची लेश्या दिकें एक चित्तें करे ठे पण ते सर्व, द्रव्यनिक्षेपामां ठे माटे जाव विनानुं द्रव्य ठे ते सर्व अंक विनानां मीमां सरखुं वृथा जाणवुं. ए श्री देव चंद्रजी कृत आगमसारोद्धार ग्रंथची परमार्थ जाणवो. अत्र सूत्रपाठः ॥ ॥गाथा॥ मेरुस्स सरिसवस्सम, जित्तीय मित्तं तु अंतरं होइ ॥ दव्व य जाव व्वय, अंतरमिह तत्तियं नेयं ॥ १ ॥ अर्थः—मेरुपर्वत अने सरशवना दाणा ने जेटवुं अंतर होय, तेटवुं द्रव्य अने जावमां अंतर जाणवुं माटे समकेतजावविना सिद्धपद न पामे.

श्लोक ॥ शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥ ध्यानं दुःखनिधानमेव तपसां संतापमात्रं फलं, स्वाध्यायोपि हि बंधएव कुधिया तेऽजिग्रहाः कुग्रहाः ॥ अश्लाघ्या खलु दानशीलतुलना तीर्थादियात्रा वृथा, सम्यक्त्वेन विहीनमन्यदपि यत्तत्सर्वमंतर्गदुः ॥ १ ॥ अर्थः—सम्यक्त्व विना ध्यान ते दुःखनोजनिधान एटले जंकार ठे, एम जे तप ठे ते पण संतापरूप मात्र ठे अर्थात् कष्टरूप ठे, सद्याय ध्यान ठे, ते पण हि इति निश्चयें एटले निश्चयनयें करीने बंदीखाना रूप ठे, (कुधिया के०) माठी बुद्धियें करीने जे कोइ अजिग्रह लेवा तेनो कुग्रह एटले माठा ग्रह वरोवर ठे तथा निश्चें दान, शील आदि देइ परिणामनी तुलना ते सर्व (अश्लाघ्या के०) अप्रशंसनीय ठे, वली तीर्थ प्रसुग्दनी यात्रा करवी ते पण वृथा ठे, समकेतें करीने हीनथको जो एटलां काम करे, तो ते सर्व शरीरमां गडगूंबड तुल्य ठे, एटले दुःखरूप ठे एथी कांड गरज नरे नहीं कदापि नवग्रैवेयकें जाय, तो पण गरज नरे नहीं. समकेत विना सिद्धपद न पामे, ए परमार्थ जाणवो.

४९ शिष्यः— नव तत्त्वनां ज्ञेदान्तर तत्त्व केटलां पामीयें ?

गुरुः— ज्ञेदांतर तत्त्व (१७६) पामीयें ॥ अत्र गाथा ॥ चउदस चउदस वाया, वीसा वासीय हुंति वायाला ॥ सत्तावन्नं वारस, चउ नव ज्ञेया कमे णेसिं ॥ १ ॥ अर्थः— जीव तत्त्वना चउद. ज्ञेद, अजीवना चउद, पुण्यना वहे तादीश, पापना व्यासी, आश्रवना वहेतादीश, संवरना सत्तावन, निर्झराना वार, बंधना चार अने मोक्षना नव, एवं सर्व मली (१७६) ज्ञेद ठे, तेने ज्ञे दांतर कहीयें. तेनो विस्तारें परमार्थ, गुरुमुखथी जाणवो.

५० शिष्यः—नव तत्त्वमां अरूपी तत्त्व अने रूपी तत्त्व केटलां पामीयें ?

गुरुः—एक जीवतत्त्व, बीजुं संवरतत्त्व, त्रीजुं निर्झरातत्त्व, चोथुं मोक्ष तत्त्व, ए चार अरूपी जाणवां अने एक पुण्यतत्त्व, बीजुं पापतत्त्व, त्रीजुं आश्रव तत्त्व, चोथुं बंधतत्त्व, ए चार रूपी जाणवां अने एक अजीव तत्त्व मिश्र जाणवुं. उक्तं च ॥ गाथा ॥ जीवो संवर निज्जर, मुक्को चत्तारि हुंति अरूवी ॥ रूवे वंधासव्व पुण, पावा मिस्स हुंति अजीवा ॥ १ ॥ इति ॥

५१ शिष्यः—ए नव तत्त्वना वशेने बहोतेर ज्ञेद ठे, तेमां अरूपी ज्ञेद के टला पामीयें अने रूपी ज्ञेद केटला पामीयें ?

गुरुः—धर्मास्तिकायना खंध, देश अने प्रदेश, ए त्रण ज्ञेद तथा अधर्मास्ति कायना खंध, देश अने प्रदेश, ए त्रण ज्ञेद तथा आकाशास्तिकायना खंध, देश अने प्रदेश, ए त्रण ज्ञेद अने कालनो एक ज्ञेद, ए सर्व मली दश ज्ञेद; अजीव तत्त्वना अरूपी जाणवा, अने संवरना सत्तावन ज्ञेद, निर्झराना वार ज्ञेद, मोक्षना नव ज्ञेद, ए सर्व मली अष्टाशी ज्ञेद अरूपी जाणवा. हवे रूपी ज्ञेद कही देखाडे ठे, पुजलना खंध, देश, प्रदेश अने परमाणु ए चार ज्ञेद, जीव ना चौद ज्ञेद, पुण्यना वहेतादीश ज्ञेद, पापना व्याशी ज्ञेद, आश्रवना वहेता दीश ज्ञेद, बंधना चार ज्ञेद, ए रीतें सर्व मली (१७७) ज्ञेद रूपी जाणवा. एनी साथें पूर्वोक्त (७७) ज्ञेद अरूपी मेलवीयें तेवारें सर्व मली नवे तत्त्वना (१७६) ज्ञेद थाय. एटले आगला प्रश्नमां जीवने अरूपी कही बोलाव्यो ते निश्चय नयने मत्तें जाणवो अने आ ठेकाणें नव तत्त्वना (१७६) ज्ञे दमां जीवना चौदज्ञेद रूपीपणे गण्णा ते व्यवहार नयने मत्तें जाणवुं ॥ गा था ॥ धम्माधम्मागासा, तिय तिय अद्धा अजीव दसगा य ॥ सत्तावन्नं संवर, निज्जर उदस मुत्ति नवगा य ॥ १ ॥ अष्टासीय अरूवी, संपइ ज्जसा मि जेय रूवीणं ॥ परमाणु देस पएसा, खंधा चउ अजीव रूवीणं ॥ २ ॥

जीवे दस चउ डु चउ, वासी वायाला हुंति चत्तारी ॥ सय अछासी रूवी, डुसय ठसत्त नव तत्ते ॥ ३ ॥ ए रीतें ए सूत्रनी त्रण गाथा मध्ये (११६) जेदमां रूपी अरूपीनो विचार जाणी लेवो.

५१ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी निगोदना जीव आश्री केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—एक तो जीव तत्त्व अने सत्तायें पुण्य पापनां दक्षीयां ते अजीव रूप अनंतां लागां ठे ते आश्रवजूत जाणवां एटले जीव, अजीव, पुण्य, पाप अने आश्रव, ए पांच तत्त्व थयां अने ए दक्षीये जीव बंधाणो ठे, ते ठहुं बंधतत्त्व जाणवुं. ए निगोदीया जीवमां ठ तत्त्व जाणवां.

५३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी नरकगतिना जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—नरकगतिमां जे मिथ्यात्वी जीव ते आश्रयी तो ठ तत्त्व पामी यें, एक जीव अने सत्तायें पुण्य पापरूप अजीवनां अनंतां दक्षीयां आश्रवजूत थइ लागां ठे ए पांच तत्त्व थयां अने ए दक्षीये जीव बंधाणो ठे ते ठहुं बंधतत्त्व थयुं, ए रीतें मिथ्यात्वी जीव आश्रयी ठ तत्त्व जाणवां अने नरकगति मध्ये जे समकेती जीव ठे, ते आश्रयी आठ तत्त्व पामीयें, ए मां ठ तो पूर्वोक्त मिथ्यात्वी जीवनी परें जाणवां अने समकेती जीव तत्त्वा तत्त्वविचाररूप स्वपरनी वेंचण करी स्वरूपमां रहे, एटले संवर कहीयें तथा संवरमां जीव रहे. तिहां सुधी समय समय अनंती निर्झरा करे, ते निर्झरा, ए रीतें समकेती जीव आश्रयी आठ तत्त्व पामीयें. ए परमार्थ जाणवो.

५४ शिष्यः—नवतत्त्वमांथी नरतक्षेत्रें मनुष्यगति आश्रयी केटलां तत्त्व पामीयें.

गुरुः—नरतक्षेत्रमां समकेती जीव आश्रयी आठ तत्त्व आगल कहरां ते रीतें जाणवां अने मिथ्यात्वी जीव आश्रयी ठ तत्त्व आगल कहरां ते रीतें जाणवां,

५५ शिष्यः—नवतत्त्वमांथी माहाविदेह क्षेत्रें मनुष्य आश्रयी केटलां तत्त्व पामीयें.

गुरुः—माहाविदेह क्षेत्रें मिथ्यात्वी जीव ठे, ते आश्रयी ठ तत्त्व अने सम केति जीव आश्रयी आठ तत्त्व आगल कहरां ते रीतें जाणवां अने तिहां के वली जगवान् ठे ते आश्रयी नव तत्त्व आगल कहरां ते रीतें जाणवां.

५६ शिष्यः—ए नवतत्त्वमांथी तिर्यचगति आश्रयी केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—तिर्यच जीव एक गजलोकमां ठे माटे समकेती तिर्यच जीव आश्रयी आठ तत्त्व आगल कहरां ते रीतें पामीयें अने मिथ्यात्वी तिर्यच जीव आश्रयी ठ तत्त्व आगल कहरां ते रीतें पामीयें.

५५ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी व्यंतर, जवनपति, ज्योतिषी, वैमानिके अने नवग्रैवेयकना देवगति आश्रयी देवोमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—मिथ्यात्वी देवआश्रयी ठ तत्त्व अने समकेती देव आश्रयी आ ठ तत्त्व पामीयें. एनो परमार्थ आगल कह्यो, ते रीतें जाणवो.

५६ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी पंचानुत्तर देव आश्रयी केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः— पांच अनुत्तर विमानमां तो सर्व समकेतदृष्टि देव जाणवा माटे तेमां आगल कह्यां ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें.

५७ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी ईषत्प्राग्चार नामें पृथ्वीना जीवो आश्रयी केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ईषत् प्राग्चार नामें पृथिवी ते सिद्ध शिला जाणवी. तिहां निगोदी या मिथ्यात्वी जीव ठे ते आश्रयी आगल कह्यां, ते रीतें ठ तत्त्व पामी यें अने तिहां सिद्ध परमात्मा रह्या ठे ते आश्रयी त्रण तत्त्व पामीयें.

६० शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी द्रव्यसमकेती जीवमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—द्रव्य समकेती जीव पहेले गुणठाणें कहीयें. माटे एमां मिथ्यात्वी जीवनी परें ठ तत्त्व पामीयें. कारण के देवदर्शन, पूजा, उत्सव, जक्ति, संघ यात्रा, साहम्मीवत्सल आदिक अनेक करणी समकेतीनी करे ठे, तथा देव ते अरिहंत, गुरु ते सुसाधु अने धर्म केवलीनो जांख्यो आदरे ठे, कुदेव, कुगुरु, अने कुधर्मने परिहस्या ठे, तथापि तादृश जीव अजीवनी उलखाण करी नथी स्वसत्ता परसत्तानी प्रतीति करी नथी, नव तत्त्व अने षड्द्रव्यनुं जाण पाणुं गुरु मुखें कछुं नथी माटे द्रव्य समकेती जीव पहेले गुणठाणे जाणवा.

६१ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी ज्ञावसमकेतीमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—शब्दनयने मतें जेना परिणाम वर्तता होय, ते ज्ञावसमकेती जीव चोथा गुणठाणाथी मांकीने यावत् दशमा वारमा गुणठाणा पर्यंत जाणवा. एटले जेणें जीव, अजीव, नव तत्त्व अने षड्द्रव्यनुं जाणपाणुं करी स्वसत्ता परसत्तानी प्रतीति करी ठे अने साध्य एक, साधन अनेक, जे समकेतनी करणीरूप यात्रा, दर्शन, प्रजावना, पूजा, जक्ति, साहम्मीवत्सल, संघयात्रा, तीर्थयात्रा प्रमुख करे ठे तथा निश्चयदेव, व्यवहारदेव, निश्चयगुरु, व्यवहार गुरु, निश्चयधर्म, व्यवहारधर्म, ए रीतें जेणें सत्तागतें प्रतीति करी ठे एवा ज्ञाव समकेती जीवमां आठ तत्त्व पामीयें, एक तो जीव अने सत्तायें पुण्य पापनां

दक्षीयां अजीवरूप अनन्तां लाग्यां ठे ते आश्रवचूत जाणवां. एटले जीव, अ जीव, पुण्य, पाप अने आश्रव, ए पांच तत्त्व जाणवां अने ए दक्षीये जीव वंधाणो ठे, ते ठहुं वंधतत्त्व तथा जीव अजीवरूप स्वपरनी वेंचण करी स्वरूपमां रहे ते सातमुं संवरतत्त्व अने संवरमां रहे त्यां सुधी समयसमय अनंती निर्जरा करे, ते आठमुं निर्जरा तत्त्व. ए रीतें जावसमके तिजीवमां आठ तत्त्व पामीयें तथा केवळीने समजिरूढ नयने मतें जावसमकेती कहीयें. तेमां आगल क ह्या प्रमाणे नवे तत्त्व पामीयें. तथा सिद्धपरमात्माने एवंचूतनयने मतें जावसमकेती कहीयें. तेमां आगल क ह्या प्रमाणे त्रण तत्त्व पामीयें. ए रीतें जावसमकेती जीवमां आठ, नव अने त्रण तत्त्व पाम्यानुं स्वरूप जाणवुं.

६१ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ड्रव्यलिंग श्रावकमां केटलां तत्त्व पामीयें?

गुरुः—ड्रव्यलिंग श्रावक तो जे ऋजुसूत्र नयने मतें पहेले गुणठाणे होय ते जाणवा जो पण तेना संसार उदासी, विषयसुखथी विरक्तजाव परिणाम वत्तें ठे. वैराग्यजावनायें चित्त वत्तें ठे. अने श्रावकना वार व्रत रूप लिंग श्रंगीकार कखुं ठे, तोपण तादृश जीव अजीवनी उलखाण करी नथी, तथा स्वसत्ता परसत्तानुं जासनरूप जाणपणुं कखुं नथी माटे ते जीव यथा प्रवृत्तिकरणमां वर्तना पहेले गुणठाणे जाणवा. तेमां आगल क ह्यां ते रीतें ठ तत्त्व पामीयें.

६२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांहे ड्रव्य श्रावकमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ड्रव्य श्रावक तो समकेतीने कहीयें एटले श्रावकनुं ड्रव्य ते समके ती चोथे गुणठाणें जाणवो, तेमध्ये आगल क ह्या प्रमाणे आठ तत्त्व पामीयें

६४ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांहे जावश्रावकमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—शब्द नयने मतें ए समकेत सहित ठे अने श्रावकनां वार व्रतले वानो जाव उच्छ्रयो वत्तें ठे, एटले गुणठाणुं तो चोथुं ठे पण पांचमा गुण ठाणाना जाव वत्तें ठे तेने जावश्रावक कहीयें. तेमां आठ तत्त्व पामीयें.

६५ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी नावलिंग श्रावकमां केटलां तत्त्व पामीयें?

गुरुः—नावलिंग श्रावक पांचमे गुणठाणे कहीयें एटले आगल समकेत मजिन वता. अने श्रावकनां वार व्रत उच्चारिते रूपलिंग जेणें पहेल्युं ठे, तेने नावलिंग श्रावक पांचमे गुणठाणे वर्तना कहीयें तेमां आठ तत्त्व पामीयें.

६६ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी ड्रव्यज्ञानमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—द्रव्य ज्ञाननुं जाणपणुं पहेले गुणठाणे कहीयें कारण के अन्यमतनां सर्वशास्त्र प्रत्ये जाणे ठे तथा अंतरंग उपयोग विना जैनमतनां सर्व सूत्र प्रत्ये वांचे ठे, अर्थ करे ठे, पद, अक्षर, मात्रा, शुद्धसिद्धांत, ज्ञाप्य, निरुक्ति, टीका, वांचतां, पूढतां, अर्थ करतां, गुरुमुखें सईहे ठे तो पण शुद्ध निश्चयनयें आत्मसत्ता उलख्या विना तत्त्वातत्त्वरूप स्वरूपनी प्रतीति कख्या विना ए सर्व द्रव्यज्ञान, पहेले गुणठाणे कहीयें. तेमां ठ तत्त्व पामीयें.

६७ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ज्ञावज्ञानमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—शब्दनयने मतें समकेती जीवने ज्ञावज्ञान कहीयें तेमां आगल कहां ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें अने समजिरूढनयने मतें केवढीने ज्ञाव ज्ञान कहीयें तेमां आगल कहां ते रीतें नवे तत्त्व पामीयें तथा एवंचूत नयने मतें सिद्धना जीव ज्ञावज्ञानी कहीयें. तेमां त्रण तत्त्व पामीयें,

६८ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी क्रोध, मान, माया अने लोचनी चोकडीमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—पहेले गुणठाणे क्रोधादिक चारनो जे जीवने उदय ठे तेमां ठ तत्त्व पामीयें अने चोथा गुणठाणाथी मांमी ठठा गुणठाणा लगें क्रोधादिक चारनो जे जीवने उदय ठे तेमां आठ तत्त्व पामीयें.

६९ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ज्ञावलिंग आचार्यमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ज्ञावलिंग आचार्य ठठे अने सातमे गुणठाणे कहीयें जे कारणे ठत्रीश गुणें विराजमान, सर्व क्रियामां तत्पर, जिनमत परमतनां जाण, सर्व समय सावधान, निश्चयव्यवहार रूप तत्त्वातत्त्वना जाण, गह्वनायक, गह्वना धोरी, पंचप्रस्थाने सेवित, सर्व सिद्धांतना जाण, पारंगामी, श्रुत उप योगी, चरणानंदी, परमतना जीतनार, सारणावारणादिकें करी शिद्धाना दा तार, गह्वनी मर्यादाना राखनार, आठ प्रसादना तजनार, सात विकथाना नि वारनार, स्वसत्तारमणी, परसत्ताथी विरक्त परिणाम, युगप्रधान सरखा, जव्य प्राणीने हितोपदेश करता, अनेक जीवने तारता, परवादीना मद गालवा गंधहस्ती सरखा, जव्यप्राणीना हृदयरूप आरामथकी मिथ्यात्वरूप अंधकार टालवाने विषे दीपक सरखा उद्योतना करनार, आत्मसत्ताना रसीया, अ नुजवरूप अमृतकुंरुमां जीवता, साध्य एक, साधन अनेक, एवा उपयोग सहित साधन करता, अने जव्य प्राणीने पण ए रीतें उपदेश देता, तीर्थ

सात रात्रि, नगरें पांच रात्रि, ग्रामें एक रात्रि ए रीतें उग्रविहारें विचरता, खद या परदयाने विपे तत्पर, ठछे अने सातमे गुणठाणे जेना परिणामनी तुल्यता वर्त्ते ठे एवा जावलिंग आचार्यमां आगल कद्यां ते रीतें आठ तत्व पामीयें.

१० शिष्यः—नव तत्त्वमांथी ड्रव्यलिंग आचार्यमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—ए ड्रव्यलिंग आचार्य पहेले गुणठाणे जाणीयें कारण के जेणे गुण विना आचार्यनी पदवीनुं लिंग धारण कछुं ठे, आचार्य नाम धरावी अति आनंवरें करी शोन्नता, मंत्र, यंत्र, जामा औषधियें करी जोला लोकोनां मन रीजवता, पत्रीबंध खोटा रूपैया सरखा, लोक पासें आपणो महिमा करावता पूजाय ठे पण यथार्थपणे जीव अजीवनुं जाणपणुं कछुं नथी अने अंतरंग निश्चयनयें आत्मसत्ता जेणें उलखी नथी तेहने ड्रव्यलिंग आचार्य कहीयें तेमां आगल मिथ्यात्व गुणठाणे कद्यां ते रीतें ठ तत्व पामीयें.

११ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ड्रव्य आचार्यमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—साधु पणामांथी आचार्यपणुं नीपजे ठे, ते करण माटे आचार्यनुं ड्रव्य ते साधु कहीयें अने साधु तो ठछे सातमे गुणठाणे वर्त्तता होय तेमां आगल समकेति जीवमां कद्यां, ते रीतें आठ तत्व पामीयें.

१२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जावआचार्यमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—आचार्यनुं ड्रव्य ते साधु होय, परंतु ते गुणें करी आचार्यपदवीने योग्य, वैरागी, त्यागी होय, यद्यपि आचार्य तो नथी तथापि आचार्यना गुणें करी शोन्न ठे. अने आचार्य पदवी लेवानो जाव वर्त्ते ठे तेने जाव आचार्य कहीयें. ते ठछे सातमे गुणठाणे वर्त्तता होय तेमां आठ तत्व पामीयें.

१३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ड्रव्य अरिदंतमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—जे अरिदंतनो जीव आगल त्रीजे त्रयें एकाग्रचित्तें करीने एक पद आराधे, अथवा वीश स्यानक पद आराधे तथा एवी जावना जावे जे सर्व जगनना जीवने शासनना रसीया करी धर्म पमाडी कर्मथकी मूकावुं? अने सर्व जीवने सुखीया करी मोहनगरें पहांचाडुं ? एवा प्रकारनी उत्तम जावना जावी श्रेणिकादि प्रसुखें जिननाम कर्म पुण्य उपाज्युं त्यां थकी मांसीने ज्यां सगें वेचलडान न उपज्युं होय, त्यां लमें तद्वस्थ अवस्थायें ड्रव्यअरिदंत कहीयें तेमां आगल कद्यां ते रीतें आठ तत्व पामीयें.

१४ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जाव अरिदंतमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—जाव अरिहंतमां नव तत्त्व पामीयें, ते कहे ठेः—जे देवलोकथी अथवा नरकथकी चवी त्रण ज्ञान सहित मातानी कुखने विषे उपजे, पठी जन्मावसरें ठप्पन्न कुमारिका महोत्सव करे, तेवार पठी सौधमेंद्र माता पा सेंथी मागी पांच रूपे करी अति आरुंवरें मेरुउपर लइ जाय तिहां सिंहासन उपर खोखे बेसाडी चोशठ इंड मली महोत्सव करी पोतानो आत्मा निर्मल करे. पठी पाठा लइ आवी माताजीने आपे. वालावस्थायें क्रीडा करता पठी यौवनावस्थायें माता पिता परणावे, तथापि उदासी जावें संसारनां सुख विलसे. पठी समय अवसरें लोकांतिक देवताने वचने वैराग्य जाव नायें संसार उदासी विषय कषायथकी विरक्तजावें दीक्षा लेवाने मनोरथें दिनप्रत्यें एक क्रोड अने आठ लाख सोनैयानुं दान एक वर्ष पर्यंत आपी अति आरुंवरें दीक्षा अवसरें स्वयमेव पोताने हाथे लोच करे, ते वेलायें चो थुं मनःपर्यव ज्ञान उपजे, पठी एकलमह्वपडिमा आदरी जगतमां विहार करता, गाम, नगर, अटवीमां फरता, घोर उपसर्गने सहन करता, अघोर तपें करी कर्मने चूरता, शुक्लध्यानना पायाने ध्यावता, शुद्ध निश्चयनयें करी आत्मसत्ताने गवेषता, आत्मसत्ताना रसीया, अनुचवरूप अमृत कुंफुमां फीलता, शुद्ध शुक्लध्यान रूपातीत परिणामें करी घातीकर्मने चूरी केवलज्ञान रूप अनंत चतुष्टय लक्ष्मी जेवारें प्रगट थाय, तेवारें त्रण जवनने विषे उद्योत थयो तेवखत नारकीना जीवने पण एक मुहूर्त्त शाता थाय. पठी त्रिगडाने विषे बेसीने चतुर्विध संघनी स्थापना करी वार पर्षदाने धर्मदेशना देता, अनेक जीवने तारता, पांत्रीश वाणीरूप मधुरध्वनियें करी जव्यप्राणीना मन हरता, कोडीगमे देवतायें सेवित, चोत्रीश अतिशयें करी विराजमान, आठ महाप्रातिहायें करी शोचता, अनेक जीवने संसारसमुद्रथकी तारीने मोक्ष नगरें पहाँचाडता, सुखना दातार, दयाना जंकार, करुणाना समुद्र, भ्रमंमलने विषे अज्ञानरूप अंधकार चूरवाने सूर्यसमान जाणवा. एवा अरिहंतदेव शुक्लध्यानना बीजा त्रीजा पाया वचालें रह्या तेरमे गुणठाणे वर्त्तता कहीयें. तेमां आगल कहां ते रीतें नव तत्त्व पामीयें.

१५ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ड्रव्यसिद्धमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—सिद्धनुं ड्रव्य ते केवली कहीयें केम के केवलीमांथी सिद्धपणुं नी पजे ठे माटे केवलीमां आगल कहां ते रीतें नव तत्त्व पामीयें ?

७६ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जावसिद्धमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—जावसिद्धमां त्रण तत्त्व पामीयें. केम के शुद्ध शुक्लध्यान रूपात् परिणाम रूप द्दपकश्रेणीयें करी आत्मप्रदेशथकी कर्मावरणने चूरी जे स्वसत्ता निरावरण करी लोकने अग्रजागें विराजमान, अनंत ज्ञानम अनंतदर्शनमय, अनंतचारित्रमय, अनंतवीर्यमय, अनंतदानमय, अतलाजमय, अनंतजोगमय, अनंत उपजोगमय, सहजानंदी, पूण दी, अजर, अमर, अविनाशी, अचलित, अस्खलित, अयोगी, अवे अमोही, अदेशी, अणाहारी, अशरीरी, अरक्षक, अव्यापक, एक, असं अनंतगुणें करी विराजमान, परमानंद सुखना विलासी, एवा जावसिद्ध प्र तेहमां त्रण तत्त्व पामीयें. एक तो सिद्धनो जीव ते जीवतत्त्व अने य ख्यात चारित्र रूप गुणें करी पोताना स्वरूपमां रमण करे ठे ते वीजुं सं तत्त्व कहीयें अने जावमोक्ष पदवी पाम्या ठे ते वीजुं मोक्षतत्त्व जाण

७७ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ड्रव्यचारित्रमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ड्रव्यचारित्री जीव पहेले गुणठाणे होय तेमां ठ तत्त्व पामी केम के संसारथकी उदासीजावें जेणें पांच महाव्रत रूप चारित्र अंगीक कर्नुं ठे, ठकायनी रक्षा करे ठे, सूजतो आहार दीये ठे, साधुनी क्रिय पटिवमाणुं, पडिलेहण आदिक करे ठे, निरंतर वैराग्यजावनायें परिणाम नें ठे, पण यथार्थ पणे जीव अजीवनी उलखाण करी नथी, अने शुद्ध ध्यानयें अंतरंग सिद्धसमान आत्मसत्ता उलखी नथी, अने नरकनिगोद दुःखथकी वीहीतो थको अंतरंग पुण्यादिकनी वांठायें निरतिचार पणे चारित्र पावे ठे, पण यथार्थ साध्य साधन पणानी उलखाण नथी; तेने ड्रव्य चारित्र पहेले गुणठाणे जाणवुं. तेमां आगल कल्यां, ते रीतें ठ तत्त्व पामीयें ?

७८ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जावचारित्रमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—अवदनयने मतें जावचारित्रवंत जीवमां आठ तत्त्व पामीयें. जे क गों कोड जीवें घर. कटंब, परिवार, पुत्र, कसत्र, मास्र, उनी :

वने पोतानी आत्मसत्ता बरोबर करी जाणी तेहनी दया पावे ठे, संसार उदासी, वैरागी, त्यागी जावनायें परिणाम वत्तें ठे अने जीव, अजीव, नवतत्त्व, षड्द्रव्यना गुणपर्याय, नित्य अनित्यादिकनुं जाणपणुं कळुं ठे तथा नव निक्षेपा, प्रमाण, द्रव्य, जाव, निश्चय, व्यवहार, उत्सर्ग, अपवादनुं स्वरूप जाणी, जीवसत्ताने घ्यावे ठे, अने अजीवसत्तानो त्याग करे ठे, ए रीतें जेणें स्वसत्ता परसत्तानी प्रतीति करी ठे. शुद्धनिश्चयनयें करी जेणें सिद्धसमान पोताना आत्माना प्रतीति करी ठे, साध्य एक, साधन अनेक. ए रीतें पोताना अत्माने साधतां ठे सातमे गुणठाणें जे जीव वत्तें ठे, तेने शब्दनयने मत्तें जावचारित्रीयो कहीयें. तेमां आगल कहां ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें. अने समजिरूढनयने मत्तें केवलीने पण जावचारित्र कहीयें. तेमां आगल कहां ते रीतें नव तत्त्व पामीयें. तथा एवंचूतनयने मत्तें सिद्धना जीवने पण जावचारित्र कहीयें. तेवां आगल कहां ते रीतें त्रण तत्त्व पामीयें.

७६ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी द्रव्यसाधुमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—साधुनुं द्रव्य ते श्रावक पांचमे गुणठाणे जाणवो, एटले श्रावकमांथी साधुपणुं नीपजे ठे, माटे द्रव्यसाधु ते पांचमे गुणठाणे श्रावकने कहीयें, तेमां आगल कहां ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें.

७७ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जावसाधुमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—जावसाधुमां, आठ तत्त्व पामीयें, कारण के जे जीवें समकेत सहित श्रावकनां वार व्रत उच्चत्यां ठे अने संसारथकी उदासी वैराग्यरूप परिणामें वत्तें ठे अने निरंतर साधुपणुं लेवानी जावनायें चित्त रमे ठे. तथा एवुं चिंतवे ठे जे संसाररूप बंदीखानाथी केवारें हूं बूटीश ? अने निर्विकारी पदनुं आपनार एवुं साधुपणुं केवारें हूं अंगीकार करीश ? अने एकाकी पणे विहार करी कांस मसादि तथा देव मनुष्योना करेला घोर उपसर्ग केवारें सहन करीश ? महातप तपी इंद्रियरूप शत्रुने दमन करी सर्वकर्मने चूरी महारो आत्मा केवारें निरावरण करीश ? ज्ञानरूप अनंत चतुष्टय लक्ष्मी केवारें प्रगट करीश ? एवुं साधुपणुं मने केवारें उदय आवशे ? आ संसाररूप हडमांहेथी नीकली वनमां एकाकी पणे निर्जयथको सिंहनी परें केवारें हूं विचरीश ? ते जीव गृहस्थपणे रह्यो थको पण ऋजुसूत्र नयने मत्तें जावसाधु जाणवो. अने शब्दनयने मत्तें अंतरंग स्वसत्ता परसत्तारूप प्रतीति करी

७६ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जावसिद्धमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—जावसिद्धमां त्रण तत्त्व पामीयें. केम के शुद्ध शुक्लध्यान रूपाती परिणाम रूप कृपकश्रेणीयें करी आत्मप्रदेशथकी कर्माविरणने चूरी जे स्वसत्ता निरावरण करी लोकने अग्रजागें विराजमान, अनंत ज्ञानम अनंतदर्शनमय, अनंतचारित्रमय, अनंतवीर्यमय, अनंतदानमय, अतलाजमय, अनंतजोगमय, अनंत उपजोगमय, सहजानंदी, पूर्णा दी, अजर, अमर, अविनाशी, अचलित, अस्खलित, अयोगी, अवेद अमोही, अलेशी, अणाहारी, अशरीरी, अरक्षक, अव्यापक, एक, असंख्य अनंतगुणें करी विराजमान, परमानंद सुखना विलासी, एवा जावसिद्ध प्रतेहमां त्रण तत्त्व पामीयें. एक तो सिद्धनो जीव ते जीवतत्त्व अने यथाख्यात चारित्र रूप गुणें करी पोताना स्वरूपमां रमण करे ठे ते वीजुं संवत्त्व कहीयें अने जावमोक्ष पदवी पाम्या ठे ते वीजुं मोक्षतत्त्व जाणवुं

७७ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी इव्यचारित्रमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—इव्यचारित्र जीव पद्देले गुणगणे होय तेमां ठ तत्त्व पामीये केम के संसारथकी उदासीजावें जेणें पांच महाव्रत रूप चारित्र अंगीकार क्युं ठे, ठकायनी रक्षा करे ठे, सूजतो आहार लीये ठे, साधुनी क्रिया पडिक्रमाणं, पडिलेहण आदिक करे ठे, निरंतर वैराग्यजावनायें परिणाम क्युं ठे, पण यथार्थ पणे जीव अजीवनी उलखाण करी नथी, अने शुद्धनिश्चयनयें अंतरंग सिद्धसमान आत्मसत्ता उलखी नथी, अने नरकनिगोदन दुःखथकी वीहीतो थको अंतरंग पुण्यादिकनी वांठायें निरतिचार पणे चारित्र पाळे ठे, पण यथार्थ साध्य साधन पणानी उलखाण नथी; तेने इव्यचारित्र पद्देले गुणगणे जाणवुं. तेमां आगल कल्यां, ते रीतें ठ तत्त्व पामीयें

७८ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जावचारित्रमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—अग्रहनयने मतें जावचारित्रवंत जीवमां आठ तत्त्व पामीयें. जे कर्मागें कोइ जीवें घर. कुटुंब, परिवार, पुत्र, कलत्र, धन, माल, ठती शक्तिने न्यागी. चारित्र अंगीकार क्युं ठे, पांच समितियें समितो, त्रण शक्तियें गुप्तो. आठ प्रवचनमाताने पाळे ठे, सत्तर जेदें संयम आराधे ठे, अज्ञान आहार लीये ठे. मांजलाना पांच दोष टाळी आहार करे ठे, मांजलाने पडिक्रमाणं पडिलेहणादिक क्रिया करे ठे, अग्रहनयने मतें सर्व जीव

वने पोतानी आत्मसत्ता बरोबर करी जाणी तेहनी दया पावे ठे, संसार उदासी, वैरागी, त्यागी जावनायें परिणाम वचें ठे अने जीव, अजीव, नवतत्त्व, षड्द्रव्यना गुणपर्याय, नित्य अनित्यादिकनुं जाणपणुं कहुं ठे तथा नव निक्षेपा, प्रमाण, द्रव्य, जाव, निश्चय, व्यवहार, उत्सर्ग, अपवादनुं स्वरूप जाणी, जीवसत्ताने घ्यावे ठे, अने अजीवसत्तानो त्याग करे ठे, ए रीतें जेणें स्वसत्ता परसत्तानी प्रतीति करी ठे. शुद्धनिश्चयनयें करी जेणें सिद्धसमान पोताना आत्माना प्रतीति करी ठे, साध्य एक, साधन अनेक, ए रीतें पोताना अत्माने साधतां ठे सातमे गुणठाणें जे जीव वचें ठे, तेने शब्दनयने मतें जावचारित्रीयो कहीयें. तेमां आगळ कहां ते रीतें आठ तत्व पामीयें. अने समजिरूढनयने मतें केवळीने पण जावचारित्र कहीयें. तेमां आगळ कहां ते रीतें नव तत्व पामीयें. तथा एवंचूतनयने मतें सिद्धना जीवने पण जावचारित्र कहीयें. तेवां आगळ कहां ते रीतें त्रण तत्व पामीयें.

७९ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी द्रव्यसाधुमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—साधुनुं द्रव्य ते श्रावक पांचमे गुणठाणे जाणवो, एटले श्रावकमांथी साधुपणुं नीपजे ठे, माटे द्रव्यसाधु ते पांचमे गुणठाणे श्रावकने कहीयें, तेमां आगळ कहां ते रीतें आठ तत्व पामीयें.

८० शिष्यः—ए नव तत्वमांथी जावसाधुमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—जावसाधुमां, आठ तत्व पामीयें, कारण के जे जीवें समकेत सहित श्रावकनां वार व्रत उच्चस्यां ठे अने संसारथकी उदासी वैराग्यरूप परिणामें वचें ठे अने निरंतर साधुपणुं देवानी जावनायें चित्त रमे ठे. तथा एवं चितवे ठे जे संसाररूप बंदीखानाथी केवारें हुं बूटीश ? अने निर्विकारी पदनुं आपनार एवं साधुपणुं केवारें हुं अंगीकार करीश ? अने एकाकी पणे विहार करी मांस मसादि तथा देव मनुष्योना करेला घोर उपसर्ग केवारें सहन करीश ? महातप तपी इंद्रियरूप शत्रुने दमन करी सर्वकर्मने चूरी महारो आत्मा केवारें निरावरण करीश ? ज्ञानरूप अनंत चतुष्टय लक्ष्मी केवारें प्रगट करीश ? एवं साधुपणुं मने केवारें उदय आवशे ? आ संसाररूप हृदमांहेथी नीकली वनमां एकाकी पणे निर्जयथको सिंहनी परें केवारें हुं विचरीश ? ते जीव गृहस्थपणे रह्यो थको पण रुजुसूत्र नयने मतें जावसाधु जाणवो. अने शब्दनयने मतें अंतरंग स्वसत्ता परसत्तारूप प्रतीति करी

७६ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जावसिद्धमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—जावसिद्धमां त्रण तत्त्व पामीयें. केम के शुद्ध शुक्लध्यान रूपातीत परिणाम रूप कृपकश्रेणीयें करी आत्मप्रदेशयकी कर्मावरणने चूरी जेणें स्वसत्ता निरावरण करी लोकने अग्रजागें विराजमान, अनंत ज्ञानमय, अनंतदर्शनमय, अनंतचारित्रमय, अनंतवीर्यमय, अनंतदानमय, अनंतलाजमय, अनंतजोगमय, अनंत उपजोगमय, सहजानंदी, पूर्णानंदी, अजर, अमर, अविनाशी, अचलित, अस्खलित, अयोगी, अवेदी, अमोही, अलेशी, अणाहारी, अशरीरी, अरक्षक, अव्यापक, एक, असंख्य अनंतगुणें करी विराजमान, परमानंद सुखना विलासी, एवा जावसिद्ध प्रभु तेहमां त्रण तत्त्व पामीयें. एक तो सिद्धनो जीव ते जीवतत्त्व अने यथा स्यात चारित्र रूप गुणें करी पोताना स्वरूपमां रमण करे ठे ते वीजुं संवर तत्त्व कहीयें अने जावमोक्ष पदवी पाम्या ठे ते त्रीजुं मोक्षतत्त्व जाणवुं.

७७ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी द्रव्यचारित्रमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—द्रव्यचारित्री जीव पहेले गुणठाणे होय तेमां ठ तत्त्व पामीयें, केम के संसारयकी उदासीजावें जेणें पांच महाव्रत रूप चारित्र अंगीकार कर्युं ठे, ठकायनी रक्षा करे ठे, सूजतो आहार लीये ठे, साधुनी क्रिया, पडिक्कमाणुं, पडिलेहण आदिक करे ठे, निरंतर वैराग्यजावनायें परिणाम व सं ठे, पण यथार्थ पणे जीव अजीवनी उलखाण करी नथी, अने शुद्धनिश्चयनयें अंतरंग सिद्धसमान आत्मसत्ता उलखी नथी, अने नरकनिगोदनां दुःखयकी वीहीतो थको अंतरंग पुण्यादिकनी वांठायें निरतिचार पणे चारित्र पाळे ठे. पण यथार्थ साध्य साधन पणानी उलखाण नथी; तेने द्रव्य चारित्र पहेले गुणठाणे जाणवुं. तेमां आगळ कल्यां, ते रीतें ठ तत्त्व पामीयें.

७८ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जावचारित्रमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—शब्दनयने मतें जावचारित्रवंत जीवमां आठ तत्त्व पामीयें. जे का रों कोइ जीवें घर, कुटुंब, परिवार, पुत्र, कलत्र, धन, माल, ठती रुद्धिने त्यागी. चाग्रि अंगीकार कर्युं ठे, पांच समितियें समितो, त्रण सुक्तियें गुप्तो. आठ प्रवचनमानाने पाळे ठे, सत्तर जेदें संयम आराधे ठे, तेणे आहार लीये ठे. मांरुलाना पांच दोष टाळी आहार करे ठे, सांज ते पडिक्कमाणुं पडिलेहण आदिक क्रिया करे ठे, संग्रहनयने मतें सर्व जी

श्रवञ्चूत जाणवां. एटले जीव, अजीव, पुण्य, पाप अने आश्रव, ए पांच तत्त्व थयां अने ए दलीये जीव बंधाणो ठे, ते ठहुं बंधतत्त्व थयुं अने तत्त्वातत्त्व स्वरूप स्वपरनी वेंचण करी स्वरूपमां रहे, एटली वार संवर कहीयें. ते सा तमुं संवर तत्त्व तथा संवरमां जीव रहे तिहां सुधी समयसमय अनंती निर्झारा करे, ते आठमुं निर्झारा तत्त्व जाणवुं एणी रीतें जावलिंग साधुमां आठ तत्त्व जाणवां. ए रीतें नव तत्त्वनुं स्वरूप जाणे, तेने ज्ञानी कहियें, अने अंतरंग सईहे तेने समकेती कहीयें ॥ इतिश्री बालबुद्ध्यवबोधार्थ नवतत्त्वमयप्रश्नोत्तराणि समाप्तानि ॥ हवे नव तत्त्वना स्वरूपमां मांहोमांहे संबंधनो विचार जाणवा रूप प्रश्नोत्तर लखियें ठैयें.

७३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने शत्रुरूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने शत्रुरूप पांच तत्त्व जाणवां कारण के जीवने एकेक प्रदेशें पुण्य पापनां दलीयां अजीवरूप अनंतां लाग्यां ठे ते आश्रवञ्चूत जाणवां एटले पुण्य, पाप, अजीव अने आश्रव, ए चार तत्त्व थयां अने ए दलीये जीव बंधाणो थको चारगतिरूप संसारमां अनंता काल थया रखडे ठे माटे पांचमुं बंधतत्त्व जाणवुं. ए रीते ए पांच तत्त्व जीवने शत्रुञ्चूत थइने अनादि कालनां लाग्यां ठे तेषें करी जीव, चारगतिरूप संसारमां परित्रमण करे ठे माटें ए नव तत्त्वमां जीवने पांच तत्त्व, शत्रुरूप जाणवां.

७४ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने वोलावारूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—पुण्य प्रमुखरूप चार तत्त्व जीवने वोलावा समान जाणवां ते देखाडे ठे. एक तो पुण्यतत्त्व ठे ते व्यवहारनयने मत्तें आदरवा योग्य ठे, केम के ए पुण्य ठे ते जीवने मोक्ष नगरें जातां वोलावा रूप ठे, कारण के जवरूप अटवीमां चोराशी लाख जीवायोनिरूप ग्रामने विषे जन्म, जरा, मरण, जय, शोक, पीडा, आधि, व्याधि, माया, मोह, मूर्खा, मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय आदिक अनेक मोहराजाना मूकेला सुजट ते जीवने मोक्ष नगरें जातां विघ्नकर्ता ठे, माटे तिहां पुण्यरूप वोलावो जीवने ठावको सहायकारी होय तो जीव, निर्विघ्नपणे मोक्षनगरें पहाँचे तेशी पुण्यतत्त्व व्यवहारनयने मत्तें जीवने आदरवा योग्य ठे, एटले समकेती जीव ठे ते पुण्य तत्त्वने वोलावा रूप करी जाणे ठे, एण अंतरंग निश्चयें आत्माना गुणरूप पुण्यने नथी जाणतो. जेम कोइ नगरें जावुं होय अने मार्गमां जय घणो होय, तेवारें वा

ठे एतदे गृहस्थपणे पांचमे गुणगणे ठे, पण मनोरथ ठठा सातमा गुण गणाना वत्तं ठे, माटे एने जावसाधु कहीयें तेमां आठ तत्व पामीयें ?

७१ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी ड्रव्यलिंग साधुमांहे केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—ड्रव्यलिंग साधु पहेले गुणगणे होय, तेमां आगल कहां ते रीतें ठ तत्व पामीयें. कारण के कोइ जीवें नरक निगोदनां दुःखथकी जय पामीने अथवा देवेंड्र नरेंड्रनी ऋद्धि देखीने तेनी वांठायें मोहगृहीत वैराग्यें अथवा आ जयें इंद्रियसुखनी वांठायें चारित्ररूप लिंग अंगीकार कखुं ठे, पांच महाव्रत सुधां पाळे ठे, इंद्रिय दमे ठे, परिसहना उपसर्गने सहन करे ठे, पडि लेंहणादि क्रिया शुरु करे ठे, ठता जोग तज्या ठे, वैराग्यजावें चित्त वत्तं ठे, पण नादृश जीव अजीवनुं जाणपणुं कखुं नथी. अने अंतरंग पुण्यादिकनी वांठारूप परिणाम वत्तं ठे तथा निश्चयनयें सत्तागतनी उलखाण नथी. तेंणें करी तेने ड्रव्यलिंग साधु व्यवहारनयने मतें कहीयें. ने ते संसारी जाणवा.

७२ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी जावलिंग साधुमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—कोइ जीवें संसार थकी उदासिजावें राजऋद्धि, धन, माल, ठांकी कुटुंब. परिवारनां मोह मृकी, संसाररूप चारगति थकी उदासी परिणामें चारित्र रूप लिंग अंगीकार कखुं ठे तेहने निवृत्तिचारित्र कहीयें. एतदे ते जीव संसार थकी निवृत्त्यां ठे अने प्रवृत्ति चारित्र ते जे साधुनी क्रिया, पडिक्रमणुं, पडिलक्षण आदि शुरु रीतें करे ठे तेने प्रवृत्ति चारित्र कहीयें, पांच महाव्रत सुधां पाळे ठे. आ जयें तथा परजयें इंद्र नरेंड्रना सुखनी वांठा रहित एक पोतानां आत्मा निरावरण करवाने वास्ते तथा पोताने जन्म मरणनां दुःख थकी मृकाववा निमित्तें एक पोताना आत्मानुंज साधन करे ठे ते प्रवृत्ति चारित्र कहीयें अने जीव, अजीव, नव तत्व, पड्ड्रव्य, नय, निक्षेपा, ड्रव्य, नाद, निश्चय, व्यवहार, उल्सर्ग, अपवादनुं स्वरूप जाणी स्वसत्ता पर सत्तानी जेंणें प्रतीति करी ठे, शुरुनिश्चय नयें करी पोताना आत्मानी मत्ता जेंणें उलखी ठे, माथ्य एक तेने कर्मथकी रहित निरावरण करवानां. साधन अनेक करणीरूप, ए रीतें पोताना आत्मस्वरूपने साधे, तेने शब्दनयने मतें ठेठे मानमे गुणगणे वत्तना जावलिंग साधु कहीयें. तेमां आठ तत्व पामीयें. ते आठ रीतेंः—एक तो तेना जीव पोतें जीव रूप ठे अने मत्तायें पुण्य पापनां दहीयां अजीवरूप अनंतां लाग्यां ठे ते तथा

टमां बोलावो लीधो जोइयें, केमके बोलावो लीधा विता निर्विघ्न पणे प
होंचाय नहिं अने जेवारें वांठितपुर नगरें पहोंचे तेवारें बोलावाने शी
ख आपे. ते दृष्टांते अर्हीयां जीवने मोक्ष नगरें जावुं ठे अने मागें मोह
राजाना सुचटोनो जय घणो ठे, जेथी पुण्यरूप बोलावो जो साचो ठावको
होय, तो निर्विघ्नपणे जीव, मोक्ष नगरें पहोंचे, ए परमार्थ जाणवो. मा
टे कोइ जीव पुण्य बांधे, तेवारें चार तत्त्व जेलां आवे, ते आवी रीतें:-जे
पुण्यनां दलीयां अजीव ठे, ते आश्रवरूप ठे, अने ए दलीयां वंधाय ठे,
एटले पुण्य, अजीव, आश्रव अने वंध, ए चार तत्त्व थयां. ए रीतें ए नव
तत्त्वमां व्यवहारनयने मते पुण्यतत्त्व जीवने बोलावा रूप आदरवा योग्य ठे.

७५ शिष्य:-ए नव तत्त्वमांथी जीवने वाणोतर रूप केटलां तत्त्व पामीयें?

गुरु:-ए नव तत्त्वमांथी एक निर्झरा तत्त्व जीवने वाणोतर रूप
जाणवुं. जेम के कोइ एक साहुकार घणोक करजें वीटाणो होय तेणें करी
दुःखी थयो होय, पण तेने वाणोतर ठावको मळ्यो होय तो शेठने
कारजथकी ठोडावे अने नवी कमाणी करी आपे, तेम इहां जीव
घणा काळनो कर्मरूप करजें वीटाणो महादुःख जोगवतो थको संसार
मां फरे ठे, एम फरतां फरतां जवस्थितिने योगें करी सकाम निर्झरा रूप
वाणोतर जीवने मळे, तेवारें सर्वकर्मरूप कारजथकी जीवने ठोडावे, अ
ने ज्ञानादिक गुणरूप अनंती लक्ष्मी जीवने प्रगट करी आपे.

७६ शिष्य:-ए नव तत्त्वमांथी जीवने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीमें?

गुरु:-ए नव तत्त्वमांथी एक संवर तत्त्व जीवने मित्ररूप जाणवुं. कारण
के घणा काळ थया संसारमां जीव दुःख जोगवे ठे, ते दुःख जोगवतां जोग
वतां रग्वडतां रग्वडतां पुण्यरूप बोलावो जीवने सहायकारी थयो, तेवारें
निर्विघ्नपणे जीवने संवररूप मित्रने घरे पहोंचाड्यो, ते संवररूप मित्रने
घरे जीव पहोंच्यो. तेवारें संवररूप मित्रें पुण्य पापरूप. जे दलीयां नवा
कर्मनां आश्रव आवतां हतां ते सर्व रोक्यां, ए रीतें एक अंतर मुहूर्त पर्यंत
संवररूप मित्रना घरमां रवेतां यातिकर्म दाय करी अनंत ज्ञान, अनंत द
र्शन. अनंत चारित्र. अनंत वीर्ययादि देइ अनंत गुणरूप लक्ष्मी जीवने संव
ररूप मित्रनी सहायें प्रगट थाय, माटे संवर तत्त्व जीवने मित्ररूप जाणवुं.

७७ शिष्य:-ए नव तत्त्वमांथी जीवने धररूप केटलां तत्त्व पामीयें?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने एक मोक्षतत्त्व घररूप जाणवुं. कारण के पुण्य पापरूप अजीवनां दक्षीयां अनंतां सत्तायें आश्रवञ्चूत थइ लागां ठे, तेषें करी जीव बंधाणो ठे, तैथी संसाररूप चार गतिमां फरे ठे, एटले पुण्य, पाप, अजीव, आश्रव अने बंध, ए पांच तत्त्व जीवने अनादि काल नां शत्रुरूप थइ लागां ठे, तेषें करी जीव अनेक प्रकारें विटंबना जोग वे ठे; एम संसारमां फरतां फरतां पुण्यरूप बोलावानी सहायें करी जव स्थितिने योगें जीव संवररूप मित्रने घरे पहुँच्यो, तेवारें संवर रूप मित्र वारणुं रोकी वेठो, एटले पुण्य पाप रूप नवा कर्मना आश्रव जीवने समयें समयें अनंतां दक्षीयां आवतां हतां, ते दक्षीयां सर्वें रोकणां अने ते श्री आगल जीवने एकेक प्रदेशे अनंती कर्मनी वर्गणाना थोकडा लागा हता, तेने निर्झरारूप वाणोतरें अंतरमां पेशी बालवा मांन्या. ए रीतें एक अंतर मुहूर्त आत्मस्वरूपनां ध्यानमां रहेतां घाती कर्म क्षय करी ज्ञानादि अनंत चतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट करी, पठी अनेक जीवने धर्मदेशना दइ संसारथकी निस्तारी घाती कर्म खपावी, जीव अने संवर रूप मित्र ए वे तत्त्व मोक्षपुरी पहुँचे, माटे जीवने मोक्षतत्त्व घररूप जाणवुं.

७७ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी रूपी अजीवने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—अजीवने मित्र रूप पांच तत्त्व जाणवां, केमके पुण्य पापनां दक्षीयां आश्रव रूप ते अजीव ठे, अने ए दक्षीयां मली बंधाय ठे, माटे पुण्य, पाप, आश्रव, अजीव अने बंध ए पांच तत्त्व, रूपी अजीवने मित्र रूप ठे.

७८ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी अजीवने शत्रुरूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी अजीवने शत्रुरूप एक निर्झरा तत्त्व जाणवुं. कारण के सकाम निर्झरा गुण जेवारें जीवने आवे, तेवारें अजीवरूप पांच तत्त्वनां दक्षीयां सत्तायें अनंतां रखां ठे, तेने बालीने क्षय करी नाखे, माटे.

७९ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी अजीवने रोकवा रूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी अजीवने रोकवारूप एक संवर तत्त्व जाणवुं, कारण के शब्द अने समञ्जिरूढ नयने मते संवरगुण जीवने आवे, तेवारें पुण्य, पाप, अजीवरूप आश्रवनां दक्षीयां आवतां रोकाय ठे, माटे.

८० शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी अजीव, केटलां तत्त्वने रोकी शके ?

गुरुः—अजीव एकज जीव तत्त्वने रोकी शके, कारण के जीवने एकेक

प्रदेशं अनन्तां कर्मरूप दक्षीयां अजीवनां लागां ठे, तेणें करी जीव, मोक्ष नगरें जातां रोकणो ठे, माटे अजीव एक जीवतत्त्वने रोकी शके ठे.

ए२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी अजीवें केटलां तत्त्वनुं घर दीतुं नथी ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमां अजीवें एक मोक्षतत्त्वनुं घर दीतुं नथी, कारण के जीव, जेवारें मोक्ष नगरें पधारे, तेवारें कर्मरूप अजीवनां दक्षीयां सत्तायें अनन्तां लागां हतां, ते सर्व शुक्ल ध्यानरूप अग्निं करी वाली ह्य करीने मोक्ष नगरें पधारे ठे, माटे अजीवें एक मोक्षतत्त्वनुं घर दीतुं नथी.

ए३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी पुण्यने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी पुण्यने मित्ररूप चार तत्त्व पामीयें ते कहे ठे, पुण्यनां दक्षीयां अजीव ठे, ते आश्रवरूप जाणवां अने ए दक्षीयां मदी बंधाय ठे. एटले बंध थयो माटे पुण्य, अजीव, आश्रव अने बंध, ए चार तत्त्व थयां, एटले कोइ जीव पुण्य बांधे, तेवारें ए चार तत्त्व मित्ररूप साथें आवे, माटे.

ए४ शिष्यः—ए एव तत्त्वमांथी पुण्यने शत्रुरूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी पुण्यने शत्रुरूप एक निज्जरा तत्त्व जाणवुं, कारण के जेवारें सकाम निर्जरा गुण जीवने आवे, तेवारे पुण्यनां दक्षीयां जे सत्तायें बांध्यां ठे, ते खपावीने, जीव मोक्ष नगरे पहुँचे, माटे.

ए५ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी पुण्यनां प्रतिपक्षीरूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—पुण्यनुं प्रतिपक्षी एक पाप तत्त्व जाणवुं. कारण के जे समयें शुभ परिणामें जीव पुण्यनां दक्षीयानुं ग्रहण करे ठे, ते समयें पापनां दक्षीयानुं ग्रहण नथी, कारण के एक समयें वे क्रिया न होय ए परमार्थ ठे.

ए६ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी पुण्यने रोकवा रूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी पुण्यनां दक्षीयां रोकवारूप एक संवर तत्त्व जाणवुं कारण के शब्द नयने मतें जे समय जीव स्वरूप चिंतनरूप संवरमां आवे, ते समय नवा कर्मरूप दक्षीयानुं ग्रहण नथी, माटे पुण्यने संवर रोके ठे.

ए७ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी पुण्य केटलां तत्त्वने रोकी शके ठे ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी मोक्ष नगरें जतां एक जीव तत्त्वने पुण्य रोकी शके ठे. केस के पुण्यनां दक्षीयां सत्तायें निकाचित बांध्यां होय, ते संपूर्ण योग्यता बिना केवली दग्धान पण मोक्ष नगरें जइ शके नहीं, माटे.

ए८ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी पुण्य केटलां तत्त्वनुं घर दीतुं नथी ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी पुण्ये एक मोक्ष नगरनुं घर दीतुं नथी. केम के मोक्ष नगरें जातां जीवने पुण्यनां दळीयां साथें जतां नथी, जेवारें पुण्यनां दळीयां सर्व खपावी रहे, तेवारेंज जीव, मोक्ष नगरें पहाँचे ठे, तेमाटे.

एण शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी पापने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी पापने मित्ररूप चार तत्त्व जाणवां. कारण के पाप नां दळीयां अजीव ठे, ते आश्रवरूप जाणवां, अने ए दळीयां मदी बंधाय ठे, एटले बंध कहीयें माटे पाप, अजीव, आश्रव अने बंध, ए चार तत्त्व थयां. एटले कोइ जीव पाप बांधे, तेवारें ए चार तत्त्व जेलां आवे.

१०० शिष्यः—नव तत्त्वमांथी पापने शत्रुरूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी पापने शत्रुरूप एक निर्जारा तत्त्व जाणवुं. कारण के जेवारें सकाम निर्जारा गुण जीवने आवे तेवारें पापनां दळीयां जे सत्तायें अनंतां लागं ठे, तेने बाढीने क्षय करे, माटे पापनुं शत्रु निर्जारा ठे.

१०१ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी पापनां प्रतिपक्षी रूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी पापनुं प्रतिपक्षी रूप एक पुण्य तत्त्व जाणवुं, कारण के जीव जे समये अशुभ परिणामें पापनां दळीयानुं ग्रहण करे ठे, ते समयें पुण्यनां दळीयानुं ग्रहण नथी, केम के एक समयें वे क्रिया न होय, ए परमार्थ ठे, माटे नव तत्त्वमां पापनुं प्रतिपक्षी रूप एक पुण्य तत्त्व जाणवुं.

१०२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी पापने रोकवारूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी पापनां दळीयां रोकवा रूप एक संवर तत्त्व जाणवुं. कारण के शब्द नयने मते जे समयें जीव स्वरूपना चिंतनरूप संवर मां आवे, ते समय नवा कर्मरूप दळीयानुं ग्रहण नथी माटे.

१०३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी केटलां तत्त्वने पाप रोकी शके ठे ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी मोक्ष नगरें जातां एक जीव तत्त्वने पाप रोकी शके ठे, कारण के पापनां दळीयां निकाचित पणे सत्तायें बांध्यां होय, ते खपाव्या विना कोइ जीव, मोक्षनगरें पहाँचे नहीं.

१०४ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी पापें केटलां तत्त्वनुं घर दीतुं नथी ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी पापें एक मोक्ष तत्त्वनुं घर दीतुं नथी कारण के मोक्ष नगरें जातां जीवने पापनां दळीयां साथें आवतां नथी, एटले शुचा

शुद्ध विकाररूप पुण्य पापनां दलीयां सत्तायें रक्षां ठे, ते खपाव्या बिना कौंइ जीव मोक्ष नगरें पहुँची शके नही.

१०५ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी आश्रवने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी आश्रवने मित्ररूप पांच तत्त्व पामीयें. कारण के पुण्य पापनां दलीयां अजीव ठे, ते आश्रवरूप जाणवां. अने ए दलीयां मदी बंधाय ठे, ते बंध कहीयें. एटले पुण्य, पाप, अजीव, आश्रव अने बंध, ए पांच तत्त्व आश्रवने मित्ररूप जाणवां.

१०६ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी आश्रवने शत्रुरूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी आश्रवने शत्रुरूप एक निर्झरा तत्त्व पामीयें. कारण के जेवारें सकामनिर्झरा गुण जीवने आवे, तेवारें आश्रवनां दलीयां सत्तायें अनंतां रक्षां ठे, तेने वालीने क्षय करे, माटे ते शत्रुरूप जाणवुं.

१०७ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी आश्रवने रोकवारूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी आश्रवने रोकवारूप एक संवर तत्त्व जाणवुं. केस के शब्दनयने मतें जे समय जीव सत्तागतना चिंतनरूप संवरमां आवे, ते समयें शुजाशुद्ध विकाररूप आश्रवनां दलीयांने आवतां रोके, माटे.

१०८ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी केटलां तत्त्वने आश्रव रोकी शके ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी एक जीव तत्त्वने आश्रव रोकी शके, कारण के आश्रवनां दलीयां शत्रुरूप थइने जीवने सत्तायें लागां ठे, तेणें करी जीव, मोक्ष नगरें जातां रोकाणो ठे, माटे एक जीव तत्त्वने आश्रव रोके ठे.

१०९ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी आश्रवें केटलां तत्त्वनुं घर दीतुं नथी ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी आश्रवें एक मोक्ष तत्त्वनुं घर दीतुं नथी, कारण के मोक्षनगरें जातां जीवने शुजाशुद्ध विकाररूप आश्रवनां दलीयां साथें आवतां नथी, माटे नव तत्त्वमां एक मोक्ष तत्त्वनुं घर आश्रवें दीतुं नथी.

११० शिष्यः—नव तत्त्वमांथी संवरने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—संवरने मित्ररूप एक जीवतत्त्व जाणवुं. कारण के जीव, मोक्ष नगरें जाय. तेवारें संवरतत्त्व मित्ररूप ठे, तेने साथें क्षेतुं जाय. एटले मोक्षमा जीवने प्रयाग्यात चारित्ररूप संवरतत्त्व सदा कास साथें बर्ते ठे, माटे.

१११ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी केटलां तत्त्वने संवर रोकी शके ठे ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी पांच तत्त्वने संवर रोकी शके ठे, कारण के शब्द

अने समजिरूढ नयने मतें जेवारें जीवने शुक्लध्यानरूप संवर गुण आवे, तेवारें शुजाशुज नवां कर्म रूप पांचे तत्त्वनां आश्रव रोकाय, एटले संवर तत्त्वनुं ए लक्ष्ण ठे, जे आवता कर्मने रोके, माटे ए नव तत्त्वमांथी पुण्य, पाप, अजीव, आश्रव अने बंध, ए पांच तत्त्वने संवर रोके ठे.

११२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी केटलां तत्त्वनी साथें संवरने प्रीति ठे ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी एक निर्झरा तत्त्वनी साथें संवरने प्रीति जाणवी, कारण के जीव घणां कर्म करी विंटाणो थको अनेक प्रकारनी पीडा पामतो पामतो दुःख विटंबना सहेतो, रखडतो, रखडतो, पुण्यरूप बोलावानी सहायें जवस्थितिने योगें करी संवररूप मित्रने घरे पहाँच्यो, एटले संवर अने निर्झरा, ए बे तत्त्वं साथें मली जीवने कर्मथकी ठोडाव्यो, अने ज्ञानादि अनंत गुणरूप लक्ष्मी प्रगट करी आपी. पंठी जीव अने संवर, ए बे तत्त्व मित्ररूप ठे, माटे मोक्षपुरीमां साथें गयां. अने संवरने निर्झरातत्त्वनी साथें प्रीति हती तो पण निर्झराने मूकी अने जीवतत्त्वने लई मोक्ष पुरीमां गयो, तेथी निर्झरा तत्त्वनी साथें संवरने प्रीति ठे,

११३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी संवरने घररूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी एक मोक्ष तत्त्व संवरने घररूप जाणवुं. कारण के मोक्षपुरीमां सिरूना जीवने यथाख्यात चारित्ररूप संवर तत्त्व सदा कालें साथें वर्तें ठे, माटे ए नव तत्त्वमां संवरने घररूप एक मोक्ष तत्त्व ठे.

११४ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी केटलां तत्त्वने निर्झरा बाले ठे ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी आश्रवरूप पांच तत्त्वनां दलीयां जीवनी सत्तायें लाग्तां ठे, तेहने निर्झरा बालीने क्षय करे ठे, कारण के जेवारें सकाम निर्झरारूप गुण जीवने आवे, तेवारें शुजाशुजकर्मरूप पांच तत्त्वनां दलीयां जीवने सत्तायें अनंतां रहेलां ठे, तेने निर्झरावेमाटे पांच तत्त्वने बाले ठे.

११५ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी केटलां तत्त्व निर्झराने स्वामीरूप पामीयें ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी एक जीवतत्त्व निर्झराने स्वामीरूप जाणवुं. एटले जे कारणे जीवने एक एक प्रदेशें अनंता कर्मरूप वर्गणानां थोकडा लाग्ता हता, ए रीतें कर्मरूप करजें जीव, विंटाणो थको दुःखी हतो, पण सकाम निर्झरारूप वाणोतर मळे, तेवारें जीवने सर्व कर्मरूप करजथकी

ठोडावे, अने ज्ञानादि अनंत गुणरूप लक्ष्मी प्रगट करी आपी, जीवने यो करी मोक्ष नगरें पहुँचाडे, माटे निर्झरानुं स्वामी एक जीव तत्त्व

११६ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी केटला तत्त्वनी साथें निर्झराने प्रीति ठे.

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी एक संवर तत्त्वनी साथें निर्झराने प्रीति ठे.

ए के जीव कर्मरूप करजें वीटाणो थको दुःख पामतो पामतो पुण्यरूप लावानी सहायें करी संवररूप मित्रने घेर पहुँच्यो, तेवारे संवररूप निर्झराने तेडी पोतानो मित्र जाणी जीवने कर्मरूप करजथकी ठोडा पठी निर्झराने इहां मूकी संवर तत्त्व जीवने लक्ष्मी मोक्षपुरीमां गयुं.

११७ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी केटलां तत्त्वनुं घर निर्झरायें दीतुं नथी.

गुरुः—नव तत्त्वमांथी एक मोक्षतत्त्वनुं घर निर्झरायें दीतुं नथी, ए के मोक्ष नगरमां जीवने आत्मप्रदेशें कर्मनी एक परमाणु मात्र रच्यो नथी, ते कारण माटे मोक्षपुरीमां निर्झरा तत्त्वनो खप नथी.

११८ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी बंधने मित्ररूप केटलां तत्त्व पामीयें

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी पांच तत्त्व, बंधने मित्ररूप जाणवां. कारण कोइ जीव कर्म बांधे, तेवारें पुण्य, पाप आश्रवरूप तेनां दळीयां अजरूप ठे, ते नव बंधाय ठे, माटे ए नवमांथी पुण्य, पाप, आश्रव, अर्ज अने बंध, ए पांच तत्त्व बंधने मित्ररूप जाणवां,

११९ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी बंधने शत्रुरूप केटलां तत्त्व पामीयें

गुरुः—बंधने शत्रु रूप एक निर्झरा तत्त्व जाणवुं कारण के जेवारें सव न निर्झररूप गुण जीवने आवे, तेवारें ए पांच तत्त्व आश्रवचूत तेनां तीयां बंधाणां ठे, तेने वादीने हय करे, माटे बंधनी शत्रु निर्झरा ठे.

१२० शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी केटलां तत्त्वने बंध रोकी शके ठे?

गुरुः—एक जीव तत्त्वने बंध रोकी शके ठे, जे कारणें शुचाशुचकरूप दर्शने करी जीव बंधाणोथको संसारमां अनेक प्रकारें करी पीडा पसे ठे माटे कर्मरूपबंधें बंधाणां तोणें करी मोक्षनगरें जातां रोकाणो ठे.

१२१ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी बंधतत्त्वने कयुं तत्त्व रोके ठे ?

गुरुः—ए बंधतत्त्वने रोकनार एक संवरतत्त्व जाणवुं, कारण के शब्द नवने सवें जेवारे जीवने संवर गुण आवे, तेवारें आवना कर्म रूप जे दर्शनां ते सवें बंधनां रोकाय, माटे ए नवतत्त्वमां बंधने रोकवारूप एक संवर ठे.

१२२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी बंधें केटलां तत्त्वनुं घर दीतुं नथी ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी बंधें एक मोक्ष तत्त्वनुं घर दीतुं नथी, केम के जे वारे मोक्ष नगरें जीव जाय, तेवारे सर्व कर्मनां बंध रूप जे दलीयां सत्तायें रखां ठे ते सर्व तोडी बाढी क्षय करी जाय ठे. ते कारणें जीवने मोक्ष पुरी मां बंध नथी माटे ए नव तत्त्वमां बंधें एक मोक्ष तत्त्वनुं घर दीतुं नथी.

१२३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमां ड्रव्यसिद्धपरमात्माने शत्रुरूप केटलां तत्त्व ठे?

गुरुः—ड्रव्यसिद्ध परमात्माने शत्रुरूप पांच तत्त्व पामीयें. इहां सिद्धनुं ड्रव्य ते केवली ठे केम के केवलीमांथी सिद्धपणुं नीपजे ठे माटे ड्रव्यसिद्धपरमात्मा ते केवलीने जाणवा. ते केवलीजगवानने पुण्य पापनां दलीयां अजीवरूप अनंतां सत्तायें रखां ठे, ते आश्रवरूप जाणवां एटले पुण्य, पाप, अजीव अने आश्रव, ए चार तत्त्व थयां अने ए दलीये केवलीने बांधी राख्या ठे, ते पांचमो बंध थयो, तेणे करी केवली मोक्षपुरीमां जतां रोकाणा ठे, ए रीतें ड्रव्यसिद्ध परमात्माने पांच तत्त्व शत्रुरूप जाणवां.

१२४ शिष्यः—ए नवतत्त्वमांथी ड्रव्यसिद्ध परमात्माने मित्ररूप केटलां तत्त्व ठे?

गुरुः—ड्रव्यसिद्धपरमात्माने मित्ररूप एक संवर तत्त्व जाणवुं, जे कारणें ड्रव्यसिद्धपरमात्मा शुक्लध्यानना बीजा त्रीजा पाया वचालें रखा, संवररूप मित्रने घरे वत्तें ठे, एटले संवररूप मित्रें पांच तत्त्वनां दलीयां अजीवरूप नवा कर्मनां आश्रव आवतां रोक्यां, एटले समजिरूढ नयने मत्तें शुक्लध्यान रूप संवरने घरे वत्तें ठे, तेणें करी नवा कर्मरूप आश्रवनां दलीयां आवतां रोकाणां ठे, ए परमार्थ जाणवो. माटे ड्रव्यसिद्धने एक संवर तत्त्वमित्ररूप कहीयें.

१२५ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी ड्रव्यसिद्धपरमात्माने वाणोतररूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ड्रव्यसिद्ध परमात्माने वाणोतररूप एक निर्झरा तत्त्व जाणीयें. केम के जीवने संसारमां जमतां जमतां अनंता पुज्जलपरावर्त्तन काल गयो, तेणें करी घणी आशातनायें कर्म बांध्यां, माटे कर्म विंटाणो थको दुःख पामतो पामतो सकाम निर्झरा रूप वाणोतर मढ्यो, तेवारें जीवने कर्मरूप कर जयकी ठोडाव्यो, अने अनंत चतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट करी आपी, अने हजी शुक्लध्यानना बीजा त्रीजा पाया वचालें रखा, समय समय अनंता कर्मना थोकडा खपावे ठे, एटले अंतें निर्झरारूप वाणोतर, सर्व कर्मरूप क

रजयकी ठोडावी अने ड्रव्यसिद्ध परमात्माने जावमोक्षपदें पहाँचाडशे.
१२६ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ड्रव्यसिद्ध परमात्माने घररूप केटलां तत्त्व?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी, ड्रव्यसिद्ध परमात्माने घररूप, एक जाव मोक्ष तत्त्व जाणीयें, तेनुं दृष्टांतवतावीयें ठैयें. जेम कोइ एक प्राणी करजें वीटा णो होय, घणो दुःखी थातो होय, तेवारें परदेश कमावा नीकले, पठी अनेक देशावर फरतो फरतो धन कमाई. उपार्जनकरी करज उतारी धन लइ सुखी यो थइपोताने घरे जइ वेसे, तेम इहां जीव अनंता कर्मरूप करजें वीटाणो थको दुःख जोगवतो जोगवतो काळ स्थितिने योगें करी निगोदथकी बाहेर निकळ्यो. पठी चोराशी लाख जीवायोनिरूप ग्राम तथा जवपाटण रूप नम रमां नमतो नमतो कोइ एक अवसरें जवस्थितिने योगें करी पुण्यरूप बोझा यो साचो सहायकारी थयो, तेवारे तेणे संवररूप मित्रने घरे जीवने पहाँचा ल्यो एटले संवरें पोतानो मित्र जाणी हित आणीने निर्झरा रूप वाणोतर जीवने राखी आप्यो, तेणें सर्व कर्मरूप करजयकी जीवने ठोडाववा मां गयो अने पोतें वारणुं बांधी रोकी वेगो, तेवारें पांचे तत्त्वनां दळीयां अ जीवरूप नवा कर्मनां आश्रव आश्रवतां रुंध्या. एणी रीतें अनेक प्रकारें मेहे नत करी जीवने कर्मरूप करजयकी ठोडाव्यो तेथी अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत चारित्र, अनंतवीर्य, अव्यावाध, अमूर्ति, सहजानंदी, पूर्णानंदी, अजर. अमर, अविनाशी, ए आदि देइने अनंत गुणरूप लक्ष्मीने प्रगट करी, परमानंदमुखनो विलासी थइ, जावमोक्षपदप्रत्यें जीव पामे, माटे ए नव तत्त्वमां ड्रव्यसिद्ध परमात्माने घररूप एक जावमोक्ष तत्त्व जाणवुं.
१२७ शिष्यः—ए नव तत्त्वमां जावसिद्ध परमात्माने घर रूप केटलां तत्त्व ठे ?

गुरुः—जावसिद्ध परमात्माने घररूप एक जावमोक्षपुरीरूप तत्त्व जाणवुं. कारण के जाव मोक्षपुरी लोकने थंतें कहीयें तिहां जन्म नही, जरा नही, मरण नही, जय नही, शोक नही, रोग नही, पीडा नही, निद्रा नही, आहार नही, निहार नही, शत्रु नही, मित्र नही, राजा नही, चाकर नही, श्रेष्ठ नही, नेनापति नही, वाणोतर नही, खावुं नही, पीवुं नही, उठवुं नही, पहरवुं नही. खेवुं नही, देवुं नही, हसवुं नही, खेलवुं नही, रमवुं नही, रमवुं नही. बोलवुं नही. चाळवुं नही, नाडी नही, न्याय नही, रा नही. निवम नही, माया नही, ममता नही, राग नही, द्वेष नही, द्वे

श नहीं, कजियो नहीं, वाद नहीं, विवाद नहीं, जणवुं नहीं, गणवुं नहीं, अर्थ नहीं, विचार नहीं, व्रत नहीं, पञ्चस्काण नहीं, गुरु नहीं, चेलो नहीं, आधि नहीं, व्याधि नहीं, एवा अजरामरस्थानके अनंत परमानंदसुखनो विलास ते प्रत्ये जोगवता अनंत जाव सिद्ध परमात्मा ज्योतिःस्वरूपे आ प आपने स्वजावे सुख जोगवे ठे.

एवुं सांजदीने शिष्य बोड्यो जे ते सुख ते शुं कहीयें ?

गुरु:— सुखनुं वर्णन करतां केवलीनां आउखां अनंतां पूरां थइ जाय, तो पण वर्णव्युं जाय नहीं, एटवुं ठे तो पण दृष्टांतें करी लेशमात्र बतावुं हुं ॥ गाथा ॥ सुरगण सुख त्रिहुं कालनां, अनंत गुणां ते कीध । अनंतवर्गे वर्गित कस्यां, तो पण सुख समीध ॥ १ ॥ अर्थ:—(सुर के०) देवता ते जवनपति, ज्योतिषी, व्यंतर, वैमानिक, नवप्रैवेयक, अनुत्तरविमान, सर्वा र्थसिद्ध, ए रीतें जे सर्व देवतानां सुख तेना (गण के०) समूह ते त्रिहुं कालनां एटवे आगल आदिरहित अनंतो काल गयो ते कालमां थइ गयेलां सर्व चार निकायनां अनंतां देवतानां सुख तथा वर्तमान काले असंख्याता देवता वर्ते ठे, तेनां सुख तथा अनागत काल ते आवतो ठेहेडा रहित काल तेमां अनारां अनंतां देवतानां सुख, ए रीतें त्रणे कालना देवतानां सुख लइने जेलां करीयें, तेने वली अनंत गुणां करीयें, तेना पाठा अनंतावर्ग करीयें, वली अनंत वर्गित कीजें, ए रीते अतीतादि काल ठेडा रहित ठे तेह नां सर्वे देवतानां सुख वर्गवर्गित करीनें जेलां करीनें तोपण सिद्धशिष्यायें अजरामर स्थानके जावसिद्ध परमात्मा जे सुख जागवे ठे, तेना एक स मयमात्रना सुखने तोळे ते देवतानां सुख नावे, ए परमार्थ जाणवो,

११० शिष्य:—सिद्धना जीव चौदमे गुणठाणे कर्मथकी मूकाणा, तेवारें क्रिया रहित एटवे अक्रिय थया, तेम ठतां सातराज लोक उंचा लोकने अग्रजागें जइ रह्या ते क्रिया केम करी ?

गुरु:—जेम तुंबडाने कचराना पट लाग्या, एटवे तुंबडुं कचरे करी ले पाणुं थकुं जारी थइने पाणीमांहे हेतुं जइ बेसे, अने ज्यारें पाणीयें करी कचरो धोवाइ जाय, तेवारें तरत उंचुं चडी आवे, एटवे कचरो धोवाणो तेवारें आहुं अवहुं हेतुं जइ शके नहीं, एने उंचे आववानो स्वजाव ठे, माटे उंचुं आवे, तेम जीवने पण आठ कर्मरूप कचराना पट लाग्या ठे,

एटले कर्मरूप कचरे करी लेपाणो, तेवारें जारे थइने संसाररूप समुद्रमां हेवो वेवो, ते जेवारें कर्मरूप कचरो अनुभव ज्ञानरूप अमृत कुंफमां धो वाय, तेवारें तुंबडानी परें तरत जीव, उंचो जइ लोकने अग्रजागें बेसे, पण आडो अवलो नीचो जइ न शके, तुंबडानी परें तरत उंचो आवे.

१२९ शिष्यः—सिद्धना जीवने कर्म केम लागतां नथी ?

गुरुः—“ये चलंति ते वध्नंति” एटले जे जीवनो चलित स्वभाव ठे, ते ज जीव कमें करी बंधाय ठे, तेमां जे जीवनो शुचिचिंतवनरूप चलित स्वभाव ठे, ते जीव, पुण्यने दळीये करी बंधाय ठे, अने जे जीवनो अशुचिचिंतवनरूप चलित स्वभाव ठे, ते जीव, पापने दळीये करी बंधाय ठे, एटले शुचाशुच परिणामनी चीकाशें जीवने कर्मनी धूड चहोटे पण सिद्धजगवाने शुद्धध्यानरूप अग्रियें करी शुचाशुच परिणामनी चीकाश वाली नाखी, तेथी तेने चिकाशविना कर्मरूप धूल चोटी न शके.

१३० शिष्यः—सिद्धना सुखनो स्वाद केहवो हशे ?

गुरुः—जेम घृतनो स्वाद खाटो नही, खादो नही, मोलो नही, तीखो नही, तमतमो नही, कडवो नही, कषाथेलो नही, गढ्यो नही, मधुरो नही, ए रीतें घृतनो स्वाद तो जे खाय ते जाणे, पण महोडे कह्यो न जाय, अने ए घृत विना सर्वें वस्तु अटके एटले घृत विना सर्वें खोटुं जाणवुं. तेम सिद्धना सुखने पण जे जोगवे, तेज जाणे, परंतु केवली जगवानथी पण सुखें कहेवाय नहीं अने ए सुख विना सर्वें सुख खोटां, एटले व्यर्थ जाणवो.

१३१ शिष्यः—सिद्धि सिद्धि लोक करे ठे, ते सिद्धि किहां ठे ?

गुरुः—जेवारें आत्मानुं स्वरूप साधवा उठ्या, तेवारें साधु कहेवाणा, अने क्रियारूप साधनं करी जेवारें आत्मिक स्वरूप साधी रह्या एटले संपूर्ण कार्य नीपन्युं तेवारें सिद्ध कहेवाणा, माटे कार्यनी सिद्धि तो इहां थइ तेथी सिद्धि इहां कहीयें अने सिद्ध तो उंचा लोकने अग्रजागें ठे.

१३२ शिष्यः—मुक्ति मुक्ति लोक करे ठे, ते मुक्ति किहां ठे ?

गुरुः—(मुक्ति के०) गतिथकी जे मूकाणो तेने मुक्ति कहीयें. एटले चार गतिरूप संसारथकी जीव मूकाणो, तेने मुक्ति कहीयें. ते चार गतिरूप कर्मथकी तो जीव इहां मूकाय ठे, तेथी मुक्तिपद इहां जाणवुं अने उंचे सिद्धि जेवना हेपर तो जीवने रदेवानुं वेकाणुं ठे, कारण के जेवारें जीव,

कर्मथकी हलवो थाय, तेवारें उंचो जाय, तेमज कमें करीने जारे थाय तेवारें नीचो जाय, ए जीवनो स्वजावज ठे, पण मुक्तिपद तो इहां जाणवुं.

शिष्यः—इहांथी उंचो जतां जीव, सिद्धशिला उपरज रोकाइ रह्यो पण तेथी आगल उंचो केम गयो नहिं ?

गुरुः—आगल अलोकमां धर्मास्तिकायनुं सहाय नथी, तेथी सिद्ध शि लायेंज रोकाणो, पण उंचो गयो नही, ए परमार्थ जाणवो.

१३३ शिष्यः—मोक्ष मोक्ष लोक करे ठे, ते मोक्षपद किहां ठे ?

गुरुः—राग, द्वेष अने मोहनो क्षय कस्यो तेनुं नाम द्रव्यमोक्ष कहीयें, केम के राग, द्वेष अने मोहनो क्षय तो बारमे गुणठाणे कस्यो अने तेरमे गुणठाणे द्रव्यमोक्ष पद पामी चूक्यो माटे बारमे गुणठाणे मोहनीय कर्मरूप राग, द्वेष, अज्ञान खपावी, तेरमे गुणठाणे देशें ऊणी पूर्वकोटि सुधी विचरे ते द्रव्यमोक्ष जाणवो. अने सकलकर्मथकी मूकाणा ते जावमोक्ष जाण वो. अने ते सकलकर्मथकी जीव इहां मूकाय ठे माटे जावमोक्षपद तो इहां ठे अने मोक्षपुरी तो लोकने अंतें ठे ए परमार्थ जाणवो.

१३४ शिष्यः—सिद्धने मोक्षपुरीमां धर्म ठे के धर्म नथी ?

गुरुः—सिद्ध जगवान्, व्यवहार धर्मकरणीरूप जे ठे तेतो इहां मूकी गया, एटले व्यवहार धर्मकरणीरूपथकी तो सिद्ध रहित ठे, अने सत्तागतें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, अव्याबाध, अमूर्ति, अगुरुलघु, ए आदें अनंतो धर्म सिद्धने प्रगट थयो ठे, तेणें करी सिद्ध परमात्मा अनंतुं सुख जोगवे ठे, माटे निश्चयथकी सिद्ध, धर्म सहित ठे. अने व्यवहारकरणीथी रहित ठे ए परमार्थ ठे. ए रीतें नव तत्त्वना संबंधनुं स्वरूप, सामान्य प्रकारें जाणवुं.

१३५ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी द्दिस स्वजावमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—द्दिस स्वजाव पहेले गुणठाणे मिथ्यात्वी जीवने जाणवो. तेमां ठ तत्व पामीयें कारण के रजुसूत्र नयने मतें शुजाशुज विकाररूप चिंतनमां जेवारें कोइ जीवनुं मन प्रवर्ते, तेवारें शुजाशुज एटले पुण्य पाप उपाजें, एटले पुण्य पापमां जीव लेपाणो, तेने पहेले गुणठाणे द्दिस स्वजाव जाणवो. तेमां ठ तत्व पामीयें, एक तो स्वजाव ते जीवनो पोतानो जाणवो. माटे एक तो जीवतत्व अने (शुजाशुज के०) पुण्य, पाप, ए त्रण तत्व थयां, ते

पुण्य पापनां दक्षीयां ते चोथुं अजीवतत्त्व, ए आश्रवरूप जाणवां, ते पांचमुं आश्रव तत्त्व, तथा ए दक्षीये जीव बंधाय ठे, ते ठहुं बंध तत्त्व जाणवुं.
१३६ शिष्यः—ए नवतत्त्वमांथी अशुचप्रकारें द्दिस स्वज्ञावमांकेटलां तत्त्वपामीयें?

गुरुः—ऋजुसूत्र नयने मतें अशुच प्रकारें द्दिस स्वज्ञाव पहेले गुणगणे मिथ्यात्वी जीवने जाणवो, तेमां पांच तत्त्व पामीयें. एक तो स्वज्ञाव जीवतो ते जीवतत्त्व, वीजुं (अशुच केण) पाप तत्त्व, ए पापनां दक्षीयां ते व्रीजुं अजीव तत्त्व, अने ए दक्षीयां आश्रवरूप जाणवां, ते चोथुं आश्रव तत्त्व, अने ए दक्षीये जीव बंधाणो, एटले पांचमुं बंधतत्त्व जाणवुं.

१३७ शिष्यः—ए नवतत्त्वमांथी शुचप्रकारें द्दिस स्वज्ञावमांकेटलां तत्त्वपामीयें?

गुरुः—ऋजुसूत्र नयने मतें शुचप्रकारें द्दिस स्वज्ञाव पहेले गुणगणे मिथ्यात्वी जीवने जाणवो, तेमां पांच तत्त्व पामीयें, एक तो जीवतो स्वज्ञाव ते जीवतत्त्व, वीजुं शुचप्रकार ते पुण्य तत्त्व, व्रीजुं पुण्यनां दक्षीयां ते अजीवरूप ठे माटे अजीवतत्त्व, ए आश्रवरूप जाणवां माटे चोथुं आश्रव तत्त्व अने ए दक्षीये जीव बंधाणो, ते पांचमुं बंधतत्त्व जाणवुं.

१३८ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी अद्दिस स्वज्ञावमां केटलां तत्त्व पामीयें?

गुरुः—जे प्राणी अंतरंग पुण्य पापरूप कर्मनी वांठाथकी रहित एक मोक्षपदनी वांठाथें अनेक प्रकारें क्रिया करे ठे, ते जीवतो अद्दिस स्वज्ञाव जाणवो, ते शब्दनयने मतें तो चोथे गुणगणे समकेतीथी मांकी पांचमे गुणगणे देशविरति जीव तथा ठे, सातमे गुणगणे साधु मुनिराज अथ वा समनिरुद्धनयें यावत् ठदस्थ अवस्था ज्यां सुधी केवलज्ञान नथी उपन्युं, तिद्दां सुधी अद्दिस स्वज्ञाव जाणवो. तेमां आठ तत्त्व पामीयें, एक तो जीव तथा सत्तायें पुण्यपापनां दक्षीयां, अजीवरूप अनांतां गद्यां ठे, ते आश्रवरूप जाणवां. एटले पांच तत्त्व अथां, अने ए दक्षीयें जीव बंधाणो ठे, ते ठहुं बंध तत्त्व, तथा जीव अजीवरूप म्दसना परमज्ञानी वेंचण करी जीव स्वज्ञावमां रहे, एटली वार संवर कहीयें. अने संवरमां जीव रहे, एटली वार समयें समयें अनंतां कर्मांनी तिजेण अने. ए रीतें शब्द अने समनिरुद्ध नयने मतें अद्दिस स्वज्ञावमां आठ तत्त्व जाणवां. अने एकला समनिरुद्ध नयने मतें तो केवली जगवानने अद्दिस स्वज्ञाव कहीयें. तेमां आगळ कद्यां ते रीतें नवे तत्त्व पामीयें, तथा

एवंभूत नयने मते सिद्धजगवान् लोकने अंतें विराजमान ठे, तेने अद्विप्त स्वप्नाव कहीयें. तेमां आगल कहां, ते रीतें त्रण तत्त्व पामीयें.

१३ए शिष्यः—द्रव्यथकी षडावश्यकतुं स्वरूप ते शुं कहीयें ?

गुरुः—कुलाचारें अंतरंग सत्तागतना उपयोग विना पुण्यरूप फलनी वांठारूप परिणामें १ सामायिक, २ चउविसडो, ३ वंदनक, ४ पडिक्रम एं, ५ काउस्सग अने ६ पञ्चकाण, ए षडावश्यक रूप जे करणी कर वी, ते द्रव्यथकी षट् आवश्यकरूप करणी जाणवी.

१४० शिष्यः—नव तत्त्वमांथी द्रव्य सामायिकमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ऋजुसूत्रनयने मते द्रव्य सामायिक पहेले गणठाणे जीवने क हीयें. तेमां पांच तत्त्व पामीयें. जे कारण मन, वचन, कायायें करी एक चित्तें वैराग्य जावना सहित सामायिक करे ठे, पण अंतरंग सत्तागतना उपयोगमां वर्त्ततो नथी अने पुण्यरूप फलनी वांठायें तेना परिणाम वर्त्तें ठे माटे ए जीवने द्रव्य सामायिक, पुण्यरूप शुभ कर्मतुं हेतु जाणवुं. ते मां पांच तत्त्व पामीयें, एक तो तेनो जीव, ते जीवतत्त्व, बीजुं शुभ कर्म ते पुण्य तत्त्व, त्रीजुं पुण्यनां दळीयां ते अजीवतत्त्व, चोथुं ए आश्रवरूप ठे ते आश्रवतत्त्व, पांचमुं ए दळीये जीव बंधाणो, ते बंधतत्त्व, ए रीतें नव तत्त्वमांथी द्रव्य सामायिकमां पांच तत्त्व पामीयें.

१४१ शिष्यः—ए नवतत्त्वमांथी द्रव्य चउविसडामां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—द्रव्य चउविसडामां आठ तत्त्व पामीयें, जे कारणें आवते कालें चोवीश जिन थाने, ते श्रीवीतराग देवें कह्या ठे, तेने जव शरीर आश्रयी द्रव्य चउविसडो कहियें, एटले कोइ जीव समकित जावें वर्त्तता हशे, अथवा कोइ देशविरति अथवा सर्वविरति मुनिराज पणे वर्त्तता हशे, परं तु हमणां तेमनी सेवा, स्तुति, जक्ति, पूजा प्रमुख जे करीयें, ते नैगमन यने मते वर्त्तमानें पोताना जावशुं आवता कालना द्रव्यनी गवेषणा जा णवी, माटे तेमां समकेति जीवनी येरें आठ तत्त्व कहीयें.

१४२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी द्रव्यवंदनमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—व्यवहार नयने मते जो वीरा शालवीनी परें वंदना करे, तो एक तत्त्व पामीयें अने ऋजुसूत्र नयने मयें द्रव्यवंदन करे, तो पांच तत्त्व पा मीयें, कारण के वंदन एटले कृति कर्मादि गुरुवंदन जाणवुं, तिहां जे वीरा

शालवीयें वंदना करी, तेने अंतरमां पुण्य पाप रूप फलनी वांछा न हती, एक निःकेवल कृष्ण वासुदेवनुं मन रीजववा सारु वंदना करी हती, माटे तेणें पुण्यरूप फल उपाज्युं नथी तेशी तेमां तो एक जीवतत्व पामीयें. तथा व्यवहारनयने मतें अंतरंग राग सहित जक्ति सहित विधिपूर्वक वंदना करे ठे, पण अंतरंग सत्तागतना जाणपणा विना तथा साध्य साधन रूप वहेंचण विना कुलाचारें अंतरंग पुण्य रूप इंद्रिय सुखनी वांछायें वांछे ठे, तेमां पांच तत्व पामीयें. एक तो तेनो जीव अने ऋजुसूत्र नयने मतें द्रव्य वंदन करतां शुच फल उपाज्युं ते, बीजुं (शुच के०) पुण्य, त्रीजुं पुण्यानां दलीयां ते अजीव, ए आश्रव रूप जाणवां. ते चोथुं आश्रव तथा ए दलीये जीव बंधाणो, ते पांचमो बंध. ए रीतें द्रव्यवंदनमां पांच तत्व ठे.

१४३ शिष्यः—ए नवतत्त्वमांथी द्रव्य पडिक्रमणांमां केटलां तत्व पामीयें?

गुरुः—ए द्रव्य पडिक्रमणनामें आवश्यक जे ठे, ते ऋजुसूत्र नयने मतें पहेले गुणठाणे कहीयें, तेमां पांच तत्व पामीयें. एटले जे पापथकी निवर्त्तवुं तेनु नाम पडिक्रमणुं ठे, तिहां मन, वचन अने कायायें एकाप्र चित्तें पडिक्रमणुं करे ठे, पण अंतरंग निश्चयनय सत्तागतना उपयोग विना तथा साध्य साधन रूप कार्य कारणनी खबर विना, कोइ जीव, पापथकी निवर्त्तें नहीं, माटे द्रव्यपडिक्रमणुं ते शुच फलादि पुण्यहेतु जाणवुं तेमां आगल कद्यां ते रीतें पांच तत्व जाणवां.

१४४ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी द्रव्यथकी काउस्सगरूप आवश्यक मां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—ऋजुसूत्र नयने मतें द्रव्यकाउस्सग पहेले गुणठाणे मिथ्यात्व द्वायें होय, कारण के जीव अजीव रूप अंतरंग सत्तानी प्रतीति कस्या विना कनिष्पणुं आदरी अनेक कंश, मशक, वाघ, सिंह, रीठ, शीयाल, सर्प आदिक निर्यंच जीवना तथा मनुष्यना अने देवताना करेला उपसर्ग मदन करे ठे, आत्मज्ञान विना एक चित्तें धैर्यपणुं आदरीने काउस्सग करे ठे. तथापि ते कष्टरूप शुचफलनुं हेतु जाणवुं. पण अंतरंग जासनविना आत्मप्रदेशवर्की कर्म आवरण टले नही, मात्र शुच एटले पुण्यफल उपाजें माटे तेमां जीव, पुण्य, अजीव, आश्रव अने बंध, ए पांच तत्व पामीयें.

१४५ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी द्रव्य पञ्चस्कारणरूप आवश्यकमां केट
खां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—द्रव्यपञ्चस्कारण, पहेले गुणगणे मिथ्यात्व दशायें जाणीयें: कारण
के अंतरंग इहानो रोध कख्या विना जे जीव, व्रत पञ्चस्कारण करे, ते, ते अ
व्रती जाणवां. एटले ए सर्वे पूर्वजवना अंतरायकर्मनो उदय जाणवो. माटे
ए कष्टरूप, पुण्यफल हेतु जाणवुं. पण अंतरंग सत्तागतें निर्झरानुं हेतु
नहीं माटे एमां पण आगल कख्यां ते रीतें पांच तत्त्व जाणवां.

हवे द्रव्यथकी ए ठ आवश्यक रूप करणी करवी, तेनुं फल विशेष
रीतें नयनी युक्तियें करी थोडामां समजावे ठे.

तिहां व्यवहारनयने मतें उपरथकी षडावश्यकरूप करणी विधि
सहित जल्दी रीतें करे ठे, अने ऋजुसूत्र नयने मतें अंतरंग परिणाम लोक
देखाडवारूप यशःकीर्त्तिनी वांठायें अथवा कोशुं मन रीजववा रूप जळुं
मनाववानी वांठायें करे, ते जीवनी महेनत वीरा शालवीनी परें वृथा जा
णवी. एटले ऋजुसूत्रनयने मतें जेना अंतरंग परिणाम वीरा शालवीनी परें
कोशुं मन मनाववादिक फलनी वांठारूप ठे, तेज फल प्रत्यें ते ते वखतें
पामे, परंतु एवो परिणाम, परजवें पुण्यरूप फल हेतु पण नहीं जाणवो.

वली कोश जीव, व्यवहार नयने मतें उपरथकी षडावश्यकरूप करणी
विधि सहित जल्दी करे ठे, अने ऋजुसूत्र नयने मतें लोकने ठगवारूप धन
हरवा रूप अथवा घात दगो करवारूप उदाश राजाने मारनारानी परें
अंतरंग परिणाम वत्तें ठे. अथवा ह्यादिकने पोतानी चतुराश देखाडी विष
यसुखना परिणाम वत्तें ठे, एटले व्यवहारनयने मतें क्रिया तो घणी रूडी
करे ठे, पण ऋजुसूत्र नयने मतें अंतरंग परिणाम माठा वत्तें ठे, ते माटे
ते जीव, पापकर्मरूप फल प्रत्यें उपाजें ठे, ए परमार्थ जाणवो.

वली कोश जीव, व्यवहार नयने मतें उपरथकी षडावश्यक रूप करणी
विधिसहित जल्दी रीतें करे ठे, अने ऋजुसूत्र नयने मतें अंतरंग वैराग्य
सहित उदासीपरिणामें नरक निगोदना दुःखथकी वीहितो सुखनी साखचें
परजवें पुण्यरूप फलनी वांठारूप परिणाम वत्तें ठे, ते जीव, ऋजुसूत्रनय
ने मतें शुच फल रूप पुण्यनां दलियां उपाजें ठे, अने कर्मरूप निर्झरा तो
जेवारें शब्द नयने मतें करणी करे, तेवारें थाय, तेनुं स्वरूप आगल देखा

डशुं माटे विवेकी पुरुषें सर्व ठेकाणे नयनुं स्वरूप विचारी चित्तमां समज
ण उतारी पठी काम करवुं.

१४६ शिष्यः— जावथकी षडावश्यकनुं स्वरूप शुं कहीयें ?

गुरुः—शब्द नयने मतें अंतरंग निश्चय नयें सत्तागतना उपयोगरूप प
रिणामें साध्य साधनरूप उलखाण सहित आ जवनी तथा परजवनी
वांठा रहित तथा यशःकीर्त्ति, मान, शोभा अने पूजानी वांठा तजीने एक
पोताना आत्माने निरावरण करवारूप परिणामें सामायिक, चउविसठो,
वंदनक, पडिक्कमणुं, काउस्सग अने पच्चस्काण रूप करणी करे, तेने
जावथकी षडावश्यकरूप करणी जाणवी.

१४७ शिष्यः—जावथकी षडावश्यक रूप करणी करवी, तेनो हेतु शुं कहीयें ?

गुरुः—प्रथम सामायिक लेवुं, पठी षडावश्यकरूप करणी करवी, जेस म
लीन दुगडा उपर रंग लगाडवाथी ते दुगडानी किमत घटे, माटे मेल
टाळी दुगडुं उजळुं करी पठी रंग चडावे, तो तेनी किम्मत घणी वधे,
तेम इहां जीव पण संसारमां आर्त्त, रौडरूप परिणामें करी तथा गम
नागमन करतां अनेक प्रकारें जीवनी विराधना रूप पापें करी मलीन थयो,
माटे ते पाप आलोया विना मलीन पणे व्रतरूप रंग लगावे, तो ते न
शोभे, ते कारणें प्रथम इरियावहि पडिक्कमवी, एटळे एकेंडी, वेंडी, तें
डी, चौरिंडी अने पंचेंडी प्रमुख जीवना (५६३) जेद थाय. ते आषी
रीतेंः—एकेंडियना वावीश, वेंडियना वे, तेंडियना वे, चौरिंडियना वे, मली
अष्टावीश थया, तथा पंचेंडियमां नारकीना सात पर्यासा अने सात अप
र्यासा मदी चौद जेद, तथा देवतोना नवाणुं पर्यासा अने नवाणुं अपर्या
सा. मली एकशोने अष्टाणुं जेद, तथा तिर्यचना वीश जेद, तथा मनुष्य
ना एक शो एक पर्यासा, एकशो एक अपर्यासा अने एकशो एक संमूर्तिम,
मली त्रणो ने त्रण जेद, ए सर्व एकठा करीयें तेवारें (५६३) थाय. तेने
अग्निह्या वत्तिया प्रमुख दश बोळें करी दश गुणा करीयें, तेवारें (५६३०)
थाय. तेमां केटला एक रागें करी ह्ण्णा, केटला एक छेपें करी ह्ण्णा एटळे
राग छेपें वसणा करतां (११२६०) थाय. ते वली मन, वचन, अने काया
पें करी त्रिमुला करतां (३३७७०) थाय. वली करतां, करावतां अने अ
ह्मोदतां पाप साग्युं तेथी त्रण गुणा करतां (१०१३४०) जेद थाय. ते

पढी अतीत अनागत अने वर्त्तमान कालें जे पाप लाग्युं होय माटे त्रण गुणा करतां (३०४०२०) थाय, ते अरिहंतनी साखें, सिद्धनी साखें, साधुनी साखें, देवनी साखें, गुरुनी साखें, अने पोताना आत्मानी साखें, ए रीतें ठनी साखें मिष्ठामिष्टुक्कड देतां थकां ठ गुणा करीयें तेवारें (१०२४१ २०) थाय. ए रीतें मिष्ठामिष्टुक्कड देतां थकां ऐसंता मुनिने केवल ज्ञान उपन्युं. ते माटे मन शुद्धं प्रथम इरियावहि पडिक्रमवी तेनो अर्थ विचारी (१०२४१ २०) मिष्ठामिष्टुक्कड देवा. पढी तेनी आलोयणानो एक लोगस्सनो काजस्सग कर वो उपर एक लोगस्स प्रगट कहेवो. ए रीतें पापथकी रहित शुद्ध निर्मल थइ पढी “करेमि जंतें” उच्चरवुं, ते व्रतरूप रंग लगडवो, पण पापरूप मल टाढ्या विना व्रतरूप रंग शोजे नहीं, ते कारणें प्रथम इरियावहि पडि क्रमवी, पढी चार थोइयें देव वांदवा, पढी गुरुनो आदेश मागी पडिक्रम गुं ठाववुं. तेवार पढी षडावश्यकरूप करणी करवी, ते आवी रीतें:-

तिहां प्रथम सामायिक आवश्यक करवुं, तेनो अर्थ कहे ठे. (सम के०) समता तेनो (आय के०) लाज तेने सामायिक कहीयें. ते अवश्य करवुं. माटे ते आवश्यक कहीयें. ए पढी ते समता जे परमसुखना निधान तेनो लाज श्रीऋषजादिक चोवीश तीर्थकरने थयो, तेथी समताना विधान, पर मोपकारी, जगत् गुरु, जगन्नयना जीवने उपकारना करनार, परम सुखना दातार, एवा चोवीश तीर्थकरनुं ध्यान करीयें. जे थकी संसारनो पार पा मीयें ए बीजुं चउविसठानामें आवश्यक. तेवार पढी ए चोवीश तीर्थकरना ठे लखावनार गुर्वादिक श्रीआचार्य जगवान् ढत्रीश गुणें करी विराजमान, परमो पकारी तेनो उपकार संजारीने विधिपूर्वक हर्ष सहित तेने वंदना करवी, ते त्रीजुं वंदन आवश्यक जाणवुं. ए वंदण शा वास्ते करवुं? ते कहे ठे. आगल पाप आलोचीने पापथकी निवर्त्तवुं ठे माटे विनतिपणे नर्माश गुण विना कोइ जीव पापथकी निवृत्ति शके नहीं, तेमाटे वंदना करवी. पढी गुर्वादिक पासेंथी प्रतिक्रमण नामक आवश्यक करवानो आदेश मागवो, एटले पाप थी निवृत्तवुं, तेनुं नाम पडिक्रमगुं ठे. ते पापथकी निवर्त्तवाने अर्थ साधु तो आदेश मागी पगाम सवाय कही पाप आलोवे, अने श्रावक वार व्रतरूप अतिचार आलोवे. ए रीतें पाप आलोची पापथकी रहित शुद्ध निर्मल जाज ननी परें थयो थको वली कांइ थोडुंएक पण पाप रखुं होय, तेमाटे ‘श्राय

रिय उवधाय' प्रमुख त्रणे गाथा कही सर्व जीवने खमावे, ए चोथुं आवश्यक.

ए रीतें पापथकी रहित जेवारें आत्मरूप जाजन खाली थाय, तेवारें तेने ज्ञान, दर्शन अने चारित्ररूप गुणें करी पूरवुं (जरवुं) जोश्यें, तेने माटे पांचमुं आवश्यक करवुं. ते आवी रीतें:-प्रथम चारित्रनुं आराधन करवा सारु 'करेमि जंतें' कही पठी वे लोगस्सनो काउस्सग करवो. पठी उपर एक लोगस्स प्रगट कहेवो, एटले ए चारित्रनुं आराधन जाणवुं पठी दर्शननुं आराधन करवा निमित्तें "सबलोए अरिहंत चेश्याणं" एटले सर्व लोकने विपे जेटलां श्रीअरिहंतनां चैत्य ठे, तेने वांदवा पूजवा रूप कही, एक लो गस्सनो काउस्सग करवो, एटले ए दर्शननुं आराधन जाणवुं. पठी ज्ञाननुं आराधन करवा निमित्तें "पुस्करवर दीवड्डे" कही एक लोगस्सनो काउस्सग करवो, एटले ए ज्ञाननुं आराधन जाणवुं. ए रीतें ज्ञान, दर्शन अने चारित्रना आराधनरूप काउस्सग करी ज्ञान, दर्शन अने चारित्ररूप गुणें करी आत्मरूप जाजनने पूरवुं. कारण के आगल पापनी आलोचना करी पापथकी रहित आत्मरूप जाजन खाली थयुं ठे, माटे इहां पांचमा आवश्यकमां ज्ञान, दर्शन अने चारित्ररूप गुणें करी पूरवुं, तथापि महोटा उत्तम वली यानुं सहाय होय तो निर्विघ्न पणे आराधन थाय, तेमाटे सहाय निमित्तें श्रुतदेवतानुं आराधन करवुं. पठी जे क्षेत्रें देवता आसख्या ठे, ते क्षेत्र देवनुं आराधन करवुं, एटले महोटानी सहायथकी ज्ञान, दर्शन, चारित्रनुं साधन निर्विघ्नपणे थाय. ए रीतें ए पांचमुं काउस्सग नामा आवश्यक जाणवुं.

ए रीतें आत्मरूप जाजन ते ज्ञान, दर्शन अने चारित्ररूप गुणें करी संपूर्ण जराणुं एटले हवे फरी पाहुं पाप करवाना नियम करवा सारु ठठा आवश्यकने विपे चार प्रकारना आहाररूप पाप करवाना पञ्चस्काण क रवां माटे नोकारसी, पोरिसी, एकासणुं, आयंवल, उपवास, ठठ, अछम, थछाइ, मासखमण, पासखमण, ठम्मासी, वरसी अथवा जावजीव, इत्या दिक पोतानी शक्ति माफक चार आहाररूप पाप करवानां पञ्चस्काण क रवां. ए ठठुं पञ्चस्काण आवश्यक जाणवुं. ए रीतें ए ठ आवश्यकनुं स्वरूप जाली विवेकी पुण्य, दृढयमां धारी नित्य प्रत्ये उजय टंक करतां थकां जीव जिवनकाळमां कर्म रहित अइ सिद्धिपद वरे, पामे. एम, शब्द नयने मतें ए

माप्य प्रकारें आवश्यककी पडावश्यकनुं स्वरूप जाणवुं.

१४७ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ज्ञावसामायिकमां केटलां तत्त्व पामीयें?

गुरुः—श्रीजगवतीसूत्रमां “आया खलु सामाश्या” ए आलावे सामायिकनो अर्थ कस्यो ठे, एटले जेटली वार खस्वरूपमां रहेवुं, तेटली वार सामायिकनो लाज जाणवो, माटे शब्दनयने मतें चोथा गुणगणावाला सम केती, अने पांचमा गुणगणावाला देशविरतिश्रावक, तथा षष्ठा सातमा गुणगणावाला मुनिराजने सामायिक जाणवुं, तेमां आठ तत्त्व पामीयें, अने सम जिरूढनयने मतें केवली जगवान्ने सामायिक जाणवुं. तेमां नव तत्त्व पामीयें. तथा एवंजूनतनयने मतें सिरूजगवानने सामायिक जाणवुं. तेमां त्रण तत्त्व पामीयें. ए रीतें ज्ञाव सामायिकना स्वरूपनो परमार्थ जाणवो.

१४८ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ज्ञाव चउविसहामां केटलां तत्त्व पामीयें?

गुरुः—एवंजूनत नयने मतें हमणां ऋषजादि चोवीश तीर्थंकर ज्ञावनिक्षेपे सिरूद्धेत्रमां विराजमान वर्त्ते ठे, तेने ज्ञाव चउविसहो कहीयें. एटले हमणां एमनी सेवा, जक्ति, स्तुति, पूजादि करीयें ठैयें. ते नैगम नयने मतें वर्त्तमाने पोताना ज्ञावथी गया कालना ज्ञावनी गवेषणा जाणवी, ए सिरूमां वर्त्ते ठे, माटे तेमां आगल कह्यां, ते रीतें त्रण तत्त्व पामीयें.

१५० शिष्यः—ए नवतत्त्वमांथी ज्ञाववंदन आवश्यकमां केटलांतत्त्वपामीयें?

गुरुः—श्रीवीतरागनी आज्ञा पादनार, शुरुमार्गना प्ररूपक, आत्म तत्त्वना रसीया, मोक्षाजिलाषीपणे पोताना आत्मानुं साधन करे ठे, एवा गुरु आदिक आचार्य जगवान्ने कृति कर्मादिक एटले द्वादशावर्त्त वंदन, विधिपूर्वक करवुं, परंतु आ ज्ञव तथा परज्ञवनी वांठा रहित, मान अहंकार गाली, यशःकीर्त्तिनी वांठा रहित, एक पोताना आत्माने कर्मथकी मूकाववा निमित्तें करे, तो महोटे लाज उपार्जन करे ॥ उक्तं च ॥ तिष्ठयरत्तं सम्मत्तं, खाई यं सत्तमी तईयाए ॥ वंदणएण विहीणा, वरुं च दसारसीहेणं ॥ १ ॥ अस्यार्थः—श्रीकृष्ण वासुदेवें विधिपूर्वक एक साध्ये अंतरंग राग सहित वंदणा करतां तीर्थंकर गोत्र उपार्ज्य अने द्वायिक सम्यक्त्व पाम्या, तथा सातमी नरकनां दलियां एकठां मेलव्या हतां, तेमांथी चार नरकनां काप्यां, माटे ज्ञाव वंदन आवश्यकमां आगल कह्यां, ते रीतें आठ तत्त्व जाणवां.

१५१ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ज्ञावपडिकमणामां केटलां तत्त्व पामीयें?

गुरुः—शब्दनयने मतें पापथकी निवर्त्तवुं तेने पडिकमणुं कहीयें तिहां

जे दिवसनुं पाप लाग्युं होय ते सांजने पडिक्कमणे निवत्तें, अने रात्रिनुं पाप लाग्युं होय, ते प्रजातने पडिक्कमणे निवत्तें. तथा पन्नर दिवसनुं पाप लाग्युं होय, ते पाखीने पडिक्कमणे निवत्तें, अने चार मासनुं पाप लाग्युं होय, तें चोमासीने पडिक्कमणे निवत्तें, तथा वार मासनुं पाप लाग्युं होय, ते संवत्सरिने पडिक्कमणे निवत्तें, ए रीतें पडिक्कमणुं करवाथकी पाप निवत्तें खरुं परंतु ते कोने निवत्तें? के जे अंतरंग सत्तागतें वस्तु धर्म रह्यो ठे, ते निरावरण पणे प्रगट करवाने अर्थें पडिक्कएणुं करे ठे, ते प्राणी पाप थकी निवत्तें ठे, परंतु सत्तागतना जाणपणा विना पाप टले नही, माटे ए वी आलोचना सहित जे पडिक्कमणुं करवुं, तेतो देशविरति पांचमा गुण ठाणा वाळा श्रावक तथा ठठे सातमे गुणठाणे वर्तनारा साधु मुनिराज तेने उदयें आव्युं ठे, माटे तेमां पूर्वे कहर्यां, ते रीतें आठ तत्व पामीयें.

१५२ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी जावकाउस्सग्गमां केटळां तत्व पामीयें?

गुरुः—जे शब्द नयने मतें जाणपणा सहित बाह्यथकी तो मेरुनी परें निश्चल पणे यद्दने दुष्ट जीव जे वाघ सिंह, शीयाल, रीछ अने सर्पादिक तिर्यचना करेला उपसर्ग तथा देवता अने मनुष्यना कख्या उपसर्ग जेवा के ठेदन, जेदन, ताटन, तर्जनादिक तथा क्रूर वचन, कडवां वचन रूप अनेक प्रकारना उपसर्ग थाय, पण समता रसें जीनो एयो जे मुनिराज, ते निश्चलित पणे वत्तें, परंतु कोप करे नहिं, अने अंतरंगथकी तो सत्तागतना उपयोगमां न्यपरनी वेंचण करतो थको अज्ञोल पणे वत्तें, ते प्राणी महोटी निर्झारा प्रत्यें करे, तेने जावकाउस्सग्ग कहीयें. तेमां आठ तत्व पामीयें.

१५३ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी जावपच्चस्काण आवश्यकमां केटळां तत्व?

गुरुः—शब्द नयने मतें छानिगेध पणे जाव पच्चस्काण जे जे वस्तुनां प्राणी करे ठे, ते प्राणी मोक्ष नगरने नजीक करे ठे, एटले आ चवने विषे यशःकीर्ति. मान, शोना, तथा इंद्रियमुग्घनी लालचथकी रहित निरिच्छ पणे नेमज परनवनी छ्वा जे देवता, चक्रवर्ती, वामुदेव, तथा इंद्रादिकनी बुद्धिनी वांठा थकी रहित थको एक पोनाना आत्माने निरावराण करवाण जे जे पच्चस्काण करे ठे, ते तो सर्व जावपच्चस्काण आवाचक कहीयें. तेमां आठ तत्व पामीयें. ते रीतें आठ तत्व पामीयें. ए रीतें ना चवत्त पटावश्यकनुं मनस्य संक्षेपमात्रें करी कथ्युं.

१५४ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी रमणिक तत्त्व केटलां पामीयें ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमां अनेक नयनी अपेक्षायें करी एक जीव तत्त्व रमणिक जाणवुं. केम के नैगम अने संग्रह ए वे नयने मत्तें पारिणामिक ज्ञावें करी सर्व जीव पोताना स्वरूपमां रमणिक जाणवा. अने व्यवहार नयें करी तो जीवने अजीवरूप पुजलमां रमणिक पाणुं जाणवुं. तथा ऋजुसूत्र नयने मत्तें जीवने शुजाशुज रूप परिणामें करी पुण्य अने पाप रूप आश्रवमां रमणिक पाणुं जाणवुं. तथा शब्द अने समञ्जिरूढ ए वे नयने मत्तें तो जीवने संवर अने निर्झरा ए वे तत्त्वमां रमणिक पाणुं जाणवुं. तथा एकला समञ्जिरूढ नयने मत्तें जेवारें जीवें घातीकर्म खपावी, ज्ञानादि अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी प्रगट करी, तेवारें एने ड्रव्यमोक्ष पदमां रमणिकपाणुं जाणवुं, ए रीतें ए नव तत्त्वमां रमणिक पाणुं एक जीव तत्त्वने जाणवुं, पण जे प्राणीने इष्टदेव तथा गुरुकृपाथकी नय निक्षेपानी कला प्राप्त थइ हशे, ते प्राणीने ए प्रश्नो नो अर्थ विचारतां घणी रीज उपजशे माटे नय, निक्षेपा, ड्रव्य, ज्ञाव, निश्चय व्यवहारनुं जाण पाणुं विशेष रीतें करवुं, एटले समकेत रूप रत्ननी प्रतीति थाय.

१५५ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी अशुज प्रकारें रमणिकस्वजावमांकेटलांतत्त्व?

गुरुः—ऋजुसूत्र नयने मत्तें अशुज प्रकारें रमणिक स्वजावमां पांच तत्त्व पामीयें, ते कहे ठेः—एक तो रमणिक ते जीव अने अशुज ते पाप तथा ए पापनां दलीयां अजीव ते आश्रवजूत जाणवां. अने ए दलीये जीव वंधाय ठे माटे जीव, पाप, अजीव, आश्रव अने वंध, ए पांच तत्त्व पामीयें.

१५६ शिष्यः—एनवतत्त्वमांथी शुज प्रकारें रमणिकस्वजावमांकेटलांतत्त्वठे ?

गुरुः—ऋजुसूत्र नयने मत्तें पहेले गुणठाणे शुज प्रकारें रमणिक स्वजाव होय तेमां पांच तत्त्व पामीयें, एक तो (रमणिक के०) जीव पोतें, वीजुं (शुज के०) पुण्य, ते पुण्यनां दलीयां अजीव ठे, ते आश्रवरूप जाणवां, अने ए दलीये जीव वंधाय ठे, ते वंध तत्त्व थयुं, एटले जीव, पुण्य, अजीव, आश्रव अने वंध, ए पांच तत्त्व थयां.

१५७ शिष्यः—एनवतत्त्वमांथीशुरू प्रकारें रमणिकस्वजावमांकेटलांतत्त्वपामीयें

गुरुः—शब्द अने समञ्जिरूढ नयने मत्तें चोथा गुणठाणाथी यावत् ते रमा अने चौदसा गुणठाणा पर्यंत जीवने शुरू प्रकारें रमणिक दशा जा

एवी, तेमां आठ तत्त्व अने नव तत्त्व पामीयें. एटले (शुभ्र के०) पुण्य नां दळीयां अने (अशुभ्र के०) पापनां दळीयां आगल ए वे प्रश्न कक्षा ठे, तेमांहे जीव लेपाणो ठे, अर्थात् ए शुभाशुभ्र कर्मरूप कचरामां जीव लेपाणो ठे, पण तिहां थकी शुद्धिना करनारा एक संवर अने वीजुं निर्झरा ए वे तत्त्व जाणवां. एटले शब्द अने समजिरूढ नयने मतें समकेत जा वें चोथा गुणगणायकी मांकीने यावत् अगीयारमा वारमा गुणगणा ल गें जे जीव वत्तें ठे, तेमां पूर्वे कक्षां, ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें. एक तो जीव अने सत्तायें पुण्य पापनां दळीयां अजीव रूप अनंतां रखां ठे, ते आश्रव रूप जाणवां तथा ए दळीये जीव बंधाणो ठे, एटले जीव, पुण्य, पाप, अजीव, आश्रव अने बंध, ए ठ तत्त्व थयां तथा जीव अजीव रूप स्वपरनी वेंचण करी जिहांसुधी जीव, स्वरूपमां रहे, तिहां सुधी संवर क हीयें. अने जिहां सुधी संवरमां जीव रहे, तिहां सुधी समय समय अनं ती निर्झरा करे, ए रीतें पूर्वोक्त ठ तत्त्वमां संवर तथा निर्झरा जेळीयें, ते यारें आठ तत्त्व पामीयें:- अने समजिरूढ नयने मतें तेरमे गुणगणें शु रु प्रकारें रमणिकपणुं केवळी जगवानने जाणवुं. तेमां पूर्वोक्त आठ त त्वनी साथें केवलज्ञान पाम्या, एटले ड्रव्य मोहा पद पाम्या तेनवमुं कहेवुं.

१५८ शिष्य:-ए नव तत्त्वमांथी निश्चयथकी रमणिक स्वभावमां के टळां तत्त्व पामीयें ?

गुरु:-एवंजुत नयने मतें निश्चयथकी रमणिक स्वभावमां त्रण तत्त्व पामीयें. केम के निश्चयथकी रमणिकपणुं तो मोहा पुरीमां सिरूना जीव ने ठे. तेमां तो एक सिरूनो जीव ते जीव तत्त्व अने यथाख्यात चारित्र रूप गुणें करी पोताना स्वरूपमां रमण करे ठे ते वीजुं संवर तत्त्व जा एवुं. नया वीजुं ज्ञानमोहा पद पाम्या ठे, ते वीजुं मोहातत्त्व जाणवुं.

१५९ शिष्य:- ए नव तत्त्वमांथी ध्यातारूप केटळां तत्त्व पामीयें ?

गुरु:- ए नव तत्त्वमांथी ध्याता रूप एक जीव तत्त्व जाणवुं, कारण के कोड जीव कजुसुत्र नयने मतें क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय, कपाय, सिडा, विकथा, हाम्य, विनाद निंदा अने इग्यां, ए आदें अनेक प्रकारें थ शुभ्र परिणामें करी नगक अने निर्यत्र गतिनां सुखने ध्यात्रे ठे, अने वळी कस्यक जीव तो कजुसुत्र नयने मतें दान, जीस, तप, ज्ञाना, पूजा, प्र

जावना, संघनक्ति, गुरुनक्ति, उपकार बुद्धि, ए आदि देइने अनेक प्रकारें शुच परिणामें करी मनुष्यगति तथा देवगतिना सुखने ध्यावे ठे, तथा कोइए कजीव तो वली समजिरूढ नयने मतें शुरु परिणामें करी मोक्ष गतिने ध्यावे ठे. ए रीतें नव तत्त्वमांथी ध्यातारूप एक जीव तत्त्व जाणवुं.

१६० शिष्यः—एनवतत्त्वमांथी अशुच प्रकारें ध्यातारूपमांकेटलांतत्त्वपामीयें ?

गुरुः—अशुच प्रकारें ध्याता रूपमां पांच तत्त्व जाणवां. तेमां एक तो (ध्याता के०) जीव, बीजुं (अशुच के०) पाप, त्रीजुं पापनां दक्षियां ते अजीव ठे, चोथुं ए आश्रव रूप जाणवुं, अने पांचमुं बंध तत्त्व जाणवुं.

१६१ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी शुच प्रकारें ध्यातारूपमांकेटलांतत्त्वपामीयें ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी शुच प्रकारें ध्यातारूपमां पांच तत्त्व पामीयें. एक तो ध्यातारूप जीवतत्त्व अने बीजुं (शुच के०) पुण्य ते पुण्यनां दक्षियां अजीव ठे, ते आश्रवरूप जाणवां, अने ए दक्षीये जीव बंधाणो ठे, एटले जीव, पुण्य, अजीव आश्रव अने बंध, ए पांच तत्त्व पामीयें.

१६२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी शुरु प्रकारें ध्यातारूपमांकेटलां तत्त्व ठे ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी शुरु प्रकारें ध्याता रूपमां आठ तत्त्व तथा नव तत्त्व पामीयें. कारण के शुचाशुच विकाररूप जे कर्म, तिहांथकी जीवने शुरुनां करनार, एक संवर अने बीजुं निर्झारा, ए वे तत्त्व ठे, केम के शब्द अने समजिरूढ नयने मतें चोथा गुणगणानी मांकीने यावत् बद्धस्थ अ वस्था लगें जीवने शुरु प्रकारें ध्याता रूपमां पूर्वे कहां, ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें, अने समजिरूढ नयने मतें तेरमे गुणगणे शुरु प्रकारें ध्याता के वली जगवान् कहीयें तेमां आगल कहां, ते रीतें नव तत्त्व पामीयें.

१६३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी बहिरात्मामांकेटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—बहिरात्मा जीव, पहेले मिथ्यात्व गुणगणे होय, जे माटे बाह्य संपदायें रत होय, तेने बहिरात्मा कहीयें ॥ गाथा ॥ पुजलसें रातो रहे, जाणे एह निधान ॥ तस लाजें लोच्यो रहे, बहिरातम अजिधान ॥ १ ॥ अर्थः—एटले शुचाशुच कर्म विपाक फलने उदयें करी राज्य, बुद्धि, जंमार, हुकम, दास, दासी, सुजट, सीपाइ, आवरू, इजात, शोजा, पुत्र, कलत्र, कुटुंब, परिवार, राग, रंग, कला, विकला, माहापण, चतुराइ, हाव, जाव, नाटक, कौतुक, पोताना शरीरनी कांति, बल, जुवानी, मद, अहंकार, ए आदें देह

प्रकारें पोतानी शोचा देखी तेना उपर एकाग्रचित्तें रीज माने मनमां एम जाणे जे संसारमां सुख एक हुंज जोगवुं वुं, ए रीतें पोताना स्वरूपथकी जे वाह्य जाव ठे, तेने आदरी तेनां सुख विदसे तेने वहिरात्मा कहीयें. तेमां आगल मिथ्यात्वगुणठाणे कहां, ते रीतें ठ तत्व पामीयें.

१६४ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी अंतरात्मांमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—दोहा ॥ पुजलजाव रुचे नहीं, ताथें रहे उदास ॥ सो अंतर आत्मा लहे, परमानंद प्रकाश ॥ १ ॥ पुजल खल संगीपरें, सेवे अवसर देख ॥ तनु शक्ति ज्युं लकडी, ग्यान जेद पद लेख ॥ २ ॥ वहिरातम तज आतमा, अंतर आतम रूप ॥ परमात्मने ध्यावतां, प्रगटे सिद्धस्वरूप ॥ ३ ॥ माटे वाह्या संपदा थकी जेनो विरक्त जाव वत्तें ठे, अने पोताना आत्म स्वजावमांरुक्तजाव वत्तें ठे तथा पोताना सहज समाधिपदने विरहें दुःखें करी असमर्थ थको फुरे ठे, एवो जीव, चोथा गुणठाणाथी मांकीने बारमा गुणठाणा लगें अंतरात्मा कहीयें. ए अंतरात्मा जीव, ते सम्यग्दृष्टि जाग्यो थको विवेकरूप लोचनें करी सहितथको परजावथकी उदासी होय, ते यारें साचो नय देखतां एनुं जगतमां शत्रुमित्र कोइ नथी, एने कोइ जीवथी वर विरोध पण नथी, ए सर्व जीवने पोता सरखा जाणी तेनी दया पासे, रक्षा करे, उपकार करे, ते परदया जाणवी. अने पोतानो आत्मा कर्मने वसें करी दुःखी ठे, अनेक प्रकारें पीडा पामे ठे, जन्म, जरा, मरणनां दुःख जोगवे ठे, तेने कर्मरूप दुःखथकी मूकाववाना जे परिणाम ते स्वदया जाणवी. एटले जे कारणें आत्माने ज्ञानजावें करी समजावे. के रे जीव ! तुं अनादि कासनो जमतो थको जे तें जोग जोगवीने, ठोड्या, ते महा विकाररूप अनंत दुःखना दानार, तेदनी फरीथी तुं वांठा करे ठे, तेथी तुं जने साज केम नथी उपजती ? अने जे आहार खइने ठोड्या ते वडी पाठा आहार पणे करे ठे ? एवुं आचरण उत्तम विवेकी आदरे नहीं, केम के वस्था आहारनी इथा तो श्रान होय, ते करे ? ए रीतें मनःपश्चात्तापें करी पोताना बोधवीज सुख सहज रमने चावें, एटले समकेत रूप ज्ञान दृष्टियें करी स्वस्वरूपप्रकाश, चिदानंद, विदु, विनाशरहित, एक तुंशाश्रतो, सर्व जगत्तना जाव प्रपंच जाणवाने शक्तिमंत, एवुं तामें स्वरूप अमंश्यात प्रदेशें करी सहित ठे, एउ एक एक प्रदेशें अनंता कर्म परमाणु गगद्वेपनी चि

काशें अति स्निग्ध पणें निविडचूत थइ लागा ठे, तेणें करी ज्ञानस्वरूप द वाइ गयुं ठे, ते प्रगट करवाने अर्थें संसार उदासी त्यागरूप वैराग्य जावना जावतो खपरनी वेंचण करी स्वरूपनुं ग्रहण करे, अने परस्वरूपने विज्ञा वरूप जाणी त्याग करे, ए रीतें अनुभवसरमां जीवतो ध्यानरूप अभियें करी कर्म आवरणे नसम करतो थको, थोडा कालमां परमानंद पद प्रत्यें पामे, तेने अंतरात्मा कहीयें. तेमां आगल कहां, ते रीतें आठ तत्व पामीयें.

१६५ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी ड्रव्यपरमात्मां केटळां तत्व पामीयें ?

गुरुः—समजिरूढ नयने मतें तेरमे गुणठाणे केवदीने ड्रव्यपरमात्मा कहीयें, तेमां आगल कहां, ते रीतें नव तत्व पामीयें.

१६६ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी जावपरमात्मां केटळां तत्व पामीयें ?

गुरुः—एवंचूत नयने मतें जे लोकने अंतें विराजमान सादि अनंतमे जागें वतें ठे. एवा सिद्ध जगवाननें जावपरमात्मा कहीयें, तेमां आगल कहां, ते रीतें त्रण तत्व पामीयें.

१६७ शिष्यः—सिद्ध परमात्माना स्वरूपमां ज्ञान, ज्ञाता अने ज्ञेय, ए त्रिजंगी उपजे ठे, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—(ज्ञान के०) जाणपणुं ते जीवो गुण ठे, ते ज्ञान-गुणें करीने त्रण कालनुं स्वरूप प्रत्यक्ष पणें एक समयमां सिद्धपरमात्मा जाणें ठे, तेथी सिद्धनो जीव, ज्ञाता ठे, अने जेने ज्ञान गुणें करी जाणें ठे, एवां सर्व ड्रव्य ते ज्ञेय ठे, ए सिद्ध परमात्माने विषे त्रिजंगीनुं स्वरूप जाणवुं.

१६८ शिष्यः—सिद्ध जवानना स्वरूपमां कर्ता, कारण अने कार्य, ए त्रिजंगी उपजे ठे, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—कर्ता सिद्धनो पोतानो जीव जाणवो, अने ज्ञान, दर्शन, चारि त्र तथा वीर्य रूप अनंता गुण जे ठे, ते कारण जाणवां, तथा (कार्य के०) पर्यायनुं उत्पाद व्यय रूप नव नवा ज्ञेयनी समय समय अनंती अनंती वर्तना रूप जे सुख, ते सुखनुं आस्वादन ते कार्य जावुं.

१६९ शिष्यः—सिद्ध जगवानना स्वरूपमां ध्यान, ध्याता अने ध्येय, ए त्रिजंगी उपजे ठे, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—ध्यान ते सिद्धना जीवोने पोताना स्वरूपनुं ठे. ते चारध्यान थ की उत्तर जाणवुं, अने तेनो ध्याता ते सिद्धनो पोतानो जीव तथा ४

ते आत्मिक स्वरूप जाणवुं. ए रीतें जे जीव, सिद्ध परमात्मानुं स्वरूप जाणे, तेवारें तेने सिद्धनां सुख प्रगट करवानो जाव उपजे, अने सिद्धनां सुख प्रगट करवानी वांटायें जे कारण सेवे ठे, तेने समकेतनी प्राप्ति जाणवी.

१७० शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी अशुच ध्यानमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ऋजुसूत्र नयने मतें पहेले गुणठाणे अशुच ध्यान होय, तेमां पांच तत्त्व जाणवां, कारण के एक तो अशुच ध्याननो कर्ता जीव तत्त्व अने (अशुच के०) क्रोध, मान, माया, लोच, विषय, कषाय, निद्रा, विक्रिया, निंदा, ईर्ष्या, क्लेश, कजीयो, वाद, विवाद, ए आदें अनेक प्रकारनुं अशुच ध्यान ठे, ते सर्व वीजुं पाप तत्त्व जाणवुं अने ते पापनां दक्षीयां अजीव ठे, ते आश्रव रूप जाणवां, माटे त्रीजुं अजीव अने चोथुं आश्रव तत्त्व तथा ते दक्षीये जीव बंधाणो ते पांचमुं बंधतत्त्व जाणवुं.

१७१ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी शुच प्रकारें ध्यानमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ऋजुसूत्र नयने मतें पहेले गुणठाणे शुचध्यानरूपमां पांच तत्त्व जाणवां. तेमां एक तो ध्याननो कर्ता जीवतत्त्व पोतें जाणवुं अनेक (शुच के०) दान, शील, तप, जावना, परोपकार, करुणा, दया, चैत्यजक्ति, पूजा, प्रत्तायना, ए आदिक अनेक प्रकारनुं शुच ध्यान जाणवुं, एवा अनेक प्रकार ना शुच ध्यानमां जीव वत्तें ठे, तथापि अंतरमां इंद्रियरूप सुखनी लावना परिणाम ठे, तों करी (शुच के०) पुण्य उपार्जन करे ठे, ते वीजुं पुण्यतत्त्व थयुं, अने ते पुण्यनां दक्षीयां अजीव ठे, ते आश्रवरूप जाणवां, एटले त्रीजुं जीव तत्त्व अने चोथुं आश्रवतत्त्व थयुं. अने ए दक्षीये जीव बंधाय ठे, ते पांचमुं बंधतत्त्व थयुं.

१७२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी शुद्ध ध्यानरूपमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—शब्द समनिरुद्ध नयने मतें समकेत जावें चाथा गुणठाणाथी मांतीने जावतु तेगमा चोदमा गुणठाणा लगे शुद्ध ध्यान जाणवुं. तेमध्ये शब्द नयने मतें समकेत जावें ठे, मातमे गुणठाणे जे जीव शुद्ध ध्यानमां वत्तें ठे. तेमां आगल कथां, ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें, अने समनिरुद्ध नयने मतें तेगमे. चोदमे गुणठाणे केवली जगवान् शुद्धध्यानना वीजा त्रीजा पापा वचातें शुद्ध ध्यान वत्तें ठे, तेमां आगल कथां, ते रीतें नवतत्त्व पामीयें?

१७३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी कर्मफल चेतनामां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—जे जीव, कर्मनां फल जोगवे ठे तेने कर्मफल चेतना कहीयें, ते पहेला गुणठाणाथी मांकीने चौदमा गुणठाणा लगें जाणवी, तिहां जे पहेले गुणठाणे मिथ्यात्वी जीव कर्मनां फल जोगवे ठे, तेमां आगल कह्यां, ते रीतें ठ तत्त्व पामीयें. अने समकेत जावें चोथा गुणठाणाथी मांकीने यावत् अगीयारमा वारमा गुणठाणा पर्यंत जे जीव, कर्मनां फल जोगवे ठे, तेमां आगल कह्यां, ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें. तथा समजिरूढ नयने मत्तें तेरमे चौदमे गुणठाणे वर्तता केवली जगवान्, पण कर्मनां फल जोगवे ठे, तेमां आगल कह्यां, ते रीतें नव तत्त्व पामीयें.

१५४ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ज्ञानचेतनामां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—शब्द नयने मत्तें चोथे गुणठाणे समकेती जीवने ज्ञानचेतना जाणवी, अने पांचमे गुणठाणे देशविरति श्रावकने पण ज्ञानचेतना जाणवी, तथा ठठे, सातमे, यावत् अग्यारमे, वारमे गुणठाणे वर्तता साधु मुनिराजने पण ज्ञानचेतना कहीयें, कारण के एक रूपैयानी पूंजीवालो पण रूपैयानो धणी कहेवाय, अने दश रूपैयावालो पण रूपैयानो धणी कहेवाय, अने सो रूपैयावालो पण रूपैयानो धणी कहेवाय, तथा हजार रूपैयावालो पण रूपैयानो धणी कहेवाय, एम यावत् लाख रूपैया अने ऋड रूपैयावालो पण रूपैयानो धणी कहेवाय, तेम इहां चोथा गुणठाणाथी यावत् चौदमा गुणठाणा पर्यंत तथा मोक्ष पर्यंतना सर्व जीव ज्ञानी कहीयें तिहां शब्दसमजिरूढ नयने मत्तें समकेतजावथी मांकी यावत् अगीयारमा वारमा गुणठाणा लगें जे साधु, मुनिराजपणे विचरे ठे, तेमां आठ तत्त्व पामीयें अने समजिरूढ नयने मत्तें तेरमे चौदमे गुणठाणे केवली जगवान् विचरे ठे, तेमां आगल कह्यां, ते रीतें नव तत्त्व पामीयें, तथा एवंजूत नयने मत्तें सकल कर्म दाय करी लोकने अंतें विराजमान अनंत सुखने विलासें करी सादि अनंतमे जागें सिद्ध परमात्मा वर्त्ते ठे, तेमां आगल कह्यां ते रीतें ऋण तत्त्व पामीयें.

१५५ शिष्यः—नवतत्त्वमांथी अशुज प्रकारें कर्मचेतनामां केटलांतत्त्वपामीयें?

गुरुः—ऋजुसूत्र नयने मत्तें पहेले गुणठाणे अशुज प्रकारें कर्म चेतना मां पांच तत्त्व पामीयें, ते आवी रीतेंः—कोइ जीवनी चेतना पापरूप परिणामें वर्त्ते ठे, तेने अशुज प्रकारें कर्मचेतना कहीयें. तेमां एक तो जी

वनी चेतना ते जीवतत्त्व, वीजुं अशुच एटले पाप तत्त्व, त्रीजुं पापनां द
लीयां ते अजीवतत्त्व, चोथुं ए आश्रव रूप ठे माटे आश्रव तत्त्व अने
पांचमुं ए दलीये जीव वंधाय ठे, माटे वंधतत्त्व जाणवुं.

१७६ शिष्यः—ए नव तत्त्वमां शुच प्रकारें कर्म चेतनामां केटला तत्त्वठे?

गुरुः—ऋजुसूत्र नयने मतें पहेले गुणठाणे शुच प्रकारें कर्म चेतनामां
पांच तत्त्व पामीयें, तिहां कोइ जीवनी चेतना पुण्यरूप परिणामें वत्तें ठे,
तेने शुच प्रकारें कर्मचेतना कहीयें, तेमां एक जीवनी चेतना अने बी
जुं (शुच के०) पुण्य, त्रीजुं पुण्यनां दलीयां ते अजीव तत्त्व, चोथुं ए आश्रव
रूप ठे माटे आश्रव तत्त्व, पांचमुं ए दलीये जीव वंधाय ठे माटे वंधतत्त्व ठे.

१७७ शिष्यः—एनवतत्त्वमां श्रीआर्त्तरौद्रध्याननीजावनामांकेटलांतत्त्वपामीयें.

गुरुः—आर्त्त रौद्रध्यान पहेले गुणठाणे मिथ्यात्वी जीवने होय, तेमां आ
गल कक्षां, ते रीतें ठ तत्त्व पामीयें, अने चोथे गुणठाणे समकेती जीव तथा
पांचमे गुणठाणे देशविरति जीवने पण आर्त्त रौद्र ध्यान होय, ए परमार्थ
देवचंद्रजीकृत आगमसार थकी जाणवो तेमां आठ तत्त्व पामीयें.

१७८ शिष्यः—एनवतत्त्वमां श्रीधर्मध्यानशुक्लध्याननीजावनामांकेटलांतत्त्वठे?

गुरुः—शब्दसमन्विष्ट नयने मतें धर्मध्यान तथा शुक्लध्याननी जाव
नामां आठ तथा नव तत्त्व पामीयें, तिहां शब्द नयने मतें धर्मध्याननी
जावनायें चोथे गुणठाणे समकेती जीव अने पांचमे गुणठाणे देशविरति
जीव, तथा ठे सातमे गुणठाणे साधुमुनिराज होय, तेमां आगल कक्षां,
ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें. तथा शुक्लध्याननी जावना वाला जीव, नवमे
गुणठाणेची जावतु अर्गीचारमा वारमा गुणठाणा लगें ठअस्थ मुनिराज
होय. तेमां पाण आठ तत्त्व पामीयें. अने तेरमे चौदमे गुणठाणे केवली
जगदान् शुक्लध्यान ध्यावे ठे, तेमां नव तत्त्व पामीयें.

१७९ शिष्यः—एनवतत्त्वमां श्रीअशुचप्रकारें जीवनेवाधकरूपकेटलांतत्त्वठे?

गुरुः—ऋजुसूत्र नयने मतें पहेले गुणठाणे अशुच प्रकारें जीवने वाधक
रूप पांच तत्त्व पामीयें. तेमां एक तो जीव तत्त्व, वीजुं अशुच प्रकारें वा
धक ते पाप, तथा ए पापनां दलीयां अजीव ते आश्रवरूप जाणवां, एटले
त्रीजुं अर्जीव. चोथुं आश्रव अने पांचमुं ए दलीये जीव वंधाय ठे, ते वंध.

१८० शिष्यः—ए नव तत्त्वमां श्री शुचप्रकारें जीवने वाधकरूप केटलांतत्त्व?

गुरुः—ऋजुसूत्र नयने मत्तें पहेले गुणगणे जीवने शुचप्रकारें बाधकरूप पांच तत्त्व जाणवां. तेमां एक तो जीव, वीजुं शुचप्रकारें बाधक ते पुण्य, त्रीजुं ए दलीयां अजीव ठे. चोथुं ए आश्रव रूप ठे अने पांचमुं बंधतत्त्व. १८१ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने शुचप्रकारें साधकरूप केटलां तत्त्व?

गुरुः—चोथे गुणगणे समकेती जीव, पांचमे गुणगणे देशविरति, अने ठेठे सातमे गुणगणे साधुमुनिराज अने यावत् अगीयारमा वारमा गुणगणापर्यंत शब्द समजिरूढनयने मत्तें शुचप्रकारें साधक दशा जाणवी, तेमां आगल कहां, ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें. अने समजिरूढ नयने मत्तें तेरमे चौदमे गुणगणे केवली जगवानने शुचप्रकारें साधक दशा जाणवी, तेमां आगल कहां, ते नव तत्त्व पामीयें.

१८२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी कर्त्तारूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमां अनेक नयनी अपेक्षायें करी कर्त्तारूप एक जीव तत्त्व जाणवुं. ते आवी रीतें—नैगम अने संग्रह नयने मत्तें सर्व जीव, पोताना स्वरूपमां पारिणामिक जावें वत्तें ठे, अने व्यवहारनयें करी जीव शुजाशुच रूप करणीनो कर्त्ता कहीयें, एटले कोइ जीव व्यवहारथकी शुजाशुचरूप करणी करे ठे, अने ऋजुसूत्र नयने मत्तें अंतरंगजावनी चिकाशरूप परिणाम वर्त्तता नथी. तेमाटे ते जीव, पुण्य पापरूप फल प्रत्यें न पामे, केम के ऋजुसूत्र नयने मत्तें अंतरंग जावनी चिकाशरूप परिणाम विना उपरथकी व्यवहार नयने मत्तें शुचकरणीरूप वीरा शालवीयें अठार हजार साधु प्रत्यें वांद्या, तथापि पुण्यरूप फलप्रत्यें न उपाज्युं, तेमाटे अंतरंग जावनी चिकाशविना पुण्यरूप दलीयां चोटे नहीं ॥ गाथा ॥ आतमसाखें धर्म जे, त्यां जननुं शुं काम ॥ जनमनरंजन धर्मनुं, मूढ्य न एक वदाम ॥ १ ॥ अर्थः—अंतरंग आत्मानि साखें जे धर्म करवो, ते धर्म प्रमाण ठे, एटले आत्मा निरावरण करवा सारु धर्म करवो ते प्रमाण ठे अने (जन के०) लोक तेनां मन रीज ववा रूप अथवा यशःकीर्त्ति शोचानी वांठारूप परिणामें जे धर्म करवो, ते धर्मनुं मूढ्य एक वदाम मात्र पण नथी, एटले वीरा शालवीनी पेरें कृष्ण वासुदेवनुं मन रीजववारूप व्यवहारथकी तो शुचकरणी घणीए करी, पण वदाम मात्र फल प्रत्यें न पाम्यो. ए परमार्थ जाणवो. अने ऋजुसूत्र नयने मत्तें अंतरंगजावनी चिकाश विना उपरथकी व्यवहार नयने मत्तें

समकेती जीव, कर्मने वशें करी जोगादिक अशुभ करणी अनेक प्रकारें करे ठे, परंतु अंतरंग जावनी चिकाश विना तेने पापरूप दळीयां चोटतां नथी. अत्र गाथा “ज्ञानीको जोग है, सो निर्झराको हेतु है ॥ अज्ञानीको जोग है, सो बंधफल देतु है” ॥ माटे समकेती जीव, कर्मने वशें करी अत्रतीने उदयें संसारमां व्यवहार नयें करी उपर थकी विषयादिक अशुभ करणी करे ठे, पण ऋजुसूत्र नयने मत्तें अंतरंग परिणामरूप जावनी चिकाश विना कर्मरूप दळीयां लागतां नथी, ए परमार्थ जाणवो, एम व्यवहार नयने मत्तें जीव अशुभप्रकारें करणीनो कर्ता ठे, तेहनुं स्वरूप सामान्य प्रकारें कथुं

वली ऋजुसूत्र नयने मत्तें जावना चिकाशरूप परिणामें करी जीव, पुण्य रूप फल प्रत्यें पामे, कारण के जीरणशेतें व्यवहार नयने मत्तें उपर थकी तो दान आप्युं नथी, परंतु ऋजुसूत्र नयने मत्तें अंतरंग दान देवाना जावना चिकाशरूप परिणाम होता, तेणे करी जावचिकाशें वारमा देवलोक नां पुण्यरूप दळीयां लागतां, तथा तेमज श्री तीर्थकर जगवाने पण आगल श्रीजे जवें ऋजुसूत्र नयने मत्तें अंतरंग जावनी चिकाशरूप परिणामें करी सर्व जीवने धर्म पमाडी दुःखथकी मूकावी सुखीयां करुं ? एवी जावना जावी, ते जावना चिकाशरूप परिणामें तीर्थकर नामगोत्रनां दळीयां वांध्यां, पण व्यवहार नयने मत्तें तो एक जीवने पण धर्म पमाडी दुःखथकी मूकावीने सुखीयो कथ्यो नथी, तथापि परदयारूप जावथकी जिननाम कर्म उपाज्युं ए परमार्थ ठे, एटले ऋजुसूत्रनयने मत्तें जीव, शुभ प्रकारें कर्म नो कर्ता तेनो ए परमार्थ कथ्यो.

वसी ऋजुसूत्र नयने मत्तें अंतरंग अशुभ जावना चिकाशरूप परिणाम ते रकी जीव जे ठे, ते पापरूप फल प्रत्यें उपाजें, जेम काळक सूरियो खाटकी ते राजघट्टी नगरी मध्ये दिन प्रत्यें पांचशे पाडा मागतो हतो. ते सान तेने श्रेणिक राजायें कुवामां टांग्यो अने पाडा मूकाव्या, एटले व्यवहार नयने मत्तें ते खाटकी दिग्ता नथी करता, पण ऋजुसूत्र नयने मत्तें अंतरंग पाडा मागवाना जावरूप परिणामनी चिकाशें वत्तें ठे, तेथी श्रीवीर प्रत्यें वत्तुं जे दृडी पाडा मागे ठे अने पापरूप दळीयां उपाजें ठे एटले व्यवहारनयें तो पाडा नथी मागतो परंतु ऋजुसूत्र नयने मत्तें अंतरंग दिग्ता नयने चिकाश वत्तें ठे. माटे दृडी पाडा मागे ठे, एम कथुं मन

द्वय के चिकारों पापनां दक्षीयां लागे ठे, एम ऋजुसूत्रनयने मतें जीव अशुच प्रकारें कर्ता तेनुं स्वरूप कथुं. ए रीतें व्यवहार नयनो अने ऋजुसूत्र नयनो ए परमार्थ जाणवो, सम्यग्दृष्टि जीवने ए वे नय प्रमाण ठे, एटले व्यवहारनयें करणी करवी अने ऋजुसूत्रनय हृदयमां धारवो, ते थकी जीवने कार्यनी सिद्धि नीपजे.

ह्वे शब्द समञ्जिरूढ नयने मतें जीव ज्ञानदृष्टियें करी धर्मध्यान शुक्ल ध्यानरूप शुद्ध परिणामें करी स्वरूपना चिंतनरूप संवरमां रहेतां समय समय अनंता कर्मनी निर्झरा करे, अत्र गाथा ॥ ठठ अठम दसम, डुवाल सेहिं मासद्ध मास खमणेहिं ॥ एतोड अणैग गुणो, सोहिं जिमीयस्स नाण स्स ॥१॥ जं अन्नाणी कम्मं, खवेइ बहुआइं वास कोडीहिं ॥ तं नाणी तिहिं गुत्तो, खवेइ उस्सासमित्तेणं ॥ २ ॥ अर्थः—सम्यक्ज्ञान रहित एवो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव, ते ठठ, अठम, दशम, डुवालस, पासखमण, मासखमण प्रमुख अनेक प्रकारें तपस्या करतो, तथा ए तपस्या आदें देइने अनेकगुणें करी शोचतो घणा वर्षनी कोडी गमे तपस्यायें करी जेटलां कर्म खपावे, तेट लां कर्म, सम्यक् ज्ञानी जीव, मन, वचन, कायायें करी एकचित्तें सत्तागतनां चिंतनमां रहेतां थकां एक श्वासोद्वासमां खपावे, एटले मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव, घणा वर्षनी कोडी गमे तपस्या करी जे काम काढे, तेटलुं काम समकेतदृष्टि जीव, एक श्वासोद्वासमां काढे, ए रीतें शब्दसमञ्जिरूढ नयने मतें करी जीव, संवर निर्झरा रूप कार्यनो कर्ता तेनो परमार्थ कथो.

ह्वे एवंभूत नयने मतें जीव सर्व कर्म खपावी, मोक्षपद पामी, लोकने अंतें बिराजमान सादि अनंतमे जागें परमानंद सुखने विलासे, वाधार हित अनंता सिद्ध परमात्मा वत्तें ठे. ए रीतें ए नयनी अपेक्षायें करी नव तत्त्वमां जीवनुं कर्तापणुं देखाड्युं, तेमाटे ए पंक्ति जीव चित्तमां उतारी, नयनी अपेक्षा विचारी, सर्वनय प्रमाण करे, ते प्राणी सम्यग्दृष्टि जीव जाणवो. अने जे एमां एक नय पकडे ते जीव मिथ्यादृष्टि जाणवो.

१७३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी अशुच प्रकारें कर्ता रूप केटलां तत्त्व ठे.

गुरुः—ऋजुसूत्र नयने मतें पहेले गुणगाणे अशुच प्रकारें कर्ता रूपमां पांच तत्त्व जाणवां. एक तो कर्ता जीव पोतें, बीजुं (अशुच के) पाप,

त्रीजुं पापनां दक्षीयां ते अजीव, चोद्युं ए आश्रव रूप जाणवां ते आश्रव, पांचमुं ए दक्षीये जीव वंधाय ठे ते वंधतत्त्व जाणवुं.

१०४ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी शुच प्रकारें कर्त्तारूपमां केटलां तत्त्व ठे ?

गुरुः—ऋजुसूत्र नयनें मतें पहेले गुणठाणें शुच प्रकारें कर्त्तारूपमां पां च तत्त्व जाणवां, जेम कोइ एक जीव शुच करणी करे ठे, अने तेना अंतरं ग पुण्यरूप इंद्रिय सुखनी वांठायें परिणाम वनें ठे, तेने शुच प्रकारें कर्त्ता कहीयें. तिहां कर्त्ता जीवतत्त्व, अने वीजुं (शुच के०) पुण्य, त्रीजुं पुण्य नां दक्षीयां ते अजीव, चोद्युं ए आश्रवरूप ठे पांचमुं एणे करी जीव वंधाय ठे.

१०५ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी शुद्ध प्रकारें कर्त्तारूपमां केटलां तत्त्व ठे ?

गुरुः—शुद्धप्रकारें कर्त्तारूपमां आठ तथा नव तत्त्व पामीयें. जे कारणें शब्द समजिरूढ नयने मतें समकेत जावें चोथा गुणठाणाथी मांकीने या यत् अगीचारमा वारमा गुणठाणा लगें ठद्वस्थ अवस्थायें शुद्ध प्रकारें कर्त्तारूप कहीयें, तेमां आगल कल्यां, ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें. तथा सम जिरूढ नयने मतें तेरमे चौदमे गुणठाणे केवली जगवानने शुचप्रकारें कर्त्ता कहीयें, तेमां आगल कल्यां, ते रीतें नव तत्त्व पामीयें.

१०६ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने अशुच कारणरूपकेटलां तत्त्वठे ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी अशुच कारणरूप एक पापतत्त्व जाणवुं, का गण के अशुच एटले पाप ते पापनां काम तो हिंसादि परिणाम ते आश्रवरूप जाणवां, एटले कारण तो जीवने अशुच मद्य्यां पाण जीव तेमांहे नले, ना वंधाय अने जो जीव तेमां नक्षीने वंधाय तो जीव, पाप, आश्रव, अजीव अने वंध. ए पांच तत्त्व पामीयें. अने जो जीव नही नले, तो नव तत्त्वमांथी एक पाप तत्त्व पामीयें. तेथी अशुच कारणरूप जीवने एक तत्त्व ठे.

१०७ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने शुचकारणरूपकेटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—जीवने शुच कारण रूप एक पुण्य तत्त्व जाणवुं. एटले शुच कारण ते शान, वसा, परोपकार, कर्मणा, नेवा, नक्ति, उत्तम गुणवान् जीवना वदुमा न वरदां ए आठ अने प्रकारें शुच कारण जाणवां, एटले (शुच के०) पुण्य रूप एटली वांठायें परिणाम वनें ठे माटे ते आश्रवरूप जाणवां एटले जे तेने कारण तो शुच मद्य्यां. पाण तेमांहे जीवना उपयोग नले तो पुण्य

रूप दलीयां बांधे तेवारें जीव, पुण्य, अजीव, आश्रव अने बंध, ए पांच तत्व पामीयें नहीं तो शुच कारणरूप जीवने एक पुण्य तत्व जाणवुं.

१७७ शिष्यः—एनवतत्वमांथी जीवने शुद्धकारणरूप केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—जीव, शुचाशुच कर्मरूप कचरे लेपाणो, तेणें करी चार गतिरूप संसारमां अनेक प्रकारनी विटंवना जोगवे ठे, परंतु जो संवर अने निर्झरारूप वे शुद्ध कारण जीवने मले, तो कर्मथकी ठोडावी मोक्ष नगरें पहुँचाडे. ए रीतें शुद्ध प्रकारें कारणरूप जीवने संवर अने निर्झरा ए वे तत्व जाणवां.

१७८ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी निश्चयथकी कार्यरूप केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—एवुंभूतनयने मतें निश्चयथकी कार्यरूप एक मोक्षतत्व जाणवुं. ते मोक्षपुरीमां तो आगल कहां, ते रीतें त्रण तत्व पामीयें,

१७९ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी लौकिक मार्गमांहे केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः— (लौकिकमार्ग के०) संसारहेतुमार्ग एटले शुचाशुच विकाररूप संसारवृद्धिनां कारण सेववां तेने लौकिकमार्ग कहीयें, तेमां ठ तत्व पामीयें, जे कारणें राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा, हांसी, कुतूहल, अहंकार ममकाररूप अनेक प्रकारनी चेष्टाउं करवी, ते सर्व संसार वृद्धिनां कारण जाणवां. तेने लौकिकमार्ग कहीयें. अथवा तप, संयम, पूजा, प्रजावना, जक्ति, इंद्रियदमन, वैराग्य, जावना, ए आदि अनेक प्रकारनी कष्टक्रिया करे ठे, पण आ जवमां यशःकीर्त्ति, लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र, परिवार, ऋद्धिनी बांठायें अथवा परजवें शैठ, सेनापति, साहुकार, देवता, इंद्र, वासुदेव, चक्रवर्तीनी पदवी पामवारूप बांठायें परिणाम वचें ठे, एटले ठे तो लोकोत्तर मार्ग, पण अज्ञान दशायें करी संसार वृद्धि हेतुमां गयो माटें लौकिकमां जवयो, तेमां ठ तत्व पामीयें. एक तो जीव, अने शुचाशुच विकाररूप पुण्य पापनां दलीयां अजीवरूप अनंतां सत्तायें लाग्तां ते आश्रवभूत ठे, ए दलीये जीव बांधाणो ते ठहुं बंधतत्व ठे.

१८० शिष्यः—ए नव तत्वमांथी लोकोत्तर मार्गमां केटलांतत्वपामीयें ?

गुरुः—ए लोकोत्तर एटले लोकथकी उत्तर चारगतिरूप संसारनी बांधकी रहित एक मोक्ष मार्गने साधे, तेने लोकोत्तर मार्ग कहीयें. एटले समकेती, देशविरति तथा ठठे सातमे गुणवाणे वर्त्तता जे साधु मुनिराज, एम यावत् ठन्नस्थ अवस्था लगें सर्वे जीव, लोकोत्तर मार्गमां जाण

वा, तेमां आगल कख्यां, ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें. तथा तेरमे चौदमे गुणठाणे शुद्ध ध्यानमां वर्त्तता केवळी जगवान् पण लोकोत्तर मार्गमां जा एवा, तेमां आगल कख्यां, ते रीतें नव तत्त्व पामीयें.

१९२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने बाधक दशा केटला तत्त्वनी साथें ठे ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने बाधक दशा ठ तत्त्वनी साथें ठे केम के जीवने अनादि कालना सत्तायें जावकर्मरूप राग अने छेप, शत्रु थड लागा ठे, तेनी चिकाशें शुजाशुज विकाररूप आठ कर्मनां दळीयां लागे ठे, ते दळीयांने अव्यकर्म कहीयें, ते आठ कर्मथकी उत्तर कर्मरूप एक शोने अछावन्न प्रकृति जाणवी, ते प्रकृतिरूप कर्म जीव बंधाणो, तेणें करी चार गतिरूप संसारमां फरे ठे, ए रीतें जीवने बाधक दशा कहीयें. तेमां आगल मिथ्यात्वगुणठाणे कख्यां, ते रीतें ठ तत्त्व पामीयें.

१९३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने साधक दशा केटला तत्त्वनी साथें ठे ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी जीवने साधकदशा वे तत्त्वनी साथें जाणवी, का गण के निगोदमां कर्म करी जीवनी चेतना दवाणी, पण अहरनो अनंत मो नाग उघाडो हतो, तेणें करी जीवित पणुं हतुं तिहांथकी अकाम निर्झरायें कालस्थितिने योगें करी जीव उंचो आव्यो, असपणुं पाम्यो, अ ने पुणना उदयें श्रावक कुल, देवगुरुनी योगवाड मली, परंतु शब्दसमजि न्ह नयने मतें समकित जावकूप संवर, निर्झरा, ए वे तत्त्व जो जीवने सहा वरानी प्राय. तो सकल कर्मथकी ठोटावी जीवने मोक्ष नगरें पहांचाडे, मांड साधकदशाएप जीवने संवर अने निर्झरा, ए वे तत्त्व जाणवां.

१९४ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने सिद्धदशा केटला तत्त्वनी साथें ठे ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने सिद्धदशा एक मोक्ष तत्त्वनी साथें जा एवी, बाण के एवंतनयने मतें सकल कर्म छाय करी शुद्ध सत्ता निर्मल, परमज्योति. लोकालोकाशक, अनंत गुणसंपन्न द्योय, तेने सिद्ध दशा कहीयें. ते तो मोक्षमां द्योय. मांड मोक्षतत्त्वनी साथें सिद्ध दशा ठे.

१९५ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी संसारव्यापि केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—व्यवहारनयने मतें 'संमरतीति संसारः' एतले चारगतिरूप संसारसं संमरुं तेने संसार कहीयें. तिहां पदेले गुणठाणे मिथ्यादृष्टि जीव चारगतिरूप संसारमां संमरे ठे. तेमां आगल कख्यां, ते रीतें ठ तत्त्व प

मीयें, अने समकित जावें चोथा गुणठाणाथी मांभी यावत् अग्यारमे वारमे गुणठाणे ठन्नस्थ अवस्थायें साधु मुनिराज पण वर्त्ते ठे, ते पण चार गति रूप संसारमां व्यवहारनयने मत्तें संसरे ठे, माटे तेने संसारी कहीयें. तेमां आगल कह्यां, ते रीतें आठ तत्त्व पामीयें, तथा समजिरूढ नयने मत्तें तेरमे चौदमे गुणठाणे केवली जगवान् वर्त्ते ठे, तेने व्यवहार नयने मत्तें संसारी कही बोलाव्या ठे, तेमां आगल कह्यां, ते रीतें नव तत्त्व पामीयें.

१६६ शिष्यः—ए नव तत्त्वमां सिद्धव्यापि केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—शुद्ध ध्यानरूप अशियें करी अष्ट कर्म वादी, अष्ट गुण संपन्न, लोकने अंतें विराजमान, अनंतसुख जोगी, सादि अनंतमे जांगे वर्त्ते ठे, तेने सिद्ध जगवान् कहीयें. तेमां आगल कह्यां, ते रीतें त्रण तत्त्व पामीयें.

१६७ शिष्यः—ए नव तत्त्वने साते नयें करी जीवन्तुं गुणीपणुं केम जाणीयें ?

गुरुः—ए नव तत्त्वमांथी एक जीवतत्त्वने गुणी कहीयें, कारण के नैगम अने संग्रह नयने मत्तें पारिणामिक जावें करी सर्व जीव, पोताना खजाव रूप गुणमां रह्या वर्त्ते ठे, माटे ए वेहु नयने मत्तें सर्व जीव, सत्तायें ए क समान ठे, तेथी एक जेदें कहीयें, अने व्यवहार नयने मत्तें जीवना चौद जेद, वत्रीश जेद, तथा पांचशो त्रेशठ जेदपणे सर्वे कर्मरूप जडनी साथें अनंतो काल जेला रह्या, माटे जडरूप पणें करी जड कहेवाणा, अने ऋजुसूत्र नयने मत्तें अतरंग परिणामनी चिकाशें शुजाशुज कर्मने हेतुयें जीव, पुण्य पाप अजीवरूप आश्रवमां बंधाणो, तेणें करी चार गति रूप संसारमां पड्यो, माटे संसारी कहेवाणो अने शब्द तथा समजिरूढ नयने मत्ते संवर निर्झरारूपपणे करी घाति कर्म क्षय कह्यां, तेवारें तेरमे गुणठाणे केवली कहेवाणो तथा एवंभूतनयने मत्तें सकल कर्म क्षय करी मोक्ष पण पामी लोकने अंतें विराजमान वर्त्त्यो, तेवारें सिद्ध कहेवाणो, एम अनेक नयनी अपेक्षायें पंढितलोकने ए नवतत्त्वमां जीवन्तुं गुणीपणुं जाणवुं.

१६८ शिष्यः—ए नव तत्त्वमां जीवने अशुज गुण रूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—अशुज गुण ते पापने कहीयें, अने ते पापनां दलीयां अजीव, ते आश्रवरूप जाणवां, अने ए दलीये जीव बंधाणो ठे, ए रीतें पाप, अ जीव, आश्रव अने बंध, ए चार तत्त्व जीवने अशुज गुणरूप जाणवां.

१६९ शिष्यः—ए नव तत्त्वमां जीवने शुज गुणरूप केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—शुद्धगुण ते पुण्यने कहीयें ते पुण्यनां दक्षीयां अजीव ठे ते आश्रव रूप जाणवां, अने ए दक्षीये जीव बंधाणो ठे. ए रीतें पुण्य, अजीव, आश्रव अने बंध, ए चार तत्त्व जीवने शुद्धगुणरूप जाणवां.

२०० शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने शुरू गुणरूप केटलां तत्त्व ठे ?

गुरुः—जीव, शुद्धाऽशुद्ध विकाररूप कर्म करी लेपाणो, तेथी चारगति रूप संसारमां अनेक प्रकारें पीडा जोगवे ठे, पण जो शब्द समजिरूढ नयने मत्तें संवर निर्जारा रूप वे गुण सहायकारी थाय, तो जीवने सर्व कर्मथकी ठोडावी शुरू करे, अने अनंत चतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट करी आपे, माटे संवर अने निर्जारा रूप वे तत्त्व जीवने शुरू गुणरूप जाणवां.

२०१ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी जीवने निश्चयगुणरूप केटलां तत्त्व ठे ?

गुरुः—एवंभूतनयने मत्तें निश्चय गुणरूप एक मोक्षतत्त्व जाणवुं, जे कारणें जिहां जन्म नही, जरा नही, मरण नही, रोग नही, शोक नही पीडा नही, आधि नही, व्याधि नही, हर्ष नही, हेत नही, प्रीति नही, संताप नही, कर्म नही, क्रोध नही, वाद नही, विवाद नही, शत्रु नही, मित्र नही, एवं (शिव के०) निरुपद्रव अचलित अक्षय पदनी स्थिति, अनंत सुखनुं वासरूप, ते मोक्ष पद कहीयें. ते जीवने निश्चयगुणरूप जाणवुं.

२०२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी प्रत्यक्ष ज्ञानमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—प्रत्यक्ष ज्ञानना वे जेद ठे, एक सर्वप्रत्यक्ष, अने वीजुं देशप्रत्यक्ष, तेमां सर्वप्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान ठे, तिहां केवली जगवान् लोका सोकनुं चक्षुष केवलज्ञानें करी प्रत्यक्षपणे जाणे ठे, तेमां नवे तत्त्व पामीयें. अने मिरुना जीव पण केवलज्ञानें करी सर्वज्ञाव, प्रत्यक्ष पणे जाणे ठे. तेमां त्रण तत्त्व पामीयें, ए रीतें सर्वप्रत्यक्षनुं स्वरूप कळुं, ह वे देशप्रत्यक्ष ज्ञानना वली वे जेद ठे. एक तो मनःपर्यवज्ञान, ते मनां बरीगणने प्रत्यक्षपणे जाणे. अने वीजुं अविधिज्ञान, ते पुद्गलवरीगणने प्रत्यक्ष पणे जाणे. ए देशप्रत्यक्षना वे जेद जाणवा, तेमां आठ तत्त्व पामीयें. ए रीते प्रत्यक्ष ज्ञानना चक्षुषमां आठ, नव तथा त्रण तत्त्व जाणवां.

२०३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी पर्यवज्ञानमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—पर्यवज्ञानना त्रण जेद ठे, एक आगमप्रमाण. वीजुं अनुमान प्रमाण. वीजुं दरमा प्रमाण, तिहां जे देवतानां सुख, नरकनिगोदनां

दुःख, ऊर्ध्वलोकना ज्ञाव, अधोलोकना ज्ञाव, तिर्था लोकना ज्ञाव, ए सर्वे श्री जिन आगमथकी प्रमाण करे, ते प्रथम आगमप्रमाण जाणवुं. तथा कोइ जीव, अजीवरूप वस्तुने अनेक प्रकारनी उपमा आपी बोला वीथें, जेम तीर्थकरने गंधहस्तीनी उपमा, चिंतामणि रत्ननी उपमा, ए री तें ते वस्तुना गुणप्रमाणें जीव अजीव वस्तुने उपमा देवी, ते बीजुं उपमाप्रमाण जाणवुं. तथा कोइना घरमां धूमाडो देखी अग्निनुं प्रमाण थाय, तेमज कोइकनुं मुख देखी हर्ष, शोक अथवा रोग चिंतानुं प्रमाण थाय, एवुं अनेक प्रकारनुं जे जाणपणुं तेने अनुमानप्रमाण कह्थीथें. ए रीतें सम्यक् ज्ञानना धणीने ए त्रण प्रकारें परोक्ष ज्ञाननुं जाणपणुं होय, तेमां आगल कक्षां, ते रीतें आठ तत्त्व पामीथें. अने जे मिथ्यात्वी जीवने ए त्रणे प्रकारें परोक्षज्ञाननुं जाणपणुं होय, तेमां ठ तत्त्व पामीथें,

१०४ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी स्वाज्ञाविक तत्त्व केटलां पामीथें.

गुरुः—जीव, जेवारें पोताना स्वज्ञावमां रहे, तेवारें संवर कह्थीथें अने ज्यां सुधी संवरमां जीव रहे, त्यां सुधी समय समय अनंतां कर्म निर्जरा वे, अने निर्जरा थाय, तेवारें जीव, मोक्षपद पामे, कारण के ॥ गाथा ॥
 क्षण अर्द्ध जे अघ टले, ते न टले जवनी कोड ॥ तपस्या करतां अतिघणी, पण नावे ज्ञान तणी कोइ जोड ॥ १ ॥ अर्थः—एक घडीमां ठ क्षण थाय तेवुं अर्द्ध क्षण एटले एक घडीनो वारमो जाग थयो, एटली वार सत्ताग तना चिंतनरूप संवरमां जीव रहेतो थको जेटलां कर्म खपावे, तेटलां कर्म कोडिजव सुधी ठछ, अछम, मास, खमण आदिक तपस्या करतां न खपे. ए परमार्थ जाणवो. ए रीतें एक अंतरमुहूर्त स्वरूपना चिंतनरूप संवरमां रहेतो थको जीव, घातीकर्म क्षय करी केवल ज्ञान पामे, अने पठी अघाति कर्म खपावी मोक्षपद पामे, एम ए नव तत्त्वमांथी जीव, संवर, निजारा अने मोक्ष, ए चार तत्त्व स्वाज्ञाविक जाणवां.

१०५ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी विज्ञाविक तत्त्व केटलां पामीथें ?

गुरुः—कोइ जीव, शुजाशुज विज्ञाव दशारूप परिणामें करी, पुण्य पापनां दक्षीयां अजीवरूप वांधे, ते आश्रवचूत जाणवां. माटे जीव, पुण्य, पाप, अजीव, वंध अने आश्रव, ए ठ तत्त्व विज्ञाविक जाणवां.

१०६ शिष्यः—ए नवतत्त्वमांथी समकेतीने साध्यसाधनरूप केटलांतत्त्व ठे ?

गुरुः—नव तत्त्वमांथी समकेतीने साध्यरूप एक तत्त्व अने साधन रूप वे तत्त्व पामीयें, ते आर्वी रीतें:—शब्दनयने मते समकेत जावें जे जीव वत्तें ठे, ते एवुं चिंतवन करे ठे, जे माहारे जीवें कर्मवशें करी संसारमां फरतां अनंता पुज्जल परावर्तन कख्यां, तेणेंकरी अज्ञानपणे घणी विराधनाउं करी, एटले केवली, ठद्वस्थ मुनिराज, तीर्थयात्रा, केवली प्ररूपित धर्म, समकेती, देशविरति, ब्रह्मचारी, ए आदें देइने अनेकप्रकारना गुणी जीवो तेना अवरणवाद बोलीने विराधनाउं करी, एम संसारमां फरतां अज्ञानने वशें करी में एवा उत्तम, गुणीजीवोनी निंदा करी, ईर्ष्या करी, ते कमें वींटाणो थको अनेक प्रकारें विटवना जोगवी, तथा में डुष्ट पापी जीवें आज्ञानपणे एक इंद्रिय सुखनाज सावद्य माटे अनेक प्रकारें जीवने ठेदना, जेदना, ताडना, तर्जना, प्रमुख दुःख पीडा उपजावी, एटले एक समकित गुण विना माहारे जीवें मिथ्यात्वजावें करी महा आकरा निविड कर्मना बंधप्रत्यें बांध्या, तेणें करी जारी अइने माहारे जीवें नरक निगोदमां अनंतां दुःख जोगव्यां, एम दुःख जोगवतां जोगवतां जवस्थितिने योगें करी जेवारें पुण्यरूप बोलावानी सहायें ब्रसपणुं, पंचेंद्रिय परवडा, मनुष्यनो अवतार, देव गुरुनी योगवाइ मली, तेवारें महोटे पुण्ये करी तत्त्वमयी, तत्त्व प्रकाशिनी. तत्त्वस्वरूपजासिनी देशना, गुरुमुखें सांजली, तेथी महारी मिथ्यात्वनी वुक्ति विलय थइ, अने हुं बोधवीजना ज्ञानप्रत्यें पाम्यो, एवा प्रकारनी जावनायें समकेतदृष्टि जीव, तत्त्वस्वरूपनी निर्मल प्रतीति करवा सारु जीवादिक नव पदार्थनुं जाणपणुं गुरुमुखें करे, ते आर्वी रीतें:—नेगमादि सात नय, इव्यास्तिक दश नय, पर्यायाम्निक ठ नय, कारण पांच, कारक ठ, हेय, ज्ञेय, उपादेय, निश्चय, व्यवहार, इव्य, नाव, उत्सर्ग, अपवाद, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, निक्षेप, प्रमाण, तथा इव्य, क्षेत्र, काल, नाव, ए इव्यादि चार जांगे करी तथा नित्य, अनित्य, मत्, अमत्, एक, अनेक, वक्तव्य, अवक्तव्य, ए नित्यादि शब्द पदें करी, पदइव्यनुं तथा नव तत्त्वनुं स्वरूप गुरुमुखें जाण, अथवा त्रिंती. सप्ततंत्री. अनेकतंत्री. ए रीतें अनेक प्रकारें नव तत्त्व पदइव्यनुं जाणपणुं करी स्वमत्ता परममत्तानी नामनरूप जेणें प्रतीति करी ठे.

नित्यं परमत्ता ते एक निश्चयनयें करी शुद्ध, निर्मल, परमज्योति, कर्म

कलंकथकी रहित, शुद्ध, चिदानंद, वस्तुगतें सत्तायें सिद्धसमान, अखं
रु, अक्षित, शाश्वत, एवं पोताना आत्मानुं स्वरूप तेनी जेणें अंतरंग ज्ञा
सनरूप जाणपणानी प्रतीति करी ठे, ते जीव, स्वसत्तायें रक्त कहियें अने
परसत्ता ते शुजाऽशुज विकाररूप कर्मनुं ग्रहण करवुं अने पठी तेथकी
उपना जे फलरूप विकार, इंद्रियना सावध, तेनेविषे मगपणे, एकाग्र
चित्तें वर्त्तवुं, एवा परिणाम जे जीवना वर्त्तें ठे, ते जीव, परसत्तायें रक्त
कहियें. ए स्वसत्ता अने परसत्तानो अर्थ जाणवो.

हवे समकेती जीव, अज्ञानदशाथी रहितथको उदासी परिणामरूप
विरक्तजावें इंद्रियरूप विकारथकी रहित, एक पोताना आत्मानी सिद्ध
समान जेणें प्रतीति करी ठे ॥ श्लोक ॥ यः परात्मा परंज्योतिः, परमः पर
मेष्ठिनाम् ॥ आदित्यवर्णस्तमसः, परस्तादामनंति यं ॥ १ ॥ सर्वे येनोन्मूढ्यं
ते, समूलाः क्लेशपादपाः ॥ मूर्ध्ना यस्मिन्नमस्यंति, सुरासुरनरेश्वराः ॥ २ ॥
इत्यादि ॥ अस्यार्थः—जीव ठे ते परमात्मा ठे, परमज्योति ठे, पंचपरमेष्ठी
थी पण अधिको पूज्य ठे, केम के पंचपरमेष्ठी तो मोक्ष मार्गना देखाड
नार ठे, पण मोक्षनो जावावालो तो आपणो जीव ठे, अज्ञाननो मटाड
नार ज्ञानदृष्टियें करी पोताना स्वरूपनो जाणनार, सर्व कर्मक्लेशनो खपाव
नार, एवो पोतानो आत्मा ध्यावो. तेहीज परम श्रेयनुं कारण ठे, शुद्ध ठे,
परम निर्मल ठे, एवो आत्मा उपादेय जाणी सर्वहै. जेहवुं पोताथी निर्वहै,
तेवो त्यागवैराग्यमां प्रवर्त्तें. एवे श्लोक श्रीहेमाचार्यकृत वीतरागस्तोत्रना ठे.

एटले धनने परवस्तु जाणी, सुपात्रने दान आये, इंद्रियना विकारने
कर्म बंधनां कारण जाणी, तेने परिहरी शील पाले, आहार पुजल परव
स्तुनो ठे, ते शरीरपुष्टिनुं कारण ठे, अने शरीरपुष्ट कीधे इंद्रियना विष
यनी पुष्टि थाय, ते सर्व परस्वजाव जाणवो. माटे तिहांथकी समकेती
जीव, विरक्त जावें, संसार उदासी, त्यागरूप वैराग्य जावनायें वर्त्ततां एक
पोतानी सत्तायें वस्तुधर्मनी जेणें प्रतीति करी ठे, अने पोतानी आत्मस
त्ता साधवाने विषे जेनुं चित्त उजमालपणे उद्यममां प्रवर्त्तें ठे, एवी रीतिं
साध्य जेनुं एक चोखुं ठे, अने (साधन के०) जे संवर निर्झरारूप व्रत,
पञ्चस्काण, पोसा, सामायिक, पडिक्रमणुं, तीर्थयात्रा, पूजा, प्रजावना, म
होत्सव, ध्यान, स्मरण, इत्यादि अनेक प्रकारें साधना ठे, पण साध्य तो

पोताना आत्माने कर्मथकी रहित निरावरण करवारूप एकज ठे, एम स्वसत्ता परसत्तानी वेंचण करी पोतना स्वरूपमां रहे, तेदली वार जीवने संवर कहीयें. अने ए संवरमां जीव रहे, तिहां सुधी समय समय अ नंता कर्मना थोकडा निर्झरावे, एदले निर्झरातत्व कहीयें, माटे ए नव तत्वमां समकेती जीवने साध्यरूप एक मोक्षतत्व जाणवुं. अने साधन रूप संवर अने निर्झरा ए वे तत्व जाणवां.

२०७ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी मिथ्यात्वीनेसाध्यसाधनरूपकेटलां तत्व ठे.

गुरुः—मिथ्यादृष्टि जीव, पहेले गुणठाणे शुचकरणीरूप पुण्यफलहेतु इंद्रिय मुखनी लालचें अनेक प्रकारें कष्टक्रिया, व्रत, पञ्चस्काण, तप, ज प करे ठे, पण अंतरंग पुण्यरूप फलनी वांठायें परिणाम वर्त्ते ठे, एदले एक कर्ता जीवतत्व, अने वांठा पुण्यनी ते वीजुं पुण्यतत्व, तथा पुण्यनां दलीयां अजीव ठे ते आश्रवरूप जाणवां, एदले त्रीजुं अजीवतत्व, चोथुं आश्रयतत्व अने ए दलीये जीव वंधाणो, ते पांचमुं वंधतत्व थयुं. ए रीतें नव तत्वमांथी मिथ्यादृष्टि जीवने साध्य साधनरूप पांच तत्व जाणवां.

२०८ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी द्रव्यनयमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—नेगम, संग्रह, व्यवहार अने ऋजुसूत्र, ए चार द्रव्य नय कहीयें, ए चार नयनुं जाणपणुं प्रथम गुणठाणे जाणवुं. माटे ए द्रव्य नयने मतें जे जीवना परिणाम वर्त्ते ठे, ते जीव, शुजाशुच कर्मरूप पुण्य पापना फल प्रत्यें उपाजें ठे, माटे कर्ता जीव अने पुण्यपापनां दलीयां अजीव ते आश्रवरूप जाणवां अने ए दलीये मली जीव वंधाणो, ए रीतें जीव, पुण्य, पाप, अजीव, आश्रव अने वंध, ए ठ तत्व, द्रव्यनयें जे जीवना परिणाम वर्त्तना होय, तेमां जाणवा.

२०९ शिष्यः—ए नव तत्वमांथी ज्ञाननयमां केटलां तत्व पामीयें ?

गुरुः—शब्द, समतिरुह अने एवंतृत ए त्रण ज्ञाननय जाणवा, एद हे जे जीवना शब्द अने समतिरुह नयने मतें उद्देश्य अवग्यापर्यंत प रिणाम वर्त्ते ठे. तेमां श्याउ तत्व पामीयें, अने समतिरुह नयने मतें तप से एदले केवटी नगवान् वर्त्ते ठे, तेमां नव तत्व पामीयें, तथा एवं तत्व नयने मतें मिह नगवान् वर्त्ते ठे. तेमां त्रण तत्व पामीयें, ए रीतें तप नयें जे जीव वर्त्तना होय. तेमां श्याउ तत्व अने त्रण तत्व जाणवां.

११० शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी अढी छीपव्यापि केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—अढी छीपमां मिथ्यात्वी जीव रह्या ठे, ते आश्रयी ठ तत्त्व पा मीयें, अने समकेतजावें ठद्वस्थ अवस्था पर्यत जे जीव वत्ते ठे, ते निर्झा राप्रत्यें करे ठे, तेमां आठ तत्त्व पामीयें, अने तेरमे गुणठाणे केवली जग वान् वत्ते ठे, तेमां नव तत्त्व पामीयें,

१११ शिष्यः—ए नवतत्त्वमांथी अढी छीपथी बाहेरना लोकमां केटलां तत्त्व ?

गुरुः—अढी छीपथी बाहेर तिर्यच जीव रह्या ठे, अने देवता, विद्याधर तथा मुनिराजनुं अढी छीप बाहेर आवागमन ठे, माटे तिहां मिथ्यात्वी जीवमां ठ तत्त्व पामीयें, अने समकेत जावें जे जीव वत्ते ठे, तेमां आठतत्त्व पामीयें.

११२ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी ऊर्ध्व लोकमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—ऊर्ध्वलोकमां वैमानिक देव रह्या ठे, सिद्धना जीव रह्या ठे, पांच स्थावरना जीव रह्या ठे, अने निगोदीया जीव रह्या ठे, तेमां सिद्धना जीव आश्रयी त्रण तत्त्व पामीयें, अने मिथ्यात्वी जीव आश्रयी ठ तत्त्व पामीयें, तथा समकेती जीव आश्रयी आठ तत्त्व पामीयें.

११३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी तिर्था लोकमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—तिर्था लोकमां जे मिथ्यात्वी जीव ठे, ते आश्रयी ठ तत्त्व अने समकेतजावें ठद्वस्थ अवस्था पर्यत जे जीव वत्ते ठे, तेमां आठ तत्त्व, तथा तेरमे गुणठाणे केवली जगवान् वत्ते ठे, तेमां नव तत्त्व पामीयें.

११४ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी अधोलोकमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—अधोलोकमां जवनपति, देव तथा नारकीना जीव अने पांच स्थावरना जीव, तथा निगोदीया जीव रह्या ठे, तेमां समकेती जीव आश्रयी आठ तत्त्व पामीयें, अने मिथ्यात्वीजीव आश्रयी ठ तत्त्व पामीयें.

११५ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी व्यवहार नयमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—व्यवहारनयनो मूलज्ञेद तो एक ठे, अने विस्तारथकी ठ ज्ञेद जाणवा. ते आवी रीतें—एक तो अशुद्धव्यवहार नय ठे, ते अशुद्धव्यवहारनयें करी जीवमां अज्ञान, राग, द्वेष, ए अनादिकालनां शत्रुचूत थइ लाग्यां ठे, तेणें करी जीवमां अशुद्धपणुं जाणवुं, माटे ए अशुद्धतानी चि काशें करी जीवने समय समय अनंतां कर्मरूप दलीयां सत्तायें लागे ठे,

ए अशुद्धता जीवने अनादिनी जाणवी, ए रीतें ए अशुद्ध व्यवहारन जीव कर्त्ता जाणवो. तेनुं स्वरूप संक्षेपमात्र कळुं.

हवे वीजो शुद्धव्यवहार नय ठे. तेणें करी जीव, दान, शीयल, तप, ज्ञाना, प्रजा, प्रजावना, सेवा, जक्ति, साहम्मिवात्सल्य अने विनय, वैयाकरण उपकार, करुणा, दया, यत्ना, मनोहर वचन बोलवुं, सर्व जीवतुं रूडुं विववुं, ए आदें देइ अनेक प्रकारें जीव शुद्धव्यवहारनयें कर्त्ता जाणवो.

हवे त्रीजो अशुद्धव्यवहार नय. तेणे करी जीव क्रोध, मान, माया, लज, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा, हांसी, विनोद, निंदा, ईर्ष्या, चार्ड मृर्गा, ममता, हिंसा, मृषा, अदत्त, मैथुन, ए आदें देइने अनेक प्रकार जीव. अशुद्ध व्यवहारनयें कर्त्ता जाणवो.

हवे चौथो उपचरितव्यवहारनय. तेणें करी जीव, धन, कुटुंब, परिवार हाट, घर, वखार, गाम, गरास, देश, चाकररूप दास, दासी, वाणोतर, सज्जक्ति, क्षेत्र, खलां, वाडी, वन, आराम, कूवा, वाव्य, सरोवर, नवाण ए आदि अनेक प्रकारनी जे वस्तु पोतायकी प्रत्यक्ष जूदी ठे, तेने जीव अज्ञानपणे पोतानी करी जाणे ठे, तेने महारुं महारुं करतो फरे ठे, तेणें तेना पापना अधिकारी थाय ठे, ए उपचरितव्यवहारनयें जीव; कर्त्ता जाणवो.

हवे पांचमो अनुपचरित व्यवहारनय. तेणें करी जीव, शरीरादिक पद्वस्तु जे पोताना आत्मस्वरूपकी प्रत्यक्षपणे जूदी ठे, परंतु पारिणामिक जायें लोखीतपणे एकत्री जीवनी साथें मली रही ठे, तेने जीव, पोतान करी जाणे ठे, जो पण जीवें एवां शरीर तो संसारमां अनंती वार कस्यां अने अनंती वार मृक्यां, तो पण अज्ञानपणे जीव, पोतानी करी जाणे ठे तेथी तेने वास्तें अनेक प्रकारनां हिंसादिक पापें करी जीवने पुष्ट करे ठे ए अनुपचरितव्यवहारनयें जीवने कर्त्ता जाणवो.

ए पांच प्रकारें व्यवहारनयमां जे जीवना परिणाम वचें ठे, ते जीव, शुद्धा शुद्धरूप फळ प्रत्यें पामे, ए पांच व्यवहार ते शुद्धसूत्र नयने मतें पदेले गुण वाणे जाणवा. एमां वर्तनागे जीव, मिथ्यादृष्टि होय, तेमां ठ तत्त्व पामीयें.

हवे ठाठो शुद्धव्यवहार नय, एठेले शुद्धाशुद्धकर्मरूप कचरामां जीव, तेणें पणें ठे तिहायकी शुद्धनिर्मलतानो करुना, तेने ठाठो शुद्धव्यवहार नय कर्त्तायें. एठेले नैवेना शुद्धावातुं दोटवुं अने उपरला गुणवाणानुं वेवुं.

तेने शुद्धव्यवहारनय जाणवो. माटे पहेले गुणठाणे मोहनीय कर्मनी सात प्रकृति खपावी, चोथे गुणठाणे आव्यो, तेवारें आत्माना अनंता गुणमां हेथी एक समकेत गुण प्रगट्यो, एटली जीवने शुद्धता थइ, एमज चोथे थी पांचमे, पांचमेथी ठठे, ठठेथी सातमे, एम यावत् अगीयारमे बारमे गुणठाणे ठन्नस्थ अवस्था पर्यंत जे जीव वर्ते ठे, तेमां आठ तत्त्व पामीयें.

तथा समजिरूढनयने मत्तें तेरमे चौदमे गुणठाणे केवली जगवान् शुद्ध व्यवहारमां वर्ते ठे, तेमां नव तत्त्व पामीयें, एटले चौदमे गुणठाणे केवली जगवानने पण पंचलघु अक्षररूप कार्य करवुं बाकी ठे, तेथी एटली जीवने अशुद्धता जाणवी. ते अशुद्धताने टाळे अने शुद्धता निपजावे, तेने शुद्धव्यवहार नय कहीयें. एटले जेम जेम आगलनां गुणठाणानुं ठोडवुं अने उपरलां गुणठाणानुं लेवुं, तेने शुद्धव्यवहारनय जाणवो. ए रीतें ठ प्र कारें व्यवहारनयना स्वरूपमां ठ, आठ तथा नव तत्त्व जाणवां.

११६ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी निश्चयनयमां केटलां तत्त्व पामीयें ?

गुरुः—एवंचूतनयने मत्तें जीवें १ ज्ञानावरणीयकर्मनी पांच प्रकृति क्षय करी अनंत ज्ञान प्रगट कखुं, २ दर्शनावरणीय कर्मनी नव प्रकृति क्षय करी अनंत दर्शन प्रगट कखुं, ३ वेदनीयकर्मनी वे प्रकृति क्षय करी अव्यावाध सुख प्रगट कखुं. ४ मोहनीय कर्मनी अष्टावीश प्रकृति खपावी, क्षायिक समकेत अने यथाख्यातचारित्र प्रगट कखुं. ५ नामकर्मनी एकशो त्रण प्रकृति खपावी, अरूपी गुण प्रगट कख्यो. ६ आयुःकर्मनी चार प्रकृति खपावी, अक्षयस्थितिगुण प्रगट कख्यो, ७ गोत्रकर्मनी वे प्रकृति खपावी, अ गुरुलघुगुण प्रगट कख्यो, ८ अंतरायकर्मनी पांच प्रकृति खपावीने, अनंत वीर्यशक्तिरूप गुण प्रगट कख्यो. ए रीतें ए आठ कर्म अनादिकालनां आत्म गुणने घातक हतां, आत्मगुणने रोधक हतां, आत्मगुणने आवस्था हता, तेने शुद्धध्यानरूप अशियें करी आत्मप्रदेशथकी अष्ट कर्म वाली अष्टगुणसंपन्न लोकने अंतें विराजमान सादि अनंतमे जागें अनंता सिद्ध परमात्मा एवंचूतनयने मत्तें थया ठे, तेमां आगल कख्यां, ते रीतें त्रण तत्त्व पामीयें. ए रीतें नव तत्त्वमांथी निश्चयनयमां त्रण तत्त्व जाणवां.

११७ शिष्यः—जीवना व्यवहारप्राण ते कयां ? अने निश्चयप्राण ते कयां ?

गुरुः—व्यवहार नयना मतवालो तो बाह्यथकी जेनुं जेवुं स्वरूप देखे,

तेने तेहबुं कही बोलावे, एटले चार गतिरूप संसारमां जीव नव नवा न वें करी एकेंद्रियधी मांकी पंचेंद्रिय पर्यंत देवता, नारकी, तिर्यच अने मनुष्य नाम धरावी चवबुं उपजबुं करे ठे, माटे जे गतिमां उपजे, ते गतिनां जे प्राण जीव धरे ठे, ते व्यवहारनयें प्राण जाणवां, अने निश्चय प्राण तो जीवने सत्तागतें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य अने उपयोगरूप ठे. ए जीवनां निश्चयप्राण ते सदाकाल शाश्वतां ठे, एनो कोइ कालें विनाश थतो नथी. एटले व्यवहारप्राणनी तो घट वध थाय, गतियें गतियें विनाश थाय, परंतु निश्चयप्राण तो शाश्वतां जाणवां.

२१६ शिष्यः—एक मुठीमां जीव केटला पामीयें ?

गुरुः—निगोदिया गोला लोकाकाशप्रमाणे असंख्याता ठे, एटले चौद राजलोक. जीवें करी काजलनी कूपी प्रमाणें नख्यो ठे, अने एक मुठीमां पण निगोदना गोला असंख्याता ठे, तेमां अनंता जीव पामीयें.

२१७ शिष्यः—पड्डव्यमांहेलां एक मुठीमां केटलां डव्य पामीयें ?

गुरुः—एक मुठीमां ठए डव्य पामीयें, केम के लोकमां धर्मास्तिकायना असंख्याता प्रदेश ठे, अधर्मास्तिकायना पण असंख्याता प्रदेश ठे, अने आकाशास्तिकायना पण असंख्याता प्रदेश ठे, तेम निगोदिया गोला पण ते प्रमाणें असंख्याता ठे, अने ते असंख्याता असंख्याता जेद ठे, तेथी एक मुठीमां पण धर्म, अधर्म अने आकाशना असंख्याता असंख्याता प्रदेश जाणवा. तेम जीव पण अनंता जाणवा. जेम कोइ एक वैद्यें पैशानार पैशानार लाग्य औषधी खांदीने जेदी करी तेमांथी एक चपटी नरीने आपे, तेने स्रक्त औषधी कहीयें. अने महोटी ढगलो पड्यो ठे तेने पण स्रक्त औषधी कहीयें. ए दृष्टांतें चौद राजलोकमां एण एकेक डव्यना असंख्याता असंख्याता प्रदेश जाणवा अने एक मुठीमां पण असंख्याता असंख्याता प्रदेश जाणवा, एटले एक मुठीमां धर्म, अधर्म, आकाश अने निगोदीया जीवना गोला पण असंख्याता आख्या, माटे एक धर्मास्तिकायनी अने अधर्मास्तिकायनी. त्रीजुं आकाशास्तिकाय अने चाथुं जीवास्तिकाय, ए चार डव्य थदां. इवे ते निगोदमांहेलो एक गोला लट्टियें, तेमां असंख्याती निगोद ठे. ते असंख्यातीमांथी एक निगोद लट्टियें तेमां अनंता जीवने, तेमांहेलां एक जीव लट्टियें. तेना असंख्याता प्रदेश ठे, अने जीवना एकेका प्रदेश

शैं कर्मनी अनंती वर्गणाउं लागीं ठे, अने एकेक वर्गणामां अनंता पुजल परमाणुआ रखा ठे, ए पांचमुं पुजलद्रव्य थयुं, अने ए परमाणुआ सदा काल शाश्वता ठे, माटे एकेका परमाणुआमां अनंतो उत्पादव्यय रूप काल वही गयो, माटे ठहुं कालद्रव्य पण अनंतुं कहीयें. अने परमाणुआ तो एना ए शाश्वता ठे, ए रीते एक मुठीमां ठ ड्रव्य जाणवां, १२० शिष्यः—जीवना पांचशें त्रेशठ जेद ठे, तेमांथी केटला जेदना जीव मरण पामे अने केटला जेदना जीव नहीं मरण पामे ?

गुरुः—जीवना पांचशो त्रेशठ जेदमांथी देवताना अपर्याप्तावस्थाना नवाणुं जेद नहीं मरे, तथा नारकीना अपर्याप्तावस्थाना सात जेद नहीं मरे, तथा युगलीया मनुष्यना अपर्याप्तावस्थाना ढ्याशी जेद नहीं मरे, ए रीतें सर्व मदी (१९२) जेद नहीं मरे, वाकीना (३११) जेदवाला मरे.

ए रीतें नव तत्त्वनुं स्वरूप समकेतदृष्टि जीवना हितने अर्थें समकित रूप रत्न निर्मल करवाने वास्ते स्वसत्ता परसत्तानी प्रतीति करवाने दीपक समान, आत्मार्थी जीवने आचरण समान नवतत्त्व विचार कह्यो ॥

॥ हवे अध्यात्मस्वरूपवावनी कहीयें ठैयें ॥

॥ दोहा ॥ माया जाल मूकी परी, श्रुत शारीत्र विचार ॥ जवजल तारण पोतसम, धर्म हियामां धार ॥ १ ॥ धर्मथकी धन संपजे, धर्म सुखी या होय ॥ धर्म धन्न वधे घणुं, धर्म करे जग कोय ॥ २ ॥ धर्म करे जे प्राणीया, ते सुखीया जवमांय ॥ जगमां सहु जीजी करे, आवी लागे पाय ॥ ३ ॥ धर्म धर्म सहु को करे, धर्म न जाणे कोय ॥ धर्म शब्द जगमां वडो, विरला बूके सोय ॥ ४ ॥ आतम साखें धर्म जे, त्यां जनतुं शुं काम ॥ जनमन रंजन धर्मनुं, मूढ्य न एक बदाम ॥ ५ ॥ पोचेगा तव कहेगा, तव लग क ह्यो न जाय ॥ मनमें रोष नहीं करो, जडके जागी जाय ॥ ६ ॥ माणस होणां मुसकिद्ध है, तो साध्य कहांसे होत ॥ साध हुवा तव सिद्ध जया, केनी न रही ज्योत ॥ ७ ॥ साधु जया तो क्या हुवा, न गया मनका छेख ॥ समता सूं चित्त लाय कर, अंतरदृष्टि देख ॥ ८ ॥ चेतन तें परच्यो नहीं, क्या हुवा व्रतधार ॥ शालि विहूणा खेतमें, वृथा बनाइ वाड ॥ ९ ॥ आतम अनुभव वासकी, कोइक नवली रीत ॥ नाक न पकरे वासना, कानग्रहे परतीत ॥ १० ॥ श्री जिनवाणी त्नुं नमी, कीजें आतम शुद्ध ॥ चिदानंद सुख

पामीयें, मिटे अनादि अशुद्ध ॥ ११ ॥ शुद्धातमदर्शन विना, कर्म न बूटे
 कोय ॥ ते कारण शुद्धातमा, दर्शन करो थिर होय ॥ १२ ॥ आतम अनु
 जव रमण्यें, मटे मोहअंधार ॥ आपस्वरूपमें जलहले, नहीं तस अंत
 अपार ॥ १३ ॥ तिहां आतम त्रिविधा कह्यो, वाहिर अंतर नाम ॥ परमातम
 तिहां तीसरो, सो अनंत गुणधाम ॥ १४ ॥ प्रथम वहिरात्मलक्षण ॥ पुजलसैं
 रातो रहे, जाने एहनिधान ॥ तसलाजें लोज्यो रहे, वहिरातमअजिधान ॥ १५ ॥
 द्वितीय अंतरात्म लक्षण ॥ पुजल खलसंगीपरें, सेवे अवसर देख ॥ तनु
 शक्ति ज्युं लकडी, ग्यानजेद पद लेख ॥ १६ ॥ वहिरातम तज आतमा,
 अंतर आतम रूप ॥ परमातमने ध्यावतां, प्रगटे सिद्ध स्वरूप ॥ १७ ॥ पु
 नल जाव रुचे नहीं, ताथें रहे उदास ॥ सो अंतर आतम लहे, परमातम
 परकाश ॥ १८ ॥ सिद्ध स्वरूपी जो कहुं, पण कतु देखुं न रूप ॥ अंतरदृष्टि
 विचारतां. ऐसे न सिद्ध अनूप ॥ १९ ॥ अनुजव गोचर वस्तुका, जाणे ए
 द्वि अलाट ॥ कहन सुननमें किसुं नहीं, पामे परम आढ्हाद ॥ २० ॥ ठंदा ॥ आ
 तम परमातम दृष्ट, अनुजव रस संगतें ॥ छैतजाव मल नीसरे, जगवंतनी ज
 कतें ॥ २१ ॥ दोदा ॥ आतमसंगें विलसतां, प्रगटे वचनातीत ॥ महानंद रस मो
 कलो. सकल उपाधि रहीन ॥ २२ ॥ सिद्धस्वरूपी आतमा, समता रस जरपूर ॥
 अंतरदृष्टि विचारतां, प्रगटे आतम नूर ॥ २३ ॥ आपें आप विचारतां, मन पा
 में विनागम ॥ रम स्यादित सुख उपजे, अनुजव ताको नाम ॥ २४ ॥ अनु
 जव चिन्तानि रतन, अनुजव हें रमकूप ॥ अनुजव मारग मोहको, अनु
 जव शुद्ध स्वरूप ॥ २५ ॥ चिदानंद चिन्मय मदा, अविचल जाव अनं
 त ॥ निर्मलज्योति निरंजनो, निगलंघ जगवंत ॥ २६ ॥ कतकमल पर
 पंथकी. निःसंगें निर्लेप ॥ जिद्दां विनाव छुर्नावनो, नहीं लवलेशें खेप ॥
 ॥ २७ ॥ ज्युं नवनीतको जल वले, तव प्रगटे वृत ग्याम ॥ तिम अंत
 र आतमयकी. परमातम परकाश ॥ २८ ॥ शुद्धातम जावें रहे, प्रगटे
 निर्मल ज्योति ॥ ते त्रिदुवनजिग मुकुटमणि, गड पाप सवि गंति ॥
 ॥ २९ ॥ निजस्वरूप गंदतां यकां, परस्वरूपको नाश ॥ महज जावथी
 गंधजे. उगते वचन विलास ॥ ३० ॥ अंतरदृष्टि देखीयें, पुजल चेतन र
 ५ ॥ अंतरात्मनि होय वेगली. न पडे ते नवकूप ॥ ३१ ॥ अंतरगत जा
 रना विना. ते पडेने सुनिवेश ॥ शुद्धक्रिया तम नवि द्रुवें, छम जाणांध

रो नेह ॥ ३२ ॥ अंतर्गतनी वातडी, नवि जाणे मति अंध ॥ केवललिंग धारी तणो, न करो तेह प्रसंग ॥ ३३ ॥ अंतर आत्मस्वभाव ठे, ते जाणे मुनिराय ॥ कर्ममल दूरें करे, एम जाणो मनमांय ॥ ३४ ॥ आतम वस्तु स्वभाव ठे, ते जाणे ऋषिराय ॥ अध्यातम वेदी कहे, इम जाणो चित्तमांय ॥ ३६ ॥ आतम ध्यानें पूर्णता, रमता आत्म स्वभाव ॥ अष्ट कर्म दूरें करे, प्रगटे शुद्ध स्वभाव ॥ ३६ ॥ लाख कोड वरसां लगे, किरिया यें करी कर्म ॥ ज्ञानी श्वासोह्वासमां, इम जाणे ते मर्म ॥ ३७ ॥ अंतर मे ल सवि उपशमे, प्रगटे शुद्ध स्वभाव ॥ अव्यावाध सुख जोगवे, करी कर्म अज्ञाव ॥ ३७ ॥ अक्षय ऋद्धि लेवा जणी, अष्ट कर्म करो दूर ॥ अष्ट कर्म ना नाशथी, सुख पामे जरपूर ॥ ३८ ॥ संतोषीय सदा सुखी, सदा सुधार स दीन ॥ इंद्रादिक जस आगळे, दीसे दुःखीया दीन ॥ ४० ॥ जे सुख न हिं सुररायने, नही राया नहीं राय ॥ आतम सुखने अनुजवे, ते संतोष पसाय ॥ ४१ ॥ सुरगण सुख त्रिहुं कालनां, अनंत गुणां ते कीध ॥ अनं तवगें वर्गित कस्यां, तोपण सुख समीध ॥ ४२ ॥ ते सुखनी इडा करो, मूको पुजलसंग ॥ अल्पसुखने कारणें, दुःख जोगवो परसंग ॥ ४३ ॥ अथ तृतीय परमात्म लक्षण ॥ दोहा ॥ प्यारो आप स्वरूपमां, न्यारो पुजल खे ल ॥ सो परमात्म जाणीयें, नही जस जवको मेल ॥ ४४ ॥ नामात्म वहिरातमा, थापना कारण जेह ॥ सो अंतर अव्यातमा, परमात्म गुण जेह ॥ ४५ ॥ ज्ञावातम सो देखीयें, कर्ममर्मको नाश ॥ स करुणा जगवं तकी, ज्ञावें ज्ञाव उदास ॥ ४६ ॥ परम अध्यातमने लखे, सद्गुरु केरे संग ॥ तिनको जव सफलो हुवे, अविहड प्रगटे रंग ॥ ४७ ॥ धर्म ध्या नको हेतु है, शिवसाधनको खेल ॥ असो अवसर कव मिले, चेत सके तो चेत ॥ ४८ ॥ वक्ता श्रोता सब मिले, प्रगटे निज गुण रूप ॥ अखय खजानो ग्यानको, तीन जवनको रूप ॥ ४९ ॥ अष्टकर्म वन दाहिकें, तप सिद्ध जिनचंद ॥ तासम जो अप्पा गणे, ताकूं वंदे इंद ॥ ५० ॥ कर्मरोग औषध समी, ग्यान सुधारस वृष्टि ॥ शिवसुख अमृत सरोवरें, जय जय सम्यग्दृष्टि ॥ ५१ ॥ ज्ञानवृद्ध सेवो जविक, चारित्र समकित मूल ॥ अ जर अगम फल पद लहो, जिनवर पदवी फूल ॥ ५२ ॥ ए रीतें वहिरात्मा दिक जण आत्मानुं स्वरूप अध्यात्म वावनीयें करी जाणवुं.

हृवे जीव स्वरूपनुं ध्यान करवाने गाथा कहे ठे:- अहमिको स्वसु सुखो, निम्ममउ नाण दंसण सम्मग्गो ॥ निमम निउत्तचित्तो, सवेएए स्खयं नेमि ॥१॥ अर्थ:-ज्ञानी जीव एवी रीतें ध्यान करे जे हुं एक तुं, परपुत्र लथी न्यारो तुं, निश्चयनयें करी शुद्ध तुं, माहारं ज्ञान कर्ममलथी न्यारं ठे, निर्मम एटवे ममताथी रहित तुं, ज्ञान दर्शनथी जस्यो तुं, हुं महारा ज्ञाननाव सहित तुं, हुं महारा गुणमां रह्यो तुं, ते चेतना गुण महारी सत्ता ठे, एवुं पोतानुं आत्मस्वरूप तेने ध्यावतो सर्व कर्मने क्षय करे ठे.

हृवे समकेतनी शुद्धि करवा सारु निश्चय व्यवहाररूप चोजंगीयें करी देव, गुरु अने धर्मनुं स्वरूप देखाडे ठे.

२२१ निश्चयथकी शुद्ध देव ते आपणो जीव, निष्पन्नस्वरूपी, तत्त्व मणी. आपणा आनमानुं तरण तारण ऊहाज ते आपणो आत्मा ठे, सर्व कर्म केशनो खपावनार अने अनंतगुणरूप लक्ष्मीनो प्रगट करवा वाखो आपणो जीव ठे, माटे पोताना आत्मानुं ध्यान एकाग्र चित्तें करतो आ गभना कर्तोयको जीव, संसार समुद्रना (तीर केण) कांठा प्रत्यें पामे.

२२२ नया व्यवहारथकी सुदेव ते श्रीअरिहंत जगवान् वार गुणें करी महिन. चोत्रीश अतिगयें करी विराजमान, पांत्रीश वाणीरूप गुणें करी न व्य प्राणीने हिनोपदेश करना आरीसानी पेरें निमित्त कारणरूप जाणवा.

२२३ नया निश्चयथकी कुदेव ते पोताना आत्मानुं स्वरूप न उल्लग्युं अने ज्ञान दशायें करी जटरूप विनावदशामां जेनुं चित्त सदाकाल लागी रखुं ठे ए रीतें पोताना आत्माना विगधना कर्तो यको प्राणी संसाररूप समुद्रमांसुवे २२४ व्यवहारथकी कुदेव ते कृष्ण, महादेव, क्षेत्रपाल, ब्रह्मा, पितृ प्रमुख जाणवा. ए रीतें निश्चय व्यवहाररूप देवनुं स्वरूप जाणी ममकिन शुद्ध करवुं.

हृवे निश्चय व्यवहारथी गुरु उल्लग्यवा रूप चोजंगी कहे ठे.

२२५ प्रथम निश्चयथकी सुगुरु ते आपणा जीवने एकांते वेमाटी कटी शंभामा आरी. निश्चयव्यवहार कुसार्थकी निवारी अने समकेतरूप शुद्धि करवावे. एवी रीतें आत्माने मागें आणो, तो नुस्त आंव, माटे निश्चय सुगुरु ते आत्माने आत्मा जाणवो.

२२६ व्यवहारथकी सुगुरु ते जे मायुमुनिगत मन्नावीज गुणें करी ग

हित आचार व्यवहार सहित, कृपापात्र, शुद्धमार्गना प्ररूपक, जव्यप्राणीने प्रतिबोधवा उद्यमवंत, ते व्यवहार सुगुरु कारणरूप जाणवा.

११७ निश्चयथकी कुगुरु ते जे जिन वचनना खोटा अर्थ करे अने अज्ञानने वशें खोटी प्ररूपणा करी संसारवृद्धिनां कारण सेवी पोतें मूवे, अने परने मूवावे.

११८ व्यवहारथकी कुगुरु ते योगी, संन्यासी, ब्राह्मण, कुलिंग प्रमुख तेमज स्वलिंगी जे आचार रहित जेखधारी एवा यति प्रमुख जाणवा.

हवे धर्मनुं स्वरूप निश्चय व्यवहाररूप चोचंगीयें करी देखाडे ठे.

११९ निश्चयथकी सुधर्म ते जीवने अंतरंग सत्तागमें अनंतचतुष्टयरूप ज्ञान, दर्शन, चारित्र वीर्यरूप अनंतो धर्म रह्यो ठे, ते कमें करी आवराणो ठे. जे म आडां वादलां आव्याथी सूर्यनी कांति दवाइ जाय, पण अंतरमां देदीप्यमान कांति ठे. तेम आत्माने कर्मरूप वादलां आडां आव्यां, तेणें करी आत्मानी कांति दवाणी पण अंतरंग आत्मानी कांति सूर्यनी पेरें देदीप्यमान ठे, ते निश्चयधर्म कह्तीयें.

१२० ते पूर्वोक्त धर्म निरावरण प्रगट करवाने वास्ते साध्य एक चोखुं निर्मल राखीने जे बाह्य व्यवहार क्रियारूप व्रत पञ्चखाण आदि जे करणी करवी, ते व्यवहारथकी सुधर्म जाणवो.

१२१ निश्चयथकी कुधर्म ते जे एकांत मार्ग बाह्यकरणी ते उपर राच्यो परंतु अंतरंग ज्ञानहिन आत्मधर्म ओलख्यो नथी, ते निश्चयकुधर्म ठे.

१२२ व्यवहारथकी कुधर्म, ते पारका परदर्शनीना मतने अनुयायी जे धर्म करणी करवी, ते व्यवहारथकी कुधर्म जाणवो. ए रीतें निश्चय व्यवहाररूप चोचंगीयें करी देव, गुरु अने धर्मनुं स्वरूप जाणे, अने अंतरंग प्रतीतें निर्मल पणे सद्दे, ते निश्चयसमकेतना धणी जाणवा.

हवे निश्चय व्यवहाररूप पांच महाव्रतनुं स्वरूप जे जाणे तेने ज्ञानी कह्तीयें. अने जाणीने पाले, तेने साधुमुनिराज कह्तीयें ?

१२३ शिष्यः— ए पांच महाव्रतनुं स्वरूप केवी रीतें जाणीयें ?

गुरुः—एकेंद्रियथी मांमीने पंचेंद्रिय पर्यंत त्रस अने स्थावर जीव ते स हुने पोताना जीव सरखा जाणी, ते जीवोनी यत्ना करे, रक्षा करे, दया पाले, कोइ जीवने मनथकी, वचनथकी अने कायाथकी पोतें डुहवे नहिं,

अने वीजाने पण एज रीतें उपदेश आपे, ते जीवने व्यवहारप्राणातिपातयकी विरम्यो कहीयें. ए व्यवहार प्राणातिपातविरमणुं स्वरूप कथुं.

२३४ हवे निश्चय प्राणातिपातविरमणुं स्वरूप कहे ठे. आपणो जीव अज्ञानने वशें करी दुःखी ठे, जन्म, जरा मरण, जय, शोक, आधि, व्याधिरूप पीडायें करी संसारमां अनंता काल थया दुःख जोगवे ठे, तेथी आत्मज्ञानरूप लोचनें करी अज्ञानरूप मिथ्यात्वने खपावी ज्ञान, दर्शनरूप गुण प्रगट करी आपणा जीवने कर्मथी ठोडाववो, तेवारें जन्म जरारूप सर्व दुःख मटे अने आत्मज्ञानने वलें करी आत्मप्रदेशें नवा कर्मनी रज लागवा न आपे, एवा जेना शब्द नयने मतें परिणाम वत्तें ठे, ते जीव, निश्चय प्राणातिपातयकी विरम्या कहीयें.

२३५ हवे व्यवहारयकी मृपावादनुं स्वरूप कहे ठे. कडवुं वचन बोलवुं. परजीवने विश्वास प्रतीति उपजावी असत्य वचन बोलवुं, तेथी जे विरम्याठे अने मुख्ययकी सत्यवचन बोलेठे ते व्यवहार मृपावादयकी विरम्या कहीयें.

२३६ हवे निश्चययकी मृपावाद विरमण व्रतनुं स्वरूप कहे ठे. पौनक्षिक परवस्तुने आपणी कहेवी, ते निश्चय मृपावाद जाणवो कारण के पुनज परमाणुथा ठे ते शाश्वता ठे, ते एकेक जीवें अनंती वार आहार पाणे लड निहार पाणे करी अनंता जीव सिद्धि वस्या अने हजी पण नदें जीव आहार पाणे लड निहारपाणे करे ठे, तेम आपणा जीवें पण अनंती वार आहारपाणे लड निहारपाणे कस्या, ते कारणें ए साधारण वस्तु कहीयें. माटे ते पौनक्षिक वस्तुने जीव आपणी करी माने ते निश्चय मृगनाद कहीयें. अने जीवने अजीव करी जाणे इत्यादिक अज्ञानपाणुं तेने निश्चयमृपावाद जाणवो. अथवा सिद्धांतना अर्थ ग्वोटा कहे, ते पण मृपावादमां ठे, ए मृपावाद जेणें त्याग्यो ते निश्चय मृपावादयकी विरम्या कहीयें. एटले वीजां मवें व्रत दांगे तेथी एक चारित्र्य जंग थाय, परंतु ज्ञान दर्शनना जंग न थाय, अने नेणें निश्चयमृपावाद दांग्यो, तेणें दर्शन, ज्ञान अने चारित्र्य ए व्रते दांग्या, जे कारणें आगममां एम कथुं ते के एक माधुयें चोडुं व्रत दांगुं अने एक माधुयें वीडुं मृपावादव्रत दांगुं तेमां जेणें चाथुं व्रत दांगुं ते आलोचना हीवे शुद्ध थाय, परंतु जेणें सिद्धांतना ग्वोटा अ

र्थ कही मृषावाद उपदेश दीधो, ते आलोचना दीधे पण शुद्ध न थाय. ए निश्चयथकी बीजा मृषावाद विरमणव्रतनुं स्वरूप कछुं.

३३७ हवे व्यवहारथकी अदत्तादान विरमणव्रतनुं स्वरूप कहे ठे, जे पारकुं धन वस्तु प्रमुख रुपाने, चोरावे, ठगी दीधे, तेने चोर कहीयें एटले अण दीधी पारकी वस्तु लेवी, तेने अदत्तादान कहीयें. तेथी जे विरम्यो ठे, ते व्यवहार अदत्तादानथी विरम्यो कहीयें.

३३८ हवे निश्चय अदत्तादान विरमण व्रतनुं स्वरूप कहे ठे. जीव, पांच इंद्रियनां त्रेवीश विषयरूप सुख, तेनी वांठायें आठ कर्मनी वर्गणाने ग्रहण करे ठे, इत्यादिक परवस्तुने लेवा वांठे, ते निश्चय अदत्तादान जाणवुं. इहां शिष्य पूठे ठे के विषयनी अने कर्मनी वांठा कोण करे ठे ? तेवारें गुरु कहे ठे. पुण्यप्रकृतिना जे बहेंतादीश जेद ठे, ते चार कर्मनी शुद्ध प्रकृति ठे, तेने योगें जीव, आगल जतां इंद्रियसुख पामे ठे, तेमाटे जे जीव पुण्यने आगल जेवुं लेवा योग्य कहे ठे, ते जीव, कर्मनी अने विषयनी वांठा करे ठे, एटले कोशक जीव व्यवहारथकी तो अदत्तादान एक तृणमात्र पण ले तो नथी तो पण तेने जो अंतरंग पुण्यादिकनी वांठा ठे, तो तेणें करी तेने निश्चय अदत्तादान लागे ठे.

३३९ हवे व्यवहारथकी मैथुनव्रतनुं स्वरूप कहे ठे. जे पुरुष, परस्त्रीनो परिहार करे, तेने व्यवहारथकी मैथुनविरमण व्रत कहीयें, एटले साधुने सर्वथा स्त्रीनो त्याग ठे, तथा गृहस्थने हाथे परणेदी स्त्री मोकदी ठे अने परस्त्रीनां पञ्चस्काण ठे, ते सर्व व्यवहार मैथुनविरमणव्रत जाणवुं.

३४० हवे निश्चय मैथुनविरमणव्रत कहे ठे. जे जीव, अंतरंग विषय अजिलाषनो त्याग अने मननी तृष्णानो त्याग करी पोतानी आत्मपरिणतिने विषे रमण करे ठे, पण परपरिणतिमांहे पेशतो नथी पोताना गुणनुं चिंतन करे ठे, पण परनुं चिंतन करतो नथी एटले पोताना स्वभावरूप घर मूकी विज्ञावरूप परघरमां पेशी कुशीदीयो थतो नथी ते जीव निश्चय मैथुनथकी विरम्यो ठे.

३४१ हवे व्यवहारथकी परिग्रह व्रतनुं स्वरूप कहे ठे. जे धन, धान्य, दास, दासी, चतुष्पद, घर, धरती, वस्त्र, आचरणादिकनो त्याग, ते व्यवहारथी परिग्रहत्याग व्रत जाणवुं. एटले साधुने सर्वथा परिग्रहनो त्याग ठे अने गृह

स्यने इत्था प्रमाणं परिग्रहं ठे, ते जेटली इत्था होय, तेतलो परिग्रहं मोकलो राखे अने उपरांत परिग्रहनी निवृत्ति करे, ते व्यवहारथकी पांचमुं व्रत कहीयें.

२४२ हवे निश्चयथकी परिग्रहं विरमणं व्रतनुं स्वरूप कहे ठे:— जे जावकर्म रूप राग, द्वेष, अज्ञान तेनी चिकाशें अव्यकर्मरूप ज्ञानावरणादि आठ कर्म नीपण्यां तेने मूके, शरीर इंद्रियनो परिहार एटले शरीर अने इंद्रिय उपरयी मूर्खा मूकी अने शुचाऽशुच विकाररूप जे कर्म, तेने पर जाणीने ठांके, ते निश्चयपरिग्रहनो त्याग कहीयें. एटले आ चवसंबंधि तथा परचवसंबंधि शरीरादि परवस्तुनी मूर्खा ठोडी ते जीवें निश्चय परिग्रहं ठोड्यो, एम जाणवुं. ए रीतें निश्चय व्यवहारथकी पांच महाव्रतनुं स्वरूप संक्षेपमात्र जाणवुं.

ए रीतें पांच महाव्रत पाळे पण ज्ञानदृष्टि विना पांच महाव्रत पळे न हीं, माटे ज्ञाननुं जाणपणुं करवा सारु जीवनुं स्वरूप चोजंगीयें करी उलखावे ठे, एटले एक जीव, हिंसा करता नथी पण हिंसानां फल जोगवे ठे, अने बीजा जीव, हिंसा करे ठे, पण हिंसानां फल जोगवता नथी तथा त्रीजा जीव, हिंसा करे ठे अने हिंसानां फल पण जोगवे ठे, चोथा जीव, हिंसा करता नथी अने हिंसानां फल पण जोगवता नथी, एकी रीतें ए चार प्रकारना जीव उलखवा जोड्यें.

२४६ शिष्यः—पहेला जीव जे हिंसा करता नथी अने हिंसानां फल जोगवे ठे, ते कया जीव जाणवा? अने तेमां गुणगणां केटलां पामीयें? तथा तेमां गान नय मांदेला केटला नय पामीयें? तथा तेमां नव तत्त्वमांदेलां केटलां तत्त्व पामीयें? तथा तेना चार निक्षेपा केम जाणियें? ए चार प्रश्नोनी पृष्ठा ठे.

गुरुः—गमुडने त्रिपे हजार हजार योजनना शरीरवाला महोटा मत्स्य ठे, तेनी आंगनी पाषाणमां नंदुलीयो मत्स्य गर्तज पर्याप्तो उपजे ठे, तेनुं आमुष्य एक अंतर मुद्गर्तनुं दाय ठे, तथापि एटला आयुष्यमां ते गवुं चिं नवन वरे ठे जे आ मत्स्यना मुष्यमांदे कोटो गमे जीव आवे ठे अने जाय ठे. एण हुं जे एटहुं महोदुं शरीर पाष्यो दोन तो गक पण जीवने जी वने जव देन नही! ए रीतें यद्यपि ए मत्स्य व्यवहार नयने मनें गक जी वने एण हानो नथी. तथापि कजुमूत्र नयने मनें जीवहिंमारूप अशुभ परिणामें करी एण दांही मर्गने सादनी नगकें जाय ठे, ए जीव मिथ्यान्वी जाणवा. एहुं एणकां एहेहुं जाणवुं. तथा ए जीवमां नव तत्त्वमांदेलां

ठ तत्त्व पामीयें. हवे ए मिथ्यात्वी जीवमां चार निक्षेपा आवी रीतें लगा डवा. प्रथम तो जेनुं मिथ्यात्वी एवुं नाम होय ते नाममिथ्यात्वी कहेवो अने वीजो स्थापनामिथ्यात्वी ते मिथ्यात्व एवा अक्षर लखी स्थापवा अथवा मूर्ति स्थापवी, तथा त्रीजो द्रव्यमिथ्यात्वी ते जीवने सत्तायें द्रव्यमिथ्यात्वरूप दलीयां रखां ठे, चोथो जावमिथ्यात्वी, ते मिथ्यात्वनां दलीयां उदयरूप जावें जोगवे ठे. वली प्रकारांतरें चार निक्षेपा कहे ठे. प्रथम नाममिथ्यात्वी, एटखे जे कोइनुं मिथ्यात्वी एवुं नाम होय ते, तथा वीजो स्थापनामिथ्यात्वी ते तेनी मूर्ति स्थापवी, तथा त्रीजो द्रव्यमिथ्यात्वी ते ब्राह्मण, अतीत, वैरागी प्र मुख कृष्ण महादेवने माने तेने द्रव्य मिथ्यात्वी कहीयें, अने चोथा जाव मिथ्यात्वी ते दूढीया प्रमुख जिनशासनना द्वेषी शत्रुरूप जाणवा.

१५० शिष्यः—वीजा जीव जे हिंसा करे ठे अने हिंसानां फल जोगवता नथी, ते जीव कया ? अने तेमां चौद गुणठाणां मांहेलां केटलां गुणठाणां पामीयें ? अने नव तत्त्वमांहेलां केटलां तत्त्व पामीयें ? तथा सातनय मां हेला केटला नय पामीयें ? अने तेना चार निक्षेपा केम जाणीयें ?

गुरुः— ए जीव समकेती जाणवा. एनुं गुणठाणुं चोथुं जाणवुं. शब्द नयने मतें अंतरंग सत्तागतना जासनरूप साध्य एक, साधन अनेक, ए रीतें श्रीवीतरागनी आझा प्रमाणें जेणें प्रतीति करी ठे, पण पूर्वकृतकर्मने योगें करी संसारमां व्यवहार नयने मतें अरुचिपणे विषयादिक आश्रवरूप हिंसानां काम करे ठे, अने आरंजना कामना आदेश उपदेश आपे ठे, एटखे शब्दनयने मतें समकितजावें वर्त्तां जे पोतानां पूर्वकृत कर्म ठे, तेने निर्जा रावे ठे, पण तेने अशुचरूप नवा कर्मनो बंध पडतो नथी. ए जीवमां नव तत्त्वमांहेलां आठ तत्त्व पामीयें. हवे एना उपर चार निक्षेपा लगावे ठे. प्रथम कोइनुं समकेती एवुं नाम ते नामसमकेती, वीजुं समकेतनी मूर्ति प्रमुख स्थापीयें, ते स्थापना समकेत, त्रीजुं यात्रा, दर्शन, सेवा, जक्ति, संघ, सामीवत्सल इत्यादि समकेतनी करणी करवी पण अंतरंग जीव अजीवनी वेंचणरूप प्रतीति करी नथी, तेने द्रव्य समकेत कहीयें. चोथुं आगल कह्या प्रमाणे सर्व कार्य करे, अने अजीवरूप नवतत्त्व षड्द्रव्यनुं जाणपणुं करी अंतरंग स्वसत्तापरसत्तानी प्रतीति पण करी ठे, तेने जावसमकेत कहीयें.

१५४ शिष्यः—त्रीजा जीव जे हिंसा करे ठे अने हिंसानां फल पण जो

गवे ठे, ते जीव कया ? तेमां गुणठाणां केटलां पामीयें ? अने हेलां तत्व केटलां पामीयें ? तथा सात नयमांहेला नय अने एमां चार निक्षेपा शी रीतें जाणवा ?

गुरु:- ए जीव, मिथ्यादृष्टि पहेले गुणठाणे जाणवा. मते तेना परिणाम महाआरंजपरिग्रहरूप हिंसाजावें वर्तें ठे, हार नयने मते उपरथी पण हिंसारूप आश्रवनां काम करे ठे, तत्व पामीयें. एना चार निक्षेपा आगल प्रश्नें लगाव्या ठे, ते रीतें.

१५८ शिष्य:- चोथा जीव जे हिंसा करता नथी अने हिंसानां जोगवता नथी ते कया ? तेमां गुणठाणां केटलां पामीयें ? अने न मांहेलां तत्व केटलां पामीयें ? तथा सात नयमांहेला नय केटला अने एना चार निक्षेपा केम जाणीयें ?

गुरु:- ए जीव साधुमुनिराज जाणवा. ते संग्रहनयने मते सर्व पोताना जीव समान जाणी रजुसूत्रनयने मते तेवाज मनःपरिणाम व्यवहार नयने मते उपरथकी ठकायनी दया पाले ठे, अने नयने मते ठठा सातमा गुणठाणाथी मांकीने यावत् वारमा पर्यंत ठस्य मुनिराज आत्मस्वरूपमां रमण करता कर्मरूप लेपने देता नथी. ए रीतें जावदयामां वर्तता पोताना आत्माना रक्षा करे तेमां आठ तत्व पामीयें. एना चार निक्षेपा आवी रीतें कहेवा. ते साधु पदुं नाम ते नामसाधु, साधुनी मूर्ति स्थापीयें, ते साधुनी क्रिया पाले, सूजतो आहार लीये, पडिलेहण पांच महाभूत पाले, सत्तर जेदें संयम आराधे, पण अंतरंग जाणवणा विना ज्ञान ध्याननो तेवो उपयोग वर्ततो नथी, तेमाडे साधु कहीयें. तथा आगल जे रीतें साधुनी क्रिया कही, ते प्रमादे पण करे ठे, अने अंतरंग जीव अजीवरूप स्वसत्ता परसत्तानी साध्य एक, माथन अनेक, ए रीतें सत्तागतना धर्मने साधे, ते

१६२ बडी हिंसा करता नथी अने हिंसानां फल जोगवता अरिहंत केवडी पण जाणवा. ए अरिहंत, व्यवहारनये ठकायना प्रतिपासक ठे, समजिरूढनयने मते तेरमे जावना बीजा बीजा पण वचासें रक्षे ठे, तेमां

रीतें नवे तत्व पामीयें, एना चार निक्षेपा कहे ठे. अरिहंत एवुं नाम, ते नामअरिहंत, एनी मूर्तिप्रमुख करी स्थापवी, ते स्थापनाअरिहंत अने ज्यां सुधी केवलज्ञान नथी उपन्युं तिहां सुधी ठन्नस्थावस्थापर्यंत अरिहंतनो जीव, ते द्रव्यअरिहंत जाणवो, तथा अनंत चतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट करी, लोकालोकनुं स्वरूप एक समयमां जाणे अने त्रिग डाने विपे वेसी न्नव्यप्राणीने हितोपदेश आपे, तेने ज्ञावअरिहंत कहीयें.

१६६ वली हिंसा करता नथी अने हिंसानां फल जोगवता नथी ए जां गामां सिद्ध परमात्माना जीव पण जाणवा. ए जीव, गुणगणावर्जित ठे, एवंभूतनयने मतें सकलकर्म क्षय करी लोकने अंतें विराजमान वत्तें ठे. एमां आगळ कक्षां, ते रीतें त्रण तत्व पामीयें. हवे एना चार निक्षेपा कहे ठे:—प्रथम सिद्ध एवुं नाम ते नामसिद्ध, बीजो श्रीजिनप्रतिमा स्था पीयें ते स्थापनासिद्ध, त्रीजा केवली जगवानने द्रव्यसिद्ध कहीयें, चोथा सकल कर्मनो क्षय करी अनंतगुणरूप लक्ष्मी प्रगट करी लोकने अंतें वि राजमान वत्तें, ते ज्ञावसिद्ध कहीयें. ए रीतें चोचंगीनुं स्वरूप जाणवुं. ए रीतें रत्नत्रयीनुं स्वरूप जाणी जे चारित्र पाळे, तेने साधु मुनिराज कहीयें. ए साधु मुनिराजनुं स्वरूप जाणवारूप चोचंगी लखियें ठैयें. एक जीव, उपरथी तो साधुपणा सहित ठे अने अंतरंगथकी साधुपणा रहित ठे, तथा वीजा जीव, अंतरथकी साधुपणा सहित ठे अने उपरथकी सा धुपणा रहित ठे तथा त्रीजा जीव, अंतरथकी साधुपणा रहित ठे अने उ परथकी पण साधुपणा रहित ठे, चोथा जीव, अंतरथकी पण साधुपणा सहित ठे अने उपरथकी पण साधुपणा सहित ठे.

१७० शिष्य:—पहेला जीव जे उपरथकी साधुपणा सहित अने अंतरथ की साधुपणा रहित ते कथा जीव ? तेमां गुणगणां केटलां पामीयें ? तथा सात नयमांहेला नय केटला पामीयें ? तथा तेमां नव तत्वमांहेलां तत्व केटलां पामीयें ? अने एना चार निक्षेपा केम जाणीयें ?

गुरु:—ते जीव, साधुलिंगधारक पहेले गुणगणे होय, तेमां नयनुं स्वरू प बतावे ठे, ते जीवने नरकनिगोदनां दुःखथकी वीहीतां सुखनी लालचें पुण्यरूप वांठायें साधुपणुं देवानो मनमां अंश उपन्यो एटले नैगमनयना मतवालो तेने साधु कही बोलावे, कारण के ए नयनां मतवालो एकअं

गवे ठे, ते जीव कया ? तेमां गुणठाणां केटलां पामीयें ? अने नव तत्वमां हेलां तत्व केटलां पामीयें ? तथा सात नयमांहेला नय केटला पामीयें ? अने एमां चार निक्षेपा शी रीतें जाणवा ?

गुरुः— ए जीव, मिथ्यादृष्टि पहेले गुणठाणे जाणवा. ऋजुसूत्र नयने मते तेना परिणाम महाश्रारंजपरिग्रहरूप हिंसाजावें वर्त्ते ठे, तथा व्यवहार नयने मते उपरधी पण हिंसारूप आश्रवनां काम करे ठे, एमां ठ तत्व पामीयें. एना चार निक्षेपा आगल प्रश्नें लगाव्या ठे, ते रीतें जाणवा.

१५७ शिष्यः— चोथा जीव जे हिंसा करता नधी अने हिंसानां फल पण जोगवता नधी ते कया ? तेमां गुणठाणां केटलां पामीयें ? अने नव तत्व मांहेलां तत्व केटलां पामीयें ? तथा सात नयमांहेला नय केटला पामीयें ? अने एना चार निक्षेपा केम जाणीयें ?

गुरुः— ए जीव साधुमुनिराज जाणवा. ते संग्रहनयने मते सर्व जीवने पोताना जीव समान जाणी ऋजुसूत्रनयने मते तेवाज मनःपरिणाम वर्त्ते ठे, व्यवहार नयने मते उपरथकी ठकायनी दया पावे ठे, अने शब्दसमजिरूढ नयने मते ठठा सातमा गुणठाणाधी मांकीने यावत् वारमा गुणठाणा पर्यंत तत्रस्थ मुनिराज आत्मस्वरूपमां रमण करता कर्मरूप खेपने लागवा देना नगी. ए रीतें जावदयामां वर्त्तता पोताना आत्मानि रक्षा करे ठे, तेमां आठ तत्व पामीयें. एना चार निक्षेपा आवी रीतें कहेवा. ते कोशुं साधु एतुं नाम ते नामसाधु, साधुनी मूर्ति स्थापीयें, ते स्थापनासाधु, साधुनी क्रिया पावे, सूजतो आहार लीये, पडिखेहण पडिक्कमाणुं करे, पांच महाव्रत पावे, सत्तर जेदें संयम आराधे, पण अंतरंग सत्तागतना जाणवणा विना ज्ञान ध्याननो तेवो उपयोग वर्त्ततो नधी, तेमाटे ते इव्य साधु कहीयें. तथा आगल जे रीतें साधुनी क्रिया कही, ते प्रमाणें सर्व क्रिया पल करे ठे, अने अंतरंग जीव अजीवरूप स्वसत्ता परसत्तानी वंचण करी साव्य एउ. साधुन् अनेक, ए रीतें मत्तागतना धर्मने साधे, ते जावसाधु ठे.

१६२ वडी हिंसा करता नधी अने हिंसानां फल जोगवता नधी ए नांगामां अरिदंत केवळी पण जाणवा. ए अरिदंत, व्यवहारनयें करी इव्यदयारूप उकारणा प्रतिपादक ठे, समजिरूढनयने मते तेरमे चौदमे गुणठाणे शुक्र अणुना बीजा बीजा पावे वचावें रद्या वनें ठे, तेमां आगल कथां, ते

रीतें नवे तत्व पामीयें, एना चार निक्षेपा इहे ते
 ते नामश्चरिहंत, एनी मूर्तिप्रमुख करी स्थानी.
 अने ज्यां सुधी केवलज्ञान नथी उपन्युं तिहां
 अरिहंतनो जीव, ते द्रव्यश्चरिहंत जाणवा,
 लक्ष्मी प्रगट करी, लोकालोकनुं स्वरूप एक
 डाने विषे वेसी जव्यप्राणीने हितोपदेश आये,

१६६ वली हिंसा करता नथी अने हिंसालां
 गामां सिद्ध परमात्माना जीव पण जाणवा.
 एवंभूतनयने मतें सकलकर्म दाय करी लोकने
 एमां आगल कद्यां, ते रीतें त्रण तत्व पामीयें
 कहे ठेः—प्रथम सिद्ध एवं नाम ते नामसिद्ध
 पीयें ते स्थापनासिद्ध, त्रीजा केवली जगवान
 सकल कर्मनो दाय करी अनंतगुणरूप लक्ष्मी
 राजमान वर्ते, ते जावसिद्ध कहीयें. ए रीतें
 ए रीतें रत्नत्रयीनुं स्वरूप जाणी जे चारित्र
 कहीयें. ए साधु मुनिराजनुं स्वरूप जाणवा
 जीव, उपरथी तो साधुपणा सहित ठे अने
 ठे, तथा बीजा जीव, अंतरथकी साधुपणा
 धुपणा रहित ठे तथा त्रीजा जीव, अंतरथकी
 परथकी पण साधुपणा रहित ठे, चोथा जीव
 सहित ठे अने उपरथकी पण साधुपणा सहित

१९० शिष्यः—पहेला जीव जे उपरथकी साधुपणा
 की साधुपणा रहित ते कया जीव ? तेमां गुण
 सात नयमाहेला नय केटला पामीयें ? तथा
 केटलां पामीयें ? अने एना चार निक्षेपा के
 गुरुः—ते जीव, साधुलिंगधारक पहेले गुण
 प बतावे ठे, ते जीवने नरकनिगोदनां दुःख
 पुण्यरूप वांढायें साधुपणुं लेवानो मनमां
 मतवालो तेने साधु कही बोलावे, कार

ज्ञ ग्रहीने सर्व वस्तुनं प्रमाण करे ठे तेमाटे. तथा संग्रहनयना मतवालो सत्ताने ग्रहण करे ठे, माटे साधुपणानां उपकरण जे उषो, मुहपत्ती, कपडां, पात्रां प्रमुख ए सर्व साधुपणानी सत्ता ठे तेने ग्रहे, तेवारें संग्रहनयना मतवालो तेने साधु कही बोलावे. तथा व्यवहारनयने मते जे उपरथी आचार व्यवहार क्रिया प्रमुख पांच महाव्रत पावे ठे, सूजतो आहार लीये ठे, वे टंकनां आवश्यक साचवे ठे, ए रीतें उपरथकी प्रवर्ततो देखीने व्यवहारनयना मतवालो तेने साधु कही बोलावे, तथा ऋजुसूत्रनयने मते जे अंतरंग वैराग्यज्ञावरूप संसारनां दुःख देखी उदासीजावें बत्ते, तो शुचफल उपार्जन करे, अने कोइ जीवना मनना परिणाम लोकने ठ गवारूप अथवा उदरपूर्णा माटे कपटरूप वर्तता होय, ते जीव अशुच फल उपार्जन करे, ए ऋजुसूत्रनयना मते साधु कहेवाय. ए रीतें द्रव्य लिंगी जीवमां चार नय जाणवा. हवे चार निक्षेपा बतावे ठे. प्रथम कोइ नुं साधु एवुं नाम होय, ते नामकाधु, बीजो साधुनी मूर्ति प्रमुख स्थापी ये, ते स्थापनासाधु, बीजो जे साधुनी क्रिया, आचार, व्यवहार प्रमुख करे ठे, पांच महाव्रत पावे ठे, सूजतो आहार लीये ठे, पण अंतरंग सत्ता गतना जाणपणा विना ज्ञान ध्याननो तेहवो उपयोग वर्ततो नथी, अने पुष्पाधिकनी बांठाये अनेक रीतें साधन तो करे ठे, तोपण ते व्यवहार नयने मते द्रव्यसाधु जाणवा. ए त्रण निक्षेपा द्रव्यलिंगी साधुमां कहीये. हवे एमां नव तत्त्वनुं स्वरूप बतावे ठे, ए लिंगी जीवनी सत्ताये पुण पाप रूप अजीवनां दक्षीयां अनंतां लागं ठे, ते आश्रवरूप जाणवां अने ए दक्षीये ए जीव बंधाणोथको चार गतिरूप संसारमां फरे ठे, माटे जीव, पुण्य, पाप, अजीव, अने बंध, ए ठ तत्त्व जाणवां.

२५४ शिष्यः—बीजा जीव जे अंतरंगकी साधुपणा सहित ठे, अने उपरथकी साधुपणा रहित ठे. ते जीव कया ? तेमां गुणगणां केटलां पामीये ? तथा तेन मान नयमांदेखा नय केटला पामीये ? नव तत्त्व मांदेलां नय केटलां पामीये ? अने एना चार निक्षेपा केम जाणीये ?

गुरुः—ते जीव. जोथा गुणगणा वाखा समकंती तथा पांचमा गुणगणा वाखा देववृत्ति आवश्यक जाणवा. एटवे ते जीव, व्यवहार नयने मते उपरथकी नय साधुपणा रहित ठे पण अंतरंग वैराग्य सहित उदासी ना

नवतत्त्वना प्रश्नोत्तर.

वें विषयकषायथकी विरक्त त्याग वैराग्यरूप साधु समान एवा ऋजु सूत्रनयने मत्तें अंतरमां परिणाम वर्त्ते ठे, अने शब्दनयने मत्तें स्वसत्ता परसत्तारूप जीव अजीवनी वेंचण करतां स्वरूपना चिंतनमां वर्त्ते ठे, ते णं करी महानिर्जरा प्रत्ये करे ठे, एमां नव तत्व मांहेलां आठ तत्व आ गळ कहां, ते रीतें जाणवां. हवे एमां चार निक्षेपा कहे ठे. ते जीव, व्यव हारनयने मत्तें तो संसारी गृहस्थ कहीयें. पण अंतरंग ज्ञाव साधु समान परिणाम वर्त्ते ठे, माटे तेमां एक ज्ञाव निक्षेपोज पामीयें.

११७शिष्यः—त्रीजा जीव, जे उपरथकी साधु पणा रहित ठे, अने अंतर थकी पण साधुपणा रहित ठे, ते जीव कया ? तथा तेमां गुणठाणां केट तां पामीयें ? अने सात नयमांहेला केटला नय पामीयें ? तथा नव तत्व मांहेलां केटलां तत्व पामीयें ? तथा तेना चार निक्षेपा केम जाणीयें ?

गुरुः—ते जीव, मिथ्यादृष्टि पहेले गुणठाणे जाणवा, तेमां नयनुं स्वरूप आवी रीतें ठे, नैगम नयने मत्तें आगळ गये काळें मिथ्यात्वी हतो अने आवते काळें मिथ्यात्वरूप गुणें करी मिथ्यात्व ज्ञावें वर्त्तेशे तथा वर्त्तमा नकाळें पण मिथ्यात्व ज्ञावें वर्त्ते ठे. ए रीतें तेने नैगमनयना मतवालो मिथ्यात्वी करी बोलावे, अने संग्रहनयना मतवालो तो सत्तानुं ग्रहण करे ठे, माटे जे जीवने मिथ्यात्वरूप दलीयां सत्तायें अनंतां रहां ठे, तेथी ते जीवने संग्रह नयना मतवालो पण मिथ्यात्वी करी बोलावे, अने व्यवहार नयना मतवालो बाह्यथकी उपरथी मिथ्यात्वरूप आचरण करतो देखे ठे.

माटे ए पण मिथ्यात्वी करी बोलावे, तथा ऋजुसूत्र नयना मतवालो पण एने अंतरंग परिणामें मिथ्यात्वरूप कार्यनुं चिंतन करतो देखी मिथ्या त्वी करी बोलावे. ए रीतें ए मिथ्यात्वी जीवमां चार नय जाणवा. तथा एमां आगळ कहेली रीतें नव तत्वमांहेलां ठ तत्व पामीयें. हवे एमां चार निक्षेपा कहे ठेः—जे कोशुं नाम, मिथ्यात्वी होय ते नामनिक्षेपो अने अद्दर लखवा अथवा तेनी मूर्ति स्थापवी, ते स्थापनामिथ्यात्व, तथा ते जीवने सत्तायें मिथ्यात्वरूप दलीयां रहां ठे, ते द्रव्यमिथ्यात्व कहियें. तथा ते दलीयां उदयरूप ज्ञावपणे जोगवे ठे, ते ज्ञावमिथ्यात्व जाणवुं. वली वीजी रीतें चार निक्षेपा कहे ठेः—जे कोशुं मिथ्यात्वी एवुं नाम, ते नाममिथ्यात्व, तथा मिथ्यात्वीनी मूर्ति प्रमुख स्थापवी, ते स्थापनामि

थ्यात्व. तथा अन्यदर्शनी जे अतीत, वैरागी, ब्राह्मण प्रमुख ते द्रव्यमि
थ्यात्वी जाणवा. तथा जे जिनशासनना द्वेषी, अवला, विपरीत मार्गना
देखाडनारा, दुंदुभीया प्रमुख ते जावमिथ्यात्वी जाणवा. ए मिथ्यात्वीना चार
निक्षेपा ठे, तेमां नवतत्त्व मांहेलां ठ तत्त्व आगल कहां, तेप्रमाणें जाणवां.

१८१ शिष्यः--चोथा जीव, उपरथकी साधु पणा सहित ठे, अने अंतर
थकी पण साधु पणा सहित ठे, ते जीव कया? तथा तेमां गुणगणां केटलां
पामीयें? अने सात नय मांहेला नय केटला पामीयें? तथा नव तत्त्वमां
हेलां केटलां तत्त्व पामीयें? तथा तेमां चार निक्षेपा केवी रीतें जाणवा?

गुरुः--ते जीव, साधु मुनिराज ठठा सातमा गुणगणाथी मांकीने यावत
अगीयारमा वारमा गुणगणा पर्यंत ठद्वस्थ मुनिराज जाणवा, हवे तेमां
नयनुं स्वरूप वतावे ठे, कोइ जीव, संसारथकी उजग्यो साचा धर्मनी परी
हा करतो मोक्षसुखनी लावचें साधुपणुं देवानो तेना मनमां अंश उत्प
न्न थयो एटले नैगमनयना मतवालो एक अंश ग्रहीने ते जीवने साधु क
ही बोलावे, तथा ते जीव, जेवारें साधुपणुं देवाने अर्थे उपकरणादि उ
घो, मुहपत्ती, कपडां, कांवली, पात्रां प्रमुख साधुपणानी सत्ताने ग्रहे, ते
वारें संग्रहनयना मतवालो तेने साधु कही बोलावे, तथा जे पांच महात्र
त सूधां पाले अने साधुनी क्रिया आचार व्यवहार प्रमुख सूधी रीतें करे
उजय टंकना आवश्यक साचवे, सांज सवार पडिलेहणां, पोरिसी जणावे, ए
रीतें उपरथी आचरणारूप क्रिया देखे, तेने व्यवहारनयना मतवालो साधु क
ही बोलावे, तथा श्जुसूत्रनयना मतवालो पारिणामिक जाव ग्रहण करे ठे,
माटे संसारउदासी, विषय कपायथकी विरक्त जाव त्याग वैराग्यरूप परि
णाम जेना वचें ठे, तेने श्जुसूत्रनयना मतवालो साधु कहे, तथा शब्द नयने
मतें तो जे. जीव अजीवरूप नव तत्त्व पड्द्रव्यनी उलखाण करी जीव स
चाने ध्यावे, अजीवमत्तानो त्याग करे, तेवा शुद्ध निश्चयनयरूप परिणाम
होव अने साधुनी क्रिया पण जे आगल कही, ते रीतें सर्वे करे, तथा सा
धु पणुं, साधन अनेक. ए रीतें सनागतना धर्मने साधे, तेने शब्द नयना
मतवालो साधु कही बोलावे. तथा समनिरुद्ध नयना मतवालो श्रेणिना
कने ग्रहे ठे. माटे कोइ जीव, नवमा दशमा गुणगणाथी मांकी यावत अ
गीयारमा वारमा गुणगणा पर्यंत शुद्ध शुद्ध ध्यान रूपातीत परिणाम

हृदयकश्रेणिरूप ध्यानै वत्ते ठे, तेने समजिरूढ नयना मतवालो साधु कही बोलावे, ए रीतें साधुनुं स्वरूप ठ नयें करी कहुं. हवे चार निक्षेपे करी साधुनुं स्वरूप उलखावे ठे. तिहां जे कोशुं साधु एवुं नाम ठे, ते नामसाधु. तथा जे साधु एवा अक्षर लखवा ते असद्भावस्थापना जाणवी अने जे साधुनी मूर्ति प्रमुख स्थापवी, ते सद्भावस्थापना जाणवी, तथा जे साधुनी क्रिया, पडिक्रमणुं पडिलेहण शुद्धरीतें करे, सूजतो आहार लीये, पण तेह वो ज्ञान, ध्यान, मोक्षरूप साधननो उपयोग वर्ततो नथी माटे तने द्रव्य साधु कहीयें. तथा ज्ञावसाधु कहेतां जे आगला त्रण निक्षेपामांहे साधुनी क्रिया कही, ते रीतें सर्व क्रिया करे अने साध्य एक, साधन अनेक, ए रीतें सत्तागतना धर्मने साधे, तेने ज्ञावसाधु कहीयें. ए चार निक्षेपा साधुमां कहेता, एमां आगल एटले आ पठीना प्रश्नमां केहेशे ते प्रमाणे नव तत्व मांहेलां आठ तत्व पामीयें. ए रीतें चोजंगीयें करी साधुपणानुं स्वरूप जाणीने जे पावे, ते प्राणी, गणा दिवसमां परमानंद पदप्रत्यें पामे.

हवे समकेतनी शुद्धि करवा वास्ते षड्द्रव्य नव तत्त्वनुं स्वरूप, द्रव्य, क्षेत्र, काल, ज्ञावनी चोजंगीयें करी देखाडे ठे एमां प्रत्येकमां चार चार प्रश्न ठे.

१७६ तिहां प्रथम जीवद्रव्यनुं स्वरूप कहे ठे:—द्रव्यथकी जीवद्रव्य, निश्चयनयने मत्तें ज्ञानादि गुणें करी सर्व एक सरखां ठे अने व्यवहार नयें करी देवता, नारकी, मनुष्य, निर्यचरूप जीवनी अनेक जाति जाणवी, तथा क्षेत्रथकी सर्व जीव, असंख्यातप्रदेशी लोकव्यापि जाणवा, तथा कालथकी निश्चयनयें करी सर्व जीव, अनादि अनंत जांगे वत्ते ठे, अने व्यवहार नयें करी संसारी जीव, चारगतिरूप संसारमां उत्पाद व्ययरूप पलटण स्वजावें करी सादि सांत जांगे वत्ते ठे, तथा ज्ञावथकी जोतां तो सर्व जीव, पारिणामिक जावें पोताना स्वजावमां रह्या वत्ते ठे अने व्यवहार नयें करी संसारी जीव शुजाऽशुज ज्ञावमां प्रवत्ते ठे.

१७७ हवे धर्मास्तिकाय द्रव्यनुं स्वरूप कहे ठे:—द्रव्यथकी धर्मास्तिकाय द्रव्यनो चलणसहायक गुण जाणवो, तथा क्षेत्रथकी एना असंख्याता प्रदेश लोकव्यापी जाणवा तथा कालथकी धर्मास्तिकाय द्रव्य, अनादि अनंत जांगे वत्ते ठे अने एना देश, प्रदेश तथा अगुरुलघु सादि सांत जांगे जाणवा, तथा ज्ञावथकी धर्मास्तिकाय द्रव्य अणें, अरसें, अगंधें, अफरसें जाणवुं.

थ्यात्व. तथा अन्यदर्शनी जे अतीत, वैरागी, ब्राह्मण प्रमुख ते द्रव्यमि
थ्यात्वी जाणवा. तथा जे जिनशासनना द्वेषी, अवला, विपरीत मार्गना
देखाडनारा, दुंढीया प्रमुख ते जावमिथ्यात्वी जाणवा. ए मिथ्यात्वीना चार
निक्षेपा ठे, तेमां नवतत्त्व मांहेलां ठ तत्त्व आगल कक्षां, तेप्रमाणें जाणवां.

१८२ शिष्यः—चोथा जीव, उपरथकी साधु पणा सहित ठे, अने अंतर
थकी पण साधु पणा सहित ठे, ते जीव कया? तथा तेमां गुणगणां केटसां
पामीयें? अने सात नय मांहेला नय केटला पामीयें? तथा नव तत्त्वमां
हेलां केटलां तत्त्व पामीयें? तथा तेमां चार निक्षेपा केवी रीतें जाणवा?

गुरुः—ते जीव, साधु मुनिराज ठा सातमा गुणगणाथी मांकीने यावत्
अगीथारमा चारमा गुणगणा पर्यंत बद्धस्थ मुनिराज जाणवा, हवे तेमां
नयनुं स्वरूप वतावे ठे, कोइ जीव, संसारथकी उज्जग्यो साचा धर्मनी परी
क्षा करतो मोक्षसुखनी लालचें साधुपणुं देवानो तेना मनमां अंश उत्प
न्न थयो एटखे नैगमनयना मतवालो एक अंश ग्रहीने ते जीवने साधु क
ही बोलावे, तथा ते जीव, जेवारें साधुपणुं देवाने अर्थे उपकरणादि उं
घो, मुद्दपत्ती, कपडां, कांवळी, पात्रां प्रमुख साधुपणानी सत्ताने ग्रहे, ते
वारें संप्रह्नयना मतवालो तेने साधु कही बोलावे, तथा जे पांच महाव्र
त सूधां पाले अने साधुनी क्रिया आचार व्यवहार प्रमुख सूधी रीतें करे
उज्जय टंकना आवश्यक साचवे, सांज सवार पडिखेहणां, पोरिसी जणावे, ए
रीतें उपरथी आचरणारूप क्रिया देखे, तेने व्यवहारनयना मतवालो साधु क
ही बोलावे, तथा ऋजुसूत्रनयना मतवालो पारिणामिक जाव ग्रहण करे ठे,
माटे संमागलदानी, विषय कपायथकी विरक्त जाव त्याग वैराग्यरूप परि
णाम जेना वतें ठे, तेने ऋजुसूत्रनयना मतवालो साधु कहे, तथा शब्द नयने
मतें तो जे, जीव अजीवरूप नव तत्त्व पदद्रव्यनी उलखाण करी जीव स
नाने ध्यावे, अजीवमनानो त्याग करे, तेवा शुद्ध निश्चयनयरूप परिणाम
नोय अने साधुनी क्रिया पण जे आगल कही, ते रीतें सर्वे करे, तथा सा
धु एक, साधन अनेक. ए रीतें मनागनना धर्मने साधे, तेने शब्द नयना
मतवालो साधु कही बोलावे, तथा ममनिरुद्ध नयना मतवालो श्रेणिना
वने ग्रहे ठे. माटे कोइ जीव, नवमा दशमा गुणगणाथी मांकी यावत् अ
र्थाचारमा वारमा गुणगणा पर्यंत शुद्ध शुद्ध ध्यान रूपानीत परिणाम

दि अनंत जागे जाणवुं. अने ज्ञव्यजीव आश्रयी अनादि सांत जागे जाणवुं: तथा ज्ञावथकी पाप उपार्जन करवाना अठार जेद जाणवा.

३१७ आश्रवतत्त्वनां द्रव्यथकी पुण्यपापरूप दक्षीयां ते द्रव्याश्रव कहीयें. तथा क्षेत्रथकी आश्रवतत्त्व लोकव्यापि जाणवुं. तथा कालथकी आश्रवतत्त्व अज्ञव्यजीव आश्रयी संततिजावें अनादि अनंतजागे वत्तें ठे, अने ज्ञव्य जीव आश्रयी अनादिसांतजागे वत्तें ठे, तथा ज्ञावथकी आश्रवतत्त्व ते पुण्य पापरूप दक्षीयां उपार्जन करवा वहेताक्षीश जेद जाणवा.

३१९ द्रव्यथकी संवरतत्त्वना सत्तावन जेद कहीयें. तथा क्षेत्रथकी संवर तत्त्व चौदराज लोक त्रसनाडी प्रमाणे जाणवुं. तथा कालथकी संवर तत्त्व द्वायिक ज्ञाव आश्रयी तो सादि अनंत जागे वत्तें ठे, अने द्वायोपशम ज्ञाव आश्रयी सादि सांत जागे वत्तें ठे, तथा ज्ञावथकी पोताना स्वरूपमां रमण करवुं ते संवरतत्त्व कहीयें.

३२६ द्रव्यथकी निर्जरातत्त्व वार जेदें कहीयें. तथा क्षेत्रथकी चौद राज लोक त्रस नाडी प्रमाणे जाणवुं तथा कालथकी सादि सांत जागे वत्तें ठे, तथा ज्ञावथकी सर्व प्रकारें इहानो रोध करी समताजावें वर्त्तवुं, ते निर्जरा.

३३० बंधतत्त्वना द्रव्यथकी चार जेद कहीयें. तथा क्षेत्रथकी लोक व्यापि जाणवुं अने कालथकी बंधतत्त्व सादिसांत जागे वत्तें ठे, तथा ज्ञावथकी जे अज्ञानरूप राग द्वेषनी चिकाश ते ज्ञावबंध जाणवो.

३३४ मोक्षतत्त्व द्रव्यथकी तेरमे चौदमे गुणठाणे केवलीने कहीयें, तथा क्षेत्रथकी अढीछीपव्यापि जाणवुं. तथा कालथकी सर्वे सिद्धआश्रयी अनादि अनंतजागे वत्तें ठे अने एक सिद्धआश्रयी सादि अनंत जागे जाणवुं. तथा ज्ञावथकी मोक्षतत्त्व ते सकल कर्म क्षय करी लोकने अंतें विराजमान एवा सिद्धपरमात्माने कहीयें. ए रीतें नव तत्त्वना स्वरूपमां द्रव्य, क्षेत्र, काल, ज्ञावरूप चोचंगीनुं स्वरूप जाणवुं.

३३७ शिष्यः— द्रव्य, क्षेत्र, काल अने ज्ञाव, ए चारमांथी कोण कोणथी सूक्ष्म अने कोण कोणथी वादर ठे ? ए चार प्रश्न ठे.

गुरुः—एक आंखना मिचकारामांहे असंख्याता समय थाय, माटे ए समयरूप काल, सूक्ष्म ठे अने ते थकी वली क्षेत्र घणुंज सूक्ष्म ठे. केम के एक अंगुल श्रेणि प्रमाणें जे क्षेत्र, तेमांथी आकाशरूप द्रव्यना जे प्र

२९४ हवे अधर्मास्तिकायद्रव्यनुं स्वरूप कहे ठे:—द्रव्यथकी अधर्मास्ति काय द्रव्यनो स्थिर सहायक गुण, तथा क्षेत्रथकी एना असंख्याता प्रदेश लोकव्यापी जाणवा, तथा कालथकी अनादि अनंत जांगे वत्ते ठे अने देश, प्रदेश तथा अगुरु लघु, सादि सात जांगे जाणवा, तथा जावथकी अधर्मास्तिकाय अवणें, अगंधे, अरसें अने अफरसें जाणवुं.

२९६ हवे आकाशास्तिकाय द्रव्यनुं स्वरूप कहे ठे:—द्रव्यथकी आकाशास्तिकाय द्रव्यनो अवगाहना गुण जाणवो, तथा क्षेत्रथी अनंतप्रदेशी लोकालोकव्यापी जाणवो, तथा कालथकी अनादि अनंत जांगे वत्ते ठे, अने देश, प्रदेश तथा अगुरुलघु सादि सांत जांगे जाणवा. तथा जावथकी आकाशास्तिकाय अवणें, अगंधे, अरसें, अफरसें जाणवो.

३०२ हवे कालद्रव्यनुं स्वरूप कहे ठे:—द्रव्यथकी काल द्रव्यनो नवा पुराणा वर्तनालक्षण गुण जाणवो, तथा क्षेत्रथकी कालद्रव्य, अढी ह्री प व्यापि जाणवुं. तथा कालथकी अनादि अनंत जांगे वत्ते ठे, अने उत्पाद व्ययरूप पलटण काल सादि सांत जांगे जाणवुं. तथा जावथकी कालद्रव्य अवणें अगंधें अफरसें जाणवुं.

३०६ हवे पुञ्जलद्रव्यनुं स्वरूप कहे ठे:—द्रव्यथकी पुञ्जलद्रव्यनो मिसण विखरण पूर्णगलन गुण जाणवो तथा क्षेत्रथकी पुञ्जल परमाणुआ लोकव्यापी जाणवा. तथा कालथकी पुञ्जलद्रव्यना अनंता परमाणुआ निश्चयनयें करी अनादि अनंतजांगे वत्ते ठे. अने व्यवहारनयें करी पुञ्जलना खंध सवें सादिसांत जांगे जाणवा, तथा जावथकी वर्ण, गंध, रस, फरस सहित ठे. ए रीतें जीव अजीवरूप पद्द्रव्यना स्वरूपमां चोचंगी जाणवी. एटवे ए पद्द्रव्यना स्वरूपमां नव तत्त्वमांहेलां जीव अने अजीव, ए वे तत्त्वनुं स्वरूप कहेवाणुं. हवे शेष पुण्यादिक सात तत्त्वनुं स्वरूप कहे ठे.

३१० पुण्यतत्त्व द्रव्यथकी घेंतालीश जेदें कहीयें, तथा क्षेत्रथकी पुण्यतत्त्व लोकव्यापी जाणवुं तथा कालथकी पुण्यतत्त्व अतद्यजीव आश्रयी मंनति नावे अनादि अनंतजांगे वत्ते ठे अने तद्यजीव आश्रयी अनादि सांत जांगे जाणवुं. तथा जावथकी पुण्यतत्त्वने उपार्जन करवाना नव प्रकार जाणवा.

३१६ पापतत्त्व. द्रव्यथकी व्यापी जेदें कहीयें, तथा क्षेत्रथकी पापतत्त्व लोकव्यापी जाणवुं. तथा कालथकी अतद्यजीव आश्रयी मंनति नावे अना

काय. तथा द्रव्यथकी धर्मास्तिकाय द्रव्य असंख्यातप्रदेशी जाणवुं अने जावथकी धर्मास्तिकायद्रव्य, चलणसहायरूप जाणवुं.

३४१ नामथकी अधर्मास्तिकाय एवुं नाम, ते नाम, अधर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय एवा अक्षर लखवा, ते स्थापना अधर्मास्तिकाय तथा द्रव्यथकी अधर्मास्तिकाय द्रव्य, असंख्यातप्रदेशी जाणवुं, अने जावथकी अधर्मास्तिकायद्रव्य, स्थिरसहायरूप जाणवुं.

३४२ नामथकी आकाशास्तिकाय एवुं नाम, ते नाम आकाशास्तिकाय जाणवुं. तथा आकाशास्तिकाय एवा अक्षर लखवा, ते स्थापना आकाशास्तिकाय जाणवुं. तथा द्रव्यथकी आकाशास्तिकाय अनंतप्रदेशी जाणवुं. अने जावथकी आकाशास्तिकायद्रव्य, अवगाहनारूप जाणवुं.

३४३ नामथकी कालद्रव्य एवुं नाम, ते नामकालद्रव्य, तथा कालद्रव्य एवा अक्षर लखवा, ते स्थापना कालद्रव्य जाणवुं. तथा द्रव्यथकी तो कालनो एक समय लोकमां सदाकाल शाश्वतो वर्त्ते ठे, ते द्रव्यकाल जाणवो अने जावथकी कालद्रव्य, नवी पुराणी वर्त्तनारूप जाणवुं.

३४४ नामथकी पुजलास्तिकाय एवुं नाम, ते नाम पुजलास्तिकाय जाणवुं, तथा पुजलास्तिकाय एवा अक्षर लखवा, ते स्थापनारूप पुजलास्तिकाय जाणवुं. तथा द्रव्यथकी पुजलद्रव्यना अनंता परमाणुआ लोकमां सदा काल शाश्वता वर्त्ते ठे, तथा जावथकी पुजलद्रव्य गलण पूर्ण मिलण विखरण रूप जाणवुं. ए रीतें जीव अजीरूप षड्द्रव्यमां चार निक्षेपा जाणवा.

३४५ पुण्यतत्त्वमां निक्षेपा कहे ठे. एटले प्रथम नामथकी पुण्य कहेतां जे पुण्य एवुं नाम ते नैगमनयने मते त्रणेकाल एक रूपपणे वर्त्ते ठे. अने स्थापनापुण्य कहेतां जे पुण्य एवा अक्षर लखीने स्थापवा. अने द्रव्यपुण्य कहेतां जे कोइ जीवनी सत्तायें पुण्यनां दक्षियां प्रकृतिरूप सत्तापणे बांध्यांठे. ते संग्रह नयने मते कर्मसत्तारूप द्रव्यपुण्य जाणवुं. अने जावपुण्य कहेतां जे ते दक्षियानो उदय थयो, ते व्यवहार नयने मते उदयजावरूप जावपुण्य जाणवुं. ए रीतें उदयजावरूप पुण्यनेविषे त्रणनयमां चार निक्षेपा जाणवा.

३४६ पुण्य एवुं नाम ते नैगमनयने मते त्रणे काल एकरूपपणे जाणवुं. तथा पुण्य एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनापुण्य जाणवुं. तथा जे कोइ जीवनी सत्तायें पुण्यनां दक्षियां प्रकृतिरूप सत्तापणे बांध्यां ठे, ते सं

देश, तेने समय समय एकेको अपहरतां असंख्याती उत्सर्पिणी अने वसर्पिणी काल व्यतीत थइ जाय, माटे कालथकी क्षेत्र घणुं सूक्ष्म ठे, तथा क्षेत्रथकी द्रव्य सूक्ष्म ठे जे माटे एकेक आकाश प्रदेशरूप क्षेत्रमां अनंतानंत पुञ्जद्रव्यना परमाणुओ अवगाही रह्या ठे, माटे क्षेत्रथकी द्रव्य सूक्ष्म जाणवुं तथा द्रव्यथकी जाव सूक्ष्म ठे, केम के एकेका पुञ्जपरमाणुआमां वढी अनंता गुण पर्याय रह्या ठे, माटे द्रव्यथकी जाव सूक्ष्म जाणवो. ए विचार आचारांगनीनिर्युक्तिनी टीकामां तथा आवश्यकमां जाणवो.

हवे निक्षेपानुं स्वरूप श्रीअनुयोगद्वारसूत्रना पाठथी कहे ठे:-गाथा॥
जड य जं जाणिजा, निस्केवं निस्केवे निरविसेसं ॥ जड य नो जाणिजा,
चउक्कयं निस्केवे तड ॥१॥ अर्थ:-हे शिष्य ! जो जाणपणुं होय तो एकेक
वस्तुमां अनेक प्रकारें निक्षेपा उतारजे अने तेहवुं जाणपणुं जो न होय,
तो पण जे वस्तुनुं नाम पड्युं तेमां चार निक्षेपा तो जरूर उतारवा.

शिष्य:-ते पूर्वोक्त जीव अजीवरूप नव तत्व, पइद्रव्यनुं स्वरूप चार
चार निक्षेपे करी केम जाणीयें ?

३३ए गुरु:-प्रथम (नामजीव के०) जे “ जीव ” एवुं नाम ते गये काळें
जीवतो हतो अने आवते काळें पण जीवतो हशे, तथा वर्तमानकाळें
पण जीवे ठे, ए रीतें नैगमनयने मतें त्रणे काल एकरूप पणे वत्तें, तेने
नामजीव कहीयें. तथा जेमां चैनेवाणमां जीव ए सद्भावस्थापना अने
जीव एवा अक्षर लखवा, ते असद्भावस्थापना एटले ए संप्रह्नयने मतें
स्थापनारूप जीव जाणवो. तथा रुद्रसूत्र अने व्यवहार नयने मतें एके
द्रियथी मांकीने पंचेंद्रिय पर्यंत जे जीव पहेले गुणगणे अनुपयोगें मिथ्या
त्वजावें वत्तें, तेने “अणुवउंगो द्रव्यं” ए वचनथकी द्रव्यजीव कहीयें. तथा
शब्दनयने मतें समकेत जावें चोथा गुणगणाथी मांकीने यावत् गहा
सातना गुणगणा पर्यंत जीव अजीवरूप स्वपरनी वेंचण करी जीवस्वरूप
ना उपयोगमां वत्तें, तेने “उवउंगानावें” ए वचनथकी जावजीव कहीयें.
ए रीतें जीवनुं स्वरूप पांच नयें करी चार निक्षेपे जाणवुं.

३३ब नामथकी धर्मास्तिकाय एवुं नाम ते नामधर्मास्तिकाय जाणवुं,
तथा स्वप्ननाथकी धर्मास्तिकाय एवा अक्षर लखवा, ते स्थापना धर्मास्ति

काय. तथा द्रव्यथकी धर्मास्तिकाय द्रव्य असंख्यातप्रदेशी जाणवुं अने जावथकी धर्मास्तिकायद्रव्य, चलणसहायरूप जाणवुं.

३४१ नामथकी अधर्मास्तिकाय एवुं नाम, ते नाम, अधर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय एवा अक्षर लखवा, ते स्थापना अधर्मास्तिकाय तथा द्रव्यथकी अधर्मास्तिकाय द्रव्य, असंख्यातप्रदेशी जाणवुं, अने जावथकी अधर्मास्तिकायद्रव्य, स्थिरसहायरूप जाणवुं.

३४२ नामथकी आकाशास्तिकाय एवुं नाम, ते नाम आकाशास्तिकाय जाणवुं. तथा आकाशास्तिकाय एवा अक्षर लखवा, ते स्थापना आकाशास्तिकाय जाणवुं. तथा द्रव्यथकी आकाशास्तिकाय अनंतप्रदेशी जाणवुं. अने जावथकी आकाशास्तिकायद्रव्य, अवगाहनारूप जाणवुं.

३४३ नामथकी कालद्रव्य एवुं नाम, ते नामकालद्रव्य, तथा कालद्रव्य एवा अक्षर लखवा, ते स्थापना कालद्रव्य जाणवुं. तथा द्रव्यथकी तो कालनो एक समय लोकमां सदाकाल शाश्वतो वर्त्ते ठे, ते द्रव्यकाल जाणवो अने जावथकी कालद्रव्य, नवी पुराणी वर्त्तनारूप जाणवुं.

३४४ नामथकी पुजलास्तिकाय एवुं नाम, ते नाम पुजलास्तिकाय जाणवुं, तथा पुजलास्तिकाय एवा अक्षर लखवा, ते स्थापनारूप पुजलास्तिकाय जाणवुं. तथा द्रव्यथकी पुजलद्रव्यना अनंता परमाणुआ लोकमां सदा काल शाश्वता वर्त्ते ठे, तथा जावथकी पुजलद्रव्य गलण पूर्ण मिलण विखरण रूप जाणवुं. ए रीतें जीव अजीरूप षड्द्रव्यमां चार निक्षेपा जाणवा.

३४५ पुण्यतत्त्वमां निक्षेपा कहे ठे. एटले प्रथम नामथकी पुण्य कहेतां जे पुण्य एवुं नाम ते नैगमनयने मतें त्रणेकाल एक रूपपणे वर्त्ते ठे. अने स्थापनापुण्य कहेतां जे पुण्य एवा अक्षर लखीने स्थापवा. अने द्रव्यपुण्य कहेतां जे कोइ जीवनी सत्तायें पुण्यनां दक्षियां प्रकृतिरूप सत्तापणे बांध्यांठे. ते संग्रह नयने मतें कर्मसत्तारूप द्रव्यपुण्य जाणवुं. अने जावपुण्य कहेतां जे ते दक्षियानो उदय थयो, ते व्यवहार नयने मतें उदयजावरूप जावपुण्य जाणवुं. ए रीतें उदयजावरूप पुण्यनेविषे त्रणनयमां चार निक्षेपा जाणवा.

३४६ पुण्य एवुं नाम ते नैगमनयने मतें त्रणे काल एकरूपपणे जाणवुं. तथा पुण्य एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनापुण्य जाणवुं. तथा जे कोइ जीवनी सत्तायें पुण्यनां दक्षियां प्रकृतिरूप सत्तापणे बांध्यां ठे, ते सं

ग्रहनयने मते जाणवां अने तेदक्षियांनो उदय थयो, ते व्यवहारनयने मते न्यारा रही उपरथकी लूखे परिणामें जोगवे ठे माटे एने ड्रव्यपुण्य कहीयें, तथा जे कोइ जीव, रजुसूत्रनयने मते मन, वचन, कायायें करी एकचित्तें पुण्यनां दक्षीयां व्यवहारनयने मते उदयरूप जावें जोगवे ठे, तेने जावपुण्य कहीयें. ए रीतें चार नयमां चार निक्षेपा पुण्य जोगववा उपर जाणवा.

३४७ नामपुण्य कहेतां पुण्य एवुं नाम ते नैगमनयने मते त्रणे काल एकरूप जाणवुं. अने पुण्य एवा अक्षर लखीने स्थापवा ते संग्रह नयने मते स्थापनारूप पुण्य जाणवुं. तथा ड्रव्यपुण्य एटले जे कोइ जीव, दान, शी यल, तप, जाव, दया, यत्ना इत्यादिक कष्टक्रियारूप करणी लोकने देखा उवारूप वीराशालवीनी परें कृष्णवासुदेवनुं मन रीजववारूप अथवा पूर्णशेठनी परें करे, ते व्यवहारनयने मते करणीरूप ड्रव्यपुण्य जाणवुं. तथा जावपुण्य ते आगल ड्रव्यनिक्षेपामां जे व्यवहारनयने मते पुण्यनी करणी कही, ते करणी सर्व करे, पण अंतरंग रजुसूत्रनयने मते मन, वचन, कायायें करी एकचित्तें जीर्णशेठनी परें करे, ते जावपुण्य जाणवुं. ए रीतें चार नयमां चार निक्षेपा पुण्य करवा उपर जाणवा.

३४८ हवे पाप उपर निक्षेपा उतारे ठे. प्रथम नाम थकी पाप एवुं नाम, ते नैगमनयने मते त्रणे काल एकरूपपणे वर्ते ठे, ते नामपाप जाणवुं. तथा पाप एवा अक्षर लखवा, ते स्थापनारूप पाप जाणवुं. तथा कोइ जीवनी सत्तायें पापनां दक्षीयां प्रकृतिरूप सत्तापणे वांध्यां ठे, ते संग्रह नयने मते कर्म सत्तारूप ड्रव्यपाप जाणवुं तथा ते दक्षीयांनो उदय थयो, ते व्यवहारनयने मते उदयजावरूप जावपाप जाणवुं. ए री तें ए उदयजावरूप पापमांहे त्रण नयमां चार निक्षेपा जाणवा.

३४९ पाप एवुं नाम ते नैगमनयने मते त्रणे काल एकरूप पापे वर्ते ठे ते नामपाप जाणवुं. तथा पाप एवा अक्षर लखवा ते स्थापनारूप पाप जाणवुं तथा जे कोइ जीवनी सत्तायें पापनां दक्षीयां प्रकृतिरूप सत्तापणे संग्रह नयने मते वांध्यां ठे. तेना उदय थयो, तेवारे व्यवहार नयने मते पण उदा रही उपरथकी लूखे परिणामें जोगवे ठे. तेने ड्रव्यपाप कहीयें. तथा जे कोइ जीव, रजुसूत्र नयने मते मन, वचन, कायायें करी दुःस्वरूप त्रिपाकें पापनां दक्षीयां व्यवहारनयने मते उदयरूप जावें जोगवे ठे, तेने जावपाप

कहीयें. ए रीतें चार नयमां चार निक्षेपा पाप जोगववा उपर जाणवा.

३५० पाप एवुं नाम ते नामपाप ते नैगम नयने मतें त्रणे काल एक रूपपणे वर्ते ठे. तथा पाप एवा अक्षर लखवा ते संग्रहनयने मतें स्थापनारूप पाप जाणवुं. तथा कोइ जीव, हिंसा मृषा आदिक कजीया जगडा रूप अनेक प्रकारें उदयरूप जावने योगें करी चेडा राजानी परें करे, ते व्यवहार नयने मतें ड्रव्यपाप, करणीरूप जाणवुं. तथा जे आगल त्रीजा निक्षेपामां व्यवहार नयने मतें करणी कही, ते सर्व करे, पण अंतरंग ऋजुसूत्र नयने मतें मन, वचन, कायायें करी एकचित्तें कालकसूरिया खाटकीनी परें करे, ते जावपाप जाणवुं. ए रीतें चार निक्षेपा पाप करवा रूपें जाणवा.

३५१ आश्रवमां चार निक्षेपा उतारे ठे. प्रथम आश्रव एवुं नाम ते नैगमनयने मतें त्रणे काल एकरूपपणे जाणवुं ते नाम आश्रव. तथा आश्रव एवा अक्षर लखवा, ते स्थापनारूप आश्रव जाणवुं तथा बहेंतादीश प्रकाररूप आश्रवने गडनाळें करी व्यवहार नयने मतें शुजाशुज आश्रव रूप ददीयानुं ग्रहण करवुं, ते ड्रव्यआश्रव जाणवुं तथा ऋजुसूत्र अने व्यवहार नयने मतें मन, वचन, कायायें करी उदयजावने योगें ते ददीयानुं जोगववुं, ते उदय जावरूप जावआश्रव जाणवुं.

३५२ संवरमां चार निक्षेपा उतारे ठे. प्रथम संवर एवुं नाम, ते नैगमनयने मतें त्रणे काल एकरूपपणे जाणवुं, ते नामसंवर तथा संवर एवा अक्षर लखीने स्थापवा, अथवा संवर रूप मूर्ति स्थापवी, ते संग्रह नयने मतें स्थापनारूप संवर जाणवुं. तथा व्यवहार नयने मतें उपरथकी अरुचि जावें लोक देखाडवारूप पोसा पडिकमणां सामायिक आदि अनेक प्रकारें संवरनी करणी करवी, ते ड्रव्यसंवर व्यर्थरूप जाणवुं. तथा ऋजुसूत्र नयने मतें मन, वचन अने कायायें करी यथाप्रवृत्तिरूप करणना परिणामें पोसा, पडिकमणां, व्रत, पञ्चस्काण आदें व्यवहार नयने मतें उपरथकी संवररूप करणीनुं करवुं. ते जावसंवर जाणवुं एटले चार नयमां चार निक्षेपे यथाप्रवृत्तिकरणरूप संवर जाणवुं.

३५३ नामथकी संवर एवुं नाम, ते नामसंवर नैगमनयने मतें जाणवुं. तथा संवर एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनासंवर अथवा संवररूप

मूर्ति स्थापवी, ते संग्रह नयने मते स्थापनारूप संवर जाणवुं तथा ऋजुसूत्र नयने मते मन, वचन, कायायें करी व्रत पञ्चस्काणरूप, उपरथकी व्यवहार नयने मते संवररूप करणीनुं करवुं. ते द्रव्यसंवर जाणवुं तथा शब्द नयने मते जीव, अजीवरूप स्वसत्ता परसत्तानी वेंचण करी स्थिरतारूप परिणामें आगल द्रव्यनिक्षेपा मध्ये जे ऋजुसूत्र अने व्यवहार नयने मते संवररूप करणी कही, ते करणी करतां थकां महा निर्झरा प्रत्ये करे, ते जावसंवर जाणवुं. ए रीते संवरविषे पांच नयमां चार निक्षेपा जाणवा.

३५४ निर्झरामां निक्षेपा उतारे ठे:— निर्झरा एवुं नाम ते नैगमनयने मते नाम निर्झरा जाणवी तथा निर्झरा एवा अक्षर लाखवा, ते संग्रहनयने मते स्थापना रूप निर्झरा जाणवी, तथा जे व्यवहार नयने मते ऋजुसूत्रना उपयोग सहित मिथ्यात्वजावें अकाम निर्झरा करवी, ते सर्व, द्रव्यनिर्झरा जाणवी. तथा शब्द नयने मते जीव अजीवरूप षट् द्रव्य नव तत्त्वनुं जाणपणुं प्रतीत करी ऋजुसूत्रनयना उपयोग सहित उपरथकी व्यवहार नयने मते वार जेदें तपस्यारूप करणीनुं करवुं ते जावनिर्झरा जाणवी. ए रीते पांच नयमां चार निक्षेपा निर्झराने विषे जाणवा.

३५५ बंधमां चार निक्षेपा उतारे ठे. प्रथम बंध एवुं नाम ते नैगमनयने मते नामबंध जाणवो. तथा बंध एवा अक्षर लाखीने स्थापवा, ते स्थापना रूप बंध जाणवो. तथा जे प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, रसबंध अने प्रदेशबंध, ए चार प्रकारें बंधरूप दक्षीयां जीवनी सत्तायें बांध्यां ठे, ते संग्रहनयने मते कर्म सत्तारूप द्रव्यबंध जाणवो, तथा जे व्यवहारनयने मते ते दक्षीयांनो उदय थयो, ते उदयत्वारूप जावबंध जाणवो. ए रीते उदयत्वारूप बंध ने त्रण नयमां चार निक्षेपा जाणवा.

३५६ तथा बद्धी नामथकी बंध एवुं नाम, ते नैगमनयने मते नामबंध जाणवो. तथा बंध एवा अक्षर लाखवा अथवा बंधरूप मूर्ति स्थापवी, ते स्थापनारूप बंध जाणवो. तथा आगल कल्या जे चार प्रकार, ते चार प्रकारें बंधरूप दक्षीयां संग्रहनयने मते जीवनी सत्तायें रह्यां ठे, तेनो स्थितिपरिपाके व्यवहारनयने मते उदय थयो, ते द्रव्यबंध जाणवो. तथा ऋजुसूत्रनयने मते मिथ्यात्व, अवन, कषाय अने योगरूप सत्तावन्न बंध एवुं बंधुसुख जीवना परिणाम एट्ठे तेनी त्रिकाशें बद्धी पात्रो कर्मरूप दक्षी

यांनो बंध पाडे, माटे ऋजुसूत्रनयने मते तेने जावबंध कहीये. ए रीते बंध बांधवाने विषे चार नयमां चार निक्षेपा जाणवा.

३५७ मोक्षतत्त्व निःकर्मावस्थामां चार निक्षेपा उतारे ठेः—प्रथम नाम थकी मोक्ष एवुं नाम, ते नामनिक्षेपो, तथा जे मोक्षरूपें मूर्ति स्थापवी, अथवा मोक्ष एवा अक्षर लखवा, ते स्थापनामोक्ष जाणवो. तथा समञ्जिरूढनयने मते शुद्ध शुक्लध्यान रूपातीत परिणामरूप एटले क्षपक श्रेणियें अज्ञानरूप राग, द्वेष अने मोहनीय कर्मनो वारमे गुणठाणे क्षय कस्यो अने तेरमे गुणठाणे केवल ज्ञान पास्या, एवा केवली जगवानने जव्यशरीर आश्रयी अव्यमोक्षपद कहीये, ते त्रीजो अव्यनिक्षेपो जाणवो, तथा एवंभूतनयने मते अष्ट कर्मने क्षयें, अष्टगुणसंपन्न लोकने अंतें विराजमान, एवा सिद्ध परमात्माने जावमोक्षपद जाणवुं. ए रीते जीव, अजीवरूप षड्द्रव्य नव तत्त्वमां नयसंयुक्त चार निक्षेपा जाणवा.

३५८ व्रतमां निक्षेपा उतारतो थको प्रथम प्राणातिपात विरमणव्रतें निक्षेपा कहे ठेः—तिहां प्रथम दया एवुं नाम ते नामदया जाणवी, तथा दया एवा अक्षर लखवा, ते असंज्ञावस्थापना अने दयालुमूर्ति स्थापवी, ते संज्ञावस्थापना, तथा व्यवहार नयने मते उपरथकी लोकने देखाडवारूप दया पाववी, ते अव्यदया जाणवी, तथा ऋजुसूत्र नयने मते मन, वचन, कायायें करी एकचित्तें परजीवनां प्राण हणे नही, हणावे नही, तथा हणताने अनुमोदे नहीं ते जावदया जाणवी. ए चार निक्षेपा ऋजुसूत्रनयने मते यथाप्रवृत्तिकरणरूप पहेले गुणठाणे जाणवा.

३५९ तथा वही दया एवुं नाम ते नामदया तथा दया एवा अक्षर लखवा, अथवा दयालुमूर्ति स्थापवी ते स्थापनादया तथा ऋजुसूत्रनयने मते एकचित्तें करी व्यवहारनयने मते उपरथकी मन, वचन अने कायायें करी परजीवनां प्राण हणे नहि, हणावे नहि, हणताने अनुमोदे नहि, ते अव्यदया जाणवी. तथा शब्दनयने मते जीव अजीवरूप स्वसत्ता परसत्तानी वेंचण करी, ज्ञान, दर्शन अने चारित्र प्रमुख जावप्राण पोतानां अने परनां तेने कर्मरूप आवरणपणे हणे नहि, हणावे नहि, हणताने अनुमोदे नहि, ते स्वदया, तथा पोतानो आत्माकर्मरूप आवरणें वीटाणोथको जन्म मरणनां दुःख जोगवे ठे, तेने स्वहिंसा कहीये. ते माटे

ते पोताना जीवने कर्मरूप आवरणथकी मूकाववा निमित्तें साध्य चोखे राखी रुजुसूत्र तथा व्यवहारनयना मत्तें जे रीतें आगल द्रव्यदयारूप आवरण कळुं, ते रीतें करतां थकां सर्वे लेखे जाणवी. ए चोथी जावदया ठे

३६० वीजा व्रत उपर निक्षेपा उतारे ठे:—प्रथम अमृषावाद एवुं नाम ते नाम अमृषावाद जाणवो, वीजो जे अमृषा एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनाअमृषावाद जाणवो, वीजो व्यवहारनयने मत्तें उपरथकी रूप दर्शनी अन्यदर्शनी मिथ्यादृष्टिजीवने सहेजें सत्यवचन बोलवारूप बाळ पडी गयो ठे, ते व्यवहारनयने मत्तें द्रव्य अमृषावाद जाणवो. चोथो जे रुजुसूत्रनयने मत्तें मन, वचन अने कायायें करी एकचित्तें व्यवहारनयने मत्तें उपरथकी सत्यवचन बोले ठे, ते जीव, यथाप्रवृत्तिकरणरूप पहेसे गुणवाणे जाणवा. ते जावथकी अमृषावाद जाणवो.

३६१ अमृषावाद एवुं नाम ते नाम अमृषावाद तथा अमृषावाद एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापना अमृषावाद तथा रुजुसूत्र नयने मत्तें कोथें करी, मानें करी, जयें करी, लोचें करी सूझ तथा वादर लौकिक तथा लोकोत्तर, मन, वचन अने कायायें करी जूतुं पोतें बोले नहि, वीजाने बोलावे नहि, बोलताने अनुमोदे नहि, ते द्रव्यथकी अमृषावाद जाणवो. तथा जाव अमृषावाद ते सर्वे द्रव्य गुण पर्याय नयनिक्षेपा निश्चय व्यवहाररूप द्रव्यजावरूप जाणवाणुं सत्यतासनरूप ज्ञायकता शक्ति साधे, ज्ञानसत्य पाणुं पाळें, तथा श्रीवीतरागना आगम प्रमाणें जे अर्थ जाव ठे, तेनी सहाय करे, जेथकी पोताना ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप गुण निर्मल थाय, तेवी जाया बोझे, ते जाव अमृषावाद जाणवो.

३६२ वीजा व्रत उपर निक्षेपा उतारे ठे:—अदत्त रहित एवुं नाम ते नाम अदत्त तथा अदत्त रहित एवा अक्षर लखीने स्थापवा ते स्थापना अदत्त, तथा व्यवहारनयने मत्तें उपरथकी कोइनी अणदीर्धी वस्तु खेवानो सद्गुणथकी शय नथी, ते द्रव्यथकी अदत्तरहित जाणवो. तथा रुजुसूत्रनयने मत्तें मन, वचन अने कायायें करी अदत्तना त्याग करे, पट्टे नरकनिर्गोदना दुःखथकी निर्दोशो थकां मुग्धनी लाजचें व्यवहार नयने मत्तें उपरथकी कोइनी अणदीर्धी वस्तु कांइ पण खेना नथी ते जीव, यथाप्रवृत्तिकरणरूप पहेसे गुणवाणे जावथकी अदत्तरहित जाणवो.

३६३ वली. निक्षेपा कहे ठे. अदत्त रहित एवुं नाम,तेनाम अदत्तरहित, अने विजुं अदत्तरहित एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापना अदत्त रहित, तथा त्रीजुं ऋजुसूत्र नयने मतें मन, वचन, कायायें करी तृण तुष मात्र पण कोइनी अणदीधी वस्तु लीये नहीं, जे लीये, ते कहीने लिये, ए टले संसारी जीवनी वस्तु चोरी लेवी, तेने लौकिक चोरी कहीयें, ते न करे, तथा श्रीतीर्थकरनी आज्ञामां जे न लेवानुं कहुं ते न लीये, तेने लोकोत्तर चोरीथी रहित कहीयें. ए उव्यादत्तरहित कहीयें, तथा चोथुं शब्दनयने मतें आत्मानी ग्राहकतारूप जे शक्ति, ते स्वरूपग्रहणरूप कार्यनी कर्ता ठे, ते अनादिनी परजाव ग्राहकता करी रही ठे, तेने परजावग्राहक पणाथकी निवारीने स्वरूपग्राहकपणे परिणमावे, ते जावअदत्तरहित कहीयें.

३६४ हवे अदत्तना चार जेद ठे, ते कहे ठे. जे श्रीतीर्थकरनी आज्ञामां न लेवानुं कहुं, ते सर्व शुजाशुजरूप परस्वजाव लेवानी वांठा, तेने प्रथम तीर्थकर अदत्त लागे तथा जे गुरु आणा परंपरा विना सूत्रना अर्थ कहेवा तेने बीजुं गुरुअदत्त लागे. तथा जे वस्तुनो धणी होय तेनी अणदीधी वस्तु लीये, तेने त्रीजुं स्वामी अदत्त लागे, एटले संग्रहनयने मतें सर्व जीव सत्तायें स्वामीरूप जाणवा. अने व्यवहार नयने मतें क्रिया आचार प्रवृत्तिरूप एक समाचारी सरखो होय, ते आपणा स्वामी तेनी अणदीधी वस्तु लीये तेने त्रीजुं स्वामीअदत्त लागे. तथा जे कोइ जीवें एम कहुं नथी जे महारां प्राण तमें हणो, तेम ठतां पोताना इंद्रियना स्वाद माटे जे परजीवनां प्राण हणे, तेने चोथुं जीवअदत्त लागे, अने प्रशस्त काम करतां जीववि राधना थाय, तेने जगवंतें हिंसा कही नथी. श्रीजगवतीसूत्रे “सुजजोगप दुच्च अणारंजा” ए पाठ ठे; एटले (शुजयोग के०) शुजकार्यमां मन, वचन अने कायाना योगनी प्रवृत्ति करतां थकां हिंसा लागे नहीं, एने अना रंज कह्यो ठे. ए रीतें ए चार प्रकारना अदत्तनो परमार्थ जाणवो.

३६५ चोथा महाव्रत उपरें चार निक्षेपा उतारे ठे:—प्रथम सुशील एवुं नाम ते नामसुशील, बीजुं सुशील एवा अक्षर लखीने स्थापवा अथवा सुशीलरूप मूर्ति स्थापवी, ते स्थापनासुशील, त्रीजुं व्यवहार नयने मतें उपरथकी व्रतनो उच्चार करे अथवा लोकलाजथी कुलमर्यादायें यशःकीर्तिरूप शोचाने अर्थे अथवा परवश पणे राजादिकना जयथकी जियल पाले,

पण अंतरंग परिणामनी आतुरतारूप चपलता मटी नथी, ते व्यवहार न यने मतें ड्रव्यथकी सुशील जाणवुं. तथा रूजुसूत्र नयने मतें मन, वचन अने कायायें करी नववाडें अठार जेद सहित शीयल पाळे, ते जावसुशील ठे.

३६६ वडी प्रकारांतरें सुशील उपर चार निक्षेपा कहे ठे:—एक सुशील एवुं नाम ते नामसुशील, तथा सुशील एवा अक्षर लखीने स्थापवा, अथवा मूर्ति स्थापवी, ते स्थापनासुशील, तथा रूजुसूत्र नयने मतें मन, वचन अने कायायें करी पांचे इंद्रियोना त्रेवीश विषय सेवे नही, सेवरावे नही सेवताने अनुमोदे नही, तथा मनुष्य, तिर्यच अने देवतासंबंधि विषयनी वांठा करे नही, करावे नही, अनुमोदे नही, ते रूजुसूत्र तथा व्यवहार न यने मतें करी ड्रव्यसुशील जाणवुं. तथा शब्द नयने मतें जोतां तो पोतानो आत्मा पोताना ज्ञानादि अनंत गुणनो जोगी ठे, ते परजावने जोगवे, माटे तेने जावमैथुन कहीयें, ते सर्व परजावजोगी पणे जोगववुं नही, अने पोतानो आत्मा निःकर्मा करवा माटे परजाव साधनपणे ग्रहे, पण अग्राह्यपणे अरमणिकपणे माने अने एवुं चिंतवे जे ए आत्मानी जूल ठे, ए रीतें आत्माने निंदतो ए परजावने अनंत जीवें अनंती वार लक्ष जोगवीने वस्तुं ते मुजने ग्रहवुं, जोगववुं घटे नही, एम सर्वे परजाव जोगीपणुं तजीने खजाव जो ज्ञापणे रहे, ते जीव, शब्दनयने मतें करी जावसुशील जाणवो.

३७० ड्रव्य, क्षेत्र, काल जावें करी मैथुननुं स्वरूप देखाडे ठे:—प्रथम ड्रव्यथकी मैथुन ते करणीरूप सेववुं तथा क्षेत्रथकी मैथुन ते त्रणसो हने धिगे इंद्रियना सावयनी इष्टा, तथा कालथकी मैथुन ते दिवस तथा रात्रि, अने जावथकी मैथुन ते रागथी तथा द्वेषथी ए सर्वथा सेववुं नही.

३७१ पांचना वन उपर चार निक्षेपा उतारे ठे:—प्रथम अपरिग्रही एवुं नाम, ते नाम अपरिग्रही जाणवुं. वीजुं अपरिग्रही एवा अक्षर लखीने स्थापवा अथवा अपरिग्रहीरूप मूर्ति स्थापवी ते स्थापना अपरिग्रही. वीजो अक्षरथकी अपरिग्रही ते व्यवहार नयने मतें अतीत, वैरागी, संन्यासी, मिथ्या इष्टि जिगी प्रभुत्व बालजीव जाणवा. चाथां जाव अपरिग्रही ते व्यवहार न, अने मतें उरमथकी मान धानुनांदेत्री एके धानु मात्र रूजुसूत्रनयने मतें मन वचन अने कायायें कर्मा पाणें गवना नथी, गवावना नथी, ते जीव, यथाप्र इतिहासे कर्मा इहेडे ए उगाले जाव अपरिग्रही जाणवा.

पनाथकी सामायिक जाणवुं. त्रीजुं जे ऋजुसूत्रनयने मते " करेमि जंते " रूप व्रतनो उच्चार करी मन,वचन,कायायें करी सावधने ठोडी एक चित्तें वत्रीश दूषण टाळी सद्यायध्यानरूप शुभपरिणामें वर्त्तवुं. ते द्रव्यथ की सामायिक व्रत जाणवुं. तथा चोथुं ज्ञावथकी सामायिक ते शब्दन यने मते (सम के०) जे समता, तेनो (आय के०) लाज तेनुं नाम सामायिक ठे, एटले जेटली वार जीव, सत्तागतना ध्यानरूप संवर ज्ञाव मां वर्त्ते, तेटली वार सामायिकनो लाज जाणवो. माटे एक अंतरमुहूर्त्त पर्यंत जीव, पोताना स्वरूपना ध्यानरूप चिंतवनमां वर्त्ततो, घातिकर्म खपा वीने केवल ज्ञान पामे. ए ज्ञावसामायिक जाणवुं.

३७८ दशमा व्रत उपर चार निक्षेपा लगाडे ठे:—देशावकाशिक एवुं नाम, ते नामदेशावकाशिक जाणवुं, तथा देशावकाशिक एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनादेशावकाशिक जाणवुं. तथा ऋजुसूत्रनयने मते जे मन, वचन अने कायाना योगने एक ठोर करी, एक स्थानके चार पहोर बेसी धर्म ध्यान करवुं ते द्रव्यथी देशावकाशिक जाणवुं तथा शब्दन यने मते श्रुतज्ञानें करी ठ द्रव्यनुं स्वरूप उलखीने पांच द्रव्यनो त्याग कर वो अने एक ज्ञानवंत जीवद्रव्यनुं ध्याववुं ते ज्ञावदेशावकाशिक व्रत ठे.

३७९ अगारमा व्रत उपर चार निक्षेपा लगाडे ठे. प्रथम पोसह एवुं नाम, ते नामपोसह जाणवुं. वीजुं पोसह एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनापोसह जाणवुं. त्रीजुं ऋजुसूत्र अने व्यावहारनयने मते चार पहोर अथवा आठ पहोर पर्यंत एक चित्तें व्रत उच्चरी समता परिणामें निरारंज सावध ठोडी सद्याय ध्यानमां प्रवर्त्तवुं, ते द्रव्यपोसह जाणवुं. चोथुं शब्दनयने मते आपणा जीवने ज्ञान ध्यानथी पोषीने पुष्ट करवुं. एटले " पोषे धर्मने शोषे कर्म, अग्यारमुं व्रत ते पोषो मर्म " ए रीतें आपणा जीवने स्वगुण साथें पोषीयें, ते ज्ञावपोसह जाणवुं.

३८० वारमा व्रत उपर चार निक्षेपा लगाडे ठे. प्रथम अतिथि संविज्ञाग एवुं नाम, ते नामथकी अतिथिसंविज्ञाग जाणवुं. वीजुं अतिथि संविज्ञाग एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापना अतिथि संविज्ञाग व्रत जाणवुं. त्रीजुं पौषधने पारणे अथवा सदा काल साधुने तथा जिनधर्मिं श्रावकने पोतानी शक्ति प्रमाणें दान देवुं, ते द्रव्यथकी अतिथिसंविज्ञाग व्रत जा

री व्यवहार नयने मतें उपरथकी परिणाम करी, रूजुसूत्र नयने मतें मन, वचन अने कायायें करी एकचित्तें पावे ठे, ते द्रव्यथकी जोग उपजोग ब्रत जाणवुं. तथा ज्ञावथकी तो अनादि कालना जीवें परस्वज्ञाव विज्ञावरूप पुद्गलना जोग उपजोगने विषे सुख करी मान्युं ठे, तिहांथकी मन पसटा वीने शब्दनयने मतें जीव, अजीवरूप स्वसत्ता परसत्तानी वेंचण करी परसत्ता उपर त्याग बुद्धि अने स्वसत्तारूप ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य आदिक अनंता गुण ठे, तेने प्रगट करवारूप बुद्धि, एटवे ए गुणनुं उप जोगपणुं जे वारंवार तेना तेज जोगववामां आवे, माटे उपजोग कहीयें. अने तेना पर्याय अनंता ठे ते, समय समय पलटाइ रखा ठे, तेनुं जोगीपणुं कहीयें, एवो वांठारूप परिणाम वत्तें, ते ज्ञावथकी जोग उपजोग ब्रत ठे.

३७५ आठमा ब्रतमां निक्षेपा लगावे ठे. प्रथम अनर्थदंरुविरमण ब्रत, ए वुं नाम, ते नाम अनर्थदंरु विरमणब्रत जाणवुं. वीजुं अनर्थदंरु विरमण ब्रत एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापना अनर्थदंरु विरमणब्रत जाणवुं. वीजुं जे अनर्थने कामें जीवने पापरूप आरंज लगाडवा, तथा पारके का में आज्ञा प्रमुख आपवी, तेनाथी जे विरम्या ठे, ते द्रव्य अनर्थदंरुथी र हित जाणवा. चोथुं जे जीवने अनादि कालनी मिथ्यात्वदशायें करी शुजा शुज कर्मरूप फलनी वांठाना परिणाम वत्तें, तेने निवारी आत्मधर्म नि रावरणरूप प्रगट करवानी रुचि, ते ज्ञावथी अनर्थदंरु रहित जाणवा.

३७६ नवमा ब्रत उपर निक्षेपा उतारे ठे:—प्रथम सामायिक एवुं नाम ने नामसामायिक जाणवुं. वीजुं सामायिक एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापना सामायिक जाणवुं. वीजुं व्यवहार नयने मतें उपरथकी ब्रत रूप उच्चार करी वे घटी पर्यंत पुण्यपणे रद्देवुं, ते द्रव्यसामायिक व्यव हासनयने मतें जाणवुं. चोथुं ज्ञावथकी सामायिक ते जे द्रव्यरूप व्यव हासनयने मतें उच्चार करी रूजुसूत्र नयने मतें मन, वचन, कायायें करी एकचित्तें ज्ञावथने गोटी वे घटी पर्यंत शुजध्यानमां वत्तवुं ते जीव, यथा प्रवृत्तिरूपरूप पदेवे गुणप्राणें ज्ञावसामायिकी जाणवा.

३७७ बडी चार निक्षेपा कहे ठे. एक सामायिक एवुं नाम, ते नामसामायिक जाणवुं. वीजुं सामायिक एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते असत्ताव स्थापना अने सामायिक रूपें नृत्ति स्थापवी, ते सद्भावस्थापना, ए स्था

पनाथकी सामायिक जाणवुं. त्रीजुं जे ऋजुसूत्रनयने मतें “ करेमि जते ” रूप व्रतनो उच्चार करी मन,वचन,कायायें करी सावद्यने ठोडी एक चित्तें वत्रीश दूषण टाढी सद्वायध्यानरूप शुचपरिणामें वर्तवुं. ते द्रव्यथ की सामायिक व्रत जाणवुं. तथा चोथुं ज्ञावथकी सामायिक ते शब्दन यने मतें (सम के०) जे समता, तेनो (आय के०) लाज तेनुं नाम सामायिक ठे, एटले जेटली वार जीव, सत्तागतना ध्यानरूप संवर ज्ञाव मां वत्ते, तेटली वार सामायिकनो लाज जाणवो. माटे एक अंतरमुहूर्त्त पर्यंत जीव, पोताना स्वरूपना ध्यानरूप चिंतवनमां वर्ततो, घातिकर्म खपा वीने केवल ज्ञान पामे. ए ज्ञावसामायिक जाणवुं.

३७८ दशमा व्रत उपर चार निक्षेपा लगाडे ठे:—देशावकाशिक एवुं नाम, ते नामदेशावकाशिक जाणवुं, तथा देशावकाशिक एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनादेशावकाशिक जाणवुं. तथा ऋजुसूत्रनयने मतें जे मन, वचन अने कायाना योगने एक ठोर करी, एक स्थानकें चार पहोर व्रेसी धर्म ध्यान करवुं ते द्रव्यथी देशावकाशिक जाणवुं तथा शब्दन यने मतें श्रुतज्ञानें करी ठ द्रव्यनुं स्वरूप उलखीने पांच द्रव्यनो त्याग कर वो अने एक ज्ञानवंत जीवद्रव्यनुं ध्याववुं ते ज्ञावदेशावकाशिक व्रत ठे.

३७९ अगाथारमा व्रत उपर चार निक्षेपा लगाडे ठे. प्रथम पोसह एवुं नाम, ते नामपोसह जाणवुं. वीजुं पोसह एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनापोसह जाणवुं. त्रीजुं ऋजुसूत्र अने व्यावहारनयने मतें चार पहोर अथवा आठ पहोर पर्यंत एक चित्तें व्रत उच्चरी समता परिणामें निरारंज सावद्य ठोडी सद्वाय ध्यानमां प्रवर्तवुं, ते द्रव्यपोसह जाणवुं. चोथुं शब्दनयने मतें आपणा जीवने ज्ञान ध्यानथी पोषीने पुष्ट करवुं. एटले “ पोषे धर्मने शोषे कर्म, अग्यारमुं व्रत ते पोषो मर्म ” ए रीतें आपणा जीवने स्वगुण साथें पोषीयें, ते ज्ञावपोसह जाणवुं.

३८० वारमा व्रत उपर चार निक्षेपा लगाडे ठे. प्रथम अतिथि संविज्ञाग एवुं नाम, ते नामथकी अतिथिसंविज्ञाग जाणवुं. वीजुं अतिथि संविज्ञाग एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापना अतिथि संविज्ञाग व्रत जाणवुं. त्रीजुं पौषधने पारणे अथवा सदा काल साधुने तथा जिनधर्मि श्रावकने पोतानी शक्ति प्रमाणें दान देवुं, ते द्रव्यथकी अतिथिसंविज्ञाग व्रत जा

एवुं चोयुं शब्दनयने मते उलखाण सहित ज्ञान ज्ञणवुं, ज्ञणवुं. सां
 लवुं, संजलाववुं जे रीतें पोताना तथा परना ज्ञानादिक गुण वृद्धि पामे,
 रीतें करवुं, ते जावथकी अतिथिसंविज्ञाग व्रत जाणवुं. ए रीतें पांच महा
 तरूप वार व्रतमां निक्षेपानुं स्वरूप जाणी प्रतीति करी ने ज्ञदी रीतें पालवा
 ३०१ हवे क्रोध, मान, माया अने लोच उपर चार निक्षेपा लगाडे ठे, तिह
 प्रथम क्रोध एवुं नाम, ते नामथकी क्रोध जाणवो, तथा क्रोध एवा अक्षर
 लखीने स्थापवा, अथवा क्रोधरूप मूर्ति स्थापवी, ते स्थापनाक्रोध जाणवो
 तथा संग्रहनयने मते जीवने सत्तायें क्रोधरूप दलीयां ते प्रकृतिरूप सत्ता
 पणे वांध्यां ठे, ते अव्यथकी क्रोध जाणवो, तथा व्यवहारनयने मते ते
 दलीयांनो उदय थयो, अने रूजुसूत्रनयने मते क्रोधरूप परिणामें एकचित्तें
 करी लौकिक तथा लोकोत्तर मार्गमां प्रवर्तवुं, तेथकी जीव, महापापरूप
 कर्मप्रत्यें वांधे, ते जावथकी क्रोध जाणवो.

३०२ मान उपर चार निक्षेपा लगाडे ठे. प्रथम मान एवुं नाम, ते ना
 मथकी मान जाणवुं. वीजुं मान एवा अक्षर लखी स्थापवा, अथवा मान
 रूप मूर्ति स्थापवी, ते स्थापना मान जाणवुं. वीजुं संग्रहनयने मते जी
 वने सत्तायें मानरूप दलीयां प्रकृतिरूप सत्तापणे वांध्यां ठे, ते अव्यथकी
 मान जाणवुं. चोयुं व्यवहार नयने मते ते दलीयांनो उदय थयो अने रूजु
 सूत्रनयने मते एकचित्तें मानरूप परिणामें लौकिक तथा लोकोत्तर मार्गमां
 प्रवर्तवुं तेथकी जीव महापापरूप कर्मप्रत्यें वांधे ते जावथकी मान ठे

३०३ माया उपर चार निक्षेपा लगावे ठे:—प्रथम माया एवुं नाम, ते ना
 मथकी माया जाणवी, वीजो माया एवा अक्षर लखीने स्थापवा, तथा मा
 या रूप मूर्ति स्थापवी, ते स्थापनाथकी माया जाणवी. वीजो संग्रहनयने
 मते जीवने सत्तायें माया एतले कपटरूप दलीयां प्रकृतिरूप सत्तापणां
 वांध्यां ठे, ते अव्यथकी माया जाणवी. चोयो जे रूजुसूत्र अने व्यवहार
 नयने मते मायाना उदयरूप नावें करी लौकिक मार्ग एतले संसारी का
 र्गमां मायाकपट करवुं तथा लोकोत्तर मार्ग जे सामाधिक, पद्धिक
 न जे, योगद, ज्ञ, पञ्चकामादिक धर्म करणीमां माया कपट करीने लोकोत्तर
 मार्ग, तथा अज्ञान अने परजवनी वांगारुप माया कपटना परिणाम वतें,
 रूजु जीव महापापरूप वांधे ते जावथकी मायाकपट जाणवुं.

३०४ लोचन उपर चार निक्षेपा लगाडे थे. प्रथम लोचन एवुं नाम, ते नाम लोचन. बीजो लोचन एवा अक्षर लखीने स्थापवा, अथवा लोचनरूप मूर्ति स्थापवी ते स्थापनालोचन, त्रीजो संग्रहनयने मते जीवनी सत्तायें लोचनरूप दक्षीयां प्रकृतिरूप सत्तापणे वांध्यां थे, ते द्रव्यथकी लोचन जाणवो. चोथो रजुसूत्र तथा व्यवहार नयने मते उदयरूप जावें करी लौकिकमार्गमां धन, माल, राज, कृष्ण, स्त्री, कुटुंब पुत्र, परिवारनी लालचरूप तीव्र लोचनपरिणाम अने लोकोत्तरमार्गमां जे धर्मरूप करणी थे, तेमां आ जवने विषे यशःकीर्ति, शोभा, वस्त्र, पात्र, आहार पाणीनी वांठारूप तीव्रलोचनपरिणाम, ते जावथकी लोचन जाणवो. ए रीतें क्रोधादिकनी चोकडीमां निक्षेपाडे.

३०५ दान उपर चार निक्षेपा लगावे थे. प्रथम दान एवुं नाम ते नामथकी दान जाणवुं. बीजुं दान एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनादान जाणवुं, त्रीजुं व्यवहारनयने मते उपरथकी अरुचिपणे लाज थकी, शरमथकी, जयप्रमुखथकी दान देवुं, ते सर्व द्रव्यथकी दान जाणवुं. चोथुं रजुसूत्र तथा व्यवहारनयने मते मन, वचन, कायायें करी एक चित्तें साधु, साधवी, श्रावक, श्राविका प्रमुखने पोतानी शक्तिने अनुसारे दान आपवुं, ते सर्वे जावथकी दान जाणवुं.

३०६ वली निक्षेपा कहे थे:—दान एवुं नाम ते नामदान, तथा दान एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनादान, तथा रजुसूत्र अने व्यवहार नयने मते मन, वचन, कायायें करी एक चित्तें अजयदान, सुपात्रदान, अनुकंपादान, उचितदान, कीर्तिदानरूप पांच प्रकारें दान देवुं. ते स द्रव्यदान जाणवुं. तथा शब्दनयने मते जीव अजीवरूप षट्द्रव्य नवतत्त्वनुं जाणपणुं तथा पोताना जीवने अने शिष्यने प्रतीति कराववीने समकेतरूप रत्ननुं दान देवुं, ते सर्व जावदान जाणवुं.

३०७ लाज उपर चार निक्षेपा लगाडे थे:—प्रथम लाज एवुं नाम, ते नाम लाज, बीजो लाज एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनालाज त्रीजो संग्रहनयने मते जीवने सत्तायें लाजरूप दक्षीयां प्रकृतिरूप सत्तापणे वांध्यां थे, ते द्रव्यलाज जाणवो. चोथो रजुसूत्र अने व्यवहार नयने मते ते दक्षीयां उदयरूप जावें प्रगट्यां, तेवारें धन, धान्य, राज, कृष्ण, पुत्र, —

लाज, परिवार, द्विपद, चतुष्पदरूप एम अनेक प्रकारें वस्तुनो लाज वा य, ते सर्व जावथी लाज जाणवो.

३०८ वली प्रकारातरें लाज उपर चार निक्षेपा कहे ठे:- प्रथम लाज एवुं नाम, ते नामलाज, वीजो लाज एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनालाज, त्रीजो जे सांसारिक वस्तुनो लाज ते उदयजावने योगें करी इंद्रियरूप सुखनां कारण मळे, ते सर्व इव्यलाज जाणवो. चोथो जे संसारमां जमता जीवने अनंत पुजल परावर्तमान थयां, तेमां सर्व वस्तुनो लाज पाम्यो, परंतु ज्यां सुधी एक समकेतरूप रत्नो लाज पाम्यो नथी, त्यां सुधी सर्व लाज व्यर्थ जाणवा, माटे जे समकेतरूप रत्नो लाज पामवो, ते जावलाज जाणवो.

३०९ जावमां चार निक्षेपा उतारे ठे. प्रथम जाव एवुं नाम ते नामजाव, वीजो जाव एवा अक्षर लखीने स्थापवा, ते स्थापनाजाव, त्रीजो जे रुद्र सूत्रनयने मते दान, शील, तप, विनय, वेद्यावच्चरूप जे जीवना परिणा मनुं तद्दीनपणुं ते शुभजाव जाणवो. अने क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय, कषाय, निद्रा, विकथारूप जीवना परिणामनुं तद्दीनपणुं ते अशुभजाव जाणवो. ए रीतें शुभाशुभजाव ते इव्यथकी जाव जाणवो. तथा वली गोथो शब्द अने समनिरूढनयने मते स्वसता परसत्तारूप स्वजाव परना गती वेंचणकरुप प्रतीति करी, अजीवरूप परजावने त्यागे, अने जीव स्वरुपना ज्ञानमां रवेवुं, ते शुद्धजाव जाणवो. ए चोथो जावथकी जाव ठे.

३१० रूपमां निक्षेपा लगाडे ठे. प्रथम रूप एवुं नाम, ते नामरूप. वीजुं रूप एवा अक्षर लखीने स्थापवा, अथवा रूपवंत मूर्ति स्थापवी, ते स्थापना रूप, वीजुं मंत्रहू नयने मते जीवें सत्तायें रूपनां दक्षीयां प्रकृति रूप जावथी वीवां ठे, ते इव्यरूप जाणवुं. चोथुं ते दक्षीयां व्यवहार नयने मते उदयनय जावें प्रगथ्यां, षट्त्रे चार गतिमां जीव, कासे, धोसे, राते, सते, पाडे रूपें करी अनेक प्रकारें शोभा पामे, ते जावथकी रूप जाणवुं.

३११ वली प्रकारांतरें रूपना चार निक्षेपा कहे ठे:- प्रथम रूप एवुं नाम ते नामरूप. वीजुं रूप एवा अक्षर लखीने स्थापवा, अथवा रूपवंत मूर्ति स्थापवी, ते स्थापना रूप, वीजुं मंत्रहू नयने मते जीवें सत्तायें रूपनां दक्षीयां प्रकृति रूप जावथी वीवां ठे, ते इव्यरूप जाणवुं. चोथुं ते दक्षीयां व्यवहार नयने मते उदयनय जावें प्रगथ्यां, षट्त्रे चार गतिमां जीव, कासे, धोसे, राते, सते, पाडे रूपें करी अनेक प्रकारें शोभा पामे, ते जावथकी रूप जाणवुं.

रूप जाणवां. चोथो शब्दनयने मते जीव, शुजाशुज विज्ञावरूप अशुद्धता थकी रहित शुद्धनिश्चयनयने मते अंतर्दृष्टियें करी एक पोताना आत्मानुं रूप जोवुं प्रतीति करवी, ते ज्ञावरूप जाणवुं.

३११ अनुभव उपर चार निक्षेपा दगाडे ठे:-प्रथम अनुभव एवुं नाम ते नामथकी अनुभव जाणवो. बीजो अनुभव एवा अक्षर दखीने स्थापवा, ते स्थापना अनुभव जाणवो. त्रीजो रजुसूत्रनयने मते जीवने शुजाशुजरूप परिणाम, तेमां शुजअनुभवरूप परिणाम ते सेवा, स्तुति, जक्ति, पूजा, पडिक्कमणुं, सामायिक, पोसहरूप व्रत उच्चरी शुजपरिणामें तद्धीन मननुं एकाग्रपणुं ते शुज अनुभव जाणवो. अने अशुज अनुभव ते विषय, कषाय, निद्रा, विकथारूप प्रमादनेविषे जीवना अशुज परिणामें तद्धीन पणुं मननुं एकाग्रपणुं ते अशुज अनुभव जाणवो. ए रीतें शुजाशुज परिणामने विषे जीवने तद्धीनपणुं ते त्रीजो द्रव्यअनुभव जाणवो. तथा चोथो जे शब्द अने समजिरूढ नयने मते शुद्ध निश्चयनयें आत्मस्वरूपनी प्रतीति करी, एकाग्रचित्तें तद्धीनपणे मन, वचन, कायाना योग रुंधी पोताना स्वरूपमां रमवुं, ते ज्ञाव अनुभव जाणवो.

३१२ मनुष्यगति आश्रयी चार निक्षेपा उतारे ठे:-एक तो पुरुष एवुं नाम, ते नामथकी पुरुष जाणवो. बीजो पुरुष एवा अक्षर दखीने स्थापवा, अथवा परुषरूपें मनुष्यनी मूर्ति चित्रीने स्थापवी, ते स्थापनापुरुष जाणवो. त्रीजो संग्रहनयने मते जीवें सत्तायें पुरुषवेदनां दलीयां प्रकृतिरूप सत्तापणे बांध्यां ठे, ते द्रव्यपुरुष जाणवो. चोथो ते दलीयांनो उदय थयो, एटळे उदयज्ञावरूप व्यवहार नयने मते करी ज्ञावथकी पुरुष जाणवो.

३१३ वली प्रकारांतरें पुरुष उपर चार निक्षेपा कहे ठे:-प्रथम पुरुष एवुं नाम, ते नामपुरुष, बीजो पुरुष एवा अक्षर दखीने स्थापवा अथवा पुरुष एवी मूर्ति स्थापवी, ते स्थापना पुरुष, त्रीजो उदयज्ञावरूप व्यवहार नयने मते पुरुषपणानां दलीयां जोगवे ठे, ते द्रव्यपुरुष जाणवो. चोथो रजुसूत्रनयने मते जडिकपणुं सरद स्वजावें दया, यत्ना, करुणा, विनीतपणुं, सेवा जक्तिरूप करणी करे ठे, ते जीव, ज्ञावपुरुष कहीयें.

३१४ मनुष्यरूप स्त्रीमां चार निक्षेपा दगाडे ठे:-प्रथम स्त्री एवुं नाम ते नामस्त्री जाणवी, बीजो स्त्री एवा अक्षर दखी स्थापवा, अथवा स्त्रीरूपें

र्त्ति चित्रीने स्थापवी, ते स्थापनास्त्री, त्रीजो संग्रहनयने मतें जीवं सत्तायें स्त्रीवेदनां दक्षीयां प्रकृतिरूप सत्तापणें वांध्यां ठे, तेने ड्रव्यस्त्री कहीयें. चोथो ते दक्षीयांनो उदय थयो, एटले उदयज्ञावरूप व्यवहार नयने मतें करी ज्ञावस्त्री जाणवी.

३६ वक्षी प्रकारांतरें स्त्री उपरें चार निक्षेपा कहे ठे. प्रथम स्त्री एवुं नाम, ते नामस्त्री जाणवी, वीजुं स्त्री एवा अक्षर लखवा अथवा मूर्त्ति चित्रीने स्थापवी, ते स्थापनास्त्री जाणवी. त्रीजो उदयज्ञावने योगें स्त्रीपणा नो जव पामी व्यवहार नयने मतें स्त्रीपणानां दक्षीयां जोगवे, तेने ड्रव्य स्त्री कहीयें, अने चोथो मायारूप कूड कपट ठल जेल “ मुखेमिष्टा, हृदये डुष्टा, ” ए रीतें उगविद्यारूप जे जीवना वरिणाम वर्त्ते, ते जीव, ज्ञावस्त्रीरूप जाणवो. ए रीतें चार गतिमां निक्षेपानुं स्वरूप जाणवुं.

ह्वे जीव अजीवरूप पटू ड्रव्य नव तत्त्वनुं स्वरूप चार जांगे करी उलखावे ठे, तिहां प्रथम जेनी आदि नथी अने अंत एटले ठेडो पण नथी, ते निश्चयनयने मतें अनादि अनंत नामें प्रथमजांगो जाणवो. तथा वीजो जेनी आदि नथी, पण अंत ठे, ते व्यवहारनयने मतें अनादि सांत नामें त्रीजो जांगो जाणवो, तथा त्रीजो जेनी आदि ठे अने अंत पण ठे, ते व्यवहार नयने मतें सादिसांत नामें त्रीजो जांगो जाणवो. तथा चोथीजेनी आदि ठे पण अंत नथी ते निश्चयनयने मतें आदि अनंत नामे चोथो जांगो जाणवो, चार जांगे करी प्रथम पटू ड्रव्यनुं स्वरूप उलखावे ठे. ५०० तिहां प्रथम जीव ड्रव्यमां चार जांगा लखावे ठे:-तिहां जीवमां जे ज्ञानादिक गुण ठे, तेनी आदि नथी, अने अंत पण नथी, माटे निश्चयनयने मतें अनादि अनंत नामे प्रथम जांगो जाणवो. तथा नव्य जीवने कर्मसां जे नवा नरीरनी माथें अनादिनो संबंध ठे ते संबंधनो जेवारें सिद्धि वारुं जे मातें अंत आवशे माटे व्यवहार नयने मतें ए अनादिसांत नामें वीजो जांगो जाणवो. तथा जे जीव, देवता, नारकी, तिर्थच अने मनुष्यरूप ना ना जे कर्म चवतुं उपजतुं करे ठे, एटले ते ते नवनी आदि पण आवशे जे अने अंत पण आवशे ठे, माटे व्यवहार नयने मतें ए सादिसांत नामें चोथो जांगो जाणवो. तथा जे जीव, कर्म स्वभावी मांहे गया, तिहां मांहे

मां सिद्धपणे करी तेनी आदि ठे, पण ते जीवोने वढी पातुं जरीने संसार
मां आवुं नथी, माटे निश्चयनयने मते ए सादि अनंत नामें चोथो जांगो ठे,

४०४ अजीवतुं स्वरूप चार जांगे करी उलखावे ठे:- तिहां प्रथम धर्मा
स्तिकायमां गुण चार, अने पर्यायमां खंधपणुं. ते निश्चयनयने मते अना
दि अनंत नामे पहेले जांगे ठे, एटले तेनी आदि नथी अने अंत पण नथी
तथा अनादि सांतनामें वीजो जांगो धर्मास्तिकायमां लागतो नथी, तथा ध
र्मास्तिकायना देश, प्रदेश अने अगुरुलघु ते व्यवहारनयने मते सादि सां
त नामें त्रीजे जांगे जाणवा, तथा सिद्धना जीवें जे धर्मास्तिकायना प्रदेश
फरस्या ठे ते प्रदेश मूकीने वीजे प्रदेशें सिद्धना जीवने जवुं नथी माटे ते
निश्चयनयने मते सादि अनंत नामे चोथो जांगो जाणवो, केम के जे सिद्ध
नो जीव मोक्के पहेले, ते वखत धर्मास्तिकायना प्रदेशने फरसे, माटे तेनी
आदि ठे, परंतु पठी ते प्रदेशयकी वीजे प्रदेशें जाय नथी, माटे अंत नथी,
ए धर्मास्तिकायमां चोजंगी कही, तेज रीतें अधर्मास्तिकायमां पण चोजंगी ठे,

४०७ आकाशास्तिकायमां चोजंगी कहे ठे. आकाशास्तिकायमां गुण चार,
अने पर्यायमां खंधपणुं ते निश्चयनयने मते अनादि अनंत पहेले जांगे
जाणवुं, एटले तेनी आदि नथी अने अंत पण नथी, तथा अनादि सांत
नामें वीजो जांगो आकाशास्तिकायमां लागतो नथी, तथा आकाशास्ति
कायना देश, प्रदेश अने अगुरुलघु, ते व्यवहारनयने मते सादिसांत नामें
त्रीजे जांगे जाणवा, एटले तेनी आदि ठे, अने ठेडो पण ठे तथा जे सिद्ध
ना जीव, मोक्के गया ठे, ते आकाशास्तिकायना जे प्रदेश फरशीने लोकने
अंतें रह्या ठे, ते प्रदेश मूकीने वीजे प्रदेशें जाता नथी, माटे निश्चयनयने
मते ए सादि अनंत नामें चोथो जांगो जाणवो.

४११ पुज्जलास्तिकायमां चार जांगा लगावे ठे. पुज्जलमां गुण चार ठे, ते
तो निश्चयनयने मते अनादि अनंत नामें पहेले जांगे जाणवा. एटले तेनी
आदि नथी अने अंत पण नथी, तथा जीव पुज्जलनो संबंध, ज्ञव्यजीवने तो
व्यवहारनयने मते अनादिसांत नामें वीजे जांगे जाणवो केमके ज्ञव्यजी
व केवारेंक कर्मरूप पुज्जलने ठांकीने मोक्के जाशे, तथा अज्ञव्य जीवने पुज्ज
लसाथें संबंध अनादिअनंतनामें पहेले जांगे ठे, ए संततिपणे जाणवो.
केवारें टलशे नहीं माजे अज्ञव्य जीवने कर्मरूप पुज्जलसाथें

यनयने मत्तं संततिपणे जाणवो, तथा पुञ्जल खंध सादि सांत ठे, केम के जे वंधाय ठे, ते स्थितिप्रमाणें रही वली पाठा विखरे ठे, वली नवा संघ थाय ठे, माटे पुञ्जलना खंध ते व्यवहार नयने मत्तं सादि सांत नामें वीजे जांगे जाणवा अने चौथो सादि अनंत नामें जांगो पुञ्जलमां लागतो नयी,

४१६ कालद्रव्यमां चार जांगा लगावे ठे. तिहां कालद्रव्यमां गुण चार तो निश्चयनयने मत्तं अनादि अनंत नामें पहेले जांगे जाणवा अने पयां यमां अतीतकाल तो अनादि सांत नामें वीजे जांगे ठे. तथा वर्तमानकाल, सादि सांत नामें वीजे जांगे ठे, तथा अनागतकाल ते सादि अनंत नामें चोये जांगे ठे, ए कालनुं स्वरूप, ते सर्व उपचारमात्र ठे, ए रीतें एठद्रव्यनुं स्वरूप चार जांगे करी उलखवुं. इहां षट्द्रव्यमां नव तत्त्वमांहेसा जीव अने अजीव, ए वे तत्व उपर चार जांगा लगाव्या.

४२० पुण्य तत्वमां चार जांगा लगावे ठे. तिहां अज्ञव्य जीव आश्रयी पुण्यमां अनादि अनंत नामें पहेलो जांगो जाणवो, केम के अज्ञव्य जीवने पुण्यनी साथे संबंध अनादि अनंत जांगे ठे. कारण के अज्ञव्य जीव पुण्यनां दक्षीयां दाय करीने केवारें पण सिद्धि वरशे नहीं माटे अनादि अनंत संबंध जाणवो. तथा ज्ञव्य जीवने पुण्यनी साथें संबंध अनादि सांत नामें वीजे जांगे ठे, केम के व्यवहार राशियां ज्ञव्य जीव, स्थितिपाकें एक दिवस, पुण्यनां दक्षीयां गोडी सिद्धि वरशे, तेवारें ठेहेडो आवशे, माटे अनादि सांत वीजे जांगो जाणवो. तथा जीव, पुण्यनां दक्षीयां समय समय अनंत नां सीये ठे अने समय समय अनंततां खेरवे ठे, ते सादिसांत वीजे जांगे जाणवां. तथा सादि अनंत नामें चौथो जांगो पुण्यमां लागतो नयी.

४२४ पाप तत्वमां चार जांगा लगावे ठे. प्रथम पापमां अनादि अनंत नामें पहेलो जांगो अज्ञव्य जीव आश्रयी जाणवो. केम के अज्ञव्य जीव, पापनां दक्षीयां गोडी केवारें सिद्धि वरशे नहीं माटे अज्ञव्य जीवने पापनी साथें संबंध ते अनादि अनंत पहेले जांगे जाणवां. तथा ज्ञव्य जीवने पापनां साथें संबंध अनादि सांत नामें वीजे जांगे जाणवो, केम के व्यवहार एतें ज्ञव्य जीव. स्थितिपाकें एक दिवस पापनां दक्षीयां गोडी सिद्धि वरशे, तेवारें पापनां ठेहेडो आवशे माटे अनादि सांत वीजे जांगो जाणवां तथा ज्ञव्य समय समय पापनां अनंततां दक्षीयां सीये ठे अने समय समय

अनन्तां खेरवे ठे, ते आश्रयी सादि सांत नामें त्रीजो जांगो जाणवो. तथा सादि अनन्त चोथो जांगो पापमां लागतो नथी.

४२७ आश्रवमां चार जांगा लगावे ठे. आश्रवने अज्ञव्य जीव साथें सं बंध ते अनादि अनन्त पहेले जांगे जाणवो. केम के अज्ञव्य जीवने शुचाशु च आश्रवनुं आवनुं केवारें मटशे नहीं, तथा आश्रवने ज्ञव्य जीवनी साथें संबंध ते अनादिसांत बीजे जांगे जाणवो. एटले व्यवहारराशि ज्ञव्य जीवने आश्रवनां अनन्तां दळीयां समय समय आवे ठे, ते एक दिवसें यथा ख्यातरूप संवरजावें करी आश्रवनुं आवनुं रुंधशे माटे अनादिसांत बी जो जांगो जाणवो. तथा जे जीव, आश्रवनां दळीयां समय समय अनन्तां दळीये ठे अने समय समय अनन्तां खेरवे ठे, ते सादिसांत त्रीजो जांगो जाणवो. तथा अनादि अनन्त चोथो जांगो आश्रवमां लागतो नथी.

४३२ संवरनुं स्वरूप चार जांगे करी उलखावे ठे. प्रथम सर्व सिद्धना जीव आश्रयी संवरजाव जोतां तो अनादि अनन्त पहेले जांगे जाणवो. एटले सिद्धना जीव, सदा संवरजावमां रह्या वत्ते ठे, तेनी आदि पण नथी जने अंतपण नथी तथा अनादिसांत नामें बीजो जांगो संवरमां लागतो नथी तथा क्षयोपशम जावआश्रयी जे जीव, संवरजावें वत्ते ठे, ते सादि सांत त्रीजो जांगो जाणवो क्षायिक जावआश्रयी जे जीवने संवरगुण प्रग व्यो ठे, ते सादिअनन्त चोथो जांगो जाणवो.

४३६ निर्झरानुं स्वरूप चार जांगे करी देखाडे ठे, प्रथम अज्ञव्य जीव आश्रयी अकाम निर्झरा तो अनादि अनन्त पहेले जांगे जाणवी. केम के अज्ञव्य जीव सदा काल अकाम निर्झरा करतांज फिरशे, पण सकाम निर्झरा अज्ञव्यने कोइ वारें उदय आवशे नहीं, माटे अनादि अनन्त पहेलो जांगो जाणवो. तथा अनादिसांत बीजो जांगो व्यवहारराशिया ज्ञव्यजीव आश्रयी जाणवो, केम के ज्ञव्यजीव अकामनिर्झरा अनादि कालनी करे ठे, परं तु जेवारें समकेत गुणरूप धर्मध्यानमां आवशे, तेवारें अकामनिर्झराने ढोड शे, माटे अनादिसांत बीजो जांगो जाणवो, ए बे जांगा अकामनिर्झरामां लगाव्या, पण ते सर्व व्यर्थ जाणवा. तथा सादि सांत त्रीजो केती जीव आश्रयी चोथा गुणठाणाथी मांकीने यावत्

ठाणे केवलीपर्यंत सर्वे जीवने सकाम निर्झरा जाणवी, ते सकामनिर्झरा सा दि सांत जांगे ठे, तथा सादि अनंत चोथो जांगो निर्झरामां लागतो नथी.

४४० बंधतत्त्वनुं स्वरूप चार जांगे करी उलखावे ठे. प्रथम अनादि अनंत पहेलो जांगो बंधमां अन्नव्य जीव आश्रयी जाणवो. केम के अन्न व्य जीवने ज्ञानावरणी प्रमुख कर्मनां दलीयां सत्तामां रह्यां ठे, ते कोई दिवसें वृट्शे नहीं ते आश्रयी अनादि अनंत पहेलो जांगो जाणवो. तथा अन्नव्य जीवने कर्मरूप दलीयां सत्तायें बांध्यां ठे, ते जे वारें सिद्धि वरशे तयारें सर्व वृट्शे, ते आश्रयी अनादिसांत वीजो जांगो जाणवो. तथा जे जीव कर्मरूप दलीयां बांधे ठे अने वली पाठा स्थितिपाकें ठोडे ठे, ते जीवआश्रयी सादिसांत वीजो जांगो जाणवो. तथा सादिअनंत चो थो जांगो बंधतत्त्वमां लागतो नथी.

४४४ मोक्षनिःकर्मावस्थानुं स्वरूप चार जांगे करी उलखावे ठे. प्रथम सर्वे सिद्ध्याश्रयी अनादि अनंत पहेलो जांगो जाणवो. केम के सिद्धि पया तेनी आदि पण नथी अने अमुक दिवसें सिद्धि वरी रहेशे, हवे कोइ सिद्धि वरशेज नहीं एवो अंत पण नथी माटे. तथा अनादि सांत नामें वीजो जांगो सिद्धिमां लागतो नथी तथा सिद्धना अनंता गुणने विषे पर्यायिनी क्षान्तिवृद्धिरूप उपजवुं विणसवुं समय समय थइ रह्युं ठे ते सादिमांत वीजो जांगो जाणवो. तथा श्रीरूपनादि एवुं नाम क्षेतां एक सिद्ध आश्रयी सादिअनंत चोथो जांगो जाणवो. ए रीतें पद्द्रव्य नव नव स्वल्प, चार जांगे करी जाणवुं.

४४६ निर्गोद्रीया जीव आश्रयी चार जांगा कहे ठे:—प्रथम अनादि अनंत पहेले जांगे निर्गोदमां अनंता जीव ग्या ठे, केम के ते जीव, कोइ कादें निर्गोदमांथी निकली पावशेज नहीं माटे ते आश्रयी अनादि अनंत पहेलो जांगो जाणवो. तथा जे जीव, निर्गोदमांथी निकली निकलीने सिद्धि वरें ठे एवो करी पाठा निर्गोदमां जाता नथी ते जीव आश्रयी अनादि मांत वी जो जांगो जाणवो. तथा जे जीव, निर्गोदमांथी निकली करी पाठा निर्गोद मां वरें वरें ठे. वली पाठा निकले ठे, ते जीवआश्रयी सादि मांत वीजो जांगो जाणवो. तथा सादि अनंत चोथो जांगो निर्गोदमां लागतो नथी.

४५२ देवलोकना जीव उपर चार जांगा लगाडे ठे, प्रथम देव गति आ श्रयी जोतां तो अनादि अनंत पहेलो जांगो जाणवो. केम के देवगतिनी आदि पण नथी अने अंत पण नथी, तथा अनादि सांत नामे बीजो जांगो देवगतिमां लागतो नथी अने देवगतिमां जीव, समय समय असंख्याता चवे ठे अने असंख्याता उपजे ठे माटे ते सादि सांत त्रीजो जांगो जाणवो तथा सादि अनंत नामें चोथो जांगो देवगतिमां लागे नहीं. एवी रीतें मनुष्यादि चारे गतिमां जांगा जाणवा.

४५६ शाश्वती अशाश्वती वस्तुमां चार जांगा लगाडे ठे. एटले शाश्वती वस्तु सर्वे अनादि अनंत पहेले जांगे जाणवी अने अनादि सांत बीजो जांगो शाश्वती वस्तुमां लागतो नथी तथा त्रीजो शाश्वतो वस्तुमां पुजल परमाणुआ समय समय अनंता पेसे ठे अने निकले ठे, माटे सादिसांत त्रीजो जांगो जाणवो अने अशाश्वती वस्तु पण सर्वे सादिसांत त्रीजे जांगे जाणवी, केम के अशाश्वती वस्तु नीपनी तेनी आदि ठे अने वली क्य थाशे तेवारें अंत पण आवशे तथा सादि अनंत चोथो जांगो एमां लागतो नथी. ए रीतें सर्व वस्तुनुं चार जांगे करी प्रमाण करवुं.

४६० हवे ठ ड्रव्यना परस्पर संबंधनी चोचंगी कहे ठे:—तेमां प्रथम आ काश ड्रव्य ठे, ते लोकालोकव्यापि ठे अने शेष पांच ड्रव्य तो लोकव्यापि जाणवां, तेमां वली लोकमां एक आकाशड्रव्य, बीजुं धर्मास्तिकाय ड्रव्य, त्रीजुं अधर्मास्तिकाय ड्रव्य, ए त्रणे ड्रव्यनो एकेक प्रदेश जेलो रह्यो ठे, ते पण कोइ कालें विठडशे नहीं माटे ए निश्चयनयने मतें अनादि अनंत पहेलो जांगे संबंध जाणवो. तथा लोकमां आकाशरूप क्षेत्रनी साथें सर्वजीवड्रव्यने संबंध, ते निश्चयनयने मतें अनादि अनंत ठे, तथा संसारी जीव, कर्म सहितने आकाशप्रदेशनी साथें संबंध ते सादिसांत ठे, कारण के संसारी जीवें जेटला आकाशड्रव्यना प्रदेश ठे, ते एकेक जीवें सर्वे फरश्या ठे अने वली फरसशे माटे व्यवहारनयने मतें सादिसांत संबंध जाणवो. तथा लोकाकाश अने पुजलने मांहोमांहे संबंध ते निश्चयनयने मतें अनादि अनंत पहेले जांगे जाणवो. तथा आकाशप्रदेशनी साथें पुजलपरमाणुआने संबंध ते व्यवहारनयने मतें सादिसांत त्रीजे जांगे ठे, कारण के एक एउठ ते सर्वे आकाश प्रदेशने फरश्या ठे अने वली फरसशे

संबंध कहीयें. ए रीतें आकाशद्रव्यनी पेरें धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्ति कायनो पण मांहोमांहे संबंध जाणवो.

ह्वे जीवपुजलनो संबंध कहे ठे:— अन्नव्यजीवने पुजलनी साथें संबंध, ते निश्चयनयने मतें अनादि अनंत पहेले जांगे ठे, केम के अन्नव्य जीव नां कर्म, केवारें पण खपशे नही, अने न्नव्यजीवने कर्मरूप पुजलनी साथें संबंध ते अनादिनो ठे, पण कारण सामग्री मळे, त्यारें केवारेंक दूटशे, माटे व्यवहारनयने मतें अनादि सांत जाणवो अने निश्चयनयने मतें करी ठए द्रव्य स्वप्नावरूप परिणामें करीने परिणामी ठे, माटे परिणामिपणुं सदा शा श्वतुं ठे, तेथी अनादि अनंत जाणवो. तथा जीव अने पुजल, ए वे द्रव्य मळी खंधनाव पामे ठे, तेणें करी पारिणामिक जाणवा. ते पारिणामिक पाणुं अन्नव्यजीवने निश्चयनयने मतें अनादि अनंत ठे अने न्नव्यजीवने व्यवहारनयने मतें अनादि सांत ठे, वळी पुजलद्रव्यनुं पारिणामिकपाणुं तो निश्चयनयें करी अनादि अनंत ठे अने पुजलपरमाणुंआनुं मळवुं, विखरवुं, ते व्यवहारनयने मतें सादिसांत ठे, एटले जीव, पुजल साथें मळ्यां सक्रिय ठे.

ह्वे श्रीसम्मतिसूत्रमां कथुं ठे जे पांच समवाय मळवाथी सर्व कार्य नीपजे ठे, तेनी व्याख्या करीयें ठेयें ॥ गाथा ॥ कालो सहाव नियदं, पुत्र कथं पुरिम कारणे पंच ॥ समवाए सम्मत्तं, एगंते होइ मिष्ठत्तं ॥१॥ अर्थ:— काल, नाना, नियति केतां नाधि, कर्म अने उद्यम, ए पांच समवायांग माने, ते समकृती जाणवा अने ए मांहिलो एक समवाय उठाणे, ते मिथ्यात्वी जाणो, ए सम्मतिसूत्रनुं उचन ठे. एवुं सांनळी ए पांच समवाय आश्रयी सिण्य पुंठे ठे.

७७१ शिष्य:—जीव, समकृत केवारें पामशे ?

गुरु:—जेवारें काजवच्चि पाकशे, तेवारें जीव समकृत पामशे, पण काज पाकशे विना होइ जीव, समकृत पामे नही, केम के काज सर्वनुं कारण ठे ते मळें ते काजें होणार होय, ते काजें ते येलायें ते कार्य थाय.

७७२ शिष्य:—अन्नव्यजीवनेनां काजवचणोगयो, पणते समकृतकर्मनथी पामता ?

गुरु:—अन्नव्यजीवनेनां काजवचणोगयो, पणते समकृतकर्मनथी पामता ?

७७३ शिष्य:—अन्नव्यजीवने सर्व समकृत पामशे ?

गुरुः—सर्व जीव समकेत नहीं पामशे जेने ज्ञावि कारणरूप देव, गुरु, धर्मनी जोगवाइ मलशे, ते जीव, समकेत पामशे बीजा नहीं पामे.

४८४ शिष्यः—ज्ञावि देव, गुरु, धर्मरूप कारणनी जोगवाइ तो घणा जीवने मली ठे ते केम समकेत नहीं पामता ?

गुरुः—देव, गुरु, धर्मरूप कारणनी जोगवाइ तो मली, पण ते जीव उद्यम नहीं करता परंतु जो उद्यम करे, तो समकेत पामे.

४८५ शिष्यः—वखाण सांचले ठे, पच्चस्काण करे ठे, यात्रा, दर्शन, पूजा, जक्ति आदि उद्यम तो घणा जीव करे ठे, तो पण केम समकेत पामता नहीं ?

गुरुः—ते जीवने पूर्वकृत कर्म घणां ठे, एटले सात कर्मनी वशे ने त्रीश कोडाकोडी सागरोपमरूप स्थिति ठे, ते विवर आपे, तो जीव समकेत पामे.

४८६ शिष्यः—यथाप्रवृत्तिकरणरूप परिणामें करी, जीवें वशेने त्रेवीश कोडाकोडी सागरोपमरूप कर्मनी स्थिति खपावी, एटले कर्म तो विवर दीधुं तो पण हजी केम समकेत नहीं पामता ?

गुरुः—हजी तेज्जो उद्यम काचो ठे, परंतु अपूर्वकरणना परिणामरूप उद्यम करशे, तेवारें जीव, समकेत पामशे एटले ए पूर्वोक्त पांच समवाय चले, तेवारें समकेतरूप कार्य नीपजे.

४८७ शिष्यः—मोक्षरूपकार्य जीवने केम सिद्ध थाय ?

गुरुः—जेवारें काललब्धि पाकशे, तेवारें जीवने मोक्षरूप कार्य नीपजशे, पण काल पाक्या विना कोइ जीव, मोक्षें जाय नहीं. एटले काल सर्वेनुं कारण ठे, जे कालें जे कार्य होणार होवे, ते कालें ते कार्य ते वेलायें नीपजे.

४८८ शिष्यः—अज्ञव्यजीवने तो कालघणोगयो तो केम मोक्षरूपकार्य सिद्ध थयुं न

गुरुः—अज्ञव्यमांस्वज्ञाव नहीं ज्ञव्यस्वज्ञाव होय तो सिद्धरूप कार्य निपजे.

४८९ शिष्यः—तो ज्ञव्यजीव सर्वे मोक्षें केम जाय नहीं ?

गुरुः—निश्चय समकेत गुणरूप कारण मल्या विना कोइ जीव, मोक्ष पामे नहीं.

४९० शिष्यः—नियतिनिश्चय एटले ज्ञावि समकेतरूप कारण तो श्रेणि कादिक पाम्या हता तो पण तेने मोक्षरूप कार्य केम न थयुं ?

गुरुः—तेने पूर्वकृत कर्म घणां हतां अथवा पुरुषाकार उद्यम न कस्यो.

४९१ शिष्यः—उद्यम तो शाक्तिज्ञ प्रमुखें घणो कस्यो, कार्य तो न नीपन्युं ?

गुरुः—एने पूर्वकृतकर्म घणां हतां तेषां रोकी राख्या.

४ए२ शिष्यः—कर्म तो प्रसन्नचंद्रराजर्षियें सातमी नरकनां दक्षीयां मेलव्यां हतां, तो तेने मोक्षरूप कार्य केम नीपन्थुं ?

गुरुः—एणें शुक्लध्यानरूप श्रेणिनो उद्यम घणो कीधो, माटे पांचे कारण मळे, सर्व कार्य नीपजे ठे, एसां जे कोइ एक कारण उठापे, ते मिथ्यादृष्टि जाणवा अने पांचे समवाय मलवाधी कार्य माने, ते समकेतदृष्टि जीव जाणवा.

४ए७ समकेतनुं स्वरूप, षट् कारकें करी देखाडे ठे. तिहां प्रथम षट् कारकनां नाम कहे ठेः—१ कर्ता, २ करण, ३ कार्य, ४ संप्रदान, ५ अपादान, ६ आधार, ए षट् कारकनां नाम जाणवां. तिहां प्रथम कर्ता ते जीव, त्रीजुं करण ते देवगुरु धर्म, त्रीजुं कार्य ते जीवने समकेतरूप कार्य करवुं ठे, चोथुं जे आत्मप्रदेशं जीवने निर्मलता संपजती जाय, ते संप्रदान, पांचमुं कर्मरूप आवरण टलतुं जाय, ते अपादान, ठहुं ए ठए समकेतरूप कार्यमां ज्ञानां आधाररूप जाणवां, माटे ठहुं आधारनामा कारक जाणवुं

५०४ मोक्षनिःकर्मा अवस्थानुं स्वरूप, ए षट्कारक मळे निपजे, ते कहे ठे. तिहां प्रथम कर्ता ते जीव जाणवो अने त्रीजुं कारण ते जीवने समकेतरूप मळे, तेवारे त्रीजुं मोक्षरूप कार्य नीपजे, तथा चोथुं संप्रदान ते गुणश्रेणिरूप निर्मलता जीवने संपजती जाय अने पांचमुं अपादान ते कर्मरूप आवरण टलतां जाय अने ठहुं आधार, ते ए ठए मोक्षरूपकार्यमां ज्ञानां आधाररूप जाणवां. एणी रीतें षट्कारकरूप चक्र करी मोक्षनिःकर्मा अवस्थानुं स्वरूप जे प्राणी जाणे, ते प्राणी गण्टा दिवसमां परमानंदपद पावे.

५१३ श्रीजिनमार्गमध्ये नव प्रकारनां नियाणां करवां निषेध्यां ठे, तेनो विचार धर्मीयें ठेयें. प्रथम कोइ जीव, एतुं चिंतवे जे बीजे नवें मनें राज्यनी प्राप्ति होतो एवी जे इडा ते पदेतुं नियाणुं जाणवुं. वडी कोइ एतुं चिंतवे केरा ज्ञानां नो महेजन वाणी माटे तेथी सखुं पण मुजने कृद्धिमंत एहस्यपाणाती प्राप्ति होतो ? एवी जे इडा ते त्रीजुं नियाणुं जाणवुं. वडी कोइ एतुं चिंतवे ते गुणने नो कमावना धमाववारुप वाणुं कष्ट पडे ठे, माटे महारं धीपणाती प्राप्ति होतो ? एवी वांडा, ते त्रीजुं नियाणुं जाणवुं. वडी कोइ एतुं चिंतवे ते श्रीजिने नो एहस्यपाणा प्रमुख मज्ञा कष्ट ठे, माटे इहुं पुढ्य होतो ? एवी जे चोथुं नियाणुं जाणवुं. वडी कोइ एतुं चिंतवे जे मनुष्य संवेदि

विषयज्ञोग तो घणा अशुचि ठे माटे महारे बहुरत्ता देवतापणुं प्राप्त होजो ? एवी श्हा, ते पांचमुं नियाणुं जाणवुं. वढी कोइ देवता अने (अन्य के०) बीजो कोइ देवता ते मांहोमांहे देव देवीनां रूप विकूर्वीने जोग जोगव्यानी तथा कोइ देवता पोतेंज देव देवीरूप विकूर्वीने जोगव्यानी वांठा ते बहुरत्ता देव कह्हीये, एवी वांठारूप परिणाम एटले एवुं सामर्थ्य हुं पामुं ? एवी श्हा ते ठहुं नियाणुं जाणवुं. ए ठ नियाणांना करवावाला जीव परजवें दुर्लजवोधी थाय. एटले तेने बोधबीजरूप समकेतनी प्राप्ति न थाय, वढी कोइ जीव एवुं चिंतवे के जे देवताउने संजोग नथी, ते देवोने अरत्ता देव कह्हीयें. ते अरत्तादेव थवानी वांठा ते सातमुं नियाणुं जाणवुं, वढी कोइ एक जीव, एम चिंतवे ठे मुजने साधुने पडिलाजण वाळुं रूडुं श्रावकपणुं प्राप्त आजो, एटले हुं घणा साधु, साधवीने आहार पाणी प्रमुख वहोरावुं ? एवी श्हा करवी, ते आठमुं नियाणुं जाणवुं. वढी कोइ एवुं चिंतवे जे मुजने दारिद्री श्रावकपणानी प्राप्ति होजो, के जेथकी मुजने चारित्रनी प्राप्ति तरत उदय आवे, एवी प्रार्थना करवी, ते नवमुं नियाणुं जाणवुं. ए पाठलां त्रण नियणांनुं फल, अनुक्रमें पूर्वले जवें समकेत, देशविरति अने सर्वविरतिनुं दायक ठे, पण मोक्षनुं दायक नथी. ए सर्व अर्थ, पांखीसूत्रनी टीकामध्यें ठे. तथा बृहत्कण्डपट्टत्तिमां एम कळुं ठे जे तीर्थकरपणुं तथा चरमशरीरीपणुं प्रमुख पण साधुने प्रार्थवुं युक्त नथी, अपवादें पण ए नियाणुं साधुने नहीं करवुं. तथा आवश्यकवृत्तिमां ध्यानशतकने अधिकारें कळुं ठे, जे सर्व कर्मना ह्यथकी मुजने मोक्ष होजो ? ए पण नियाणुंज ठे, एने पण निश्चयनयथी निषेध्युं ठे, परंतु जावनामां जे जीव काचा ठे, तेने आश्रयी व्यवहारनयें निर्दोष ठे. एम योगशास्त्रवृत्तिमां पण कळुं ठे. अने 'जयवीयराय' इत्यादिक प्रणिधान ठे, ते ठठा गुणवाणथी उपर न करवुं. इत्यादि, वढी एवो विस्तारें अधिकार, पूजापंचाशकवृत्तिमां ठे. सर्व अर्थने प्रश्न ५१३ थया.

हवे श्री नवपदजीनी पूजा खरतरगळमां थयेला देवचंदजीकृत ठे, तेमां कळुं ठे ॥ गाथा ॥ इम नव पद गुण मंरुली, चउनिस्केप प्रमाणो जी ॥ सात नयें जे आदरे, सम्यग् ज्ञानी जाणो जी ॥ १ ॥ अर्थः—श्री सिद्धचक्रजीना यंत्रनुं स्वरूपते नैगमादिक सात नयें करी जाणवुं. तथा

नामादिक चार निरूपे करी जाणवुं. तथा प्रत्यक्ष अने परोक्ष, ए वे प्रमाणें करी जाणवुं. तथा ड्रव्य, क्षेत्र, काल अने जावनी चोत्रंगीयें करी जाणवुं. तथा चौद गुणगणे करी जाणवुं, तथा गुणें करी जाणवुं. तथा नव तत्त्वं करी जाणवुं तथा गुणिगुणें करी जाणवुं तथा पंचवर्णें करी जाणवुं तथा देव, गुरु, धर्मनी उद्वखाणें करी जाणवुं. ए दश जांगे करी श्री सिद्धचक्रजीना यंत्रनुं स्वरूप जे जाणे, सईहे, तेने सम्यग्ज्ञानी जाणवा.

५२२ तेमां प्रथम जांगे साते नयें करी यंत्रनुं स्वरूप देखाडे ठे. तिहां प्रथम नैगमनयने मतें अतीतकालें सिद्धचक्रजीनो यंत्र एवुं नाम वर्त्ततुं हतुं अने अनागत कालें पण ते नाम वर्त्तशे, तथा हमणां वर्त्तमान कालें पण ते नाम वर्त्तं ठे, ए रीतें त्रणे काल एकरूपपणे वर्त्तें, ते नैगमनय जाणवो. ह्ये संग्रह नयना मतवालो सर्वनो संग्रह करीने बोड्यो, जे आ श्री सिद्धचक्रजीनो यंत्र ठे, पठी व्यवहार नयना मतवाले वेंचण करीने जुदा जुदा नेद देसाड्या, ते आधी रीतें के प्रथम पदें अरिहंत, बीजे पदें सिद्ध, बीजे पदें आचार्य, चौथे पदें उपाध्याय, पांचमे पदें साधु, उठे पदें दर्शन, सातमे पदें ज्ञान, आठमे पदें चारित्र, अने नवमे पदें तप, ए रीतें जेवा दीशा, तेना नेद वेंच्या, ते व्यवहार नय जाणवो. पठी व्यवहार नयना मतवालो इगुमूत्र नयनो उपयोग लाडने बोड्यो जे ए सिद्धचक्रजीना यंत्रनी स्थापनामां मध्यजागें अरिहंत देव, ते उठे समनिरूढ नयें वर्त्तं ठे. अने उपर सिद्ध परमात्मा ते सातमे एवंचूतनयें वर्त्तं ठे, पड्यामां आचार्य, उपाध्याय अने साधु, ते पांचमे शब्दनयें वर्त्तं ठे, तथा दर्शन, ज्ञान, चारित्र अने तप, ते पांचमे शब्दनयें अंश अंश मात्र प्रगट्या, अने उठे समनिरूढनयें संपूर्ण प्रगट्या, तथा सातमे एवंचूतनयें साक्ष कर्त साधनाची परमात्मा जीव, जागवे ठे. ए सात नयें यंत्रनुं स्वरूप जाणवुं.

५२३ बीजे जांगे चार निरूपे करी श्री सिद्धचक्रजीना यंत्रनुं स्वरूप देखाडे ठे. तिसां प्रथम श्री अरिहंतनी उपर चार निरूपे उतावे ठे. प्रथम श्री अरिहंत पदुं नाम उट्टी मरण करवुं, ते नाम अरिहंत. तथा श्री अरिहंतज्ञाना मुक्ति प्रमुख प्रतिमा स्थापनी. ते मद्रजाव स्थापना. तथा श्री अरिहंतज्ञान अक्षर उद्वका. ते अमरजाव स्थापना. ए बीजो स्थापना जेवना जे उतावे. तथा बीजो श्री अरिहंतनो जीव श्रेणिकादि प्रमुख ते त

व्य शरीरनुं द्रव्य जाणवुं अने जिहां लगे तीर्थकर जगवानने केवल ज्ञान न उपज्युं होय, त्यां लगे उच्चस्थ अवस्थायें द्वयतिरिक्त शरीरनुं द्रव्य जाणवुं. तथा श्री अरिहंतजी मुक्तें गया पठी तेना शरीरनी चक्ति इंद्रादिक देवता तथा मनुष्य करे ठे, ते ज्ञशरीरनुं द्रव्य जाणवुं. एवी रीतें चव्यशरीर, तद्वयतिरिक्त शरीर अने ज्ञशरीर, ए त्रण प्रकारें त्रीजो द्रव्यनिक्षेपो जाणवो. हवे चोथो जावनिक्षेपो ते श्री अरिहंतने केवल ज्ञान उपन्या पठी त्रिगडाने विषे बेसीने बार पर्षदाने देशना आपे, तेने जाव अरिहंत कहीयें.

५१४ ए चार निक्षेपे श्रीसिद्धनुं स्वरूप कहे ठे. प्रथम श्रीसिद्ध एवुं नाम त्रणे काल एकरूपें शाश्वतुं वर्त्ते ठे, ते नामथकी सिद्ध जाणवा, तथा श्रीसिद्धजीनी प्रतिमा प्रमुख स्थापवी, ते सदजावस्थापना अने सिद्ध एवा अक्षर लखवा, ते असदजावस्थापना. ए रीतें स्थापनानिक्षेपो बे जेदें जाणवो. तथा त्रीजो द्रव्यनिक्षेपो ते तेरमे अने चौदमे गुणगणे वर्त्तता केवली जगवानने चव्यशरीर आश्रयी द्रव्य कहीयें अने जे सिद्धि वस्था तेना शरीरनी चक्ति करीयें, ते ज्ञशरीरनुं द्रव्य जाणवुं. ए त्रीजो द्रव्यनिक्षेपो जाणवो. तथा जावसिद्ध जे सकलकर्म क्षय करी लोकने अंतें बिरा जमान अव्याबाध सुखना जोगो, तेने जावसिद्ध कहीयें.

हवे सिद्धजगवानमां तद्वयतिरिक्तशरीर आश्रयी चार निक्षेपा कहे ठे. प्रथम सिद्ध एवुं नाम, ते त्रणे कालें एकरूपें शाश्वतुं वर्त्ते ठे, ते नामसिद्ध जाणवा तथा जे देहमान मध्येथी त्रीजो जाग घटाडी बे जागना शरीरप्रमाणे आत्मप्रदेशनो घन करी स्थापनारूप क्षेत्र अवगाही रह्यो ठे, ते बीजो स्थापनासिद्ध जाणवो. तथा द्रव्यसिद्ध ते शुद्ध, निर्मल, असंख्यातप्रदेशने विषे ज्ञानादिक अनंतगुणरूप ठती पर्यायप्रत्ये वस्तुरूप प्रगट्या ठे, ते सिद्धनो तद्वयतिरिक्तशरीर आश्रयी द्रव्यनिक्षेपो जाणवो. तथा जावथकी सिद्धनुं स्वरूप तो सामर्थ्यपर्यायप्रवर्त्तनारूप अनंतो धर्म प्रगट्यो ठे, तेने विषे सदा काल नवा नवा ज्ञेयनी वर्त्तनारूप पर्यायनो उत्पाद, व्यय, समय समय अनंतो अनंतो थइ रह्यो ठे. तेणे करी सिद्ध परमात्मा अनंतुं सुख जोगवे ठे, ते चोथो जावनिक्षेपो जाणवो.

५१५ आचार्यनुं स्वरूप चार निक्षेपे करी कहे ठे:—प्रथम आचार्य एवुं नाम, ते नाम आचार्य, बीजुं आचार्यजीनी मूर्त्तिप्रमुख स्थापवी, अथवा आचार्य एवा

अक्षर लक्ष्मी स्थापना, ते स्थापना आचार्य, त्रीजो जे आचार्यपदवीने योग्य ठे पण हजी आचार्य पदवी पाम्या नथी, परंतु आगल पामशे, ते तच्छयतिरिक्त शरीरनुं ड्रव्य जाणवुं. तथा जे कोइ गतिमां जीव ठे, परंतु त्यांथकी आबी आचार्य पदवी पामशे, तेने जव्यशरीरनुं ड्रव्य कहियें. तथा जे कोइ आचार्य कादंगत थया पठी तेना शरीरनी जक्ति महोत्सव करीयें, ते इशरीरनुं ड्रव्य जाणवुं, ए त्रीजो ड्रव्यनिक्षेपो कह्यो. हवेचोथो जावनिक्षेपो ते जे जावाचार्य ठत्रीश गुणें करी विराजमान पांच प्रस्थानें करी सेवित जव्य प्राणीने हितोपदेश कर्ता गठना नायक थका विचरे, तेने जावथकी आचार्य कहियें. एज रीतें चार निक्षेपा उपाध्यायने विषे पण जाणी सेवा.

५२६ साधुजीनुं स्वरूप चार निक्षेपे करी कहे ठे:—प्रथम साधु एवं नाम, ते नामसाधु, तथा वीजो साधुजीनी मूर्ति प्रमुख स्थापीयें, अथवा अक्षर लक्ष्मीयें, ते स्थापना साधु तथा जे श्रावकमांहेथी आगल साधुपणुं नीपजशे. तेने ड्रव्यसाधु कहियें. ए जव्य शरीरनुं ड्रव्य जाणवुं तथा जे साधु पांच मद्रा व्रत सूधां पाले साधुनी क्रिया करे, सूजतो आहार तीये, पण तेवो ज्ञान ध्याननो उपयोग वर्ततो नथी ते तच्छयतिरिक्त शरीर आध्यायी ड्रव्य जाणवुं. तथा जे कोइ साधुने देवगति थया पठी तेना शरीरनी महोत्सव जक्ति करथी, ते इशरीरनुं ड्रव्य जाणवुं ए त्रण प्रकारें साधुनो ड्रव्यनिक्षेपो कश्यो. हवे नाव निक्षेपो कहे ठे. जे साधुने गुणें करी सहित अने आगल जे साधुनो आचार, व्यवहार कश्यो ते प्रमाणें सरी करे अने ज्ञान ध्यानमां वर्ततो साध्य एक, साधन अनेक, ए रीतें सतागतना धर्म मय भोक्ते साधे, ते जापनिक्षेपे साधु जाणवो.

५२७ इशेन उपर चार निक्षेपा क्षगावे ठे. तिहां प्रथम दर्शन एवंना भ. ते नामदर्शन करीयें. वीनुं मूर्ति प्रमुख स्थापयी, ते सद्भावस्थापना अने दर्शन एका अक्षर लक्ष्मी स्थापना, ते अत्मज्ञावस्थापना, ए स्थापना निक्षेपो जाणवो. त्रीजो जे अंतरंग उपयोग विना कुलाचारें अति आचरें तिरि पतिव इशेननां कर्णी करे ठे, परंतु ते आत्मदर्शन विना करे ठे, नाते ते मई ड्रव्यदर्शन जाणवुं जाग्या॥ दर्शन दर्शन जडक्रियां, गिा स्वधु से वर ... जे दर्शन दर्शन विना, ते करियां अनेन संगा॥ ... ए रीतें जाणवो. हवे चोथे जावनिक्षेपे दर्शन कहे ठे. तिहां जे

कार्यकारणनी उलखाण सहित दर्शन करवुं एटले उपरथी श्री वीतरागना दर्शननी आचरणारूप (करणी केण) सेवा, स्तुति, जक्ति, पूजा विधि सहित मन, वचन अने कायायें करी एकचित्तें करे ठे, ते सर्व द्रव्यदर्शन का रणरूप जाणवुं अने ज्ञावदर्शन केतां तो जे अंतरंग आत्मदर्शनरूप लेजो धारीने आत्मा निरावरण करवारूप साध्य चोखुं राखीने द्रव्यदर्शनरूप विधिसहित करणी करवी, ते सर्व निर्झरारूप जाणवी ॥ गाथा ॥ जे दर्शन दर्शन विना, ते दर्शन प्रतिपद्द ॥ जे दर्शन दर्शन हुवे, ते दर्शन सापेक्ष ॥ १ ॥ ए परमार्थ जाणवो. ए ज्ञावनिक्षेपे दर्शन कळुं.

५१७ ज्ञान उपर चार निक्षेपा लगाडे ठे. प्रथम ज्ञान एवुं नाम, ते ना मज्ञान जाणवुं. बीजुं पुस्तकमां लख्युं ते स्थापनाज्ञान जाणवुं. त्रीजुं अन्यमतनां सर्वशास्त्र, तेनां तथा जिनमतनां सूत्र, सिद्धांत, टीका, चूर्णि प्रमुखना अंतरंग आत्म उपयोग विना तथा निश्चयव्यवहाररूप कार्य कारणना जाणपणा विना जे अर्थ करवा, ते सर्वे द्रव्यज्ञान जाणवुं तथा ज्ञावज्ञान ते षड्द्रव्य नव तत्त्वनुं जाणपणुं द्रव्य, क्षेत्र, काल, ज्ञाव, नय, निक्षेपा, अने प्रमाणें करी जाणपणुं अने अंतरंग निश्चयनय आत्मसत्तानुं सर्वह्वुं ते ज्ञावज्ञान जाणवुं ॥ गाथा ॥ क्षण अर्द्धे जे अध टले, ते न टले जवनी कोडें ॥ तपस्या करतां अति घणी, पण नावे ज्ञान तणी कोडें जोडें ॥ १ ॥

५१८ चारित्र उपर चार निक्षेपा लगाडे ठे, प्रथम चारित्र एवुं नाम, ते नामचारित्र जाणवुं. तथा जे पुस्तकमां चारित्रना विधि प्रथम लखीने स्था पवुं ते स्थापनाचारित्र जाणवुं. तथा जे पांच महाव्रत सूधी रीतें मन, व चन, कायायें करी निवृत्ति प्रवृत्तिरूप आचार व्यवहार प्रमुख सहित सू धी रीतें करणी करवी, ते सर्व द्रव्यचारित्र जाणवुं ॥ गाथा ॥ विरया सा वक्षाळ, कसाय हीणा महावयधरावि ॥ सम्महिष्ठि विदूणा, कयावि मुक्कं न पावंति ॥ १ ॥ ए परमार्थ जाणवो. हवे ज्ञावचारित्र कहे ठे. जे कर्मने चूरे, तेने चारित्र कहीयें. एटले जीव, अजीवरूप स्वपरनी वेंचण करी स्वरूपनुं चिंतववुं. एकाग्रता तन्मयरूप परिणाम होय एटली वार नवा कर्म रूप आश्रवनुं रोकवुं जाणवुं, तेने ज्ञावचारित्र कहीयें ॥ गाथा ॥ चय ते अत्र कर्मनो संचय, रिक्त करे जे तेह ॥ चारित्र नाम निरुक्तें जांख्युं, ते वंदो गुण गेह ॥ १ ॥ ए परमार्थ जाणवो. ए ज्ञावचारित्र जाणवुं.

५३० तप उपर चार निक्षेपा लगाडे ठे:-प्रथम तप एवुं नाम, ते न निक्षेपो जाणवो. वीजुं पुस्तकमां तपना विधि प्रमुखनुं लखवुं, ते स्थापना जाणवुं. वीजुं ठठ अछमादि प्रमुख पास खमण मासखमण आदिक अने प्रकारनुं तप जे आ जव परजवें पुण्यरूप इंद्रियसुखनी वांठारूप परिण करवुं, ते सर्वे ड्रव्यतप जाणवुं. चोथुं जावतप. ते इह जव परजवें इंद्रिय सुखनी वांठा रहित सर्व प्रकारें इठानो रोध करी एक पोतानो आत्मा मरूप आवरणयकी रहित करवाने अर्थें जे आगल ड्रव्यतप कहुं, ते स करतां यकां निर्जारा रूप जाणवुं ॥ गाथा ॥ इठा रोधे संवरी, परिणतिस ता जोगें ॥ तप तेहीज आत्मा, वत्तें निजगुण जोगें ॥ ए जावतपनो पर अर्थ जाणवो. एरीतें चार निक्षेपे करी सिद्धचक्रना यंत्रनुं स्वरूप जाणवुं

५३१ वीजे जांगे ए यंत्रनुं स्वरूप, प्रत्यक्षादि प्रमाणें करी उलखावे ठे. तिस प्रथम प्रमाणना जेद ठे. एक प्रत्यक्षप्रमाण अने वीजुं परोक्षप्रमाण, तेम प्रत्यक्ष प्रमाणना वही वे जेद ठे. तिहां अरिहंत तथा सिद्ध जगवान् केव ज्ञानें करी लोकालोकनुं स्वरूप जाणें ठे, ते सर्वे प्रत्यक्ष प्रमाणें करी जाणें ठे. माटे एने सर्वप्रत्यक्ष कहीयें. तथा जे मनःपर्यवज्ञान अने अवधिज्ञान ते वीजुं देशप्रत्यक्ष कहीयें. तिहां कोशक आचार्य, उपाध्याय अने साधु, मनःपर्यव ज्ञानाज्ञा ठे, ते मनोवर्गणाने प्रत्यक्षपणे जाणें ठे अने कोशक आचार्य उपाध्याय अने साधु, अवधिज्ञानवाला ठे, ते पुजलवर्गणाने प्रत्यक्ष पणे जाणें ठे. ते देशप्रत्यक्ष जाणवो. एटले अरिहंत अने सिद्ध, ए वे सर्वे प्रत्यक्ष प्रमाणताज्ञा तथा आचार्य, उपाध्याय अने साधु, ए त्रण देशप्रत्यक्षवाला ठे एरीतें नव पदमांदिजां पांच पदमां प्रत्यक्ष प्रमाणनुं स्वरूप कहुं. ह्ये शंभु इरीन, ज्ञान, चारित्र अने तप, ए चार पदमां प्रत्यक्षप्रमाणनुं स्वरूप कहे ठे. तिहां प्रथम (दर्शन के०) समकेत जाणवुं. अने ए समकेत विनामुं ते ज्ञान ते न इ पूर्व मुधी जाला ठे, तो पण ते अज्ञानरूप ठे, माटे समकेत न मरि न ते चीजुं ज्ञान जाणवुं अने ते ज्ञाननी तीक्ष्णता एटले उपयोगनुं एकाक्षरुं. ते चीजुं चाग्नि जाणवुं अने चारित्र एटले पोताना स्वरूपमां समक कहुं. ते पोताना स्वरूपमां रमण करतां सर्व प्रकारें इठानुं रोधपणुं तेहीज तप जाणवुं. एटले पांचमे शब्दनयने मतें जे जीवने दर्शन, ज्ञान, चारित्र अने तप प्रगश्वा ठे, तेमां कोश जीवने अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान

होय, माटे तेमां देशप्रत्यक्षपणुं जाणवुं. अने ठे समजिरूढनयें तथा सातमे एवंभूतनयें जे जीवने दर्शन, ज्ञान, चारित्र अने तप प्रगट्यां ठे, तेमां सर्वप्रत्यक्षपणुं जाणवुं.

हवे परोक्ष प्रमाणनुं स्वरूप कहे ठे:-ते परोक्ष प्रमाणना त्रण जेद ठे. एक आगमप्रमाण, वीजुं अनुमानप्रमाण, त्रीजुं उपमाप्रमाण. तिहां कोशक आचार्य, उपाध्याय अने साधु, ते आगमें करी सर्व वस्तुनुं प्रमाण करे ठे. तथा कोशक आचार्य, उपाध्याय अने साधु उपमायें करी वस्तुनुं प्रमाण करे ठे. तथा कोशक आचार्य, उपाध्याय अने साधु, अनुमानें करी वस्तुनुं प्रमाण करे ठे. हवे दर्शन, ज्ञान, चारित्र अने तप, ए पांचमे शब्दनयें जे जीवने प्रगट्यां ठे, तेमां पण आगम, अनुमान अने उपमा प्रमाणे जाणपणुं जाणवुं. ए परोक्ष प्रमाणनुं स्वरूप कहुं. ए रीतें प्रत्यक्ष अने परोक्ष, ए वे प्रमाणें करी सिद्धचक्रना यंत्रनुं स्वरूप जाणवुं.

५४० चोथे जांगे द्रव्य, क्षेत्र, काल अने जाव तेणें करी सिद्धयंत्रनुं स्वरूप देखाडे ठे. तिहां प्रथमपदें श्री अरिहंतनुं स्वरूप देखाडे ठे. तेमां द्रव्यथकी अरिहंत ते चोत्रीश अतिशयें करी विराजमान पांत्रीश वचन वाणी ने गुणें करी संपूर्ण आठ महाप्रातिहार्यरूप वार गुणें करी सहित होय, तथा क्षेत्रथकी श्री अरिहंत देव, ते अढी द्वीप प्रमाण क्षेत्रमां जाणवा. तथा कालथकी अरिहंत देव, संततिजावें अनादि अनंत जांगे वत्तें ठे अने एक अरिहंतआश्रयी सादिसांतजांगो जाणवो. तथा जावथकी अरिहंतदेव, ते जे ज्ञानावरणादि घाति कर्मना क्यें अनंत चतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट करी, शुक्लध्यानना बीजा त्रीजा पाया वचादें रह्या वत्तें ठे.

५४१ सिद्ध परमात्मा उपर द्रव्यादि चार जांगा कहे ठे. द्रव्यथकी सवें सिद्ध परमात्मा असंख्यातप्रदेशी जाणवा तथा क्षेत्रथकी सिद्ध परमात्मा, लोकने अंतें पीस्तालीश लाख योजन सिद्धशिला प्रमाणें विराजमान जाणवा अने कालथकी सिद्ध परमात्मा, सर्व सिद्ध आश्रयी अनादि अनंत जांगे वत्तें ठे अने एक सिद्ध आश्रयी सादिसांत जांगो जाणवो. तथा जावथकी सिद्ध परमात्मा ते सकल कर्मने क्यें अनंत गुणरूप लक्ष्मी प्रगट करी लोकने अंतें विराजमान वत्तें ठे, ते जाणवा.

५४२ आचार्य जगवाननुं स्वरूप कहे ठे. द्रव्यथकी आचार्य जगवान्

ठत्रीश गुणें करी विराजमान जाणवा, तथा क्षेत्रथकी आचार्य जगवान् अढी छीप प्रमाणें जाणवा तथा कालथकी आचार्य जगवान् संततिजावें अनादि अतंत जांगे वत्तें ठे अने एक आचार्य आश्रयी सादिसांत जांगे जाणवो. तथा जावथकी आचार्य जगवान् सदाकाल सत्तागतना ज्ञानरूप ज्ञानस्वरूपना उपयोगमां जेनुं चित्त वत्तें ठे, ते जाणवा.

५४३ उपाध्यायजीनुं स्वरूप कहे ठे. ड्रव्यथकी उपाध्यायजी पञ्चीश गुणें करी विराजमान कहीयें. तथा क्षेत्रथकी उपाध्यायजी अढी छीप व्यापी जाणवा. तथा कालथकी उपाध्यायजी संततिजावें अनादि अतंत जांगे वत्तें ठे, अने एक उपाध्यायजी आश्रयी सादिसांत जांगे जाणवो तथा भावथकी उपाध्यायजी जीव अजीवरूप नव तत्त्व षट् ड्रव्यनुं ज्ञानपणुं करी सत्तागतना चिंतनरूप स्वजावमां जेनुं चित्त वत्तें ठे ते जाणवा.

५४४ साधुनुं स्वरूप कहे ठे. ड्रव्यथकी साधु सत्तावीश गुणें करी विराजमान कहीयें. तथा क्षेत्रथकी साधु अढी छीपव्यापी जाणवा, तथा कालथकी साधु संततिजावें अनादि अतंतजांगे वत्तें ठे, अने एक साधुआश्रयी सादिसांत जांगे जाणवो. तथा जावथकी साधु जे साध्य एक, साधन अनेक, एरीतें सत्तागतना धर्मने साधे, ते जावसाधु जाणवा.

५४५ दर्शननुं स्वरूप कहे ठे. ड्रव्यथकी दर्शन, ते इंद्रियना बलथी वस्तुनुं देव्यनुं तथा ज्ञानपणुं ते सर्व ड्रव्यदर्शन कहीयें. तथा क्षेत्रथकी दर्शन चौदराज लोक त्रसनाडी प्रमाणें जाणवुं तथा काल थकी दर्शन, द्वायिक ज्ञान आश्रयी जे जीवने प्रगट्युं ठे, ते सादि अतंत जांगे जाणवुं, अने ज्ञानोपशमनाय आश्रयी सादिसांत जांगे वत्तें ठे. तथा जावथकी दर्शन ते लोकालोकनुं स्वरूप एक समयमां देव्युं, तेने कहीयें.

५४६ ज्ञाननुं स्वरूप कहे ठे. ड्रव्यथकी ज्ञान जे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अविज्ञान. मन. पर्यवज्ञान इत्यादि, इंद्रियने अनुयायी जे जाणपणुं ते सर्व ड्रव्यज्ञान कहीयें. तथा क्षेत्रथकी ज्ञान, ते चौदराज लोक त्रसनाडी प्रमाणें जाणवुं. तथा कालथकी ज्ञान ते द्वायिक जावथाश्रयी जे जीवने ज्ञान प्रगट्युं ठे, ते सादि अतंत जांगे जाणवुं अने द्वायोपशमिक जावथाश्रयी सादि मान जांगे जाणवो. तथा जावथकी ज्ञान ते जे लोकालोकनुं स्वरूप एक समयमां जाणवुं.

५४७ चारित्र्यनुं स्वरूप कहे ठे. द्रव्यथकी चारित्र्य ते चरणसित्तरी करणसित्तरीने गुणें करी बिराजमान तथा क्षेत्रथकी चारित्र्य ते चौदराज लोक त्रसनाडि प्रमाणें जाणवुं तथा कालथकी चारित्र्य ते द्वायिक ज्ञाव आश्रयी सादि अनंत ज्ञांगे वर्त्ते ठे अने द्वायोपशम ज्ञाव आश्रयी सादिसां तज्ञांगो जाणवो. तथा ज्ञावथकी चारित्र्य ते यथाख्यात चारित्र्यरूपगुणें करी पोताना स्वज्ञावमां रमण करवुं, ते जाणवुं,

५४८ तपनुं स्वरूप कहे ठे, द्रव्यथकी तपना बार जेद कहीयें तथा क्षेत्रथकी तप ते चौदराजलोक त्रसनाडी प्रमाण जाणवुं. तथा कालथकी तप ते द्वायिकज्ञाव आश्रयी सादिअनंतज्ञांगे वर्त्ते ठे अने द्वायोपशमज्ञाव आश्रयी सादिसांतज्ञांगे जाणवुं. तथा ज्ञावथकी तप ते सर्व प्रकारें इहानो रोध करी समता ज्ञावमां वर्त्तवुं. ए रीतें द्रव्य, क्षेत्र, काल अने ज्ञावनी चोजंगीयें करी सिद्धयंत्रनुं स्वरूप जाणवुं.

५५७ पांचमे ज्ञांगे चौद गुणगणें करी यंत्रनुं स्वरूप उलखावे ठे. तीहां प्रथमपदें श्रीअरिहंतदेव, तेरमे गुणगणें जाणवा. बीजे पदें सिद्धपरमात्मा ते गुणगणा वर्जित जाणवा. त्रीजे पदें आचार्यप्रभु तथा चोथे पदें उपाध्याय अने पांचमे पदें साधुमुनिराज, ते ठठे सातमे गुणगणें अने श्रेणीप्रतिपन्न ब्रह्मस्थमुनि ते अग्नीधारमे बारमे गुणगणें जाणवा. हवे ठठुं दर्शन पद, सातमुं ज्ञानपद, आठमुं चारित्र्यपद अने नवमुं तपःपद, ए चारे पद, चोथा गुणगणाथी मांकी यावत् तेरमा चौदमा गुणगणा लगें जाणवां, ए रीतें चौद गुणगणें करी सिद्धयंत्रनुं स्वरूप जाणवुं.

५६६ ठठे ज्ञांगे गुणें करी सिद्धयंत्रनुं स्वरूप देखाडे ठे. तिहां प्रथम पदें श्रीअरिहंतदेव ते बार गुणें करी सहित जाणवा. बीजे पदें सिद्ध परमात्मा ते आठगुणें तथा एकत्रीश गुणें करी सहित जाणवा. त्रीजे पदें आचार्य जगवान्, ते पांच गुणें तथा ठत्रीश गुणें करी जाणवा. चोथे पदें उपाध्यायजी ते पच्चीश गुणें करी जाणवा. पांचमे पदें साधुजी ते सत्तावीश गुणें करी जाणवा. ठठे पदें दर्शन, ते सडशठ गुणें करी जाणवुं. सातमे पदें ज्ञान, ते पांच गुणें तथा एकावन गुणें करी जाणवुं. आठमे पदें चारित्र्य, ते सत्तर तथा सित्तेर गुणें करी जाणवुं. नवमे पदें तप, ते बार गुणें तथा पचास गुणें करी जाणवुं. ए रीतें सिद्धयंत्रनुं स्वरूप गुणें करी जाणवुं.

५७५ सातमे जांगे यंत्रनुं स्वरूप नव तत्त्वं करी उलखावे ठे. प्रथमपदं श्रीअरिहंत देव, तेरमे गुणगणे वर्तता तेमां नवे तत्व पामीयें. तथा बीजे पदं श्री सिद्धपरमात्मा, तेमां आगल कद्यां ते रीतें त्रण तत्व पामीयें. तथा त्रीजे पदं श्रीआचार्यजी, चोथे पदं श्रीउपाध्यायजी अने पांचमे पदं श्री साधु, ए त्रण पदमां पूर्वे समकेतमां कद्यां, ते रीतें आठ आठ तत्व पामीयें, तथा दर्शन, ज्ञान, चारित्र अने तप, ए चार गुणमां शब्दनयने मते चोषा गुणगणाथी मांकीने ठछा सातमा गुणगणां जे जीवने प्रगट्यां ठे, तेमां आगल कद्यां, ते रीतें आठ तत्व पामीयें अने समजिरूढनयने मते आठमा गुणगणाथी मांकी यावत् अगीयारमा बारमा गुणगणा पर्यंत श्रेणी जावें जे जीव वत्तें ठे, तेने ए दर्शनादिक चार गुण प्रगट्या ठे, तेमां आठ तत्व पामीयें अने तेरमे गुणगणे केवळी जगवानने चार गुण प्रगट्या ठे, तेमां नवे तत्व पामीयें. अने गुणगणां वर्जित लोकने अंतें सिद्धपरमात्मा वत्तें ठे, तेने ए चार गुण प्रगट्या ठे, तेमां त्रण तत्व पामीयें. ए रीतें सिद्धयंत्रनुं स्वरूप, नव तत्त्वं करी जाणवुं.

५७७ आठमे जांगे गुणगुणें करी सिद्धयंत्रनुं स्वरूप उलखावे ठे. तिजां प्रथम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय अने साधु, ए पांचे गुणी जाणवा अने दर्शन, ज्ञान चारित्र अने तप, ए चार गुण जाणवा, एतद्वे ए पूर्वांक पांच गुणीमां ए दर्शनादिक चार गुण रह्या ठे, माटे ए गुण जाणवा. अने ए अरिहंतादिक पांचे जे ठे, ते दर्शनादिक चार गुणें करी सहित ठे, माटे गुणी जाणवा. ए रीतें सिद्धयंत्रनुं स्वरूप गुणी गुणें करी उलखाव्युं.

५७८ नामे जांगे सिद्धयंत्रनुं स्वरूप पांच वणें करी देखावे ठे. प्रथम वेदप्रज्ञ अने मुविधिनाथ, ए वे तीर्थकर धोखे वणें ठे, माटे प्रथमपदं अग्निहंतुं ध्यान धोखे वणें करवुं तथा श्री पद्मप्रज्ञ अने वामुपूज्य, ए वे गते वणें ठे, माटे बीजे पदं श्री सिद्धनुं ध्यान रक्तवणें करवुं तथा शोख तीर्थकर पीतवणें ठे, माटे त्रीजे पदं श्री आचार्यजीनुं ध्यान पीत वणें करवुं तथा श्री जगिनाथ अने श्री पार्श्वनाथ, ए वे प्रभु द्वीक्षे वणें ठे, माटे चोथे पदं श्री उपाध्यायजीनुं ध्यान द्वीक्षे वणें करवुं, तथा श्री मुनिगुप्त अने वेकनाथ, ए वे तीर्थकर ध्यान वणें ठे, माटे पांचमे पदं साधुजीनुं ध्यान वेकनाथ अने तथा ए श्री आरिहंतादिक पांचने दर्शन, ज्ञान, चा

रित्र अने तप, ए चार गुण, कर्मरूप मेलने अत्रावें करी निर्मल प्रगट्या ठे, माटे श्वेतवर्ण ए चारेनुं ध्यान करवुं. ए पांच वर्णें यंत्रनुं स्वरूप जाणवुं.

५७५ दशमे जांगे देव, गुरु, अने धर्म करी यंत्रनुं स्वरूप उलखावे ठे:—तिहां ए नव पदमां श्रीअरिहंत अने सिद्ध, ए बे देव जाणवा. तथा आचार्य, उपाध्याय अने साधु, ए त्रणे गुरु जाणवा. तथा दर्शन, ज्ञान, चारित्र अने तप ए चारे धर्म जाणवा. ए रीतें देव, गुरु, धर्म करी यंत्रनुं स्वरूप उलखाव्युं. ए दश जांगे करी जे जीव, श्रीसिद्धचक्रना यंत्रनुं स्वरूप अंतरंग प्रतीति सहित उलखाणे ध्यावे, ते परमानंद पद पामे.

५७६ श्रीअनुयोगद्वार सूत्रमध्ये नयनुं स्वरूप कह्युं ठे, ते इहां शिष्यने उलखाण करवा सारु विस्तारपणे विशेष व्याख्यायें लखीयें ठायें ॥ गाथा ॥ नय जंग पमाणेहिं, जो अप्पा सायवाय जावेणं ॥ जाणेइमो सरूवं, सम्म द्विष्ठिउ सो नेउ ॥ १ ॥ अर्थ:— (नयजंग के०) मूलनय वे अने उत्तरनय सात, तथा उपनय अठावीश अने तेना जांगा सातशें थाय. तथा (पमाणेहिं के०) मूल प्रमाण वे अने उत्तर प्रमाण पांच, तेना पण वढी अनेक जेद थाय. अने (अप्पा के०) आत्मा तेने (सायवाय के०) स्याद्दादि आठ पदें उलखीने जढी रीतिथी पोताना स्वरूपने (जावेण के०) जाववुं. (जाणेइमोसरूवं के०) ए रीतें जेणें आत्मस्वरूपने उलखीने प्रतीति करी ठे, (सम्मद्विष्ठिउएसोनेउ के०) ते जीव निश्चे समकेतनो धणी जाणवो.

५७७ विशेषार्थ महे ठे. तिहां एक निश्चय अने वीजो व्यवहार, ए मूल वे नय जाणवा. अने एक नैगम, वीजो संग्रह, त्रीजो व्यवहार, चोथो क जुसूत्र, पांचमो शब्द, षष्ठो समच्चिरूढ, सातमो एवंचूत, ए सात उत्तर जेद जाणवा. सातमांथी पहेला ठ नय व्यवहारमां जाणवा अने सातमो एक एवंचूत नय ते निश्चयमां जाणवो. तेनो परमार्थ आवी रीतें ठे, ठ नयें जे कार्य ते अपवादें कारणरूप जाणवुं अने सातमे एवंचूतनयें जे कार्य, ते उक्कट्टें उत्सर्गें निश्चयकार्यरूप ठे, माटे ठ नय ते व्यवहारमां गण्या अने सातमो एक एवंचूतनय ते कार्यरूप ठे, तेमाटे निश्चयमां गण्यो ठे.

५७८ शिष्य:—सिद्धमां नय ठे, किंवा नथी ?

गुरु:—जे कारणरूप सात नय ठे, तेतो व्ययहाररूप ठे, ते माटे ते सिद्धमां

नथी, केम के सिद्धने तो कार्य संपूर्ण नीपन्युं ठे, माटे तिहां कारणनो रूप नथी, ते वास्ते कारणरूप सात नय ते सिद्धमां न पामीयें अने जे जे नये कार्य नीपन्युं ते कार्य सर्वे सिद्धमां वर्त्ते ठे, माटे कार्यरूपें जोतां तो सिद्धमां साते नय पामीयें. एनो विस्तारें खुलासो आगल बतावशुं.

५८९ शिष्यः— ए सात नयमां ड्रव्यनय केटला अने जावनय केटला ?

गुरुः— श्रीजिनजडगणिकमाश्रमणजी तो एक नैगम, बीजो संग्रह, बीजो व्यवहार अने चोथो रुजुसूत्र, ए चार नयमां नाम, स्थापना अने ड्रव्य, ए त्रण निक्षेपा ते ड्रव्यास्तिकपणे माने ठे, तथा शब्दादिक त्रण नय ते जावनिक्षेपे पर्यायास्तिकपणे माने ठे, अने श्रीसिद्धसेनदिवाकरजी तो प्रथमना त्रण नयमां त्रण निक्षेपा ते ड्रव्यास्तिकपणे माने ठे अने रुजुसूत्रादिक चार नय ते एकज जावनिक्षेपे पर्यायास्तिकपणे माने ठे, इहां न्यायरीतें आशयरूपें जोतां वझे आचार्यनुं वचन प्रमाण ठे, ते देखाडे ठे.

५९० वस्तुनी त्रण अवस्था ठे. एक प्रवृत्ति, बीजी संकल्प अने बीजी परिणति, ए त्रण जेद ठे, तेमां प्रवृत्ति ते योग व्यापाररूप क्रिया अने संकल्प ते चेतनाना योग सहित मननो विकल्प माटे श्रीजिनजडगणिकमाश्रमणजीयें प्रवृत्तिधर्म तथा संकल्पधर्म, ए वेने श्रौदधिक मिश्रितपणा माटे ड्रव्यनिक्षेपो कहेलो ठे अने एक परिणतिधर्म तेने जावनिक्षेपो कहे ठे, अने श्रीसिद्धसेनदिवाकरजी तो विकल्प ते जीवनी चेतना, माटे तेने जावनयमां गवेणे ठे, अने प्रवृत्तिसीम ते व्यवहारनय ठे तथा संकल्प ते रुजुसूत्र ठे अने परिणति एक वचनपर्यायरूप ते शब्दनय अने संकल्प वचनपर्यायरूप ते समनिरूढनय तथा वचनपर्याय अर्थपर्यायरूप संपूर्ण, ते एवंजननय. ए त्रण नय शुद्ध ठे अने जावधर्ममध्ये मुख्यजावने उत्तमप्रकार नूतनाना प्रादुर्भवे. ए रीतें संक्षेप अधिकारें नयनुं स्वरूप कशुं.

५९१ हवे अर्थावीश उपनयनुं स्वरूप बतावे ठे. तिहां प्रथम नैगमनयना वाग जेद कहे ठे. एक वर्त्तमाने अनीनारोपण नैगम, बीजो वर्त्तमाने अर्थावरोपण नैगम, बीजो वर्त्तमाने नैगम. हवे संग्रहनयना वे जेद कहे ठे. ए नैगमनयनसंग्रह अने बीजो विशेषसंग्रह, तथा व्यवहारनयना वे जेद एक शुद्धव्यवहार, बीजो अशुद्धव्यवहार, तथा रुजुसूत्रनयना वे जेद एक रुजुसूत्र, बीजो वादरुजुसूत्र, तथा शब्द समनिरूढ

अने एवंभूत, ए त्रणे नयनो एकेक जेद ठे. ए रीतें ए सात नयना बार जेद थया. हवे द्रव्यास्तिक अने पर्यायास्तिक ए वे नयना जेद कहे ठे. तिहां ए क नित्यद्रव्यास्तिक, वीजो एकद्रव्यास्तिक, त्रीजो सत्द्रव्यास्तिक, चोथो व क्तव्यद्रव्यास्तिक, पांचमो अशुद्धद्रव्यास्तिक, षष्ठो अन्वयद्रव्यास्तिक, सातमो परमद्रव्यास्तिक, आठमो शुद्धद्रव्यास्तिक, नवमो सत्ताद्रव्यास्तिक अने दशमो परमजावग्राहकद्रव्यास्तिक. ए रीतें द्रव्यास्तिकनयना दश जेद ठे ते पूर्वोक्त बार जेद साथें मेलवतां बावीश जेद थया. हवे जे पर्यायने ग्रहे, ते पर्यायास्तिक नय, तेना ठ जेद कहे ठे. एक द्रव्यपर्याय, वीजो द्रव्य व्यंजनपर्याय, त्रीजो गुणपर्याय, चोथो गुणव्यंजनपर्याय, पांचमो स्वजाव पर्याय, षष्ठो विजावपर्याय, ए ष जेदने पूर्वोक्त बावीश साथें मेलवतां अष्टा वीश उपनय जाणवा. अने ए सात नय मांहेला एकेक नयना शो शो जांगा ठे, तेथी सातसो जांगा पण जाणवा. ए सामान्य कथन कहुं.

५११ हवे शिष्यने समजाववा विशेष अर्थ जूदा जूदा जेदें करी देखाडे ठे. तिहां प्रथम मूलनयथी मंज्ञाण करे ठे. ते मूल तो एकनिश्चय अने वी जो व्यवहार, ए वे नय ठे. तेणें करी सर्व वस्तु पदार्थनुं जाणपणुं करवुं. केम के श्रीउत्तराध्ययनमां द्वायिक समकेती जीवने दशजातिनी रुचिनुं ज्ञान प्रगटे, तिहां प्रथम निसर्ग रुचिमां कह्यो ठे, जे निश्चय अने व्यवहारनयें करी तथा नैगमादि सात नयें करी तथा चार निक्षेपे करी जीव अजीवरूप नव तत्व, षड्द्रव्यनुं स्वरूप जाणे, तेने निश्चय समकेती जाणवा माटे प्रथम निश्चय अने व्यवहार, ए वे मूल नयनुं स्वरूप कहे ठे.

तिहां प्रथम व्यवहारनयना वे जेद ठे. एक अशुद्ध व्यवहार अने वी जो शुद्ध व्यवहार, तेमां अशुद्ध व्यवहारना वली पांच जेद ठे. एक अशुद्धव्यवहार, वीजो उपचरितव्यवहार, त्रीजो अशुद्धव्यवहार, चोथो शुद्धव्यवहार, पांचमो अनुपचरित व्यवहार अने षष्ठो शुद्धव्यवहार, ए ष जेद ठे, ते विस्तारें करी प्रत्येकें उलखावे ठे.

५१२ प्रथम अशुद्ध व्यवहार, ते जे जीवने सत्तायें राग, द्वेष, अज्ञानरूप अशुद्धता खाणि संपन्न अनादिकालनी लागी ठे, ते अशुद्धव्यवहारनयें जाणवो. अने ए अशुद्धतानी चिकाशें कर्मरूप दलीयां जीवने प्रकृतिरूप सत्तापणे रद्यां ठे, ते संग्रहनयने मत्तें ठे, तथापि व्यवहाररूप जाणवां.

अने नैगमनयने मते जीवें अतीत कालें दलीयां ग्रह्यां हतां अने अनागतकालें जोगवशे तथा वर्तमानकालें सत्तायें रद्यां वर्ते ठे, तथा ते दलीयां स्थितिपाकें व्यवहारनयें उदयरूपत्वायें अज्ञानपणे अनुपयोगें एकेंद्रिय विकलेंद्रियादि प्रमुख संमूर्धिम जीव जोगवे ठे, ते उदयत्वावरूप व्यवहारनय जाणवो. एटले ए अशुद्धव्यवहारनयमां एक नैगम, वीजो संप्रह अने त्रीजो व्यवहार, ए त्रण नय जाणवा.

एएए वीजो उपचरित व्यवहारनय कहे ठे:-कोइ जीव घर, हाट, वखार, नाई, पिता, स्त्री, कुटुंब, परिवार, ग्राम, गरास, नगर, दास, दासी, वाणोतर, शीपाइ, सुन्नट आदि अनेक प्रकारनी वस्तु ते पोताथकी प्रत्यरूपणे जूडी ठे, तेनो जीव स्वामीरूप कर्ता थइ, रुजुसूत्रनयना उपयोग सहित वर्ते, ते उपचरितव्यवहारनय कर्ता जाणवो ॥ १ ॥ अने तेनी चिकाशें करी अशुभकर्मरूप दलीयां जीव ग्रहण करे ठे, ते दलीयां ग्रहवारूप व्यवहारनय जाणवो ॥२॥ अने कोइ जीव, देहरा, उपासरा, ज्ञानोपकरण, पाटी, पोथी, नोकरवाली प्रमुख तथा देव, गुरु, साधर्मी प्रमुख चारित्रनां उपकरण ते सर्व पोताथी प्रत्यरूपणे जूदां ठे, तेहनो जीव कर्तारूप थइ रुजुसूत्रना उपयोग सहित वर्ते ठे, ते पण उपचरित व्यवहार नय जाणवो ॥३॥ अने तेनी चिकाशें शुभकर्मरूप दलीयां ग्रहण करे ठे, ते ग्रहवारूप व्यवहारनय जाणवो ॥ ४ ॥ एटले उपचरित व्यवहार नयें करी शुभाशुभरूप बें प्रकारें दलीयांतुं ग्रहण करी ते दलीयां जीवें प्रकृतिरूप सत्तापणे थां थ्यां, ते संप्रहणनयने मते ठे, पण व्यवहाररूप जाणवां ॥ ५ ॥ तथा नैगमनयने मते अतीतकालें दलीयां ग्रह्यां हतां अने आवते कालें जोगवशे तथा वर्तमानकालें प्रकृतिरूप सत्तापणे रद्यां ठे, ते नैगमनयें जाणवां ॥६॥ अने ते दलीयां व्यवहारनयने मते उदयरूपत्वायें समकैती जीव, उदासपणे न्याग रही जोगवे ठे, ते जोगववारूप कोरो व्यवहारनय जाणवां ॥ ७ ॥ अने मिथ्यात्वा जीव, अशुसूत्रना उपयोग सहित, मांडे मदीने तां गवे ठे, ते बाधरूप व्यवहारनय जाणवो ॥ ८ ॥ एटले उपचरित व्यवहारनयमां नैगम, संप्रह, व्यवहार अने अशुसूत्र, ए चार नय जाणवा.

२०३ वीजो अशुभव्यवहार नय कहे ठे. कोइ जीव, क्रोध, मान, माया, हास्य, विनोद, निंदा, ईश्या, चारी, हिंसा, मृया, अदत्त, मेशुन, इ

त्यादिक अनेक प्रकारें विवाह, वाजिम, व्यापार वाणिज्यरूप करणी, ऋजु सूत्रना उपयोग सहित करे, ते अशुभव्यवहारनय जाणवो ॥ १ ॥ अने तेनी चिकाशें अशुभकर्मरूप दळीयानुं ग्रहण करवुं, ते ग्रहवारूप व्यवहार नय जाणवो ॥ २ ॥ एटले ए अशुभव्यवहारनयें करी जीव, कर्मरूप दळी यांने ग्रहण करीने प्रकृतिरूप सत्तापणे बांधे, ते संग्रहनयने मतें व्यवहार रूप जाणवां ॥३॥ अने नैगमनयने मतें जे अतीतकालें दळीयां ग्रह्यां हतां अने अनागतकालें जोगवशें, तथा वर्तमानकालें सत्तायें रखां ठे, ते नैगम नयें जाणवां ॥ ४ ॥ तथा ते दळीयां स्थितिपाकें व्यवहारनयने मतें उद यरूपज्ञावें समकेती जीव उदासपणे न्यारा रहीं जोगवे ठे, ते जोगववा रूप कोरो व्यवहारनय जाणवो ॥५॥ तथा मिथ्यात्वी जीव, तो ते दळी यांने ऋजुना उपयोग सहित, मांहे मळीने जोगवे ठे, ते बाधकरूप व्यवहारनय जाणवो ॥६॥ एटले अशुभव्यवहारनयमां नैगम, संग्रह, व्यवहार अने ऋजुसूत्र, ए चार नय जाणवा.

६०९ चोथो शुभव्यवहारनय कहे ठे:-कोइ जीव, दान, शीयल, तप, ज्ञाव, करुणा, दया, यत्न, सेवा, जक्ति, पूजा, प्रज्ञावना, इत्यादि अनेक प्रकारें ऋजुना उपयोग सहित करणी करे ठे, ते शुभव्यवहारनय जाणवो ॥ १ ॥ तथा तेनी चिकाशें शुभकर्मरूप दळीयानुं ग्रहण करवुं, ते ग्रहवारूप व्यवहारनय जाणवो ॥२॥ एटले ए शुभव्यवहारनयें करी जीवें कर्म रूप दळीयाने ग्रहण करी प्रकृतिरूप सत्तापणे बांध्यां, ते संग्रहनयने मतें ठे, पण व्यवहाररूप जाणवां ॥३॥ तथा नैगमनयने मतें अतीतकालें द लीयानुं ग्रहणकळुं हतुं अने आवते कालें जोगवशे तथा वर्तमानकालें सत्तायें रखां ठे, ते नैगमनयने मतें व्यवहाररूप जाणवां ॥ ४ ॥ तथा ते दळीयां स्थितिपाकें उदयरूपज्ञावे समकेती जीव, उदासपणे न्यारा रहीं जोगवे ठे, ते जोगववारूप कोरो व्यवहारनय जाणवो ॥५॥ अने मिथ्या त्वीजीव, ऋजुसूत्रना उपयोग सहित मांहे मळीने जोगवे ठे, ते बाधक रूप व्यवहारनय जाणवो ॥ ६ ॥ एटले शुभव्यवहारनयमां नैगम, संग्रह, व्यवहार अने ऋजुसूत्र, ए चार नय जाणवा.

६११ पांचमा अनुपचरित व्यवहारनयनुं स्वरूप कहे ठे. कोइ जीव, ऋजु सूत्रना उपयोगें अजाणपणे शरीरादि अव्यकर्मरूप परवस्तु ते पो

तायी प्रत्यक्षपणे जूदी ठे, तेने जीव, अज्ञानने वशें करी पोतानी करी जाणे ठे तेने पोताना शरीरने विषे जीवबुद्धि ठे, ते अनुपचरित व्यवहारनयें कर्त्ता जाणवो ॥ १ ॥ तथा ते अशुभयोगें करी व्यवहारनयने मते कर्मरूप दक्षीयानुं ग्रहण करी बांधवुं, ते ग्रहवारूप व्यवहारनय जाणवो ॥ २ ॥ अने ते दक्षियां प्रकृतिरूप सत्तापणे बांध्यां, ते संग्रहनयने मते कर्मसत्ता रूप ठे, पण व्यवहारनयें जाणवां ॥३॥ तथा नैगमनयने मते अतीतकालें दक्षीयां ग्रहां हतां अने अनागतकालें जोगवशे तथा वर्त्तमानकालें सत्तायें बांधरूप रक्षां ठे, ते नैगमनयने मते व्यवहाररूप जाणवां ॥ ४ ॥ तथा ते दक्षीयां स्थितिपाकें व्यवहारनयने मते समकेती जीव, उदयरूपजावें उदासपणे न्यारा रहीं जोगवे ठे, ते जोगवारूप कोरो व्यवहारनय जाणवो ॥५॥ अने मिथ्यात्वी जीव, रजुसूत्रना उपयोग सहित मांहे मळीने जोगवे ठे, ते बाधकरूप व्यवहारनय जाणवो ॥ ६ ॥ एटले अनुपचरित व्यवहारनयमां नैगम, संग्रह, व्यवहार अने रजुसूत्र, ए चार नय जाणवा. ए रीतें अशुद्धव्यवहारनयनो मूलत्रेद एक, तेना उत्तरत्रेद पांच कक्षा. ए अशुद्ध व्यवहारनयनो विचार, सर्व प्रथमना नैगमादिक चार नयमां जाणवो.

६१६ हवे शुद्धव्यवहारनयनुं स्वरूप कहे ठे. शब्दनयने मते समकेत गावरी मांकीने यावत ठा, सातमा गुणगणा पर्यंत साधु, साध्वी, श्रावक, आधिका, ए सर्व शुद्धव्यवहारनयें वर्त्तें ठे. तेमां पांच नय पामीयें, ते आची रीतें:-प्रथम संग्रहनयने मते सिद्ध समान पोताना आत्माना सत्ता असें त्यान प्रदेशरूप ठे. द्वीने नैगमनयने मते आठ रुचक प्रदेश सदा कालारिद्ध समान निर्मळा ठे. त्रीने व्यवहारनयने मते उपरथकी गुणगणां माफक पोतानी करणी करे ठे, चौथे रजुसूत्रनयने मते संसार उदारणी वैराग्यरूप परिधान वर्त्तें ठे. पांचमे शब्दनयने मते जीव अजीवरूप स्वपानी वेंवण करी जेही कृता. तेरीज बुद्धिनिर्मळ पोताना आत्माना प्रतीति करी ठे. ए रीतें समकेत गावरी मांकीने यावत ठा सातमा गुणगणा पर्यंत उपासका व्यवहारबुद्धियें जोतां एह शब्दनय कर्त्तीयें अने अंतरंग निश्चय इच्छियें इत्ये नय जाणवा. ए शब्दनयने मते शुद्धव्यवहारनुं स्वरूप कहे.

६१७ समकेत नयने मते शुद्ध व्यवहार नयनुं स्वरूप उदाहरावें ठे. समकेत नयने मते अज्ञाना सत्ता गुणगणाची मांकीने यावत ते

मा चौदमा गुणगणा पर्यंत केवली जगवान् ते शुद्ध व्यवहारनये वत्ते
 ठे, तेमां ठ नय पामीयें. ते आवी रीतें:- संग्रहनयने मत्तें सिद्ध समा
 न पोताना आत्माना सत्ता आगल उलखी हती, तेवी शुद्ध निर्मल पणे
 प्रगट करी ठे ॥ १ ॥ अने नैगम नयने मत्तें आठ रुचकप्रदेश आगल
 निरावरण हता, ते तेवांने तेवांज वत्ते ठे ॥ २ ॥ तथा व्यवहार नयने
 मत्तें अंतरकरणीरूप स्वरूपमां रमवारूप क्रिया करे ठे अने बाह्यक
 रणीरूप क्रिया पण साचवे ठे ॥ ३ ॥ तथा ऋजुसूत्र नयने मत्तें शुद्ध उ
 पयोगमां वत्ते ठे ॥ ४ ॥ शब्दनयने मत्तें द्वायिक सम्यक्त्वरूप गुण प्र
 गट्यो ठे, ते पण पोतानी पासें ठे ॥ ५ ॥ तथा समञ्जिरूढ नयने मत्तें
 शुद्धध्यानरूप श्रेणी जावना बीजा त्रीजा पाया अंतराळें रह्या वत्ते ठे,
 ॥ ६ ॥ ए रीतें श्रेणीजाव पर्यंत केवली जगवानना स्वरूपमां उपरथकी
 व्यवहारदृष्टियें जोतां तो एक समञ्जिरूढनय कहीयें अने अंतरंग निश्चय
 दृष्टियें जोतां तो ठ नय जाणवा. ए रीतें शब्दसमञ्जिरूढनयने मत्तें शुद्ध
 व्यवहारनयनुं स्वरूप जाणवुं.

दशए शुद्ध निश्चय व्यवहारनुं स्वरूप कहे ठे. एटले शुद्ध निश्चय नय
 कार्य तो जे एवंचूत नयने मत्तें अष्ट कर्मने द्वायें अष्ट गुण संपन्न लोकने
 अंतें विराजमान सादि अनंतमे जागे वर्तता एवा सिद्ध परमात्मा ते शुद्ध
 निश्चय नय जाणवा. तेमां साते नय पामीयें. तिहां नैगमनयने मत्तें सिद्ध
 परमात्माने आठ रुचक प्रदेश, अतीतकाळें निरावरण हता, तथा आवते
 काळें निरावरण वर्तेशे अने वर्तमान काळें पण निरावरण वत्ते ठे. बीजे
 संग्रह नयने मत्तें पोताना आत्माना सत्ता अंतरंग शुद्ध निर्मलपणे जे
 वी हती, तेबीज निरावरणपणे प्रगट करी ठे. त्रीजे व्यवहार नयने म
 त्तें पलटण स्वप्नावें समय समय नवनवा ज्ञेयनी वर्तनारूप पर्यायनो उ
 त्पाद व्यय थइ रह्यो ठे. चोथे ऋजुसूत्र नयने मत्तें सिद्ध परमात्मा पोता
 ना पारिणामिकजावें रह्या सामान्य विशेषरूप उपयोगमां सदाकाल वत्ते
 ठे, पांचमे शब्दनयने मत्तें आगल जीव अजीवनी वेंचण करी द्वायिक
 समकेतरूप गुण प्रगट्यो ठे, ते पण पोता पासें ठे, षष्ठे समञ्जिरूढ नय
 ने मत्तें अनंत चतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट करी ठे, ते पण पोतानी पासें ठे.
 सातमे एवंचूत नयने मत्तें सिद्ध परमात्मा अष्ट कर्मने द्वायें अष्ट गुण प्र

गट करी, लोकने अंतें विराजमान वर्तें ठे. ए रीतें सिद्धना स्वरूपना अंतरंग दृष्टियें जोतां कार्यरूप साते नय पामीयें अने उपरथकी व्यवहार दृष्टियें जोतां तो एक एवंभूतनय जाणवो. ए रीतें निश्चय व्यवहारुं स्वरूप सामान्य प्रकारें करी जाणवुं.

हवे द्रव्यजावनुं स्वरूप साते नयें उदखवा रूप लखीयें ठैयें.

६४० तिहां प्रथम द्रव्यनुं स्वरूप उदखवा रूप ठे. नैगम अने संग्रहनयें करी सर्व जीवद्रव्य, सत्तायें एकरूप ठे, तेने प्रथम सत्तारूप द्रव्य कहीयें. द्रवे त्रीजुं कर्मरूप द्रव्य उदखावे ठे. जे जीवने प्रकृतिरूप सत्तायें शुचा शुच कर्मनां दळीयां वांध्यां ठे, तेने पण नैगम अने संग्रह नयने मते करी कर्मसत्तारूप द्रव्य कहीयें. त्रीजुं व्यवहारनपने मते ते दळीयांनो उदखवा यो, ते उदयजावरूप द्रव्य कहीयें ते जोगववा रूप द्रव्य जाणवुं. चोयुं व्यवहारनयने मते अनुपयोगें समूर्धिम प्रायः शुचाशुच रूप करणी करवी, ते चोयुं करणीरूप द्रव्य जाणवुं. पांचमुं रजुसूत्रनयने मते उपयोग सहित शुचाशुच परिणामें करी कर्मनां दळीयांनुं ग्रहण करवुं, ते पांचमुं कर्म प्रद्वारूप द्रव्य जाणवुं. ठहुं वली पण रजुसूत्रनयने मते शुचाशुच परिणामें करी उपरथकी जे करणी करवी, ते करणीरूप द्रव्य जाणवुं. ते पण साधकरूप द्रव्य जाणवुं. सातमुं शब्दनयने मते रजुसूत्रना उपयोग सहित चोथा गुणगणार्थी मांकी यावत् ठहा सातमा गुणगणा पर्यंत उपरथकी करणी करवी, ते साधकरूप द्रव्य जाणवुं. आठमुं ते जीवने अंतर करणीरूप उपयोग वर्तें ठे, ते उपरला नयनी अपेक्षायें तेने साधकरूप द्रव्य कहीयें. नवमुं वली समजिरुद्ध नयने मते रजुसूत्रना उपयोग सहित जे जीव, श्रेणीजायें केवळी प्रमुख वर्तें ठे, ते उपरथकी करणी करे ठे, ते पण साधकरूप द्रव्य जाणवुं अने दशमुं अंतरंग श्रेणीरूप करणी करे ठे, ते पण उपरला नयनी अपेक्षायें जोतां साधकरूप द्रव्य कहीयें. अर्ध्यायामुं जे जीव, एवंभूतनयने मते लोकने अंतें वर्तें ठे, एतें सिद्ध समानानि पदार्थनां उत्पाद, व्यय, समय समय अइ एतों इतें अंतरकरणीरूप द्रव्य जाणवुं. ए सात नयें करी द्रव्यनुं स्वरूप करुं.

६४१ हवे सात नयें करी जावनुं स्वरूप कहे ठे:-प्रथम नैगम अने संग्रहनयें करी सर्व जीवने सत्तायें कर्मनां दळीयां वांध्यां ठे, तेने उदयथां, ते

कर्मउदयरूप ज्ञाव जाणवो. बीजो ऋजुसूत्रनयने मतें शुजाशुज परिणामें करी जे कर्मरूप दलीयांनुं ग्रहण करवुं, ते कर्मग्रहवारूप ज्ञाव जाणवो. त्रीजो शब्दनयने मतें ऋजुसूत्रना उपयोग सहित खपरनी वेंचण करी जीव अजीवने जूदा जूदा वेंचवा, ते साधकरूप ज्ञाव जाणवो. चोथो स मजिरूढ नयने मतें श्रेणीज्ञावें जे जीव वत्तें ठे, ते पण हेठला नयनीअ पेक्षायें साधकरूप ज्ञाव जाणवो. पांचमो एवंजूनतनयने मतें जे जीवने अव्यावाधसुख प्रगटयुं, ते स्वरूपजोगीरूप ज्ञाव जाणवो.

हवे निश्चय अने व्यवहार ए बे मूलनय ठे, तेणें करी जाणवारूप नवतत्व षट् ड्रव्यनुं स्वरूप लखीयें ठैयें.

६५१ प्रथम जीवादि ठ तत्त्वनुं स्वरूप कहे ठे:—निश्चयनयें करी सर्व जीव सत्तायें एकरूप सरखा सिद्ध समान शाश्वता ठे अने व्यवहारयें करी जीवनी अनेक ज्ञांती देवता, नारकी, तिर्यच, मनुष्यरूप जाणवी. तथा कोइ जीव, शुजपरिणामें करी पुण्यरूप आश्रवनां दलीयां बांधे, तेने अजीव कहीयें. ते निश्चयनयें करी ठांरवा योग्य ठे अने व्यवहार नयें करी आदर वा योग्य ठे. वली कोइ जीव अशुज परिणामें करी पापरूप आश्रवनां दलीयां बांधे, तेने अजीव कहीयें, ते निश्चयनयें करी ठांरवा योग्य ठे, अने व्यवहारनयें करी पण ठांरवा योग्य कहीयें. एटले जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव अने बंध, ए ठ तत्त्वमां निश्चय व्यवहार नय कहेवाणा.

६५२ हवे सातमा संवर तत्त्वनुं स्वरूप कहे ठे:—व्यवहारनयें करी संवरनुं स्वरूप ते निवृत्ति प्रवृत्तिरूप चारित्र जाणवुं अने निश्चयनयें करी तो पोताना स्वरूपमां रमण करवुं, ते संवर जाणवुं.

६५३ हवे आठमा निर्झारातत्त्वनुं स्वरूप कहे ठे:—व्यवहारनयें करी निर्झाराना वार जेद जाणवा अने निश्चयनयें करी निर्झारानुं स्वरूप तो, सर्व प्रकारें श्ठानो रोध करी समताज्ञावें प्रवर्तवुं ते जाणवुं.

६५४ हवे मोक्षनिःकर्मावस्थानुं स्वरूप कहे ठे. व्यवहारनयें करी मोक्ष, तो तेरमे, चौदमे गुणठाणें केवलीने कहीयें अने निश्चयनयें मोक्षपद ते सकल कर्म क्षय करी लोकने अंतें विराजमान एवा सिद्ध परमात्माने जाणवो. ए रीतें नव तत्त्वनुं स्वरूप निश्चय अने व्यवहार नयें करी धारवुं.

६६० षट् ड्रव्यनुं स्वरूप निश्चय व्यवहाररूप नयें करी उलखावे ठे. ते

मां प्रथम जीवद्रव्यनुं स्वरूप तो आगल कह्युं, ते रीतें जाणवुं तथा धर्मास्तिकाय अने अधर्मास्तिकाय, ए वे द्रव्यनुं स्वरूप साथे कहे ठे. तिहां निश्चयनयथकी ए वे द्रव्य लोकव्यापी खंध असंख्यात प्रदेशरूप शाश्वतो ठे अने व्यवहार नयें करी ए वे द्रव्यना देश, प्रदेश अने अगुरुलघु जाणवा. हवे आकाशास्तिकाय द्रव्यनुं स्वरूप कहे ठे. तिहां निश्चयनयथकी तो आकाशास्तिकायनो खंध लोकालोकव्यापी अनंतप्रदेशी शाश्वतो ठे, तथा व्यवहारनयें करी देश, प्रदेश अने अगुरुलघु जाणवा. हवे काल द्रव्यनुं स्वरूप कहे ठे. निश्चयनयथकी कालद्रव्यनो एक समय ते सदाकालें लोकमां शाश्वतो वत्तें ठे अने व्यवहार नयें करी काल ते उत्पादव्ययरूप पलटण स्वत्वावें जाणवो. हवे पुजल द्रव्यनुं स्वरूप कहे ठे. निश्चयनयें करी पुजल द्रव्यना अनंता परमाणुआ लोकमां सदाकाल शाश्वता वत्तें ठे अने व्यवहारनयें करी पुजलना खंध सर्वे अशाश्वता जाणवा. ए रीतें निश्चय अने व्यवहारथकी पट्ट द्रव्य नव तत्त्वनुं स्वरूप जाणवुं.

हवे नैगमादि सात नयें करी सर्व वस्तुनुं जाणपणुं कराववानो जिन दास नामा शैठ, श्रावकपुत्र प्रत्ये प्रश्न पूठे अने श्रावकपुत्र, जिनदास शैठने उत्तर थापे ठे. एही रीतना व्याख्यानरूपें कहे ठे:-

६६१ जिनदास शैठ:-सात नयमां नैगमनयें करी पट्ट द्रव्यनुं स्वरूप जाणवानां प्रथम नैगमनयें करी धर्मास्तिकायनुं स्वरूप केम जाणीयें?

श्रावकपुत्र:-नैगमनयने मतें धर्मास्तिकाय एवुं नाम कहीयें. केम के नैगम नयना मतवालो त्रण काल वस्तुने एकरूपपणे माने ठे, एतसे अतीवकासे धर्मास्तिकाय एवुं नाम हतुं अने अनागतकाले धर्मास्तिकाय एवुं नाम रडेठे, तथा वत्तमानकालें पण धर्मास्तिकाय एवुं नाम वत्तें ठे.

६६२ जिनदास:-संग्रह नयें करी धर्मास्तिकायनुं स्वरूप केम जाणीयें?

श्रावकपुत्र:-ए नयना मतवालो, मतानुं प्रहण करे ठे, माटे संग्रह नयने मतें असंख्यात प्रदेशरूप मत्ता मदित ते धर्मास्तिकाय कहीयें.

६६३ जिनदास:-व्यवहार नयें करी धर्मास्तिकायनुं स्वरूपकेम जाणीयें?

श्रावकपुत्र:-ए नयना मतवालो त्रेको उपग्रथकी देय्य, त्रेको त्रेद वेदेंके, माटे व्यवहार नयने मतें खंध, देश, प्रदेशरूप धर्मास्तिकाय जाणवा.

६६४ जिनदास:-संज्ञानयने मतें धर्मास्तिकायनुं स्वरूप केम जाणीयें?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो पारिणामिकज्ञाव ग्रहे ठे, माटे ज्ञावथकी धर्मास्तिकाय अनेक जीव पुज्जलने चलनसहायरूप ज्ञावपणे परिणमे ठे, ए रीतें धर्मास्तिकायमां चार नय जाणवा.

६६५ जिनदासः—नैगमनयने मत्तें अधर्मास्तिकायनुं स्वरूपकेमजाणीयें?

श्रावकपुत्रः—नैगमनयने मत्तें अधर्मास्तिकाय एवुं नाम कहीयें. केम के नैगम नयना मतवालो त्रणे काल वस्तुने एकरूपपणे माने ठे. एटले अती तकाळें अधर्मास्तिकाय एवुं नाम हतुं अने अनागत काळें पण अधर्मास्तिकाय एवुं नाम वर्त्तेशे, तथा वर्त्तमान काळें पण ए नाम वर्त्ते ठे

६६६ जिनदासः—संग्रहनयने मत्तें अधर्मास्तिकायनुं स्वरूप केम जाणीयें?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो सात्तानुं ग्रहण करे ठे, माटे संग्रहनयने मत्तें अधर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशरूप सत्ता सहित लोकमां सदा काल शाश्वतो वर्त्ते ठे.

६६७ जिनदासः—व्यवहारनयने मत्तें अधर्मास्तिकायनुं स्वरूप केम जाणीयें?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो जेवो उपरथकी देखे, तेवो जेद वेहेंचे, माटे व्यवहारनयने मत्तें खंध, देश, प्रदेशरूप अधर्मास्तिकाय जाणवो.

६६८ जिनदासः—रुजुसूत्रनयने मत्तें अधर्मास्तिकायनुं स्वरूप केम जाणीयें?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो पारिणामिकज्ञाव ग्रहे ठे, माटे ज्ञावथकी अधर्मास्तिकाय अनेक जीव पुज्जलने स्थिरसहायरूप ज्ञावपणे परिणमे ठे, ए रीतें अधर्मास्तिकायमां चार नय जाणवा,

६६९ जिनदासः—आकाशास्तिकायमां नैगमनयनुं स्वरूप केम जाणीयें ?

श्रावकपुत्रः—नैगमनयने मत्तें आकाशास्तिकाय एवुं नाम कहीयें. केम के नैगमनयना मतवालो त्रणे काल वस्तुने एकरूपपणे माने ठे. एटले अतीतकाळें आकाशास्तिकाय एवुं नाम हतुं अने अनागतकाळें आकाशास्तिकाय एवुं नाम रदेशे, तथा वर्त्तमानकाळें आकाशास्तिकाय एवुं नाम वर्त्ते ठे.

६७० जिनदासः—संग्रहनयने मत्तें आकाशास्तिकायनुं स्वरूप केम जाणीयें ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो सत्तानुं ग्रहण करे ठे. माटे संग्रहनयने मत्तें अनंत प्रदेशरूप सत्ता सहित ते आकाशास्तिकाय ड्रव्य कहीयें.

६७१ जिनदासः—व्यवहारनयने मत्तें आकाशास्तिकायनुं स्वरूप केमजाणीयें?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो जेवो उपरथी देखे, तेवो जेद वेहेंचे,

माटे व्यवहार नयने मते खंध, देश, प्रदेशरूप आकाशास्तिकाय जाणवो.
६७२ जिनदासः—ऋजुसूत्रनयनेमते आकाशास्तिकायनुं स्वरूप केमजाणीये?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो पारिणामिक जाव ग्रहे ठे, माटे जाव
थकी आकाशास्तिकाय अनेक जीव पुज्जलने अवगाहनारूप जावपणे परि
णमे ठे. ए रीते आकाशास्तिकायमां चार नय जाणवा.

६७३ जिनदासः—नैगमनयने मते कालद्रव्यनुं स्वरूप केम जाणीये ?

श्रावकपुत्रः—नैगमनयने मते काल एवुं नाम कहीये. केम के नैगमन
यना मतवालो त्रणे कालें वस्तुने एकरूपपणे माने ठे. एटले अतीतकालें
काल एवुं नाम हतुं, तथा अनागतकालें पण काल एवुं नाम रहेशे अने
वर्तमानकालें काल एवुं नाम वर्ते ठे.

६७४ जिनदासः—संग्रहनयने मते कालद्रव्यनुं स्वरूप केम जाणीये ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो सत्ताने ग्रहे ठे, तेमाटे संग्रह नयने मते
काळनो एक समय, सत्तारूप सदाकाल लोकमां शाश्वतो वर्ते ठे,

६७५ जिनदासः—व्यवहार नयने मते कालद्रव्यनुं स्वरूप केम जाणीये ?

श्रावकपुत्रः—व्यवहार नयने मते कालना त्रण जेद कहीये, तिहां अतीत
काळ ते अनंता समय गया अने अनागत काल ते अनंता समय आ
वश, तथा वर्तमान काळ ते एक समय वर्ते ठे, एम अनेक जेद जाणवा.

६७६ जिनदासः—ऋजुसूत्रनयने मते कालनुं स्वरूप केम जाणीये ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो पारिणामिकजाव ग्रहे ठे, माटे ए नयने
मते काळद्रव्य जीव, अर्जीवरूप सर्वे वस्तुमां नवी पुराणी वर्तनारूप जा
रणे सदाकाळ परिणामी रह्यो ठे, ए रीते काळद्रव्यमां चार नय जाणवा.

६७७ जिनदासः—नैगमनयनेमते पुनश्चास्तिकाय द्रव्यनुं स्वरूपकेमजाणीये ?

श्रावकपुत्रः—नैगमनयने मते पुनश्चास्तिकाय एवुं नाम कहीये, कारण
के नैगमनयना मतवालो त्रणे काळ वस्तुने एकरूपपणे माने ठे, एटले
अनागतकालें पुनश्चाद्रव्य एवुं नाम हतुं तथा अनागतकालें पण पुनश्चाद्रव्य
एवुं नाम रहेशे अने वर्तमान कालें ते नाम वर्ते ठे.

६७८ जिनदासः—संग्रहनयने मते पुनश्चाद्रव्यनुं स्वरूप केम जाणीये ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो सत्तानुं मद्दण करे ठे, माटे संग्रहनयने

मतें पुञ्जलद्रव्यनो सत्त्वरूप एकपरमाणु, एवा अनंतपरमाणुश्चा लोकमां सदाकाल शाश्वता वर्त्ते ठे,

६५ए जिनदासः—व्यवहारनयने मतें पुञ्जलद्रव्यनुं स्वरूपकेमजाणीये ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो बाह्यथकी जेवुं स्वरूप देखे, तेवा जेद वेहेचे. माटे व्यवहारनयने मतें पुञ्जलना वे जेद कहीये. एक खंध बीजा पर माणुश्चा, ते वली खंधना वे जेद, एक तो जीवने लाग्या ते जीव सहित खंध जाणवा, बीजा जीव रहित अजीवरखंध ते घडा प्रमुखना जाणवा. तथा वली जीव सहित खंधना वे जेद, एक सूक्ष्म अने बीजा बादर, तेमां सूक्ष्म ना चार जेद ते ज्ञाषा, उह्वास, मन अने कार्मण ए चार, वर्गणारूप जाण वा. तथा बादरना चार जेद ते श्रौदारिक, वैक्रिय, आहारक अने तैजस ए चार वर्गणारूप जाणवा. तिहां प्रथम जे चार वर्गणा सूक्ष्म कही, तेमां चार फरस, पांच वर्ण, वे गंध, पांच रस, ए शोल गुण जाणवा. तथा वा दर चार वर्गणामां पांच वर्ण, पांच रस, आठ फरस अने वे गंध, ए बीश गुण जाणवा. अने एक परमाणुश्चामां वे फरस, एक वर्ण, एक रस, एक गंध, ए पांच गुण जाणवा. ए रीतें व्यवहारनय उपरथकी देखे, तेवा जेद वेहेचे

६६ए जिनदासः—ऋजुसूत्रनयने मतें पुञ्जलद्रव्यनुं स्वरूप केम जाणीये ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो पारिणामिक जाव ग्रहे. ठे, माटे एने मतें पुञ्जल परमाणुश्चाने मांहेमांहे अनादिकालनुं मलवाविखररूप पूर्ण गद्य नजावरूप परिणामिकपणुं वर्त्ती रळुं ठे, ए पुञ्जल द्रव्यमां चार नय जाणवा.

६७ए जिनदासः—नैगमनयने मतें जीवद्रव्यनुं स्वरूप केम जाणीये ?

श्रावकपुत्रः—नैगमनयना मतवालो एक अंश ग्रहीने सर्व वस्तुसंपूर्णपणे माने, एटले सर्व जीवनी चेतना अक्षरने अनंतमे जागे उघाडी ठे, तिहां कर्म आवरण लागतां नथी, माटे नैगमनयने मतें सर्व जीव एकरूप कहिये.

६८ए जिनदासः—संग्रहनयने मतें जीवनुं स्वरूप केम जाणीये ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो सत्तानुं ग्रहण करे ठे, एटले सर्व जीवनी सत्ता असंख्यात प्रदेशरूप एक समान (सरखी) ठे, माटे संग्रहनयने मतें करी सर्वजीव सत्तायें एकरूप जाणवा.

६९ए जिनदासः—व्यवहार नयने मतें करी जीवनुं स्वरूप केम जाणीये ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो बाह्यथकी जेवुं स्वरूप देखे, तेवा जेद

वेहेंचे, माटे व्यवहारनयने मते करी जीवना वे जेद. तेमां एक तो सूर्य कर्म कृत्य करी लोकने अंतें विराजमान थयेला सिद्ध जीव जाणवा, अने वीजा संसारी जीव जाणवा. ते संसारी जीवना वली वे जेद, एक तो चौ दमा गुणगणाना जीव अयोगी अने वाकी वीजा सर्व सयोगी जाणवा. ते सयोगीना वे जेद, एक तेरमा गुणगणाना जीव ते केवली जगवान् अने बाकी वीजा सर्व ठन्नस्थ, ते ठन्नस्थना वली वे जेद, एक वारमा गुणगणावाला क्लीणमोही अने वाकी वीजा उपशांतमोही, ते उपशांतमोहीना वे जेद. एक अगीयारमा गुणगणाना जीव ते अकपायी अने वाकी वीजा सर्व स कपायी, ते सकपायीना वे जेद, एक दशमा गुणगणाना जीव ते सूक्ष्म पायी अने वीजा सर्व वादरकपायी, ते वादरकपायीना वे जेद, एक आठमा नवमा गुणगणाना जीव ते श्रेणीप्रतिपन्न अने वाकी वीजा श्रेणीरहित ते श्रेणीरहितना वलि वे जेद एक सातमा गुणगणाना जीव ते अप्रमा दी अने वाकी वीजा सर्व प्रमादी, ते प्रमादीना वे जेद, एक सर्व विर ति, वीजा देशविरति, ते देशविरतिना वे जेद, एक विरतिपरिणामवाला, वीजा अधिरतिपरिणामवाला जीव, ते अधिरतिना वे जेद, एक अधि रमितमोहती, वीजा मिथ्यात्वी, ते मिथ्यात्वीना वे जेद, एक जड्य, वीजा अ नज्य, नज्यना वे जेद, एक गंठीजेदी, वीजा गंठी अजेदी, ए रीतें व्यव हार नयना मतवाला जेवा देखे, तेवा जेद वहेंचे.

पती प्रत्तरांतरें जीवना वे जेद, एक त्रस अने वीजा स्थावर, तेमां पृ थी, अप, तेज, वायु अने वनस्पति, ए पांच प्रकारना स्थावर, जीव ते पांच सूक्ष्म अने पांच वादर मली दश जेद थाय. ते वली पर्याता अने अथर्थाता नजी नीश जेद थाय. तथा तेनी साथें प्रत्येक वनस्पतिना एक जेद पर्याता अने वीजा जेद अथर्थाता मेळवतां वाधीश जेद स्थावरना थाय. तरे पर जीवना जेद हजे वे. देवता, नास्की, तिर्यच अने मनुष्य, ए सर्व जीवना सूत्र चार जेद वे, तेमां देवताना नवाणुं जेद पर्याता अने नवाणुं अथर्थाता मली १२० जेद वे, तथा माने नास्कीना मान पर्याता अने मान अथर्थाता मली चोद जेद थाय. तथा मनुष्यना एकगो एक, देवता १०१ पर्याता. १२१ अथर्थाता, अने १२१ संमूर्तिम, ए रीतें सर्व मली ३०३ जेद तथा वेदिय, वेदिय अने चोर्गदिय, ए त्रण विकर्षोदिय

तिर्यचना पर्याप्ता तथा अपर्याप्ता करतां ष ज्ञेद थाय. तथा पंचेंद्रिय तिर्यच
ना एक जलचर, बीजा चतुष्पद, त्रीजा उरःपरिसर्प, चोथा जुजपरिसर्प अ
ने पांचमा खेचर, ए पांच संमूर्धिम अने पांच गर्जज मत्नी दश ज्ञेद थाय.
ते वत्नी दश पर्याप्ता अने दश अपर्याप्ता मत्नी वीश ज्ञेद थाय. ए रीतें ११
ज्ञेद स्थावरना, १९७ देवताना, १४ नारकीना, ३०३ मनुष्यना, ६ विकलेंद्रि
यना, १० पंचेंद्रिय तिर्यचना, मत्नी ५६३ ज्ञेद व्यवहारनयने मत्तें जाणवा.

६०४ जिनदासः—ऋजुसूत्र मयने मत्तें जीवनुं स्वरूप केम जाणीयें ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो पारिणामिक जाव ग्रहे ठे, माटे जे सम
य जे उपयोगरूप परिणाम वर्ते, ते समय ते जीवने तेवो कही बोलावे,
एटले एणे इंद्रियादिक ज्ञेद सर्वे टाळ्या, पण ज्ञान अज्ञाननो ज्ञेद न टाळ्यो.

६०५ जिनदासः—शब्दनयने मत्तें जीवनुं स्वरूप केम जाणीयें ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो जीवनो समकेतजाव ग्रहण करे ठे,
माटे जीव अजीवरूप स्वरूपनुं जाणपणुं करी शुद्ध निर्मलपणे पोताना आ
त्मानी जेणें प्रतीति करी ठे, तेने शब्दनयना मतवालो जीव कही बोलावे.

६०६ जिनदासः—समजिरूढ नयने मत्तें जीव कोने कहीयें ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो श्रेणीजाव ग्रहण करे ठे, माटे जेणें
शुद्ध शुद्धध्यान रूपातीत परिणाम रूपक श्रेणीयें घाती कर्मने चूरी अनंत
चतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट करी, तेने समजिरूढ नयने मत्तें जीव कहीयें. ए
टले ए नयवालो तेरमे, चौदमे गुणठाणे केवली जगवानने जीव कही बोलावे.

६०७ जिनदासः—एवंभूतनयने मत्तें जिननुं स्वरूप केम जाणियें ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो संपूर्ण जावरूप वस्तु माने ठे, माटे
जे सकल कर्मने क्षयें अनंत गुणरूप लक्ष्मी प्रगट करी लोकने अंतें
बिराजमान अव्याबाध सुखना जोगी थया, तेने जीव कही बोलावे, एट
ले ए नयने मतवाले सिद्धि अवस्थामां जे गुण हता, ते इहां ग्रहण कं
ख्या. ए रीतें षट् ड्रव्यनुं स्वरूप साते नयें करी वताव्युं.

६०८ हवे जिनदास शेष पूठे ठे के साते नयें करी नव तत्त्वनुं स्वरूप
केम जाणीयें ? तेवारें श्रावकपुत्र कहे ठे के आगल षट् ड्रव्य रूप जीव तत्व
अने अजीवतत्त्वनुं स्वरूप तो वताव्युं, शेष सात तत्त्वनुं स्वरूप सात नयें
करी देखाडतां प्रथम त्रीजा पुण्यतत्त्वनुं स्वरूप नैगमनयें करी कहुं बुं.

६६ जिनदासः—पुण्यादिक सात तत्त्वनुं स्वरूप सातनयेंकरी केम जाहीवें!

श्रावकपुत्रः—कोइ जीवें रुजुसूत्र नयने मतें शुच परिणामें करी व्याहारनयने मतें पुण्यरूप आ वनां दलीयां ग्रहण करी संग्रह नयने मतें प्रकृतिरूप सत्तापणे वांध्यां, तेने अजीव कहीयें अने ते दलीयां नैगम नयने मतें करी त्रणें काल एकरूपपणे जाणवां, ए रीतें रुजुसूत्र व्यवहार, संग्रह अने नैगम, ए चार नयें करी जे जीवें अव्यपुण्य उपाज्युं, तेमां पुण्य, अजीव, आश्रव अने बंध, ए चार तत्व जाणवां. अने ज्ञावपुण्य तो ते पुण्यनां दलीयां शब्दनयने मतें स्थितिपाकें उदयरूप ज्ञावें प्रगट्यां, तथा समनिरूढनयने मतें सर्वपर्याय प्रवर्तनारूप वस्तु प्रत्यें पाम्यो अने एवंजूननयने मतें ते पुण्यपर्यायरूप सर्व वस्तु जीवें जोगववा मांफी, एम साते नयें करी पुण्यनुं स्वरूप जाणवुं.

हवे पापनुं स्वरूप,साते नयें करी कहे ठे. कोइ जीवें, रुजुसूत्र नयने मतें अशुच परिणामें करी व्यवहार नयने मतें पापरूप आश्रवनां दलीयांने ग्रहण करी संग्रहनयने मतें प्रकृतिरूप सत्तापणे वांध्यां, तेने अजीव कहीयें. अने ते दलीयां नैगमनयने मतें त्रणे काल एकरूपपणे जाणवां. एम चार नयें करी जे जीवें अव्यपाप उपाज्युं, तेमां पाप, आश्रव, अजीव अने बंध, ए चार तत्व जाणवां अने ज्ञावयकी पाप तो ते दलीयां शब्दनयने मतें स्थितिपाकें उदयरूपज्ञावें प्रगट्यां अने समनिरूढ नयने मतें सर्व पर्याय प्रवर्तनारूप वस्तुप्रत्यें पाम्यो, तथा एवंजूननयने मतें करी पाप पर्यायरूप सर्व वस्तु, जीवें जोगववा मांफी, एम साते नयें करी पापनुं स्वरूप जाणवुं.

इतें साते नयें करी संवर अने निर्झीरानुं स्वरूप देखाडे ठे. कोइजीव ने संवररूप अत क्षेत्रानो मनमां अंश उपन्यो, तेने नैगम नयना मतवाओ संवर करी माने अने संग्रह नयना मतवाओ संवररूप श्रावकनां वा अत अथवा माधुनां पांच महाअतरूप संवर अंगीकार करे, तेंवारें तेने संवर करी माने, तथा व्यवहारनयना मतवाओ संवररूप आचार, व्यवहार, क्रियासां प्रवर्ततो देवे, तेने संवर करी माने. तथा रुजुसूत्र नयना मतवाओ मन वचन, कायायें करी एकरुचिने त्याग वैराग्यरूप परिणामें तेने संवर करी माने, एतथ ए चार नयें करी अव्यसंवर जाणवुं.

अने जावसंवर तो शब्दनयने मते स्वसत्ता परसत्ता रूप जीव, अजीव, नव तत्व, षट् द्रव्यनुं स्वरूप जाणे, ते जीव, समञ्जिरूढ नयने मते श्रेणीजावे चढतां जीवसत्ताने ध्यावे, अजीवसत्तानो त्याग करे, शुद्ध, शुद्ध ध्यान, रूपातीत परिणामं करी स्वरूपमां रमे, तेवारेंतेने संवर कहीये. अने एवी रीतें संवरमां रहे, तिहां सुधी समय समय अनंती निर्झरा करे. ए रीतें निर्झरा थड, तेवारें एवंचूतनयने मते सकल कर्मने क्ये मोक्षपद पाम्यो, एम साते नये करी संवर निर्झरानुं स्वरूप जाणवुं.

हवे मोक्षनिःकर्मा अवस्था ते सिद्धिरूप कार्य तेमां सात नय, कार्य रूपें देखाडे ठेः— प्रथम नैगमनयने मते सिद्ध परमात्माना आठ रुचक प्रदेश अतीतकालें निरावरण हता, अने अनागत कालें पण निरावरण वर्तेशे, तथा वर्तमानकालें पण निरावरण वर्ते ठे. ए रीतें त्रणे काल एक रूपपणे जाणवा. तथा संग्रहनयने मते पोताना आत्माना सत्ता अंतरंग शुद्ध निर्मलपणे जेवी हती, तेवीज निरावरण पणे प्रगट करी ठे, तथा व्यवहार नयने मते सिद्धने पलटणस्वजावे समय समय नवनवा ज्ञेयनी वर्तनारूप पर्यायनो उत्पाद व्यय थड रह्यो ठे, तथा ऋजुसूत्र नयने मते सिद्ध परमात्मा पोताना पारिणामिक जावमां रह्या, सामान्य विशेषरूप उपयोगमां सदाकाल वर्ते ठे, तथा शब्दनयने मते आगल जीव अजीव रूप स्वसत्ता परसत्तानी वेहेचण करी द्वायिक समकेतरूप गुण प्रगट्यो, ते पण पोतानी पासें ठे, तथा समञ्जिरूढनयने मते शुद्धध्यानरूप श्रेणीये चढी अनंतचतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट करी, ते पण पोतानी पासें ठे, तथा एवंचूतनयने मते सिद्ध परमात्मा अष्ट कर्मने क्ये अष्टगुण प्रगट करी, लोकने अतें विराजमान वर्ते ठे. ए रीतें सिद्धना स्वरूपमां अंतरहृष्टियें जोतां कार्यरूप साते नय पामीये. ए प्रमाणें षट् द्रव्य नव तत्त्वनुं स्वरूप साते नये करी बालजीवने समजणरूप जाणवुं.

हवे ए नव तत्व उपर सात नय उतारे ठे.

७०३ जिनदास शेटः—सात नये करी नव तत्त्वनुं स्वरूप केम जाणीये ?

श्रावकपुत्रः—नैगम अने संग्रह नयना मतवालो अंश तथा सत्ताने ग्रहण करे ठे, माटे ए नयना मतवालो सर्वनो संग्रह करीने बोळ्यो जे एक तत्व ठे, तेवारें व्यवहार नयवालो वेहेचण करीने बोळ्यो जे एक जीव

तत्त्व, वीजुं अजीवतत्त्व, ए रीतें वे प्रकारनां तत्त्व जाणवां, तेवारें ऋजुसूत्र नयना मतवालो उपयोग दशने वोख्यो जे कोइ जीव शुजाशुज परिणामें करी पुण्य पापरूप आश्रवनां दक्षीयां बांधे, तेने अजीव कह्यीं, एटसे जीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बांध, अने अजीव, एठ तत्त्व थयां. हवे शब्द स मन्त्रिरूढ नयना मतवालो वोख्यो जे चोथा गुणगणार्थी मांकी यावत् तेरमा चौदमा गुणगणा पर्यंत जीव, संवरजावमां वर्ततो महानिर्झरा प्रत्ये क रे ठे. एम संवर तथा निर्झरा, ए वे तत्त्व कख्यां, एटसे आठ तत्त्व थयां. वक्षी एवंभूतनयने मते जे जीव, सकल कर्म क्षय करी लोकने अंतें विरा जमान यथाख्यात चारित्ररूप गुणें करी पोताना स्वरूपमां रमण करेठे, तेने नावमोक्षपद कह्यीं. ए रीतें नव तत्त्वनुं स्वरूप सात नयें करी जाणवुं.

१०४ शिष्यः—देवतामां सात नय केम जाणीयें ?

गुरुः—कोइ जीव, ऋजुसूत्रनयने मते शुजपरिणामें करी व्यवहार न यने मते पुण्यरूप दक्षीयानुं ग्रहण करे, ते संग्रह नयने मते प्रकृतिरूप सत्तापणे बांध्यां तथा नेगमनयने मते अतीत कालें ते दक्षीयां प्रयां भूतां अने अनागत कालें जोगवशे तथा वर्तमान कालें सत्तायें रयां यें ठे, ए रीतें नेगम नयने मते त्रण काल एक रूपपणे जाणवां. एटसे ते जीवें देवतानुं आयु बांध्युं ते प्राणी ए चार नयें करी ड्रव्य देव जाण वा. अने ते जीव, शब्दनयने मते देवतापणे उपन्या, तेने नावदेव कह्यीं. इहां शिष्य पूछे ठे के शब्दनयना मतवालो तो चारे निक्षेपे वस्तुनुं प्रमा ए करे ठे. नाडे देवतामां चार निक्षेपा केम जाणीयें ? गुरुः—देव एवुं ना म, ते नामदेव जाणवां. तथा देव एवा अक्षर दासवा, ते अराज्ञाव सा

१०५ शिष्यः—नारकी जीवमां सात नय केम जाणीयें ?

गुरुः—कोइ जीव, ऋजुसूत्र नयने मतें अशुचपरिणामें करी व्यवहार नयने मतें पापरूप दलीयानुं ग्रहण करे, ते दलीयां संग्रहनयने मतें प्रकृतिरूप सत्तापणें बांध्यां अने नैगमनयने मतें ते दलीयां त्रणे काल एकरूपपणे जाणवां. ए रीतें जे जीवें नारकीनुं आउखुं बांध्युं, ते प्राणी ए चार नयें करी द्रव्यनारकी जाणवा. पठी ते जीव, शब्दनयने मतें नारकी पणें उपन्यो, तेने ज्ञावनारकी कहीयें. इहां शिष्य पूठे ठे के शब्द नयना मतवालो तो चारे निक्षेपे वस्तुनुं प्रमाण करे ठे, माटे नारकीमां चार निक्षेपा केम जाणीयें? तेवारें गुरु कहे ठे जे प्रथम नारकी एवुं नाम ते नामनारकी बीजो नारकी एवा अक्षर लखवा, ते असंज्ञावस्थापना, अने नारकीरूपें मूर्ति स्थापवी, ते संज्ञावस्थापना, ए बे प्रकारें स्थापना नारकी जाणवा. तथा त्रीजो जेणे आगल कह्या प्रमाणें चार नयें करी नारकीनुं आउखुं बांध्युं ठे, तेने द्रव्य नारकी कहीयें. तथा चोथा शब्द नयने मतें ते जीव नारकीपणे जइ उपन्यो, ते उदयज्ञावरूप ज्ञावनारकी जाणवो. ए चार निक्षेपा नारकीने विषे कह्या. हवे समञ्जिरूढ नयना मतवालो कहे ठे, के नरक जवना सर्व पर्याय प्रवर्तनारूप वस्तुप्रत्यें मामे, ते नारकी जाणवो. तेवारें एवंचूत नयना मतवालो कहे के ते पाप पर्याय रूप सर्वे वस्तु दुःख रूप विपाकें करी जीवें जोगववा मांकी, तेवारें ते नारकी जाणवो. ए रीतें साते नयें करी नारकीपणुं जाणवुं.

१०६ शिष्यः—राजामां सात नय केम जाणीयें ?

गुरुः—नैगमनयना मतवालो हाथ पगमां शुचलक्षण रेखा प्रमुख जो इने बोळ्यो जे आगल जतां आ पुरुष, राजा आशे, तेवारें संग्रह नयना मतवालो सर्वनो संग्रह करी बोळ्यो जे ए राजा न कहेवाय, परंतु जे राजाना कुलमां उपन्या, ते राजा कहेवाय, तेवारें व्यवहार नयना मतवालो बोळ्यो जे राजाना कुलमां तो घणा उपन्या पण जे शुवराजपदवी जोगवे ठे, ते राजा जाणवो. तेवारें ऋजुसूत्र नयना मतवालो उपयोग दइने बोळ्यो के एम राजा नही कहेवाय, परंतु राज्यकार्यना चिंतनरूप उपयोगमां जेना परिणाम वत्तें, ते राजा कहेवाय, तेवारें शब्दनयना मतवालो बोळ्यो जे राजकाजना चिंतनरूप उपयोगमां परिणाम वत्तें, तेथी कांशगरज सरे नही परंतु

राजरूप तखतें वेठा चिंतन करे, ते राजा जाणवो. तेवारे समजिरूढ नवना मतवालो बोड्यो के राजरूप तखतें वेठो, पण राज्य अरवस्थाना सर्व पर्याय प्रवर्तनारूप कारण मळे, तेवारे राजा जाणवो. त्वारे एवंचूत नवना मतवालो बोड्यो जे राज्य अरवस्थाना सर्वपर्याय प्रवर्तनारूप करी नी सामग्री सर्व एकठी करी राज्यरूप तखतें वेठो राज जोगवे हास दुख चलावे, जे मुखशी वचन नीकळे, ते प्रमाणें काम थाय. सर्व लोक आमाने, ते राजा जाणवो. एम साते नयें करी राज्यावस्थानुं खरूप जाणवो

३०३ शिष्यः—मनुष्यमां सात नय केम जाणीयें ?

गुरुः—कोइ जीव, ऋजुसूत्र नयने मतें ऋद्रकपरिणामरूप सरख नयने करी व्यवहारनयने मतें पुण्यरूप दळीयानुं ग्रहण करे, ते संपन्न नयने मतें प्रकृतिरूप सत्तापणे वांध्यां अने नैगमनयने मतें ते रक्षी यां त्रणे काळ एकरूपपणे जाणवां. ए रीतें जे जीवें मनुष्यनुं आठवुं वांध्युं, ते प्राणी, ए चार नयें करी इव्यमनुष्य जाणवा. अने जेवारे ते जीव, शब्दनयने मतें मनुष्य पणे उपन्या, तेवारे तेने जावमनुष्य कही ये. एनुं सांतली शिष्य पुणे ठे के शब्दनयना मतवालो तो चार निक्षेपे मनुनुं प्रमाण करे ठे. माटे मनुष्यमां चार निक्षेपा केम जाणीयें ? तेवारे गुरु हें ठे, प्रथम जे मनुष्य एवुं नाम ते नामनिक्षेपे मनुष्य जाणवो. ती जां मनुष्य एवा अक्षर समवा अथवा मनुष्यरूपें मूर्ति स्थापत्री, ते आत्मानमनुष्य. तीजां जेणें आगळ कळ्या प्रमाणें चार नयें करी मनुष्य नुं आठवुं वांध्युं ठे, तेने इव्यमनुष्य कहीयें अने बोथो जे शब्द नयने मतें मनुष्यपणें उपन्यां ते जावमनुष्य जाणवो. एटलें उदय जावरूप मनुष्यपणुं जे जावमनुष्य जाणवो, ए चार निक्षेपा कळ्या. इवे समजिरूढ नवना मतवालो बोड्यो जे मनुष्यतवना सर्वपर्यायप्रवर्तनारूप ए इव्ये नाम, ते मनुष्य जाणवा. तेवारे एवंचूतनयना मतवालो बोड्यो जे मनुष्यतवना सर्व पर्यायप्रवर्तनारूप जोगवधा मांदी, ते मनुष्य जाणवा.

३०४ नयः—सातनयनां शैलानयने करी वानाधिकतं व्यवहारे केम जाणीयें ?

गुरुः—नैगमनयने मतें करी सर्व जीव अशक्यकी संवा जावरूप पणें निक्षेपे कळ्या इतें ठे. कळ्या इतें सर्व जीवना आठ नयकप्रदेश त्रणे जे निक्षेपे कळ्या इतें ठे. निक्षेपे कळ्या इतें आठवुं नयरी, माटे नैगम

नयें करी सर्वे जीव, सदाकाल अंशयकी संवरजावरूप सामायिकमां जाणवा.

जिनदास शैठः—संग्रहनयें करी सामायिकनुं स्वरूप केम जाणीयें ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो सत्तानुं ग्रहण करे ठे, माटे सर्वे जीव सत्तायें पोताना पारिणामिकजावें करी संवरजावरूप सामायिकमां रह्या वत्तें ठे, जे कारणें अंतरंग सर्वे जीवने सत्तायें निश्चय नयें करी कर्मरूप ले प लागतो नथी, कर्मनो जे लेप लागवो ते मात्र व्यवहारनयथी ठे माटे संग्रह नयने मत्तें करी सत्तायें सर्वे जीव संवरजावरूप सामायिकमां जाणवा.

जिनदास शैठः—व्यवहार नयने मत्तें करी सामायिकनुं स्वरूपकेम जाणीयें ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो बाह्यथकी जेनुं जेवुं स्वरूप देखे, तेने तेवुं कहे. माटे जे जीव, एकांत निरवद्य जगायें जाइ “करेमि चंते” एम पाठ उच्चरी वे घडीथी मांकी जावजीव लगें निःसंगपणें वत्तें ठे, तेने व्यवहार नयना मतवालो सामायिकवंत कहे, एटले ए नयने मत्तें बाह्यथकी करणी आचरणारूप देखती क्रिया ते सामायिक जाणवुं.

जिनदासः—ऋजुसूत्रनयने मत्तें सामायिकनुं स्वरूप केम जाणीयें ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो पारिणामिकजाव ग्रहे ठे, माटे कोइ जीव नरकनिगोदना दुःखथकी वीहीतो सुखनी लालचें उदासजावें त्याग वैराग्यरूप परिणामें करी पोताना चित्तने वत्तावे, ते समय ते जीव, ऋजु सूत्रनयने मत्तें करी सामायिकमां जाणवो. एटले तेतो यथाप्रवृत्तिकरणरूप परिणाम प्रमुख पहेले गुणठाणे मिथ्यात्वी जीवने पण होय.

जिनदासः—शब्दनयने मत्तें सामायिकनुं स्वरूप केम जाणीयें ?

श्रावकपुत्रः—ए नयने मत्तें करी सामायिकना चार प्रकार जाणवा. एक श्रु तसामायिक, वीजुं समकेतसामायिक, त्रीजुं देशविरतिसामायिक अने चोथुं सर्वविरतिसामायिक, एरीतें शब्दनयने मत्तें करी सामायिकना चार जेद ठे

जिनदासः—समजिरूढनयने मत्तें सामायिकनुं स्वरूप केम जाणीयें ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो श्रेणीजाव ग्रहे ठे, माटे शुद्धशुद्धध्यान रूपातीतपरिणामरूप रूपकश्रेणीयें चढी घातीकर्मने चूरी अनंतचतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट करी, एवा केवढी जगवानने संवरजावरूप सामायिक जाणवुं.

जिनदासः—एवंभूतनयने मत्तें करी सामायिकनुं स्वरूप केम जाणीयें ?

श्रावकपुत्रः—ए नयना मतवालो संपूर्ण जाव ग्रहे ठे. माटे अष्ट कर्म रु

यें अष्टगुण संपन्न लोकने अंतें विराजमान सादि अनंतमे जांगे वर्तता वा सिद्ध जगवानने यथाख्यात चारित्ररूप संवरजाव जाणवो. ए सात नयें करी सामायिकनुं स्वरूप धारवुं.

७०९ हवे एक आकाशप्रदेशमां षट् ड्रव्यनुं तथा सात नयनुं स्वरूप एट्जे जिनदास शेठ एक आकाशप्रदेश मात्र क्षेत्र अंगीकार करिने पुत्र प्रत्यें प्रश्न पूठे ठे के आ विवक्षित एक आकाशप्रदेश केहेनो

श्रावकपुत्रः—नेगमनयने मतें ए प्रदेश ठए ड्रव्यनो ठे, कारण के एक आकाश प्रदेशमां ठए ड्रव्य जेलां ठे, तथा संग्रहनयने मतें एक कालड्रव्य ठे, केम के सर्व लोकमां एनो एक समय व्यापी रह्यो ठे, माटे ते आकाश प्रदेशमां काल जूदो नथी संग्रहनयने मतें एक कालड्रव्य विना शेष पांश ड्रव्यनो ए प्रदेश कहियें. तथा व्यवहारनयने मतें जे ड्रव्य एमां मुख्य हे त्वाय ठे, ते ड्रव्यनो ए प्रदेश कहियें. तथा रुजुसूत्रनयने मतें जे समय जे ड्रव्यनो उपयोग दइ पूठीयें, ते समयें ते प्रदेश, तेहीज ड्रव्यनो कहियें. एट्जे जो धर्मास्तिकायनो उपयोग दइ पूठीयें, तो धर्मास्तिकायनो प्रदेश कहियें अने जो अधर्मड्रव्यनो उपयोग दइ पूठीयें, तो अधर्मास्तिकायनो प्रदेश कहियें. इत्यादि जे समय जे ड्रव्यनो उपयोग दइ पूठीयें, ते समय ते प्रदेश ते ड्रव्यनो कहियें. तथा शब्दनयने मतें जे ड्रव्यनुं नाम सइ पूठी यें, ते प्रदेश ते ड्रव्यनो कहियें. तथा समनिरूढ नगने मतें एक आकाश प्रदेशमां धर्मास्तिकायनो एक प्रदेश रह्यो ठे, तथा अधर्मास्तिकायनो एक प्रदेश रह्यो ठे तथा जीव अनंताना अनंता प्रदेश रह्या ठे. एम पुत्र परमाणुया पण अनंता जाणवा. तथा एतच्छूननयने मतें जे समय जे प्रदेश ते ड्रव्यना क्रियागुणने अंगीकार करतो देखीयें, ते समय ते प्रदेश, ते ड्रव्यनो कहियें. ए मतें एक आकाशप्रदेशमां षट् ड्रव्यनुं स्वरूप सात नयें करी जाणवुं. ७१० श्री जिनदास शेठ श्रावकपुत्र प्रत्यें प्रश्न पूठे ठे के नमं क्यां वमो ठो ? उत्तर अमुद्ध नेगमनयने वचनें श्रावकपुत्र बोझो जे हे लोकमां वसुं नुं. तेसां जिनदास शेठ पुठे जे लोकना ना अधोलाक, ऊर्ध्वलाक अने मि को लोक. एसा वचन देद ठे, तेमां नमं क्यां लोकमां वमो ठो ? तेवारे गु ए नेगमनयने वचनें श्रावकपुत्र बोझो के हे निजां लोकमां वसुं नुं, ते वचनें नेगमनयने वचनें श्रावकपुत्र बोझो के हे निजां लोकमां ना अधोव्याना द्वीप अने अमंख्या

ता समुद्र ठे. तेमां तमें कया द्वीप समुद्रमां वसो ठो ? त्यारें शुद्धरतने गमनयने वचनें श्रावकपुत्र बोढ्यो के हुं जंबू द्वीपमां वसुं बुं. शैठ बोढ्या जंबूद्वीपमां तो घणां क्षेत्र ठे तेमां तमें कया क्षेत्रमां वसो ठो ? तेवारें अतिशुद्ध नैगमनयने वचनें श्रावकपुत्र बोढ्यो जे हुं चरतक्षेत्रमां वसुं बुं. शैठ बोढ्या चरतक्षेत्रमां बत्रीश हजार देश ठे, तेमां तमें कया देशमां वसो ठो ? तेसमयश्रावकपुत्र बोढ्यो जे हुं अमुक देशमां वसुं बुं, शैठ बोढ्या ते देशमां तो घणां नगर ठे, तो तमें कया नगरमां वसो ठो ? श्रावक पुत्र बोढ्यो के अमुक नगरमां वसुं बुं, शैठ बोढ्या ते नगरमां घणा पाडा ठे, तो तमें कया पाडामां वसो ठो ? श्रावकपुत्र बोढ्यो अमुक पाडामां वसुं बुं. एमज पाडामां घरादिक सहु बताव्यां. ए नैगमनयनो मत जाणवो.

वली जिनदास शैठ संग्रहनयने मतें पूठे ठे के तमें क्यां वसो ठो ? तेवारें श्रावकपुत्रे कहुं हुं शरीरमां वसुं बुं. वली शैठें व्यवहार नयने मतें पूठयुं तमें क्यां वसो ठो ? त्यारें श्रावकपुत्रे कहुं हुं आ संथारे वेठो बुं, एटले वीठानामां रह्यो बुं. वली रुजुसूत्रनयने मतें पूठयुं तमें क्यां वसो ठो ? तेणें कहुं हुं उपयोगमां रहुं बुं, एटले ए नयने मतवाले ज्ञान अज्ञाननो जेद न पड्यो, वली शब्दनयने मतें पूठयुं, पामें क्यां रह्यो ठो ? तेणें कहुं हुं स्वभावमां रहुं बुं, वली समजिरूढनयने मतें पूठयुं तमें क्यां रह्यो ठो ? तेणें कहुं के हुं गुणमां रहुं बुं. वली एवंचूत नयने मतें पूठयुं तमें किहां रह्यो ठो ? तेणें कहुं जे हुं ज्ञान, दर्शन अने चारित्ररूप गुणमां रहुं बुं. एम साते नयनुं स्वरूप सर्वे ठेकाणें उतारवुं.

७११ जिनदास शैठः—साते नयें करी जीवनुं स्वरूप केम जाणीयें ?

श्रावकपुत्रः—नैगम नयने मतें गुण पर्यायवंत शरीर सहित ते जीव जाणवो. एटले ए नयने मतवाले शरीरमांहे जीवपणुं मान्युं, तेथी वीजा पुजल तथा धर्मास्तिकायादिक ड्रव्य, ते सर्वे जीवमां गणाणां, तथा संग्रहनयने मतें असंख्यात प्रदेशी ते जीव एटले ए नयने मतवाले एक आकाश प्रदेश टाड्यो, पण वीजा सर्वे ड्रव्य जीवमां गणां, व्यवहार नयने मतें जेख लक्ष काम चितारी जे ते जीव एटले एणें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, तथा वीजा पुजल सर्वे टाड्या, मण पंचेंद्रिय, मन, लेश्याना पुजल ठे, तेणें जीवमां गणा, एटले विषया

दिक तो इंद्रियो दीये ठे, ते जीवथी न्यारा ठे, पण ए नयने
 हां जीवनी साथें लीधा, तथा रूजुसूत्र नयने मतें तो जे
 जीव, एटले ए नयने मतवाले इंद्रियादिक तो सर्व टाळ्यां पण ज्ञान
 ननो जेद टाळ्यो नहीं, तथा शब्दनयने मतें तो नामजीव,
 जीव, इव्यजीव अने ज्ञावजीव, एटले ए नयने मतवाले चार
 जीवपणुं कह्युं, पण गुणी निर्गुणीनो जेद नही पाळ्यो, तथा
 नयने मतें ज्ञानादिक गुणवंत ते जीव एटले ए नयने मतवाले
 न, श्रुतज्ञान, इत्यादिक साधक सिद्धरूप परिणाम ते जीवस्वरूपमा
 त्या, तथा एवंचूतनयने मतें अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारि
 गुरु सत्तामात्र ते जीव जाणवो. एटले ए नयने मतवाले सिद्धि अवस्था
 ना जे गुण हता, ते इहां ग्रहण कस्या. ए रीतें जीवमां सात नय कया.

७१२ जिनदास शेरः—नयनी अपेक्षायें करी ज्ञाननुं स्वरूप केम जाणीये!

श्रावकपुत्रः—नेगम नयना मतवालो एक अंश ग्रहीने सर्व वस्तुनुं प्रमा
 ण करे ठे, माटे नेगमनयने मतें सर्वे जीव, ज्ञानी कहीये. कारण के स
 ते जीवनी चेतना अक्षरने अनंतमे जागें उवाडी ठे, तिहां ज्ञानावरणा
 दि कमेनुं आचरण लागनुं नथी, माटे नेगमनयने मतें सर्व जीव अक्षर
 ही ज्ञानी जाणवा. तथा संग्रहनयना मतवालो सत्तानुं ग्रहण करे ठे,
 माटे सर्वे जीवनी सत्ता ज्ञानरूप ठे, तेथी संग्रहनयने मतें सर्वे जीव, सत्ता
 ते ज्ञानी जाणवा. तथा व्यग्रहनयना मतवालो तो बाधथकी जेनुं जेनुं
 मत्तये शी, तेने जेनुं कही बोळावे, पण अंतरंग उपयोग न माने, माटे
 जे अन्वयननां गो श्राव प्रत्ये वांचे तथा, जेनमननां सर्वे सूत्र, सिद्धांत, वा
 धा. निर्गुणिक. टी. हा. नृगिप्रत्ये वांचे, गुरुमुखें मईदे, अर्थ करे, तेने व्य
 ग्रहनयना मतवालो ज्ञानी कहीने बोळावे, तथा शंभुसूत्रनयने मतें
 ते अंतरंग प्रमाति मद्रिब वस्तु गतनां नामनरूप ज्ञान स्वरूपना वपयो

अघाती कर्मने क्यें करी अनंतचतुष्टय रूप लक्ष्मी प्रगट करी, लोकालोक नुं स्वरूप एक समयमां जाणे, तेने ज्ञानी जाणवा.

७१३जिनदास शेटः—साते नयें करी साधर्मिपणानुं स्वरूप केम जाणीयें?

श्रावकपुत्रः—नैगम अने संग्रह नयने मतें करी सर्वजीव सत्तायें एक रूप ठे, एटले सर्व जीवनो धर्म, सरखो कहीयें माटे ए वे नयनें मतें सर्व जीव, सत्तायें साधर्मी जाणवा. तथा व्यवहारनयना मतवालो तो बाह्य थकी जेनी जेवी आचरणा देखे, तेने तेवो कहे, पण अंतरंग सत्ता उपयो ग न माने, एटले जे जीवनी क्रिया प्रवृत्तिरूप एक सामाचारी सरखी हो य, तेने व्यवहार नयना मतवालो साधर्मी कही बोलावे, तथा ऋजुसूत्र नयना मतें तो जे समय उपयोग सहित त्यग वैराग्यरूप उदासजावें जेनुं चित्त वत्तें ठे, ते समय ते जीव साधर्मी जाणवा. एटले ए नयने मतवाले यथाप्रवृत्त्यादिकरणना परिणाम होता, ते इहां ग्रहण कख्या, ए परिणाम तो पहेले गुणठाणे मिथ्यात्वीने पण थाय. तथा शब्दनयने मतें तो अंतरंग उप योगरूप समकेत जावें साध्य एक साधन अनेक, ए रीतें जे जीव सत्ताग तना धर्मने साधे, ते साधर्मी जाणवा. एटले ए नयने मतवाले समकेती जीवने साधर्मी कही बोलाव्या, तथा समजिरूढ नयना मतवालो श्रेणी जावतुं ग्रहण करे ठे, एटले नवमा दशमा गुणठाणाथी मांकी यावत् तेर मा चौदमा गुणठाणा पर्यंत जे जीव, घाती कर्मने क्यें अनंत चतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट करी शुक्लध्यानना बीजा त्रीजा पाया वचालें रह्या संवरजावें वत्तें, एवा केवळी जगवान् ते साधर्मी जाणवा. तथा एवंचूत नयने मतें तो जे अष्ट कर्म क्यें करी अष्टगुण संपन्न लोकने अंतें विराजमान अव्याबाध सुखना जोगी सादि अनंतमे जांगे वत्तें ठे, एवा सिद्ध परमात्माने साधर्मी जाणवा. ए रीतें साधर्मी उपर सात नय कह्या.

७१४ जिनदास शेटः—सात नयें करी धर्मनुं स्वरूप केम जाणीयें ?

श्रावकपुत्रः—नैगम नयनें मतें तो सर्वे धर्म ठे, केम के सर्वे धर्मने चा हे ठे. एटले ए नयने मतवाले सर्वधर्मने धर्मनाम कही बोलाव्या, तथा संग्रहनयने मतें जे वडेरायें आदख्यो, ते धर्म. एटले ए नयने मतवाले अनाचार तो ठोड्यो अने कुलाचारने धर्म करी मान्यो, एटले जे जेना कु लकर्मागत आव्यो, ते धर्म जाणवो ॥ गाथा ॥ जेखधारीकूं गुरु कहे, पु

ख्यवंतकूं कहे देव ॥ कुलाचारकूं धर्म कहे, ए कुकर्मकी देव ॥ १ ॥
 व्यवहारनयना मतें जे सुखनुं कारण ते धर्म कहीयें एटले ए नयने
 वादे पुण्यरूप करणीने धर्म करी मान्यो, तथा रजुसूत्र नयने मतें
 सहित उदास जावें वैराग्यरूप परिणाम ते धर्म जाणवो. एटले ए
 मतवाले यथाप्रवृत्तिकरणरूप परिणाम प्रमुखने धर्म करी मान्यो, ते
 पदेले गुणवाणे मिथ्यात्वीने पण थाय. तथा शब्द नयने मतें जे
 सत्तागतना चासनरूप समकेत ते धर्म जाणवो, केम के समकेत जेठे,
 धर्मनुं मूल ठे. तथा समजिरूढ नयने मतें जीव अजीवरूप नव तत्त्व
 पद द्रव्य, नय, निक्षेपा, प्रमाण, उत्सर्ग, अपवाद, निश्चय, व्यवहार, इ
 व्य. नावनुं स्वरूप जाणी जीवसत्ताने ध्यावे. अजीवसत्तानो त्याग करे
 ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप शुद्ध निश्चयनय परिणाम, ते धर्म कहीयें. एटले
 ए नयने मतवाले साधक सिद्धरूप परिणाम, ते धर्मपणे करी मान्या. तथा
 गंधनूतनयने मतें जे शुद्ध शुक्लध्यान रूपातीतपरिणाम रूपकश्रेणी करी
 क्षयनां कारण, ते साधनधर्म जाणवो अने जीवनो मूलस्वभाव मोक्षरूप
 कार्य निष्पन्न सिद्धिमां रहे, ते धर्म जाणवो.

१५ जिनदास शेषः—सिद्ध जगवाननुं स्वरूप, साते नयें करी केम जाणीयें ?

आप ह्युचः—नेगमनयवालो एक अंश ग्रहीने वस्तुनुं प्रमाण करे ठे,
 नाटे नेगमनयने मतें सर्व जीव सिद्ध ठे, कारण के सर्वजीवना सात
 तत्त्व ह्यंश मश तत्त्व सिद्धसमान निर्मल ठे, तिहां कर्मावरण लागतां न
 सी, नाटे नेगमनयने मतें सर्वजीव सिद्धसमान जाणवां. तथा संप्रह्नयना
 मतवालो सत्तानुं ग्रहण करे ठे, एटले सर्वजीवनी सत्ता एक समान सर
 नी ठे, नाटे संप्रह्नयने मतें करी सर्वजीव सत्तायें सिद्धसमान जाणवा.
 एटले एते पर्यायान्तिक्षणयें करी कर्म सहित अवस्था टाळी, पण द्रव्या
 सिद्धसमान अथवा अंगीकार करावी, तथा व्यवहारनयने मतें जे वि
 वाद विष प्रमुख गुण करीने सिद्ध थया, तेने सिद्धपाणुं जाणवुं. एटले ए
 मतवाले जे वाचन्य प्रमुख गुण जना, ते अंगीकार कया, तथा रजुसूत्र
 मतें मतें जे मतयें जे जावें सिद्धसमान थापणा आत्मानोपना ठावणी
 ठे एते नयनवो अथवा एते वैरीज वनें ठे, ते समयें ते जीव, सिद्ध स
 मान ठे. एटले इतने मतवाले समकंतिजावने सिद्धसमान करी

बोलाव्या, तथा शब्दनयने मत्तें तो जे शुद्धशुद्धध्यानपरिणाम नामादिक चार निक्षेपे, ते सिद्ध कहीयें. तथा समञ्जिरूढनयने मत्तें जे केवल ज्ञान, केवलदर्शन, यथाख्यातचारित्ररूप गुणवंत होय ते सिद्ध, एटले ए नयने मतवाळे तेरमे, चौदमे गुणठाणें वर्तता केवली जगवान्ने सिद्ध समान कही बोलाव्या. तथा एवंभूतनयने मत्तें जे ज्ञानवर्णादि सकल कर्मनो क्षय करी अनंतगुणरूप लक्ष्मी प्रगट करी लोकने अंतें विराजमान सादि अनंतमे जांगे वत्तें एवा जे, सिद्ध जगवान् ते सिद्ध कहीयें.

७५४ जिनदास शैठः—वलीनयनीअपेक्षायेंकरीनवतत्त्वनुंस्वरूपकेमजाणीयें?

श्रावकपुत्रः—ऋजुसूत्रनयने मत्तें पहेळे गुणठाणे एकेंद्रियथी पंचेंद्रिय पर्यंतना जीव अनुपयोगें मिथ्यात्वजावें वत्तें, तेने द्रव्यजीव कहीयें अने शब्दनयने मत्तें चोथे गुणठाणें आत्मस्वरूपमां समकेतजावें वत्तें, तेने जाव जीव कहीयें. हवे अजीवनुं स्वरूप कहीयें ठेयें. एटले कोइक जीव ऋजु सूत्रनयने मत्तें शुजाशुज परिणामें करी पुण्यपापरूप आश्रवनां दलीयां बांधे, तेने अजीव कहीयें. अने व्यवहारनयने मत्तें अत्रतिपणे अणक ह्यां आश्रव आवे, एवुं पण श्रीजगवतीसूत्रमां कळुं ठे. हवे संवरनुं स्वरूप कहे ठे. शब्दनयने मत्तें चोथे गुणठाणे समकेती जीव अने पांचमे गुणठाणे देशविरति जीव, तथा ठेठे सातमे गुणठाणे सर्वविरतिजीव, ए संवरजावमां रह्या वत्तें ठे, तथा समञ्जिरूढनयने मत्तें श्रेणीजावें नवमा दशमा गुणठाणाथी मांकी यावत् तेरमा चौदमा गुणठाणा पर्यंत केवली जगवान् पण संवरजावें रह्या वत्तें ठे अने एवंभूतनयने मत्तें सकल कर्म क्षय करी लोकने अंतें विराजमान सादि अनंतमे जांगे सिद्ध परमात्मा पण संवरजावमां रह्या वत्तें ठे. हवे निर्झरानुं स्वरूप कहे ठे. शब्द, समञ्जिरूढनयने मत्तें श्रेणीजावें नवमा दशमा गुणठाणाथी मांकी तेरमा चौदमा गुणठाणा पर्यंतना जीव आत्मस्वरूपमां वर्तता महानिर्झरा प्रत्यें करे ठे. हवे मोक्षनिःकर्मावस्थानुं स्वरूप कहे ठे. समञ्जिरूढनयने मत्तें श्रेणीजावें तेरमे चौदमे गुणठाणें केवली जगवान् वत्तें ठे, तेने द्रव्यमोक्षपद कहीयें. अने एवंभूतनयने मत्तें सकल कर्म क्षय करी लोकने अंतें विराजमान सादिअनंतमे जांगे वत्तें ठे, एवा सिद्धपरमात्माने जावमोक्षपद कहीयें. ए नव तत्त्वमां स्वरूप जाणवुं.

७३३ जिनदासशेठः—साते नयें करी नव तत्त्वतुं स्वरूप केम जाणीये!
 श्रावकपुत्रः—नैगमनयने मतें सर्वें तत्त्व ठे, जे कारणे सर्वकोइ तत्त्व
 चाहे ठे, तथा संग्रहनयना मतवालो सर्वनो संग्रह करीने बोळ्यो जे एकर
 तत्त्व ठे, एटखे जे जेहने मन मान्युं, ते तत्त्व, वीजां सर्वें अतत्त्व जाणवा.
 तथा व्यवहार नयना मतवालो बाह्यस्वरूप देखीने जेद वेहेंचे, एटखे जे
 दीसता गुण देखे, ते माने, माटे एक जीवतत्त्व अने वीजुं अजीवतत्त्व,
 ए वे तत्त्व माने, तेमां वली प्रथमजीव तत्त्वना वे जेद, इत्यादि आगत
 कथा,ते रीतें यावत् गंठीजेदी तथा अगंठीजेदी सुधी कहीने वली प्रकारां
 तरें एदरे जेद कहे. तथा अजीव तत्त्वना जेदनी वेहेंचण आवी रीतें करवी
 प्रथम अजीवना वे जेद ठे, एक रूपी अजीव अने वीजो अरूपी अजीव,
 तेमां धर्मास्तिकायनो खंध, देश अने प्रदेश, तथा अधर्मास्तिकायनो खंध,
 देश अने प्रदेश, तथा आकाशास्तिकायनो खंध, देश अने प्रदेश, तथा एक
 जेद काज्जइव्यनो मही अरूपी अजीवना दश जेद थया. वली धर्मास्तिकाय
 इव्यनो मही, क्षेत्रथकी, कालथकी, जावथकी अने गुणथकी, ए पांचजेदें ठे.
 ए रीतें अधर्मास्तिहाय, आकाशास्तिकाय, तथा काल, सर्वेना पांच पांच
 जेद करवां तीश जेद थाय. ते पूर्वोक्त दश साथें मेलवतां त्रीश जेद अ
 र्थी अजीवना थया. इवे रूपी अजीवना पांचशो ने त्रीश जेदतुं स्वरूप
 होठे ठे. फरसना आठ, गंधना वे, रसना पांच, वर्णना पांच अने संस्था
 नना पांच, ए रीतें पचीश जेद मूल ठे, तेना उत्तर जेव पांचशे ने त्रीश,ते
 थयां रीतें थायः—प्रथम आठ फरस माहेला प्रत्येक फरस ने पांच वर्ण, वे
 गंध, पांच रस, पांच संस्थान अने ठ स्पशे, ए रीतें त्रैवीश साथें गुणतां
 एदरे जेद थाय. आठ स्पशे ठे, तेमांथी ठ स्पशे साथें गणवानु कारण
 ए ठे जे जो जारी स्पशेना जेद साथें गणवो होय, तो ने जारी स्पशे, तथा
 तेजो प्रतीक ही तीजो इववो स्पशे, ए वे स्पशे मृही देवा, वाकी ठ स्पशे
 जेना जेजज जे भुजा साथें गणवो होय, तो तेजो प्रतिपदी चांपथ्या स्पशे
 जे मृही, वाक्या. ए रीतें सर्वत्र समती जेनुं, ए आठ स्पशेना २०४ जेद
 जे मज्ज जेव जेदनाथी वे एथ कथातीने त्रैवीश जेदने वे गंध
 पांचशे जेद तेजो वे गंधना देवातीश जेद थाय तथा पचीश जेदमांथी
 जे मृही वाक्य करवां थारी वीज जेदने पांच रस साथें गुणतां पांच रसना

१०० जेद थाय. तथा तेवीज रीतें पांच वर्णना पण शो जेद थाय. अने तेमज पांच संस्थानना पण शो जेद थाय. ए सरवाले ५३० जेद पुजल ड्रव्यरूपी अजीव ठे तेना थया. तेनी साथें पूर्वोक्त अरूपी अजीवना त्रीश जेद मेळवतां ५६० जेद थाय. ए सर्व व्यवहारनयने मते जेदनी वेहेंचण ठे.

तथा रुजुसूत्रनयने मते जे जीव, शुजाशुज परिणामें करी पुण्य, पाप रूप आश्रवनां दळीयां बांधे, तेने अजीव कहीयें. ए ठ तत्व थयां, तथा शब्दनयने मते तो चोथे गुणठाणे समकेती जीव, पांचमे गुणठाणे देशविरतिजीव, षष्ठे सातमे गुणठाणे सर्वविरति जीव, ए त्रणे सत्तागतना जासनरूप संवरजावमां वर्तता समय समय अनंतां कर्म निर्झारावे ठे, तथा समजिरूढनयना मतवालो श्रेणीजावने ग्रहे ठे, माटे नवमा दशमा गुणठाणथी मांकीने यावत् तेरमा चौदमा गुणठाणा पर्यंत केवळी जगवान् पण संवरजावमां वर्तता महा निर्झाराप्रत्ये करे ठे, तेने ड्रव्यमोक्षपद कहीयें. ए नवे तत्व आव्यां. तथा एवंभूतनयने मते सकल कर्मदायें करी लोकने अंतें विराजमान सादि अनंतमे जागे वर्तता एवा सिद्धपरमात्मा, तेने जावमोक्षपद कहीयें. ए रीतें साते नयें करी नव नत्वनुं स्वरूप ठे,

७३४ हवे पाथो उपरे उत्सर्ग अपवाद मागें नय उतारे ठे. एटले कोइ जीव पाथाने अर्थे वनमां काष्ठ वेवाने चाळ्यो, तिहां बीजो कोइ सन्मुख मळ्यो तेणें पूब्युं तुं क्यां जाय ठे ? तेवारें ते अशुद्ध नैगमनयने वचनें बोळ्यो जे हुं पाथो वेवा जाउं तुं. हवे वनमां जइने काष्ठ ठेदवा मांभ्युं, तेवारें वळी कोइयें पूब्युं के शुं ठेदे ठे ? तेवारें शुद्ध नैगमनयने वचनें बोळ्यो के हुं पाथो ठेडुं तुं. हवे काष्ठ लइने पाठो वळ्यो, तेवारें वळी कोइयें पूब्युं के तुं शुं लाव्यो ? तेवारें शुद्धतर नैगमनयने वचनें बोळ्यो के हुं पाथो लाव्यो. हवे पाथो सराणें चडावी उतारवा मांभ्यो, तेवारें वळी कोइयें पूब्युं जे तुं शुं उतारे ठे ? त्वारें ते अतिशुद्ध नैगमनयने वचनें बोळ्यो के हुं पाथो उतारुं तुं. ए रीतें नैगमनय जाणवो. हवे व्यवहारनयना मतवालो बोळ्यो के एवी रीतें पाथो हुं मानुं नही परंतु हुंतो संपूर्ण देखाती वस्तुमां वस्तुपणुं मानुं, एटले पाथो उतारी तैय्यार करी मेळ्यो, ते वारें व्यवहारनयना मतवालो कहे, जे हवे एने पाथो कहीयें. हवे संग्रह नयना मतवालो बोळ्यो के एम पाथो नही पाथानी सत्तारूपमांहे धान्य

जखुं. तेवारें संग्रहनयना मतवालो कहे के हवे पाथो कहीयें. हवे रजुसूत्र नयना मतवालो बोड्यो के एवी रीतें पाथो नहीं. हुंतो वस्तुना जाबने ग्रहण कहे, एटले पांच, सात, पाथा धान्य जरीने एक बाजु ढगलो कखो. अने पाथारूप खोखुं दूर काढी नाखुं, तेवारें रजुसूत्रनयना मतवालो कहे के हवे एने पाथो कहीयें. वली कोश्यें पूब्युं जे ए पांच सात पाथानुं ज्ञान किहां रहुं ठे? तेवारें शब्दनयना मतवालो वेहेंचण करीने बोड्यो जे आ शरीररूप पाथो ठे, तेमां ज्ञानादि अनंतगुणरूप धान्य जखुं ठे. तेवारें समतिरुडनयना मतवालो बोड्यो के एम पाथो नहीं, ए शरीररूप पाथा मांद्दी उपयोग काढी अने ज्ञानादिक अनंतगुणरूप मांद्दे धान्य जखुं ठे. तेमां उपयोग लगावीने श्रेणीजावें चड्यो, एटले एने पाथो कहीयें. तेवारें एवंतनयना मतवालो बोड्यो, के एम पाथो नहीं परंतु ज्ञानादि अनंतगुणरूप धान्य मांद्दे जखुं ठे, ते संपूर्ण ग्रगट करी पाथारूप शरीरनुं खोखुं मूकी जे लोकने अंतें शिवपुरीमां विराजमान थया, तिहां पाथो कहीयें. एमां आग जा पार नय अपनादनागें अने पाठला जण नय उत्सर्गमागें जाणवा.

होत्सव विधिप्रयुक्त करी मांहे देव बेसाडे, तेवारें संग्रहनयना मतवालो कहे के एने देहरं कहीयें. हवे रूजुसूत्रनयना मतवालो बोड्यो के एम देहरं नही, हुंतो जावने ग्रहण करं बुं; आपणे देहरानुं शुं काम ठे, पण एमां देव कोण ठे? ऋषज देव ठे? किंवा अजितनाथ ठे? किंवा संजवनाथ ठे? इत्यादि जे देव मांहे बेगा होय,तेनुं प्रयोजन ठे. एटले ए रूजुसूत्रनयने मतवाले देहरा उपरशी उपयोग उतारीने देव विराज्या ठे, तेना ध्या नमांहे उपयोग लगाव्यो.तेवारें कोइ बोड्यो जे देरासरमां देव विराज्या ठे, तेनी उलखाणरूप ज्ञान किहां रखुं ठे? तेवारें शब्दनयना मतवालो अंत रंग उपयोग दइने बोड्यो के आ शरीररूप देहरं तेमां निश्चय देव आत्मा पोतेंज ठे,तेने विषे ए ज्ञान रखुं ठे. हवे समजिरूढनयना मतवालो बोड्यो के एम देहरं नही. ए शरीररूप देहरामांशी उपयोग काढी तेमांहे निश्चय देव आत्मा विराजे ठे,तेना स्वरूपना चिंतनरूप ध्यानमां उपयोग लगा डी श्रेणीजावें चढे, तेवारें देहरं कहीयें. त्यारें एवंभूत नयना मतवालो कहेवा लाग्यो के एम देहरं नही,परंतु मांहे निश्चयदेव आत्मा विराजे ठे,तेनुं स्वरूप संपूर्ण प्रगट करी अने देहरारूप शरीरनुं खोखुं इहां मूकी लो कने अंतें सिद्धपुरीमां विराजमान थया, त्यां देहरं कहीयें.

३३६ हवे उत्सर्ग अपवाद मार्गें घट उपर सात नय उतारे ठे. कोइक घट लेवा चाड्यो, तेवारें मार्गमां तेनें बीजो कोइ सन्मुख मड्यो, तेणें पूब्युं तुं शुं लेवा जाय ठे? ते वखत ते अशुद्ध नैगमनयने वचनें बोड्यो के हुं घट लेवा जाउं बुं. पढी तिहां जइने माटी खणवा मांकी ते वारें कोइयें पूब्युं तुं शुं करे ठे? त्यारें शुद्ध नैगमनयने वचनें बोड्यो के हुं घट लउं बुं. हवे माटी लइने पाठो वड्यो, तेवारें वडी कोइयें पूब्युं तुं शुं लाव्यो! तेवखत शुद्धतरनैगमनयने वचनें बोड्यो हुं घट लाव्यो; हवे माटी चाकडे चडावी घट उतारवा मांरुथो, तेवारें वडी कोइयें पूब्युं तुं शुं उ तारे ठे? त्यारें अतिशुद्धनैगमनयने मतें बोड्यो हुं घट उतारुं बुं ॥ इतिनैग मनयः ॥ हवे व्यवहारनयना मतवालो बोड्यो के एम घट न थाय हुंतो संपूर्ण वस्तु नजरें देखुं, तेमां वस्तुपणुं मानुं एटले घडो तैयार संपूर्ण नी पजे, तेवारें एने घट कहीयें. हवे संग्रहनयना मतवालो बोड्यो के एम घट नही,परंतु घटनी सत्तारूप जल मांहे जखुं होय,तेवारें घट कहेवाय,

एटले घटनी सत्तारूप जलें करी संपूर्ण जरे,तेवारें एने घडो कहीयें. एने
 रुजुसूत्रनयना मतवालो बोड्यो के एम घट हुं मानुं नही हुंतो जावने
 हण करुं तुं. एटले पांच, सात, घट जरीने एक ठामडामां रेड्या अने ए
 रूप खोखुं एक वाजु काढी नाख्युं, त्यारें तेने घट कहीयें. तेवारें को
 बोड्यो जे ए पांच,सात,घटरूप जलनुं ज्ञान किहां रखुं ठे ! ते वखत स
 नयना मतवालो वेहेंचण करीने बोड्यो के आ शरीररूप घट अनेज्ञानादि
 अनंतगुणरूप मांहे जलजखुं ठे, तेवारें समजिरूढनयना मतवालो बोड्यो
 के एम घट नही आ शरीररूप घटमांथी उपयोग काढी अने मांहे ज्ञाना
 दि अनंतगुणरूप जे जल जखुं ठे, तेमां उपयोग लगावी श्रेणीजावें वडे.
 तेवारें घट कहीयें. एटले एणें शरीररूप घटमांथी उपयोग काढी अने ज्ञाना
 नादि अनंतगुणरूप मांहे जल जखुं ठे, तेमां उपयोग लगावीने श्रेणीजावें
 चड्यो,तेवारें समजिरूढनयना मतवालो घट कहे. हवे एवंचूत नयना म
 तवालो बोड्यो जे एम घट नही,परंतु एमां जे ज्ञानादि अनंतगुणरूप जल
 जखुं ठे,ते प्रगट करी घटरूप शरीरनुं खोखुं इहां मूकी लोकने अंतें सिद्ध
 पुरीमां विराजमान थया. तिहां घट कहीयें.

१३१ अथ धर उपर उत्सर्ग श्रपवाद मार्गं करी सात नय उतारे ठे. कोइ

मां बेसाडी, तेवारें संग्रहनयना मतवालो कहे हवे एने घर कहीयें. तेवारे ऋजुसूत्रनयना मतवालो बोळ्यो के एम घर न थाय, हुंतो जावनें ग्रहण करुं बुं. घरनुं शुं प्रयोजन ठे? माहारे तो मांहे घरनी धणीयाणी स्त्री वेठी ठे, तेनी साथें काम ठे, घरनुं शुं काम ठे? एटले ए ऋजुसूत्रनयने मतवाले घररूप खोखा उपरथी उपयोग काढी अने मांहे घरनी धणीयाणी स्त्री वेठी ठे, तेमां उपयोग लगाव्यो, वली तेवारें कोइ बोड्यो के ए घरमां स्त्री वेठी ठे, तेनुं ज्ञान किहां रचुं ठे? तेवारें शब्दनयना मतवालो वेहेंचण करीने बोळ्यो के आ शरीररूप घर अने मांहे चेतन महाराजरूप पुरुष अने सम तारूप स्त्री वेठी ठे, तेमध्ये ए ज्ञान रचुं ठे, तेवारें समजिरूढनयना मतवालो बोड्यो के एम घर नही, परंतु शरीररूप घरमांथी उपयोग काढी अने समता रूप स्त्रीमां उपयोग लगावी, श्रेणीजावे चढे, तेवारें घर कहीयें. हवे एवंचूत नयवालो बोळ्यो एम घर नही, पण ए शरीररूप घरनुं खोखुं इहां मूकी समतारूप स्त्रीने लइ लोकने अंतें मोक्षपुरीमां जइ वस्या, तिहां घर कहीयें.

३३७ हवे राज्य उपर उत्सर्ग अपवादमागें सात नय उतारे ठे. कोइ पुरुष, राज्य लेवा चाळ्यो, तेने मार्गमां कोइ सामो मद्यो, तेणें पूब्युं तुं किहां जाय ठे? त्यारें ते अशुद्ध नैगमनयने वचनें बोड्यो हुं राज्य लेवा जाउं बुं. हवे राज्य लेवानी सामग्री मांकी, तेवारें वली कोइयें पूब्युं तुं शुं लीये ठे? एटले शुद्ध नैगमनयने वचनें बोड्यो के हुं राज्य लउं बुं? हवे राज्य लइने पाठो वळ्यो, तेवारें वली कोइयें पूब्युं के तुं शुं लाव्यो? तेवारें शुद्धतर नैगमनयने वचनें बोड्यो के हुं राज्य लाव्यो. हवे राज्य पालवा मांरुं, तेवारें कोइयें पूब्युं तुं शुं पाले ठे? एटले अतिशुद्ध नैगमनयने वचनें बोड्यो के हुं राज्य पालुं बुं॥ इति नैगमनयः॥ हवे व्यवहारनयना मतवालो बोळ्यो के एम राज्य कहेवाय नहीं, हुंतो संपूर्ण राज्य जोगवतां नजरें देखुं, तेवारें राज्य मानुं, ते वखत संग्रहनयना मतवालो बोळ्यो, एम राज्य कहेवाय नहीं जे राज्यनी सत्ताने ग्रहे, ते राज्य कहेवाय. एटले राज्यनी सत्तारूप प्रधान कामदार, शिरदार, सुजट, शीपाई, जमादार, फोजदार, कोटवाल, हादी. मुहादी, हाथी, घोडा, रथ, पायक आदिक राजानी सत्तारूप सामग्री मळे त्यारें राजा कहीयें. हवे ऋजुसूत्रनयना मतवालो बोळ्यो एम राज्य कहेवाय नहीं, हुं तो जावनें ग्रहण करुं बुं. एटले राज्यरूप सामग्री तो सर्व मदी,

पण राज्य कार्यनी चिंतारूप हाल हुकम, न्याय, इनसाफ, वात, विचार रूप राज्य कार्यना चिंतनमां उपयोगना परिणाम वत्तें, ते समय राज्य करे वाय, नहीं तो रातना राजानी परें अंधुं राज्य जाणवुं. वही कोइ बोझो ए राज्यकाजना उपयोगरूप चिंतननुं ज्ञान क्यां रहुं ठे? तेवारें शब्दनयना मतवालो बोझो के आ शरीररूप नगर नवछारें करी शोजतुं अने मांहे चेतन माहाराजारूप राजा राज्य करे ठे. तेमांहे ए ज्ञान रहुं ठे, तेवारें समन्वितनयना मतवालो बोझो के एम राज्य कहेवाय नहीं, पण ए शरीर रूप नगरमांथी उपयोग काढी अने जे एमांहे चेतन महाराजारूप राजा राज्य करे ठे, तेना स्वरूपमां उपयोग लगावी, श्रेणीजावें चढे, तेवारें राजा कहीयें. इवे एवंचूतनयना मतवालो बोझो के एम राजा कहेवाय नहीं, पण मांहे चेतनमाहाराजारूप राजा राज्य करे ठे, तेनुं स्वरूप संपूर्ण प्र गट करी, ए शरीररूप नगरनुं खोखुं इहां मूकी लोकने अंतें सिद्धपुरीमां मोक्षनगरनुं राज्य करे, तेने राजा कहीयें.

पण इवे धर्माजीवने समकेतनी स्थिरता करवा वास्ते जाणपणारूप मान नयनुं स्वरूप दलियें ठेयें. कोइ जीवने मार्गें जातां बाण लाग्यो, एट डे नगनयने मतें बाण हाथमां लडने लोकने कहेवा लाग्यो, जे आ बाण मूडने जायो. आ बाणथकी तुं दुःख जोगवुं तुं.

एटडे वही संग्रहनयना मतवालो बोझो के ए बाणनो कांइ वाक नथी राग नो होइ लो नाथ्यो आठयो पण बाणनो मारनारो कोण ठे? तेने शो नो काहाये. एटडे आषणुं कैर लइयें? एम संग्रहनयने मतें तेनो संग्रह लो चिंतनमां धामे लाग्यो, इवे व्यमहात्मनयना मतवालो बोझोके नाइ! ए मारनाग्यामां हांड बांढ नथी, पण कोइ प्रकारें ताहारा प्रह्नो वांक ठे. एटडे काहाय प्रह्न संहा आठ्या देवाय ठे, तेवारें ए धाणीने तुने माग्वाना यो जे नग नो ए चिंतनो मुं करे? मांहे कोइ रीते प्रह्नी पूजा करी, प्रह्नो संति करे. एटडे मय थाय. मांहे ज्योतिष, वैद्यक, जोडने चाववुं

हतां,तेवा ग्रह पण आव्या,माटे शुजाशुजरूप कर्म, सर्वने सुखदुःख दीये ठे. ए विपाक सर्वे कर्मना कस्या उदय आवे ठे. एमां ग्रहनो कांश् वांक नथी. ॥गाथा॥ कर्म करे तेन करेकोय,कर्म कीडी कुंजर होय ॥ कर्म सुख दुःख पामे सह, कर्म जीव जमे ते बहु ॥ १ ॥ माटे सर्व जीव, कर्मने वश ठे. ए रुजुसूत्रनुं वचन ठे. ए रीतें चारनयें जाणपणुं करीसंसारमां जीव परित्रमणपणुं करे ठे.

हवे शब्दनयना मतवालो बोळ्यो के ए कर्म विचारां शुं करे? एतो जड ठे,कोशने सुख दुःख देतां नथी, पण सुख दुःखनो पेदा करवावालो त था जोगववा वालो आपणो जीव ठे, जेवा परिणामें करीने जीवें कर्म वांध्यां होय, तेवा विपाक उदय आवे,माटे एमां कर्मनो कांश् वांक नथी. जीवें पोतें उद्यमें करी कर्म वांध्यां,तेवा विपाक जोगवे ठे माटे वांक ता हारा जीवनो ठे, पण कर्मनो वांक नथी. कर्म तो जीवनां कस्यां थाय ठे, अने वली जीवज उद्यम करीने टालतो जाय. ए रीतें शब्दनयने मतवाले जीव अने अजीवरूप जे कर्म, तेनी जूदी जूदी वेहेंचण करीने देखाडी.

हवे समजिरूढनयना मतवालो बोळ्यो के एमां जीवनो कांश् वांक न थी, जे वेलायें, जे काळें,जेवा केवली जगवाननें जाव दीठा होय ते वे लायें,ते काळें,तेवाज जीवना परिणाम थाय, पण ते जाव कोशना टाळ्या टले नही, एटले केवली जगवानें जेवी रीतें आगल आपणा जव दीठा होय, के जे देवता,नारकी,तिर्यंच, मनुष्यना एटला जव करीने सिद्धि व रशे ते दिवस,ते घडी, ते वेला आवे,तेवारें जीव,तेवे परिणामें करी तेवा कर्मनुं ग्रहण करे,एमां जीवनो कांश् वांक नथी, केवली जगवानें दीठेला जा व कोशना टाळ्या टले नजी, जे प्रमाणें केवलीयें दीठुं होय, ते प्रमाणें ज बने.

हवे एवंजूनतनयना मतवालो बोळ्यो के एतो सर्वे बाह्य व्यवहाररूप वात ठे,परंतु निश्चयनयें करी अंतरदृष्टियें जोतां तो जीवने जन्म नथी,म रण नथी, कर्म नथी, जर्म नथी, रोग नथी, शोक नथी, राग नथी, रोष नथी,शुद्ध, चिदानंद, निर्मल, परमज्योति, ज्ञानदर्शनचारित्रमय, अक्षत, अखंरु,अक्षिप्त, शाश्वतो, परमानंदसुखमय, सत्तायें सिद्धसमान, एवो ता हारो जीव ठे,जेवो सिद्धक्षेत्रें वसे, तेवो आ शरीरमांहे अंतरदृष्टियें विचा रतां जेद नथी मनमांहे ए रीतें जांगे,खागे,इंट लागे, थांजो लागे,शस्त्र ला गे,कोइ निंदा करे,चाडी करे,नुकशान करे,रोग उपजे, ए आदि सर्वठेकाणें,

ए रीतें साते नयेंकरी अर्थविचारतां जीव संवरजावमां आवे अने जेवारें सं
वर जावमां आवे, तेवारें जीव, निर्झरा करे, पण नवां कर्म न बांधे.

७४० कोइ जीव एम कहे ठे, के "जहागति, तहामति" ए वचन अन्यथा एकांत
वादीनुं ठे. अने "जहामति, तहागति" ए वचन, ते आगम प्रमाणें श्रीजिनवच
न अनुसारें ठे. माटे "जहागति, तहामति" ए वचनने अनुसारें सात नय
उतारे ठे:—कोइ जीवना रुजुसूत्रनयनेमतें शुजाशुजरूप परिणाम थया, ते
शुजाशुज परिणामें करीने जीवेंव्यवहारनयनेमतें पुण्यपापरूप कर्मनां दक्षी
यानुं ग्रहण कलुं, ते कर्मनां दक्षीयानुं ग्रहण करीने संग्रहनयनेमतें जीवें आठ
न्यारूप सत्तापणें वांब्यां, अने नैगमनयनेमतें ते दक्षीयां अतीतकालें ग्रहां
हतां. अने अनागतकालें जोगवशे तथा वर्तमानकालें सत्तायें रखां वतें ठे.
ए चार नयें करी ड्रव्यकर्मरूप आउखानो वंध जाणवो. अने शब्दनयने
मतें जावणें चारे गतिने विषे जीव उपन्यो अने समजिरूढनयनेमतें जे
गतिनां जीव उपजे, ते गतिना सर्व पर्यायरूप वस्तु प्रत्यें पामे. तेने तेवो कही
यें, तथा एवंजूननयनेमतें ते पर्यायरूप वस्तु जीवें जोगववा मांकी, तेने
तेवो कहीयें. ए रीतें "जहामति, तहागति" तेमां सात नय कह्या.

७५० हवे अज्ञानीश उपनयनुं स्वरूप देखाडे ठे:—तिहां प्रथम ड्रव्या
नि दश नयनुं सावण कहे ठे. सर्वड्रव्यमां अनेक स्वजावठे, ते एक वचन
यो हया जाय नही. तेयी मांडो मांडे संक्षेपपणें कहे ठे तिहां जे उत्पाद,
जाव, पपोंय गुणपणें ड्रव्यानी गुणसत्ताने ग्रहे, ते ड्रव्यास्तिकनय कहीयें.
ते ज्ञानान्निहनायना दश जेठे ठे, ते कहे ठे. तिहां प्रथम सर्वे ड्रव्य निव्य
माटे निव्यद्रव्यास्तिक कहीयें. वीजां जे अणुकलवु अने केत्रनी अर्पका न
करे, अने मूळ पुत्रने विंशीपणें ग्रहे. जेम जानास्तिक गांठ करी सर्वे जीव
एक गांठेयें ते माटे सर्वे जीव

द्रव्य, स्वक्षेत्र स्वकाल अने स्वभावें करी सत्य ठे, ए त्रीजो सत्यलक्षण द्रव्यास्तिक कहीयें. चोथो ते सर्वे द्रव्यना कहेवा योग्य गुण अंगीकार करे, ते वक्तव्यद्रव्यास्तिक जाणवो. पांचमो जे आत्माने विषे अज्ञान रहुं ठे, ते अशुद्धद्रव्यास्तिकनयने मतें ठे. माटे एने अशुद्ध द्रव्यास्तिक कहीयें. उठो सर्वे द्रव्य, गुणपर्यायरूपअवयवेंकरीने सहित ठे, ते अवयवद्रव्यास्तिक कहीयें. तथा सातमो सर्वे द्रव्य मूलसत्तायें एक ठे, ते परमद्रव्यास्तिक कहीयें. आठमो सर्वे जीवना आठरुचक प्रदेश निर्मल ठे ते शुद्धद्रव्यास्तिक कहीयें, नवमो सर्वे जीव सत्तायें असंख्यात प्रदेशरूप एक सामान्यपणे सरखा ठे ते सत्ताद्रव्यास्तिक कहीयें. तथा दशमो गुणी, गुण अने द्रव्य, ते एक ठे ते परमज्ञावग्राहक द्रव्यास्तिक कहीयें. ए रीतें द्रव्यास्तिक दश नयनुं स्वरूप कहुं.

७५६ हवे पर्यायास्तिकनयनुं स्वरूप कहे ठे:—जे पर्यायने ग्रहे, ते पर्यायास्तिकनय कहीयें. तेना ठ जेद ठे, ते कहे ठे:—प्रथम द्रव्यपर्याय ते ज्ञव्यपणुं अथवा सिद्धपणुं, वीजो द्रव्यव्यंजनपर्याय, ते पोतपोताना प्रदेशनुं मान, त्रीजो गुणपर्याय, ते एकगुण, अनेकतापणे परिणमे, जेम धर्मादिद्रव्य पोताना चलणसहायरूप एक गुणशी पण अनेक जीवपुजलने सहाय करे, ठे, ते रीतें सर्वत्र जाणी लेवुं. चोथो गुणव्यंजनपर्याय, ते एक गुणना घणा जेद ठे. पांचमो स्वभावपर्याय ते अगुरुलघुपर्याय सर्वद्रव्यमां जाणवो. ए पांच पर्याय सर्वद्रव्यमां ठे, अने उठो विज्ञावपर्याय ते एक पुजलद्रव्यमां ठे, एटले पुजलना जे खंध ते सर्वे विज्ञावपर्यायरूप जाणवा. ए ठ पर्यायास्तिकनय कहेवा, अने आगल दश द्रव्यास्तिक कहेवा, सर्व मली शोल जेद थया.

हवे नैगमादि सात नयनां जेदो सहित स्वरूप कहे ठे.

७५७ तिहां प्रथम नैगमनयनुं स्वरूप कहे ठे. नाहिं ठे एक गम जेने विषे ते नैगम एटले एक अंशें जेमां गुणपणुं नीपन्थुं होय, तेमां वस्तुपणुं माने, तेने नैगमनय कहीयें. तेना त्रण जेद ठे. ते आवी रीतें:—श्रीमाहावीरस्वामीनो आगल जन्म थयो हतो, तेने घणो काल व्यतीत थइ गयो, पण ह मणां पर्युषणमां जन्मकळ्याणिकादिनो महोत्सव करियें, अथवा दीवालीने दिवसें निर्वाण कळ्याणिकनो महोत्सव करियें, ते सर्वे वत्तेंमानें अतीतारोपणनामं नैगमनयनो प्रथम जेद जाणवो. तथा अनागतकालें

श्रीपद्मनाभजी तीर्थंकर थासे, तेनो आज जन्मकल्याणिकादिक जक्ति म होत्सव करीयें, ते सर्वे वर्तमान अनागतारोपण नामें नैगमनयनो बीजो जेद जाणवो, तथा हमणां वर्तमानें जे कामनो आदर करी अंगीकारकरीयें ते वर्तमाननैगमनयनो बीजोजेद जाणवो. ए नैगमनयना त्रण जेद कहा.

७६१ हवे संग्रहनयनुं स्वरूप कहे ठे. जे सत्ताने ग्रहे, ते संग्रहनय जाणवो जे कारणे एक नाम लीधायी सर्वगुण पर्याय परिवार सहित आवे, ते संग्रहनय जाणवो. तेना वे जेद ठे. एक सामान्यसंग्रह अने बीजो अशेष संग्रह, तिहां डव्य एवुं नाम लेतां थकां जीव अजीवपणानो कांड जेद पण्यो न हीं, ते सामान्यसंग्रह अने बीजो जे विशेषता अंगीकार करीयें, जेम के जीव डव्य एटखुं कणुं तेवारें अजीव सर्वे टली गया, तेने विशेष संग्रह कहीयें, वसी पण एनुं स्वरूप कहे ठे. जेम के मात्र घट एवुं नाम लेतां सामान्य संग्रह कहीयें. अने विशेषता गुण अंगीकार करीने बोलीयें, जेम के माटीनो घट एवुं नाम लीधायकी चांवा, पीतल, लोढा, रूपा, सोना प्रमुखना घट सर्वे टली गया, ते विशेषसंग्रह कहीयें. ए संग्रहनयना वे जेद कहा.

७६३ हवे व्यवहारनयनुं स्वरूप कहे ठे:—जे बाह्यस्वरूप देखीने जेद वेहेने, एटखे बाह्य हीसता गुण देखे, तेवा माने, पण अंतरंग परिणाम तथा सत्ताने न माने, जेम के ए नयमां आचारक्रियाप्रमुख ठे, पण अंतरंग परिणामनो उपयोग नथी. एटखे जेम नैगम अने संग्रह ए वे नय ज्ञानरूप ध्यानना परिणाम बिना अंश तथा सत्तायाहि ठे, तेम ए नयमां करणी मुख्य ठे. ए व्यवहारनयना वे जेद ठे. एक शुद्धव्यवहार. बीजो अशुद्धव्यवहार, ते अशुद्धव्यवहार, एहेजे गुणगणा ठे. तेना पांच जेद ठे, ते शिष्यने रामजायना नाम जहा जहा देया ठे. एक अशुद्धव्यवहार, बीजो शुद्धव्यवहार, बीजो अशुद्धव्यवहार, चौथा अनुचरितव्यवहार, पांचमा अनुचरितव्यवहार, ए पांच जेद अशुद्धव्यवहारना जाणवा, अने बीजो शुद्धव्यवहारनय जेठे ते चौथे शुद्धव्यवहारी नांहीने यावन तेरमा चौदमा गुणगणा पर्यंत जाणवां.

७६४ हवे अनुग्रहनयनुं स्वरूप कहे ठे. (ऊनु के०) सगळ एटखे अतीत काल अने अत्तागत हावना अंपेक्षा न करी, पण वर्तमान काळें जे वस्तु सर्वे गुण जे राम वहे, ते वस्तुने तेधे गुण परिणामें माने, तेथी ए नय एवमनाही. ए एटखे कोड जीव एहेथ्य ठे. पण तेना अंतरंग परिणाम

साधु समान वर्त्ते ठे, ते जीवने साधु कहे अने कोइ जीव साधुने वेशें ठे तथापि तेना मनना परिणाम विषयाजिलाष सहित ठे, तो ते जीव अ व्रतीज ठे, एम माने, ए ऋजुसूत्रनयना वे जेद ठे. एक सूक्ष्मऋजुसूत्र अने बीजो स्थूल एटले वादरऋजुसूत्र, तिहां जे सदाकाल सर्वे वस्तुमां एक वर्त्तमान समय वर्त्ते ठे, एटले कें जे जीव अतीतकालें अज्ञानी हतो अने अनागतकालें इनीजावें ज्ञानी थाशे, ते वेहुकानी अपेक्षा न करे, परंतु एक वर्त्तमान समयें जे जेहवो होय तेने तेहवो कहे, ए सूक्ष्मऋजुसूत्र क हीयें. अने बाह्य महोटा परिणामने ग्रहण करे, ते स्थूलऋजुसूत्र कहीयें.

७६६ हवे शब्दनयनुं स्वरूप कहे ठे:-एटले जे वस्तु गुण अथवा निर्गुण होय ते वस्तुने नाम कही बोलावीयें एटले ज्ञापावर्गणाथी शब्दपणे वचन गोचर थाय, ते शब्दनय, जे कारणें अरूपीद्रव्यने वचनथी कहेवां, ते शब्द नय कहीयें. इहां जे शब्दनो अर्थ कहे ठे, ते वस्तुमां वस्तुपणुं पामे, तेवारें ते वस्तु शब्दनयें कहीयें. एटले चेष्टा करतो ते घट जाणवो. ए शब्दनयमां व्या करण नीपन्यां अने बीजा पण सर्वशब्द लीधा, ते शब्दनयना नाम, स्थाप ना, द्रव्य अने ज्ञाव, ए चार निक्षेपाने नामें चार जेद ठे. श्रीअनुयोग द्वार मां “जड य जं जाणिज्जा” ए पूर्वोक्त गाथायें चार निक्षेपा जाणवा. इ हां पहेलो ज्ञावनिक्षेपो ते धुरला चार नयमध्ये ते द्रव्य ठे अने ज्ञाव निक्षेपानां ते शब्दादिक रूप ठे, पण ते निक्षेपानी परिणतिरूप वस्तु ते त्रण निक्षेपे वस्तु आदि चार नयमां ठे अने ज्ञावनिक्षेपे वस्तु ते शब्दादि नय ठे, एम सर्वहजो. ए रीतें ए शब्दनयनो एक जेद कहीयें. ए शब्दनय कह्यो.

७६७ हवे ब्रह्मा समजिरूढनयनुं स्वरूप कहे ठे:-जे वस्तुना केटलाएक गुण प्रगट्या ठे अने केटलाएक गुण नथी प्रगट्या परंतु जे नथी प्रगट्या ते पण अवश्य प्रगटशे एटले एक अंशें उंठी वस्तुने पण पूर्ण कहे, जेम तेरमे गुणठाणे केवलीजगवानने सिद्ध कहे, ते समजिरूढनय एक जेदें जाणवो.

७६८ हवे सातमा एवंचूत नयनुं स्वरूप कहे ठे:-जे वस्तु पोताने गुण संपूर्ण ठे अने पोतानी क्रिया करे ठे, तेने वस्तु कहीयें, ते वस्तुना नय गुणपर्याय तथा वस्तुधर्म सर्वे प्रगट प्रवर्त्तता होय, तेने वस्तु कहीयें, जेम मोक्षस्था नकें जे पहतो होय ते जीवने सिद्ध कहे, तथा जेम पाणीयें जख्यो स्त्रीना माथा उपर आवतो जलधारणक्रिया करतो होय तेने घडो कहे, ते .

द्वे निश्चयनये करी जीवमां सत्असत् पक्ष देखाडे ठे. निश्चयनयने मतें जीव पोतानां स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल अने स्वज्ञावपणे करीने सत् ठे, अने परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल अने परज्ञावपणे करीने असत् ठे. एट द्वे ए निश्चयनयने मतें जीवमां स्वद्रव्य ते ज्ञानादिक गुण जाणवा अने स्वक्षेत्र ते जीव, पोतें पोतानां असंख्यात प्रदेशरूप क्षेत्र अवगाही रसो ठे अने स्वकाल ते पोतानो अगुरुलघु पर्याय सदाकाल हानिवृद्धिरूप उ पजयुं विणसयुं करे ठे. तथा स्वज्ञाव ते पोताना गुणपर्याय तेणें करीने जीव सत् ठे अने परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल अने परज्ञावपणे करी जीव, असत् ठे, पण ए असत्पणामां पोतानुं सत्पणुं वत्तें ठे. एटले सत्मां असत् अने असत्मां सत् पक्षनो विचार निश्चयनयने मतें करी जाणवो.

द्वे निश्चय अने व्यवहारनयने मतें करी वक्तव्य अवक्तव्यरूप पक्षें करी जीवनुं स्वरूप देखाडे ठे. एटले उदयज्ञावने योगें करी व्यवहारनयने मतें जे जीव पदेखा गुणगणार्थी मांजी यावत् तेरमा चौदमा गुणगणा पर्यंत वत्तें ठे, ते जीवना जेटला गुण केवली जगवानना प्ररूप्यामां आवे, ते वक्तव्य जाणवा अने जे केवली जगवानना प्ररूप्यामां न आवे, ते अवक्तव्य जाणवा. तथा निश्चयनयने मतें सिरूपरमात्मा गुणगणा वर्जित लोकने अंतें विगतमान वत्तें ठे, तेना जेटला गुण, केवली जगवानना प्ररूप्यामां आवे, ते वक्तव्य अने जे केवली जगवानना प्ररूप्यामां न आवे, ते अवक्तव्य जाणवा. ए रीतें निश्चयनयने मतें वक्तव्य अवक्तव्यरूप पक्षे करी जीवनुं स्वरूप जाणवो, तथा (जाणेशमोमत्वं के०) एवी रीतें स्वरूप जाणपणारूप जेणे उदय जाणवो करी ठे. (मन्मद्विठिगुणसोनय के०) ते जीव सम्यग्दृष्टि जाणवा.

शिष्यः—समकेतना केटला प्रकार ठे ?

पुत्र—समकेतना नवप्रकार जाणवा. तिहां प्रथम द्रव्यसमकेत, चीजुं जाणसमकेत, चीजुं व्यवहारसमकेत, चौथुं निश्चयसमकेत, पांचमुं जगदसमकेत, छठुं उपदेशसमकेत, सातमुं गेचक्रमकेत, आठमुं कारकसमकेत को नवमुं सारक्रमकेत, ए नव प्रकारें करी समकेतनुं स्वरूप जाणवुं.

१. निश्चय—द्रव्यसमकेत अने जाणसमकेत कोने कर्हीयें ?

पुत्र—समकेतना इचन उपर आम्ना प्रतीति द्योय, जे श्रीतीर्थकरें व जे सदा ये नदाल करी माने. पण परमाथे न जाणें अने जीवादिक नव

पदार्थना जेदाजेद न जाणे, तथा कुलाचारें देवयात्रा, संघ, साहम्मीवत्सल, पूजा, प्रजावनादि करणी करे अने केवढीयें कळुं, ते वचन तहत्ति करी माने, तथा देव ते अरिहंत, गुरु ते सुसाधु, धर्म ते केवढीनो प्ररूप्यो, एवी सहहणा जेने होय, ते जीव, ड्रव्यसमकेती जाणवा ॥ १ ॥

अने ज्ञावसमकेती ते आगल ड्रव्य समकेतमां जे गुण कहा, ते गुणें करी सहित तथा जीवादिक नव तत्त्वना परमार्थरूप जेदाजेद जाणे, एटले नव तत्त्वनुं स्वरूप हेय, ज्ञेय अने उपादेय पणे जाणे, तथा वढी नव तत्त्वनुं स्वरूप, साधक, बाधक अने सिद्धरूप, ए त्रण दशायें करी जाणे, तथा वढी ए नव तत्त्वनुं स्वरूप, कर्ता, कारण अने कार्यरूप त्रिजंगीयें करी जाणे, अने वढी ए नवतत्त्वनुं स्वरूप, स्वाजाविक विजाविकपणे जाणे, तथा वढी ए नव तत्त्वनुं स्वरूप, गुणीगुणपणे करी जाणे, वढी ए नव तत्त्वनुं स्वरूप, रूपी अरूपीपणे जाणे. जीवसत्ता, ड्रव्यगुण पर्यायरूप जाणे. अजीवसत्ता, ज्ञा वकर्म, ड्रव्यकर्म अने नोकर्मरूप परमार्थ जाणे. ए रीतें अनेक प्रकारें जीव अजीवरूप नव तत्त्वना जेदाजेदरूप विचार ठे, ते प्रत्यें जाणे, तथा षड्द्रव्यना अनंता गुण अने अनंता पर्याय तेनुं समय समय उत्पाद व्ययरूप पलटणपणुं अइ रळुं ठे, तेनी अंतरंग जाणपणा ज्ञासनरूप प्रतीति करे. अने कार्यधर्म कारण धर्मरूप अंतरंग प्रतीति करी साध्य एक, साधन अनेक, ए रीतें साधन करे, ते जीव, ज्ञावसमकेती जाणवा ॥ २ ॥

७७५ शिष्यः—व्यवहारसमकेत अने निश्चयसमकेत कोने कहीयें ?

गुरुः—व्यवहार समकेत ते शुजलक्षणरूप आचरणायें करी सहित अने उपादानपणुं जाणे, उपादान बाह्य कारणपणे जाणे, उपादान अंतर कारणपणे जाणे, उपादान कार्यपणे जाणे तथा कर्मसत्ताने ठता अठतापणे जाणे, जीवसत्ताने ठता अठतापणे जाणे, अने संवेगादिक समकेतना सडशठ बोलमांहेला एकशठ बोलने गुणें करी क्षयोपशमसमकित तथा उपशमसमकितवंत जे जीव होय, तेने व्यवहार समकेत जाणवुं. एटले उपरथी शुज आचरणारूप लक्षण देखीयें, ते जीवने व्यवहारसमकेत कहीयें. ए समकेत आव्युं थकुं जाय, ते माटे ए व्यवहारसमकेत जाणवुं. जो आव्युं थकुं न जाय, तो ते निश्चयनयसंबंधि निश्चयसम्यक्त्व कहेवाय ॥ ३ ॥

अने निश्चयसमकित ते समकितना एकशठ तथा षट् बोलना जाणपणा

जासनरूप गुणें करी सहित सात प्रकृतिने क्यें द्वायिक समकेतवंत जीवने अंतरंग जासनरूप ज्ञान, दर्शन, चारित्रनेविषे शुद्धपरिणाम वत्ते, ते जीवने निश्चयसमकित जाणवुं. एटवे ए समकेत आव्युं थकुं जाय नहीं. माटे एने निश्चयसमकित कहीयें अने द्वायोपशम तथा उपशम ए बे समकेत आवीने पाठां जतां रहे ठे, तेथी ते व्यवहार समकेतमां गण्यां अने द्वायिक समकेत जो जीवने आव्युं ते फरी पावुं जायज नहीं, तेथी ए समकेत निश्चयमां गणाय ठे ॥ ४ ॥

७७३ शिष्यः—निसर्गसमकेत अने उपदेशसमकेत कोने कहीयें ?

गुरुः—निसर्ग समकेत ते जे पोताने द्वायोपशमें गुरुना उपदेश विना निश्चय व्यवहारनयें करी नेगमादि सात नयें करी तथा नामादिचार निकेपे करी जीव अजीवरूप नव तत्व पद्मद्रव्यनुं स्वरूप जाणे अने निश्चय व्यवहारनयें करी स्याद्वादरूप नित्य अनित्यादि आठपदें करी जीव स्वरूपनी प्रतीति करे, पूर्वी रीतें जाणपणारूप निश्चयें करी नव तत्वमां आश्रवरूप पांच तत्व वे, ते उपर त्यागंयुद्धि अने संवरनिर्झारारूप शुद्धगुण, तेनुं आव्युं करे, तथा श्रीधीतरागना कदा जे जाव नवतत्व पद्मद्रव्यरूप तेना स्वरूपने इत्य, केष, काल, नावथी जाणे, तथा नामादि चार निकेपे करी पोतानी युद्धिती सों वस्तुनुं प्रमाण करे, सावुं करी सईहे, ते निसर्ग समकित जाणवुं. एटवे जेम अस्मोना केवदीने गुरुना उपदेश विना समकेतनी प्राप्ति जाय ठे ते निसर्गसमकेत जाणवुं ॥ ५ ॥

हो उपदेशसमकेत रुदे ठे. तिहां आगव निगर्ग समकेतमां जे जाव कदा जे परित्याप गुणना उपदेशवी जाणीने तेने साक्षा करी सईहे, अंतरंग प्रतीति गणित माने. ते जीवने उपदेशसमकेती जाणवो ॥ ६ ॥

तथा सिद्धनुं स्वरूप, निगोदनुं स्वरूप जेम कह्युं ठे, तेम सर्वहै, एटले वीत रागनी आझा प्रमाणें यथार्थ उपयोगें जासन थाय, तेने हर्षें करी ते उप योगमध्ये निराधार जासन रमण अनुभवनी एकता यथार्थ उपयोगथी जाणी आत्मधर्म प्रगट करवानी रुचि घणी उपजे, पण उदयजावने योगें करी संसार अवस्थायां खूतो थको नीकली शके नही, माटे अनेक प्रकारें जूरणां करे, विषय कषायना फल विष समान जाणी, धर्म साधवाने रुचि घणी करे, पण ए उपायथकी बुटी शके नही, ते जीवने चोथे गुणठाणे रोचकसमकेत जाणवुं ॥ ७ ॥

अने कारक समकेत तो जे आगल रोचक समकेतयां जाव कहा, तेणें करी सहित तथा संसारथकी निवृत्ति करी ठे, अने प्रवृत्तिरूप जे साधुनी शुद्धक्रिया ठे ते साचवे ठे, आचरे ठे, तेने विषे प्रेम सहित उपयोग वर्त्तठे, सिद्धांतने मतें श्री वीतराग देवनी आझा प्रमाणें चाखे ठे, ते जीव, ठेठे सातमे गुणठाणें वर्त्तता कारकसमकेतना धणी जाणवा. एटले जेवुं जाणे, तेवुंज अंगीकार करे, तेने कारकसमकेत कहीयें ॥ ७ ॥

७७५ शिष्यः—दीपकसमकेत कोने कहीयें ?

गुरुः—(दीपक के०) दीवो एटले जेम दीवो आगल उद्योत करे अने पा ठल जोतां दीवाने पोताने अंधारुं रहे, ए दृष्टांतें अहिंयां पण अज्ञव्य जीव, लोकने उपदेशरूप प्रतिबोध आपीने समकेतरूप उद्योत करे, बीजाने धर्म पमाडी संसारथकी तारे, पण पोताने मिथ्यात्वरूप अंधारुं टले नही. जेम त्रांबुं, लोडुं होय ते रसकूपिकादिक औषधिने योगें करी सोनापणुं पामे, पण पीतलने अनेक औषधियोना योग मले, तोपण पीतलपणुं पाखटीने सोनापणुं नीपजे नही. एटले पीतलने जेम जेम अग्निमां नाखे, तेम तेम काळुं थाय, तेम अज्ञव्यजीव ते पीतल सरखा जाणवा. अने ज्ञव्यजीव त्रांबा अने लोढा सरखा जाणवा. केम के ज्ञव्यजीव तो कारण सामग्री म ले कोइक दिवसें सिद्धपणुं पामे, पण अज्ञव्य न पामे. माटे ए दीपक समकेत जाणवुं. एरीतें नव प्रकारें समकेतनुं स्वरूप विचारवुं ॥ इति समकेताधिकारः ॥

७७६ हवे नैगमादि सात नयमध्ये जीव, कर्मनो कर्त्ता कया नयें करी क हीयें? तथा जीव, कर्मनो जोक्ता कया नयें करी कहीयें? तथा जीव, स्वरूप नो कर्त्ता कया नयें करी कहीयें? तथा जीव, स्वरूपनो जोक्ता कया नयें

करी कहीयें? ए चार प्रश्नार्थ साते नयें करी कहेवा. वली जीव, कर्मनो अकत्ता कया नयें करी? तथा जीव, कर्मनो अजोक्ता कया नये करी? तथा जीव, स्वरूपनो अकत्ता कया नयें करी? तथा जीव, स्वरूपनो अजोक्ता कया नयें करी जाणवो? ए चार प्रश्नार्थ पण साते नयें करी जाणवा. एटखे ए वे चउजंगीमां आठ प्रश्न कहेवा, तेनो परमार्थ नैगमादि सात नयें करी जाणवो, तथा नवमा उत्सर्ग अपवादरूप मार्गें करी नय संयुक्त निक्षेपा खगाडवा, तेनो प्रश्न. एटखे नैगमादि सात नयमध्ये नामादि चार निक्षेपा ते उत्सर्ग अने अपवादें करी केम जाणीयें? तथा दशमा नैगमादि सात नय मध्ये चोथा जावनिक्षेपा विना शेष नामादि त्रण निक्षेपा ते पण उत्सर्ग अने अपवादें करी केम जाणीयें? ए दश प्रश्ननो अर्थ सातनयें विचारिने पाठो उत्तर वाड्जे, ते जैनमती पंक्तिशिरोमणि, सर्वशास्त्रनो वेत्ता, स्याद्वाच्य अप अनेकतानयें करी सर्वपदार्थनो जाण, सर्वज्ञपुत्र जाणवो. अने ए प्रश्ननो अर्थ विचारतांजे कोइ जीव मुंजाशे, ते ज्ञानहीन अल्पबुद्धिनो धणी ज्ञानरूप खस्मीयें करी रहित पामर जन तेने सर्वज्ञपुत्र न कहेवो.

प्रश्नः—जीवने कर्मना कर्तापणामां अने जोक्तापणामां नैगमादि सात नय मांडेसा केटसा नय पामीयें ?

पुः—जिणजइगणि जमाश्रमणजी कहे ठे जे चार इव्यनय ठे, अने प्रण जावनय ठे, मांडे जीवने इव्यकर्मरूप कार्यना कर्तापणामां चार नय जाणवा अने ते इव्यकर्म जेवारें स्थितिपाकें उदयरूपजायें जीव नो मये, तेमां उपग्या अण नयनी गवेपणा जाणवी. ए रीतें जीवने समना कर्ता जोक्ता पणामां साते नय पामीयें. तेनुं स्वरूप कहे ठे. कोइ जीव, उदुमूत्रनयने मतें शुभपरिणामें करी व्यवहारनयने मतें पुण्यरूप इतें मतें प्रहण करे, ए रीतें पुण्यरूप दक्षीयांने प्रहण करी ते जीव समननयने मतें देवतपना आउत्यारूप प्रकृतिपणे दक्षीयां राता ए व नय अने ते नैगमनयने मतें अतीतकालें पण कृतां तथा अनागतकालें स्थितिपाकें उदयरूपजायें जागवशे अने वर्तमानकालें मतायें मतें कहे ठे ते नैगमनयने मतें त्रणि काख एकरूपपणे कहीयें, ए रीतें नय ए चार नये कर्म इव्यकर्म रूप देवतानुं आउवुं वांअुं, ते नयें उदुमूत्रनयने मतें अने जावदेव तो जेवारें ते जीव, उदुमूत्रनयने म

तें देवतापणे उपन्यो, तेवारे जावदेव कहीये. एवुं सांजली शिष्य बोळ्यो के शब्दनयना मतवालो तो चार निक्षेपे करी वस्तुने प्रमाण करे ठे. माटे देवतामां चार निक्षेपा केस जाणीये? तेवारे गुरु कहे ठे:—प्रथम देव एवुं नाम ते नामथकी देव, वीजो देव एवा अक्षर लखवा, ते असज्ञावस्था पना अने देवरूपें मूर्ति स्थापवी, ते सज्ञावस्थापना अने चार नये करी देवतानुं आउखुं बांधे, तेने जव्यशरीरआश्रयी द्रव्यदेव कहीये. तथा जे शब्दनयने मते देवतापणे उपन्या, तेने उदयजावरूप जावदेव जाणवा. ए देवतामां चार निक्षेपा कह्या. हवे समजिरूढनयने मते देवजवना सर्व पर्यायप्रवर्तनारूप वस्तुप्रत्ये पामे, तेने देव कहीये. तथा एवंजूतनयने मते ते देवजवना पर्यायरूप वस्तु सर्वे तखते वेठा जोगवे, ते देव कहीये. ए रीते सात नये करी जीवने कर्मनुं कर्ता जोक्तापणुं जाणुं.

शिष्य:—जीवने स्वरूपना कर्तापणामां केटला नय पामीये ?

गुरु:—जे कार्य करवुं, ते साते नये मदी नीपजे ठे, तेवारे ते वस्तु वरोबर पाकी प्रमाण जाणवी. ए जिनमत अनुसारें वचन ठे, पण एमां एके नये अधूरी वस्तुमां वस्तुपणुं माने, ते जिनमत विरोध वादीनुं वचन जाणवुं. माटे इहां जीवने स्वरूपनो कर्ता ते सिद्धिरूप कार्यनो कर्ता जाणवो, ते सिद्धिरूप कार्य तो साते नये मदीने नीपजे ठे, माटे साते नये करी सिद्धिरूप कार्य देखाडे ठे. तिहां कोइ सम्यग्दृष्टि जीव जाग्यो थको विवेकरूप नेत्रें करीने अंतरदृष्टियें जोतो पोतानुं स्वरूप नीपजावे; एटले संग्रहनयने मते सिद्धसमान पोताना आत्मानी सत्ता असंख्यात प्रदेशरूप ठे, ते उलखीने जेणें प्रतीति करी ठे अने नैगमनयने मते आठ रुचकप्रदेश जीवने सदाकाल सिद्धसमान निर्मला वत्ते ठे, तेणें करी अंशथकी पोताना आत्माने सिद्धसमान करी जाणे ठे, तेनी आचारांगनी टीकामां साख ठे, अने व्यवहारनयने मते उपरथकी गुणठाणां माफक साध्य चोखुं राखीने पोतानी करणी करतो जाय ठे, तथा कजुसूत्रनयने मते संसार उदासी त्या ग वैराग्यरूप उदासजावे परिणाम वत्ते ठे. तथा शब्दनयने मते जीव अ जीव रूप स्वसत्ता परसत्तानी वेहेचण करी जेवी हती, तेवीज शुद्ध निर्मलपणे जेणें पोताना आत्मानी अंतरंग ज्ञासनरूप प्रतीति करी ठे, ते जीव, समजिरूढनयने मते शुद्ध शुक्लध्यान रूपातीत परिणामरूप रूपक श्रे

णीयें चढे, तेवारे घातीकर्मने क्यें ज्ञानादि अनंतचतुष्टयरूप सखी प्र
ट करे अने एवंभूतनयने मते ते जीव, ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मने
यें अष्टगुण संपन्न उत्कृष्ट आनंदमय एवुं पोताना आत्मानुं सिद्धि
कार्य करवुं, तेनो कर्ता जाणवो. ए रीते सात नयें करी जीवने स
रूपनुं कर्तापणुं कहुं, पण एमां, एके नयें अधूरे जे जीवमां स्वरूप
कर्तापणुं माने, तेनुं वचन अन्यथा अप्रमाण ठे.

शिष्यः—जीवने स्वरूपना चोक्तापणामां केटला नय पामीयें ?

गुरुः—कर्ता तेहीज चोक्ता ए न्यायमार्ग ठे, एटले जे करे, तेहीज चोग
वे, माटे पोताना स्वरूपनो कर्ता ठे, तो चोक्तापणुं पण एनेज जोश्यें
तेमाटे आगल जीवने स्वरूपना कर्तापणामां साते नय देखाड्या तो स्वरू
पना चोक्तापणामां पण साते नय जोश्यें. एटले इहां चोज ठे जे कर्ता
पणामां सात नय लगाव्या, तेतो कारण रूप जाणवा अने कखुं ठे के “का
यें सिद्ध कारणताव्ययः” ए जावार्थ जोतां तो कार्यनी सिद्धि नीपजे, तेवारे
कारणपणानो (व्यय के०) नाश जाणवो. अने सिद्ध परमात्मायें तो कार
णरूप साते नयें करी पोतानुं संपूर्ण कार्य कखुं ठे, माटे कारणरूप साते
नयनो पण सिद्धजीवमां नाश जाणवो. ए परमार्थ ठे. हवे कार्यरूप साते
नयें करी सिद्धना जीव अद्यावाधरूप पोताना स्वरूपने चोगवे ठे, ते चोक्ता
पणामां सात नय देखाटे ठे. तिहां प्रथम नेगमनयने मते सिद्धपरमा
त्माने आठ रुचक प्रदेश अतीतकालें निरावरण हता, अने अनागतकालें
पण निरावरण वर्तेशे तथा वर्तमानकालें पण निरावरण वर्तें ठे, ए रीते
प्रणे काप्त एकरूप जाणवा. तथा संग्रहनयने मते पोताना आत्माना सता
अंतरंग गुरु निर्मलपणे जेवी हती, तेवीज निरावरणपणे प्रगट करी
तथा अचरानयने मते पक्षटणस्वतायें नवनवा ज्ञेयनी वर्तनारूप पयां
व्याद, ज्यय, अनंत अनंतो थड रह्यो ठे, तथा रजुसूत्रनयने मते
रमात्मा पोताना परिणामिकतायें सामान्य विशेषरूप उपयोगमां
वने ठे, तथा गहननयने मते आगल जीव, अजीवरूप नव तल
जाणवा. तामरूप अंतरंग प्रतीति करी, क्वायिक समकेतव्य
ते करी. इा जीवने पोतानी पासं ठे, तथा समजिट
नयने परिणामरूप रूपकश्रेणीयें घातीकर्मने

क्षयें अनंतचतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट करी, ते पण पोतानी पासें ठे, तथा एवंभूतनयने मते सिद्धपरमात्मायें अष्ट कर्मने क्षयें अष्टगुणरूप लक्ष्मी प्रगट करी, ते लक्ष्ने लोकने अंतें जइ विराजमान थका वत्तें ठे, ए रीतें जीवने स्वरूपना जोक्तापणामां अंतरदृष्टियें जोतां कार्यरूप साते नय जाणवा.

शिष्यः—नैगमादि सात नयमां जीव, कर्मनो अकर्ता कया नयें करी जाणवो. तथा कर्मनो अजोक्ता कया नयें करी जाणवो? तथा स्वरूपनो अकर्ता कया नयें करी जाणवो? तथा स्वरूपनो अजोक्ता कया नयें करी जाणवो?

गुरुः—श्रीअध्यात्मगीतामध्ये मुनिदेवचंद्रजीयें आवी रीतें कळुं ठे॥गाथा॥ आतम सर्व समान, निधान महासुखकंद ॥ सिद्ध तणा साधर्मी, सत्तायें गुण वृंद ॥ अर्थः—नैगम तथा संग्रहनयने मते सर्व जीव एकरूप सरखा सत्तायें सिद्धसमान, ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप निधानें करी सहित ठे, अने (महासुखकंद के०) मूलस्वजावें करी जोतां तो सर्व जीव, पोतपोताना पारिणामिकजावें करी स्वजावरूप सुखमां रह्या स्फाटिक रत्ननी पेरें सदाकाल एकरूपपणे वत्तें ठे, माटे तेमां कर्मनुं कर्तापणुं नथी, अने कर्मनुं जोक्ता पणुं पण नथी, तथा स्वरूपनुं कर्तापणुं पण नथी, अने स्वरूपनुं जोक्तापणुं पण नथी एटले नैगम अने संग्रह, ए वे नयने मते सर्व जीव, सरखा पोतें पोताना पारिणामिक जावमां रह्या त्रणे काल एक रूपपणे वत्तें ठे.

शिष्यः—आगल नवमा प्रश्नमध्ये कळुं ठे, ते प्रमाणें नैगमादि सात नय मध्ये नामादि चार निक्षेपा उत्सर्ग अने अपवादमागें करी केम जाणीयें ?

गुरुः—मंजूषा उपर सात नयमां चार निक्षेपा उत्सर्ग अने अपवादें करी देखाडुं हुंः—कोइ जीव, मंजूषाने अर्थ वनमां काष्ठ लेवा चाळ्यो, तेने रस्ता मां कोइ बीजो पुरुष सन्मुख मळ्यो, तेणें पूब्युं तुं शुं लेवा जाय ठे? ते वारें ते अशुद्धनैगमनयने मते वळ्यो के हुं मंजूषा लेवा जाउं हुं. हवे वनमां जश्ने लाकडुं कापवा मांर्युं, तेवारें वली कोश्यें पूब्युं के तुं शुं लीये ठे? तेवारें ते शुद्ध नैगमनयने मते वळ्यो के हुं मंजूषा लउं हुं. हवे मंजूषाने सारु लाकडुं लश्ने पाठो वळ्यो, तेवारें वली कोश्यें पूब्युं तुं शुं लाव्यो? तेवारें शुद्धतरनैगमनयने मते वळ्यो के हुं मंजूषा लाव्यो, हवे सूतारने तेडी मंजूषा कराववा मांकी, तेवारें वली कोश्यें पूब्युं तुं शुं करावे ठे? एटले अतिशुद्धनैगमनयने मते वळ्यो के हुं मंजूषा करावुं हुं ॥ इति

गमनयः ॥ हवे व्यवहारनयना मतवालो बोड्यो के एम मंजूषा नही हूं तो तैय्यार नजरें देखुं, तो मंजूषापणुं मानुं माटे जेवारें मंजूषा तैय्यार पूर्ण नीपनी, तेवारें व्यवहारनयना मतवालो कहे के एने मंजूषा हवे रुजुसूत्रनयना मतवालो बोड्यो एम मंजूषा नहोय, जे मंजूषानी सत्ता एण ग्रहण करे, ते मंजूषा कहेवाय, पण ठाली मंजूषा कांइ कामनी नही. मंजूषानी सत्तारूप माणक, मोती, हीरा, जवाहीर, रत्न, परवालां प्रमुख मांहे जरे, तेवारें संग्रहनयना मतवालो कहे के हवे एने मंजूषा कहीयें. रुजुसूत्रनयना मतवालो बोड्यो के एम मंजूषा कहेवाय नही, हुंतो ग्रहण करुं एटले मांहे जे वस्तु जरी ठे, तेनी साथें काम, परंतु मंजूषा खोखानुं कांइ प्रयोजन नथी. एटले ए नयने मतवाले मंजूषारूप मांहेथी पोतानो उपयोग काढीने माणक, मोती, हीरा, जवाहीर प्रमुख जे एमां वस्तु जरी ठे, तेमांहे उपयोग लगाव्यो, ए रीतें चार नयें करी मंजूषापणुं करुं, ते अपवादमागें करी जाणवुं. पण तेमां निकेपा त्रण होय, ते अगावी देखाउे ठे. प्रथम मंजूषा एवुं नाम, ते नाममंजूषा, वीजुं स्थापना मंजूषाना वे जेद ठे, एक मंजूषा एवा अक्षर लखवा, ते असझाव स्थापना अने मंजूषारूपें नित्रामण करी स्थापवुं, ते वीजी सझावस्थापना, तथा अजयनी मंजूषाना त्रण जेद ठे. ते आवी रीतें:—कोइयें मंजूषा करावी घरमां राखी ते जयशरीरनुं ड्रव्य जाणवुं तथा कोइना घरमां मंजूषा ठे, पण मां हेपीमात्र जुटाणो, अने गांगो तुड्यो पड्यो ठे, ते इशरीरनुं ड्रव्य जाणवुं अने कोइना घरमां मंजूषा ठे, ते माणक, मोती, जवाहीर अने रत्न प्रमुखें करी जरेयां ठे, तेने अदृश्यतिरिक्त शरीरनुं ड्रव्य कहीयें. ए त्रण प्रकारें ड्रव्य निकेपा त्रयो ए रीतें ए नयना त्रण निकेपा ते अपवादमागें करी जाणवा.

हवे थोया नानिकेपामां अद्वैदिक त्रण नय ते उत्सर्गमागें करी देखाउे ठे—पुं रुजुसूत्रनयने मतवाले मंजूषारूप खोखामध्येथी उपयोग काडी अने मांहे माणक, मोती प्रमुख जे वस्तु जरी हती, तेमां उपयोग लगाव्यो एना, पण अने कोइ बोड्यो के मांहे माणक, मोती, हीरा, जवाहीर प्रमुख जे वस्तु जरी ठे, तेमां ज्ञानपणा रूप जे ज्ञान ते किदां रसुंवे! अने अने उपयोग रूप वदेनाण करी बोड्यो के था इनेन, चारित्र, अद्यावाध, अमृति या

दिक अनंतगुणरूप ज्ञावलक्ष्मी जरी ठे, तेमां ए ज्ञान रङ्गुं ठे, तेवारें समञ्जिरूढनयना मतवालो बोळ्यो के एम मंजूषा कहेवाय नही पण ए शरीररूप मंजूषा उपरधी उपयोग उतारी अने मांहे जे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अव्या बाध, अमूर्ति प्रमुख अनंतगुणरूप लक्ष्मी जरी ठे, तेमां उपयोग लगावी श्रेणीजावें चढे, तेवारें एने मंजूषा कहीयें. हवे एवंचूतनयना मतवालो बोळ्यो के एम मंजूषा कहेवाय नही परंतु ए शरीररूप मंजूषातुं खोखुं इहां मूकी अने मांहे ज्ञानादि अनंतगुणरूप जे लक्ष्मी जरी ठे, तेने लइलोकने अंते सिद्धपुरीमां विराजमान थया, तिहां एने मंजूषा कहीयें. एटले पूर्वे त्रण निक्षेपामां चार नय अपवादमागें देखाड्या, अने इहां एक ज्ञाननिक्षेपामां शब्दादिक त्रण नय उत्सर्गमागें देखाड्या. ए रीतें सात नयमां चार निक्षेपा उत्सर्ग अपवादमागें करी जाणवा. ए मंजूषानी रीतें सर्वे वस्तुमां पोतानी बुद्धिची उत्सर्ग अपवादमागें नय सहित निक्षेपा जाणी देवा.

शिष्यः—दशमा प्रश्नने विषे सात नयमां त्रण निक्षेपा उत्सर्ग अने अपवाद मागें कह्या, ते केवी रीतें जाणीयें ?

गुरुः—कोइ मिथ्यादृष्टि जीव, कजुसूत्रनयने मतें शुद्धपरिणामें करी, व्यवहारनयने मतें पुण्यरूप दलीयांने ग्रहण करे, ते पुण्यरूप दादीयांने ग्रहण करी, तेने संग्रहनयने मतें मनुष्यजवना आउखारूप प्रकृतिपणे सत्तायें बांध्यां, ते दलीयां नैगमनयने मतें अतीतकाळें ग्रहण कश्यां हतां, अने अनागतकाळें स्थितिपाकें उदयरूप जावें जोगवशे, तथा वर्त्तमानकाळें सत्तायें रह्यां ठे. एवी रीतें नैगमनयने मतें त्रणे काल एकरूपपणे जाणवा. ए प्रकारें जे जीवें चार नयें करी अपवादमागें मनुष्यपणुं उपाज्युं ते प्राणी द्रव्यमनुष्य जाणवा अने जेवारें ते जीव, शब्दनयने मतें मनुष्यपणे उपन्या, तेवारें तेने ज्ञावमनुष्य कहीयें. तथा समञ्जिरूढनयना मतें तो मनुष्यजवना सर्वपर्याय प्रवर्त्तनारूप वस्तु प्रत्यें पायें पामे, तेने मनुष्य कहीयें. तथा एवंचूतनयने मतें ते मनुष्यजवना सर्वपर्यायरूप वस्तुने जोग ववा मांकी, ते मनुष्य जाणवा. इहां प्रथम चार नयें अपवाद मागें करी मनुष्यपणुं देखाड्युं ते द्रव्य मनुष्य जाणवा अने पाठला त्रण नयें उत्सर्ग मागें करी मनुष्यपणुं जोगवतुं ते ज्ञावमनुष्य जाणवा. ए रीतें उत्सर्ग तथा अपवादें करी सात नयनुं स्वरूप कहुं, पण ए जीव मिथ्यादृष्टि

गमनयः ॥ हवे व्यवहारनयना मतवालो बोझो के एम मंजूषा नही हूँ तो तैय्यार नजरें देखुं, तो मंजूषापणुं मानुं माटे जेवारें मंजूषा तैय्यार पूर्ण नीपनी, तैवारें व्यवहारनयना मतवालो कहे के एने मंजूषा कही हवे रुजुसूत्रनयना मतवालो बोझो एम मंजूषा न होय, जे मंजूषानी सत्त्वा प्रहण करे, ते मंजूषा कहेवाय, पण ठाली मंजूषा कांइ कामनी नही, संतु मंजूषानी सत्त्वारूप माणक, मोती, हीरा, जवाहीर, रत्न, परवालां प्रमुख मांहे नरे, तैवारें संग्रहनयना मतवालो कहे के हवे एने मंजूषा कहीयें. हवे रुजुसूत्रनयना मतवालो बोझो के एम मंजूषा कहेवाय नही, हुंतो जे प्रहण करुं एटले मांहे जे वस्तु जरी ठे, तेनी साथें काम, परंतु मंजूषारूप खोखानुं कांइ प्रयोजन नथी. एटले ए नयने मतवाले मंजूषारूप खोख मांहेयी पोतानो उपयोग काढीने माणक, मोती, हीरा, जवाहीर प्रमुख जे एमां वस्तु जरी ठे, तेमांहे उपयोग लगाव्यो, एरीतें चार नयें करी मंजूषापणुं करुं, ते अपवादमागें करी जाणवुं. पण तेमां निक्षेपा त्रण होय, ते जगावी देखाटे ठे. प्रथम मंजूषा एवुं नाम, ते नाममंजूषा, बीजुं स्थापना मंजूषाना ते नैद ठे, एक मंजूषा एवा अक्षर लखवा, ते असंज्ञाव स्थापना अने मंजूषाकपें चित्रामण करी स्थापवुं, ते बीजी संज्ञावस्थापना, तथा इ अक्षरही मंजूषाना त्रण नैद ठे. ते आची रीतें:-कोइयें मंजूषा करावी घरमां गारी ते जग्यशरीरनुं इव्य जाणवुं तथा कोइना घरमां मंजूषा ठे, पण मां देपीनाइ नूटाणो, अने जांगो तुड्यो पड्यो ठे, ते इशरीरनुं इव्य जाणवुं अने मंजूषा घरमां मंजूषा ठे, ते माणक, मोती, जवाहीर अने रत्न प्रमुखें करी जे कां ठे, तेने नइत्यनिरिक शरीरनुं इव्य कहीयें. ए त्रण प्रकारें इव्य निक्षेपा त्रण होय. एरीतें ए चार नयमां त्रण निक्षेपा ते अपवादमागें करी जाणा.

इहे बोधा नवनिक्षेपामां शब्दादिक त्रण नय ते उरसर्गमागें करी देखाटे ठे. एम रुजुसूत्रनयने मतवाले मंजूषारूप खोखामध्येथी उपयोग करुं अने मांहे माणक, मोती प्रमुख जे वस्तु जरी हती, तेमां उपयोग करुं ते हवे. एटले जे कांइ बोझो के मांहे माणक, मोती, हीरा, जवाहीर प्रमुख जे वस्तु जरी ठे, तेना जाणपणारूप जेज्ञान ते किदां पडुंवे!

एम नवतत्त्वना मतवालो अंतर्गम उपयोगकप वदेंचण करी बोझां केथा अने मंजूषा अने तेमां ज्ञान, इयेंत, चारित्र, अद्यायाध, अमूर्तिथा

नवतत्त्वना प्रश्नोत्तर.

१७

दिक अनंतगुणरूप ज्ञावलक्ष्मी जरी ठे, तेमां ए ज्ञान रहुं ठे, तेवारेंसमि
रूढनयना मतवालो बोल्यो के एम मंजूषा कहेवाय नही पण ए शरीररू
मंजूषा उपरथी उपयोग उतारी अने मांहे जे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अव्य
बाध, अमूर्ति प्रमुख अनंतगुणरूप लक्ष्मी जरी ठे, तेमां उपयोग लगावी
श्रेणीजावें चढे, तेवारें एने मंजूषा कहीयें. हवे एवंभूतनयना मतवालो
बोल्यो के एम मंजूषा कहेवाय नही परंतु ए शरीररूप मंजूषानुंखोखुं इहां
मूकी अने मांहे ज्ञानादि अनंतगुणरूप जे लक्ष्मी जरी ठे, तेने लश्लोकने
अंते सिरूपुरीमां विराजमान थया, तिहां एने मंजूषा कहीयें. एटले पूर्वे त्रण
निक्षेपामां चार नय अपवादमागें देखाड्या, अने इहां एक ज्ञावनिक्षेपामां
शब्दादिक त्रण नय उत्सर्गमागें देखाड्या. ए रीतें सात नयमां चार निक्षे
पा उत्सर्ग अपवादमागें करी जाणवा. ए मंजूषानी रीतें सर्वे वस्तुमां
पोतानी बुद्धिथी उत्सर्ग अपवादमागें नय सहित निक्षेपा जाणी देवा.

शिष्यः—दशमा प्रश्नने विषे सात नयमां त्रण निक्षेपा उत्सर्ग अने अप
वाद मागें कह्या, ते केवी रीतें जाणीयें ?

गुरुः—कोइ मिथ्यादृष्टि जीव, रज्जुसूत्रनयने मतें शुभपरिणामें करी, व्य
वहारनयने मतें पुण्यरूप दाढीयांने ग्रहण करे, ते पुण्यरूप दाढीयांने ग्रहण
करी, तेने संग्रहनयने मतें मनुष्यजवना आउखारूप प्रकृतिपणे सत्तायें
वांध्यां, ते दाढीयां नैगमनयने मतें अतीतकालें ग्रहण कस्यां हतां, अने
अनागतकालें स्थितिपाकें उदयरूप जावें जोगवशे, तथा वर्त्तमानकालें सत्ता
यें रह्यां ठे. एवी रीतें नैगमनयने मतें त्रणे काल एकरूपपणे जाणवा. ए
प्रकारें जे जीवें चार नयें करी अपवादमागें मनुष्यपणुं उपाज्युं ते प्राणी
द्रव्यमनुष्य जाणवा अने जेवारें ते जीव, शब्दनयने मतें मनुष्यपणे
उपन्या, तेवारें तेने ज्ञावमनुष्य कहीयें. तथा समजिरूढनयना मतें
तो मनुष्यजवना सर्वपर्याय प्रवर्त्तनारूप वस्तु प्रत्यें पायें पामे, तेने मनुष्य
कहीयें. तथा एवंभूतनयने मतें ते मनुष्यजवना सर्वपर्यायरूप वस्तुने जोग
ववा मांकी, ते मनुष्य जाणवा. इहां प्रथम चार नयें अपवाद मागें करी
मनुष्यपणुं देखाड्युं ते द्रव्य मनुष्य जाणवा अने पाठला त्रण नयें उत्स
र्ग मागें करी मनुष्यपणुं जोगवबुं ते ज्ञावमनुष्य जाणवा. ए रीतें उत्स
र्ग तथा अपवादे करी सात नयनुं स्वरूप कथुं, पण ए जीव मिथ्यादृष्टि

ठे, केम के “अणुवर्जगो दवं” ए श्रीअनुयोग छारनुं वचन ठे, माटे जे योगें मिथ्यात्वजावें वत्तें, तेने अव्यजीव कहियें. एटले मिथ्यात्वी सात नय लगाडवा, ते मिथ्यात्वीने तो सूत्रमां अव्यजीव कहि माटे तेमां एकजावविना शेष आद्यना त्रणनिक्षेपा जाणवा ॥ इति

ए प्रश्नार्थनी रचना श्रीजिनवचनने अनुसारें नयनी अपेक्षायें करी म हारी बुद्धि माफक करी ठे, वली एथी विशेषार्थ श्रीजि वचनने मुक्तिजन मलीने जे करे, ते प्रमाण ठे. एरीतें नवरूप अटवीमां जीवने ए प्रकारें समकेतरूप रत्नो लाज थयो, ते जीव सर्व पाम्यो ॥ था ॥ सम्मत्तमिय लखे, विमाण वधं न वरुए आउ ॥ जइवि अह, वा न वरुआउउ पुआवि ॥ १ ॥ अर्थः—कोइ अव्यजीव सं

फरतां समकेतरूप रत्नो लाज पाम्यो, ते जीव, वैमानिकदेव विना गतिनुं आयु न बांधे, एटले समकेतथी पडे, तो बीजी गतियें जाय. समकेत सहित होय तेतो वैमानिकनुंज आयु बांधे, ए परमार्थ ॥ गाथा बप्रइ सुरसमिद्धं, लप्रइ पहुत्तणं न संदेहो ॥ एगं नवरं न लप्रइ, उधुणं च सम्मतं ॥ २ ॥ अर्थः—आपणो जीव अनादिकालनो शाश्वतो माटे संसारमां फरतां (सुर के०) देवतानी पदवी घणी वार पाम्यो अथवा (पहुत्तणं के०) प्रभुतारूप राजरुद्धि लक्ष्मी घणी वार पाम्यो एमां संदेह न जाणवो, पण (एगंनवरंनलप्रइ के०) एक स रत्ननो जान नथी पाम्यो, तेणें करी दुःखरूप दारिद्र्यं जीव पीडायें

शिष्यः—समकेतरूपरत्न जेमोक्षसुखनुं दातार ठे, तेनो लाज केम पामीयें

गुरुः—समकेतनां लक्षण श्री पन्नवणासूत्रथी कहियें ठैयें ॥ गाथा परमत्र संयुवो वा, मुद्धिठि परमत्र सेवणा वावि ॥ वावन कुदंसण वा पाय नं सम्मत सदहणा ॥ १ ॥ अर्थः—परमार्थ जे ठ अव्य नवतत्त्व, ए रथाय सहित मोक्षनिःकर्मा अवस्थानुं स्वरूप जाणे, एटले परमार्थ जे मूत्र अर्थ ठे, तेने जाणवानो वणो परिचय करे, अथवा जाणवानी वणी जे ह गये, तथा (मुद्धिठि के०) नली रीतें दीठा ठे जाण्या ठे ठ अव्य

या मोक्षनिःकर्मा अवस्थाने जेणें एवा गुरु तेनी जे नवतत्त्व अर्थे जेनी गुरुने धारण करे अने (वावन के०) जैनमति एटले अत्रपाद प्रमुग्धने माने, एवा जे समकेत विनाता हां

कोशद्रव्यमां जले नहीं, तथा धर्म, अधर्म अने आकाश ए त्रण द्रव्यना त्रण गुण अने चार पर्याय सरखा ठे. तथा त्रणगुणेंकरी कालद्रव्यपणएसमानठे.

हवे ए ठ द्रव्यना गुणपर्यायरूप स्वरूप जाणवाने सूत्रपाठ गाथा क हे ठे" परिणामि जीवमुत्ता, सपएसा एगखित्त किरिआ य ॥ निच्चं कारण कत्ता, सबगय इयर अपवेसा ॥ १ ॥ ए गाथानो अर्थ शिष्य अने गुरुना प्रश्नोत्तररूपें लखीयें ठैयें.

७७७ शिष्यः—ए ठ द्रव्यमां परिणामि केटलां अने अपरिणामी केटलां?

गुरुः—निश्चयनयें करी तो ठए द्रव्यपरिणामी ठे, केम के धर्मास्तिकाय द्रव्य निश्चयनयें करी पोताना स्वरूपमां परिणामी रहुं ठे, पण बीजा पां च द्रव्यमां परिणमतुं नथी तथा अधर्मास्तिकायद्रव्य पण निश्चयनयें करी पोताना स्वरूपमांज परिणमे ठे, पण बीजां पांच द्रव्यमां नथी परिणमतुं. तथा आकाशास्तिकाय पण निश्चयनयें करी पोताना स्वरूपमांज परिणमे ठे. पण बीजा पांच द्रव्यमां परिणमतुं नथी, तथा कालद्रव्य पण निश्चयनयें करी पोताना स्वरूपमांज परिणमे ठे, पण बीजा पांच द्रव्यमां परिणमतुं नथी, तथा जीवद्रव्य पण संग्रहनयने मतें निश्चयनयें करी परिणामिकजावें पोताना स्वरूपमां परिणामी रहुं ठे, पण बीजा पांचद्रव्यमां नथी परिणमतुं केम के जो निश्चयनयें करी जीव परपुजल द्रव्यमां परिणमे तो कोशकालें पण कर्मथकी रहित न्यारो थइ सिद्धिप्रत्ये न पा मे, माटे निश्चयनयें करी जीव पोताना स्वरूपमांज परिणमे ठे अने व्यवहारनयें करी जीव, नाटकीया बजाणीया जवाश्यानी पेरें अनेक प्रकारें एकेंडी, बेंडी, तेंडी, चौरिडी, पंचेंडी पर्यंत देवता, नारकी, मनुष्य अने तिर्यं चरूप नवानवा वेश पेहेरी नवानवा रूप करी नवानवां नाम धरावी चार गतिरूप संसारमां चोराशी लाख चउटामां जमतो फरे ठे. एकवेश उतारे ठे एकवेश पेहेरे ठे, एरीतें जीव अनेक प्रकारें संसारमां नाटक करे ठे. ते सर्वव्यवहारनयें करी जाणवुं. परंतु निश्चयनयें करी तो जीव शाश्वतो सत्तायें सिद्धसमान ठे तथा पुजलास्तिकाय द्रव्यपण निश्चयनयें करी परमाणुआ सर्व पोतें पोताने स्वजावें रह्या ठे अने व्यवहारनयें करी पुजलपरमाणुआ मढी खंध थाय ठे परंतु जो निश्चयनयें करी खंध थातो होत तो कोश कालें खंध विखराइ जात नहीं, सदाकाल खंधना खंध जावेंज रेहेत, तेम तो

ज्ञानादि चेतनागुणें करी सहित ठे, ते (उपादेय के०) आदरवा योग्य ठे
 ए ठ द्रव्यना गुण कहे ठे. धर्मास्तिकायना एक अरूपी, बीजो अचेतन,
 त्रीजो अक्रिय अने चोथो चलणसहाय, ए चार गुण जाणवा. तथा
 अधर्मास्तिकायना एक अरूपी, बीजो अचेतन, त्रीजो अक्रिय अने चोथो
 स्थिरसहाय, ए चार गुण जाणवा. तथा आकाशास्तिकायना एक अरूपी,
 बीजो अचेतन, त्रीजो अक्रिय अने चोथो अवगाहना, ए चार गुण जाणवा.
 तथा काल द्रव्यना एक अरूपी; बीजो अचेतन, त्रीजो अक्रिय, अने
 चोथो नवा पुराणा वर्तनालक्षण. ए चार गुण जाणवा. तथा पुज्जल द्रव्यना
 एकरूपी, बीजो अचेतन, त्रीजो सक्रिय अने चोथो मिलणविसररुप
 पूर्णगहन गुण, ए चार गुण जाणवा. तथा जीव द्रव्यनुं एक अनंत
 ज्ञान, बीजुं अनंतदर्शन, त्रीजुं अनंतचारित्र, चोथुं अनंतवीर्य, ए चार गुण
 जाणवा. ए ठ द्रव्यना गुण कह्या, ते सर्व गुण नित्य ध्रुवपणे ठे.

इधे ठ द्रव्यना पर्याय कहे ठे:-धर्मास्तिकायना खंध, देश, प्रदेश अने
 अगुरुत्वनु, ए चार पर्याय, तथा अधर्मास्तिकायना खंध, देश प्रदेश अने अगुरु
 रसगुण, ए चार पर्याय, तथा आकाशास्तिकायना खंध, देश, प्रदेश अने अगुरु
 रसगुण, ए चार पर्याय तथा कालद्रव्यना अतीत, अनागत, वर्तमान अने
 अगुरुत्वनु, ए चार पर्याय, तथा पुज्जलास्तिकायना वर्ण, गंध, रस, फरस, अ
 गुरुत्वनु अने ए चार पर्याय, तथा जीवास्तिकायना अव्यावाध, अनवगाह,
 अमानिक अने अगुरुत्वनु, ए चार पर्याय जाणवा. ए ठ द्रव्यना पर्यायकथा.

इधे ए ठ द्रव्यना गुणपर्यायें साधर्मिकपणुं कहे ठे तिहां प्रथम
 अगुरुत्वनु पर्याय मने द्रव्यमां सरखो ठे. अने अरूपीगुण पांच द्रव्यमां
 ठे, एकर पुज्जलद्रव्यमां नथी, तथा अचेतनपणुं पांच द्रव्यमां ठे, एक जीव
 द्रव्यमां नथी, तथा सक्रियगुण जीव अने पुज्जल, ए वे द्रव्यमां ठे, शेष पांच
 द्रव्यमां नथी, तथा चलणसहायगुण एक धर्मास्तिकायमां ठे, शेष पांच
 द्रव्यमां नथी, तथा स्थिरसहाय गुण एक अधर्मास्तिकायमां ठे, शेष पांच
 द्रव्यमां नथी, तथा अनागतागुण एक आकाशाद्रव्यमां ठे, शेष पांच द्रव्य
 मां नथी, तथा वर्तमानगुण एक कालद्रव्यमां ठे, बीजा द्रव्यमां नथी, तथा
 त्रीजा द्रव्यमां नथी, तथा अक्रियगुण एक अधर्मास्तिकायमां ठे, शेष पांच द्रव्यमां
 नथी, तथा सक्रियगुण एक जीवद्रव्यमां ठे, शेष द्रव्यमां नथी, ए मूळगुण, कोइ द्रव्यना

कोशद्रव्यमां जले नहीं, तथा धर्म, अधर्म अने आकाश ए त्रण द्रव्यना त्रण गुण अने चार पर्याय सरखा ठे. तथा त्रणगुणेंकरी कालद्रव्यपणएसमानठे.

हवे ए ठ द्रव्यना गुणपर्यायरूप स्वरूप जाणवाने सूत्रपाठ गाथा क हे ठे" परिणामि जीवमुत्ता, सपएसा एगखित्त किरिआ य ॥ निच्चं कारण कत्ता, सवगय इयर अपवेसा ॥ १ ॥ ए गाथानो अर्थ शिष्य अने गुरुना प्रश्नोत्तररूपें लखीयें ठैयें.

७७७ शिष्यः—ए ठ द्रव्यमां परिणामि केटलां अने अपरिणामी केटलां?

गुरुः—निश्चयनयें करी तो ठए द्रव्यपरिणामी ठे, केम के धर्मास्तिकाय द्रव्य निश्चयनयें करी पोताना स्वरूपमां परिणामी रहुं ठे, पण बीजा पां च द्रव्यमां परिणमतुं नथी तथा अधर्मास्तिकायद्रव्य पण निश्चयनयें करी पोताना स्वरूपमांज परिणमे ठे, पण बीजां पांच द्रव्यमां नथी परिणम तुं. तथा आकाशास्तिकाय पण निश्चयनयें करी पोताना स्वरूपमांज परि णमे ठे. पण बीजा पांच द्रव्यमां परिणमतुं नथी, तथा कालद्रव्य पण निश्चयनयें करी पोताना स्वरूपमांज परिणमे ठे, पण बीजा पांच द्रव्यमां परिणमतुं नथी, तथा जीवद्रव्य पण संग्रहनयने मतें निश्चयनयें करी पा रिणामिकजावें पोताना स्वरूपमां परिणामी रहुं ठे, पण बीजा पांचद्रव्यमां नथी परिणमतुं केम के जो निश्चयनयें करी जीव परपुजल द्रव्यमां प रिणमे तो कोशकाळें पण कर्मथकी रहित न्यारो अइ सिद्धिप्रत्ये न पा मे, माटे निश्चयनयें करी जीव पोताना स्वरूपमांज परिणमे ठे अने व्यव हारनयें करी जीव, नाटकीया वजाणीया जवाश्यानी पेरें अनेक प्रकारें एकेंड्री, बेंड्री, तेंड्री, चौरिड्री, पंचेंड्री पर्यंत देवता, नारकी, मनुष्य अने तिर्य चरूप नवानवा वेश पेहेरी नवानवा रूप करी नवानवां नाम धरावी चार गतिरूप संसारमां चोराशी लाख चउटामां जमतो फरे ठे. एकवेश उतारे ठे एकवेश पेहेरे ठे, एरीतें जीव अनेक प्रकारें संसारमां नाटक करे ठे. ते सर्वव्य वहारनयें करी जाणवुं. परंतु निश्चयनयें करी तो जीव शाश्वतो सत्तायें सि ङ्गसमान ठे तथा पुजलास्तिकाय द्रव्यपण निश्चयनयें करी परमाणुआ सर्व पोतें पोताने स्वजावें रह्या ठे अने व्यवहारनयें करी पुजलपरमाणुआ मदी खंध थाय ठे परंतु जो निश्चयनयें करी खंध थातो होत तो कोश काळें ए खंध विखराइ जात नहीं, सदाकाळ खंधना खंध जावेंज रेहेत, तेम तो

१७२ शिष्यः—ठ द्रव्यमां (मूत्ता के०) मूर्त्तिं केटलां अने अमूर्त्तिं केटलां ?

गुरुः—एक पुजलद्रव्य मूर्त्तिं ठे, अने शेष पांच द्रव्य अमूर्त्तिं ठे, ते आ वी रीतें जे धर्म, अधर्म, आकाश अने काल, ए चार द्रव्य तो अमूर्त्तिं ठे, अने एक जीवद्रव्य ते मूर्त्तिं अमूर्त्तिं जाणवो. तेमां निश्चयनयें करी तो जीव अरूपी माटे अमूर्त्तिं कहीयें, अने व्यवहारनयें करी देव, नारकी, ति र्यच अने मनुष्यरूप जीवना (५६३) जेद ठे, ते सर्व मूर्त्तिरूपें जाणवा. तथा ठहुं पुजलद्रव्य ठे तेनो व्यवहारनयने मतें अनंता परमाणुआ मळी खंध वने ठे, तेचारें नजरें दीठामां आवे ठे, माटे एने मूर्त्तिं कहीयें. एरीतें ठ द्रव्यना स्वरूपमां मूर्त्तिं अमूर्त्तिंनो विचार कह्यो.

१७४ शिष्यः—ठ द्रव्यमां (सपएसाके०) सप्रदेशीकेटलांअनेअप्रदेशीकेटलां?

गुरुः—ठ द्रव्यमां पांच द्रव्य सप्रदेशी अने एक कालद्रव्य अप्रदेशी जाणवुं केम के धर्मास्तिकायद्रव्य असंख्यात प्रदेशी अने अधर्मास्तिकाय पण असं ख्यातप्रदेशी, तथा एक आकाशास्तिकाय द्रव्य अनंतप्रदेशी तथा एक जीव द्रव्य ते सत्तागतें असंख्यातप्रदेशी ठे, एवा अनंता जीव जाणवा. तथा पुजल परमाणुआ अनंत प्रदेशी अने एक एक परमाणुआमां अनंता गुणपर्याय रह्या ठे, ते आगल बतावशुं. एरीतें ए पांच द्रव्य सप्रदेशी क हीयें, अने एक कालद्रव्य, अप्रदेशी ठे, एनुं लोका लोकमां एकसमय सदा काल वत्तें ठे, अने गणितकाल तो उत्पादव्ययरूप पलटण स्वत्तावें अढी छीप प्रमाणें जाणवो. ए रीतें षड्द्रव्यमां सप्रदेशी अप्रदेशीनो विचार जाणवो

१७६ शिष्यः—ए ठ द्रव्यमां (एग के०) एक केटलां अने अनेककेटलां?

गुरुः—त्रण द्रव्य एक अने त्रण द्रव्य अनेक जाणवां केम के धर्मास्तिकाय द्रव्य असंख्यात प्रदेशी लोकव्यापी एक जाणवुं. तथा अधर्मास्तिकाय पण असंख्यात प्रदेशी लोकव्यापी एक जाणवुं तथा आकाशास्तिकाय पण अनं त प्रदेशी लोकालोकव्यापी एक जाणवुं एटले ए त्रण द्रव्य ते एक कहियें. अने जीव द्रव्य जे ठे ते लोकव्यापी अनंतां जाणवां. ते एकेक जीवना असं ख्याता असंख्याता प्रदेश ठे, ते एकेक प्रदेशें अनंती कर्मनी वर्गणाना थो कडा लाग्ता ठे, तथा जीवथकी रहित घट प्रमुख बीजा पुजल परमाणुआ लूटा पण अनंता ठे, माटे जीवथकी पुजलद्रव्य अनंतगुणा जाणवां. अने एकेकी कर्मवर्गणामां अनंत पुजल परमाणुआ रह्या ठे, ते परमाणुआ

द्रव्ययुक्ती सदाकाल शाश्वता ठे, माटे एकेक परमाणुआमां अनंता उक्त
व्ययरूप कालना समय अनागतकालें व्यतीत थइ गया, तथा हजी ए
अनंता समय आवते कालें व्यतीत थारो, अने परमाणुआ तो तेना ते
सदाकाल शाश्वता ठे, माटे पुजलद्रव्ययुक्ती पण कालद्रव्यना समय अनंता
जाणवा. ए रीतें जीव, पुजल अने काल, ए त्रण द्रव्य अनेक कहीयें. ए रीतें
पद्रव्यना स्वरूपमां एक अनेकनो विचार जाणवो.

७७७शिष्यः—ठ द्रव्यमां (खित्त के०) क्षेत्र केटलां अने क्षेत्री केटलां !

गुरुः—ठ द्रव्यमां एक आकाश ते क्षेत्र कहीयें अने बीजा पांच द्रव्यक्षेत्री
कहीयें. केम के एक आकाशना घरमां पांचे द्रव्य मदीने रह्यां ठे ते आकी
रीतें:—जे आंखनी पांपणनो एक बाल बहीने तेनो अग्रजाग एवो सूक्ष्म
करीयें के जेना एक खंरुना वे खंरु न थाय, एवा सूक्ष्म खंरु प्रमाणें आ
काश क्षेत्र बहीयें. तेटलामां आकाशरूप क्षेत्रना पोताना असंख्याता प्रदेश
रह्या ठे, अने तेटलामां धर्मास्तिकायना असंख्याता प्रदेश ठे तथा अर्धमां
स्निहायना पण असंख्याता प्रदेश ठे, अने निगोदीया गोला पण असंख्या
ता रह्या ठे, ते सवें पद्रव्या मूकीने तेमांहेलो मात्र एकज गोला बहीयें. ते एक
गोलांमां पण असंख्याती निगोद रही ठे, ते असंख्याती निगोद पडती मू
कीने मांयेथी एक निगोद बहीयें. ते एक निगोदमां पण अनंता जीव रखा
के. ते जीवनी गणती करे ठे. एक अतीतकाल केतां आगल जे वेडा रहित
पडनेना तज गयो तथा अनागतकाल ते पण वेडा रहित ठे, ते सर्वेना जेटला
समय आप, तेनी माथें जीवो वर्तमान कालनो एक समय पण क्षेत्रो, एटले
अनंता अतीतकाले कालना अंत रहित जेटला समय थाय, ते सर्वेने अनंत गुणा
रूपे पडटा जीव एक निगोदमां ठे, ते सर्वे जीव पद्रव्या मूकीने तेमांहेथी
मात्र एक जीव उदीयें. ते जीवना असंख्याता प्रदेश ठे, ते एकेका प्रदेशें अ
नंत कालेने जे जे उदीयें ठे, ते सर्वे वर्माणु पडती मूकीने तेमांथी
एक वर्माणु उदीयें. ते एक वर्माणुना अनंता पुजल परमाणुआ रह्या ठे.
ते आकाशने अनागतकालेने जेटला वे जेटले, एक वृद्धा परमाणुआ अने
एक वृद्धा अनागतकालेने जेटले, एक जीवमद्वित्त संघ ते जीवने लागेता
ए अने कालेने जेटले संघ ते जेट प्रमुख अजीवपद जाणवा.

तिहां प्रथम जीव सहित खंधनो विचार कहे ठे:— वे परमाणुआ जेला थाय, तेवारें द्रव्यणुक खंध कहेवाय, त्रण परमाणुआ जेला थाय, तेवारें त्र्यणुक खंध कहेवाय, एम संख्याता परमाणुआ जेला थाय तेवारें संख्याताणुक खंध कहेवाय, असंख्याता परमाणुआ जेला थाय, तेवारें असंख्याताणुक खंध कहेवाय, अने अनंता परमाणुआ जेला थाय, तेवारें अनंताणुक खंध कहेवाय, एटला परमाणुजनों खंध थाय, तिहां सुधीना खंध ते सर्वे खंधजीवने अग्रहण योग्य ठे. एटला परमाणुआना खंधने कोइ जीव ग्रहण करी शके नही, परंतु अन्नव्यराशिना जीव चम्मोतेरमे बोले ठे ते थकी अनंतगुणाधिक परमाणुआ जेवारें जेला थाय, तेवारें एक औदारिकशरीरने लेवा योग्य वर्गणा थाय, अने ते औदारिकनी वर्गणाथी वली अनंतगुणाधिकमय दलीयां जेलां थाय, तेवारें एक वैक्रियशरीरने लेवा योग्य वर्गणा थाय, अने वैक्रियनी वर्गणाथी अनंतगुणाधिक दलीयां जेलां थाय, तेवारें एक आहारकशरीरने लेवा योग्य वर्गणा थाय अने आहारकनी वर्गणाथी अनंतगुणाधिक दलीयां जेलां थाय, तेवारें एक तैजसने लेवा योग्य वर्गणा थाय, अने तैजसनी वर्गणाथी अनंतगुणाधिक दलीयां जेलां थाय, तेवारें एक ज्ञाषाने लेवायोग्य वर्गणा थाय तथा ज्ञाषानी वर्गणाथी अनंतगुणाधिक मय दलीयां जेलां थाय, तेवारें एक उह्वासने लेवा योग्य वर्गणा थाय, ते उह्वासनी वर्गणाथी अनंतगुणा अधिकमय दलीयां जेलां थाय तेवारें एक मनने लेवा योग्य वर्गणा थाय. ए सातमी मनोवर्गणा थकी वली आठमी कर्मवर्गणामां अनंतगुणाधिक परमाणुआ जाणवा. ए वी जीवने एकेकप्रदेशें अनंती कर्मनी वर्गणाउं रागद्वेषनी चिकाशें करी लागी ठे, तेणें करी जीवना ज्ञानादिक गुण दवाइ गया ठे, माटे जीवथ की पुज्जल द्रव्य अनंतगुणा जाणवा. ते पुज्जलरूपी ठे, अचेतन ठे, सक्रिय ठे, पूर्ण गलन ठे, ए चार गुण, एमां स्वाभाविक जाणवा. ए परमार्थ ठे.

हवे वर्गणानो विचार कहे ठे:—पूर्वोक्त आठवर्गणा जीवनेअनादिकाल नी लागी ठे, तेमां एक औदारिक वीजी वैक्रिय, त्रीजी आहारक अने चोथी तैजस, ए चार वर्गणा वादर ठे, तेमां पांच वर्ण, वे गंध, पांच रस अने आठ स्पर्श. ए वीश गुण जाणवा. अने वाकीनी चार वर्गणा सूक्ष्म ठे, तेमां पांच वर्ण, वे गंध, पांच रस, अने चार स्पर्श मली शोल गुण ठे,

जीव अजीवरूप सर्ववस्तुमां पोतानी वर्तनारूप क्रिया करतो जाय ठे, तथा निश्चयनयें करी तो जीवद्रव्य, पण पोताना स्वरूपमां रमवारूप क्रिया करतो जाय ठे. केम के जो निश्चयनयें करी जीव शुजाशुजरूप विजाव दशामां रमण करवारूप क्रिया करतो होय, तो कोइ काळें जीव सिद्धि वरेज नही, माटे निश्चयनयें करी तो जीव पोताना स्वरूपमां रमवारूपज क्रिया करे ठे. तथा निश्चयनयें करी पुजलपरमाणुआ जे ठे ते पण अनादि कालना पोतानी मलवा विखरवारूप क्रिया करता जाय ठे. ए रीतें ठए द्रव्य निश्चयनयें करी पोतपोतानी क्रिया करे ठे, माटे सक्रिय ठे.

अने व्यवहारनयें करी धर्म, अधर्म, आकाश अने काल, ए चार द्रव्य अक्रिय जाणवां. तथा जीव अने पुजल ए वे द्रव्य सक्रिय जाणवां. कार ए के व्यवहार नयने मते जीव अज्ञान अने रागद्वेषनी चिकाशरूप अशु रूतायें करी समय समय अनंता पुजल परमाणुआनुं ग्रहण करवारूप क्रिया करे ठे, अने पुजल परमाणुआने वलगवानो खजाव ठे, माटे पुजल परमाणुआ वलगवारूप क्रिया करे ठे. ए रीतें व्यवहारनयने मते जीव अने पुजल, ए वे द्रव्य मलवा विखरवारूप क्रिया करे ठे, माटे सक्रिय जा णवां. जे कारणमाटे जीव, समय समय अनंता कर्मरूप पुजल परमाणु आनुं ग्रहण करे ठे अने आगल सत्तायें अनंतां कर्मरूप दळीयां बांध्यां ठे, ते स्थितिप्रमाणें जीवने उदय आवे ठे, तेने जोगवीने खेरवे ठे, तथा केटला एक परमाणुआ तो उदीरीने उदय आणी जोगवीने खेरवे ठे, तथा केटला एक ज्ञानरूप दृष्टियें करी वालीने खेरवे ठे, एम अनेक प्रकारें समय समय अनंता कर्मरूप परमाणुआ ग्रहण करे ठे अने समय समय अनंता क र्मरूप परमाणुआ खेरवे ठे, माटे अनादिकालना जीव अने पुजल, ए वे द्रव्य मलवा विखरवा रूप क्रिया करे ठे, तेथी सक्रिय जाणवां.

७७७शिष्यः—ए द्रव्यमां (निम्बं के०) नित्य केटलां अने अनित्य केटलां?

गुरुः—निश्चय नयें करी ठए द्रव्य नित्य ठे, अने निश्चयनयें करी ठए द्रव्य अनित्य पण ठे, तथा व्यवहार नयें करी तो चार द्रव्य नित्य जाणवां अने वे द्रव्य अनित्य जाणवां. ते आवी रीतेंः—धर्मास्तिकायना अरूपीअ चेतन अक्रिय अने चलणसहाय ए चार गुण अने पर्यायमां धर्मास्तिमायनो एक खंध ए पांच नित्य जाणवा, तथा देश, प्रदेश अने अगुरुलघु, ए त्रण

यो अने मनुष्यज्वना पर्यायनो उत्पाद थयो. एम अशुद्ध अनित्य पर्यायें करी जीव,अनेक प्रकारें उत्पाद व्ययरूप पलटण स्वजावें चार गतिरूप संसारमां सदा काल वर्त्ते ठे, अने जीव, एनो ए ध्रुवपणे शाश्वतो ठे, तथा जन्म, मरण, थाय ठे, ते सर्व पर्यायनो उत्पाद व्यय थाय ठे, माटें द्रव्यास्तिक नयें करी जीवने नित्य कहीयें,अने पर्यायास्तिक नयें करी जीवने अनित्य कहीयें,ए परमार्थ ठे. तथा पुजल परमाणुआ पण द्रव्यथकी नित्य शाश्वता ठे,अने पर्यायथकी घणा परमाणुआ मदी खंध वने ठे, ते स्थिति प्रमाणे रहे ठे,वदी पाठा विखरे ठे,ते खंधनेअनित्य पण कहीयें. ए रीतें षट् द्रव्यमां निश्चयव्यवहार नयें करी नित्यअनित्यनुं स्वरूप जाणवुं.

७९४ शिष्यः—ए ठ द्रव्यमां कारण केटलां अने अकारण केटलां ?

गुरुः—ठ द्रव्यमां पांच द्रव्यने एक जीव द्रव्य ते अकारण ठे, अने जीव द्रव्यने पांचे द्रव्य, कारणरूप जाणवां. जेम के जीव कर्त्ता, अने तेने धर्मास्तिकाय कारण मद्युं, तेवारें जीवने चालवा हालवारूप कार्य थयुं, तेमज जीव कर्त्ता तेने अधर्मास्तिकाय कारण मद्युं, तेवारें जीवने स्थिर रहेवारूप कार्य नीपन्युं, तेमज जीव कर्त्ता, अने तेने आकाशास्तिकाय कारण मद्युं, तेवारें जीवने अवगाहनारूप कार्य नीपन्युं. तेमज जीव कर्त्ता, तेने पुजलास्तिकाय कारण मद्युं, तेवारें जीवने समय समय अनंता कर्मरूप परमाणुआ लेवा, अने समय समय अनंता कर्मरूप परमाणुआ खेरवारूप कार्य नीपन्युं. तेमज जीव कर्त्ता अने तेने काल द्रव्य कारण मद्युं, तेवारें जीवने नवा पुराणा वर्त्तनारूप कार्य नीपन्युं, ए रीतें षट् द्रव्यमां जीवने पांचे द्रव्य, कारणरूपें जाणवां अने जीव पोतें अकारण ठे.

७९६ शिष्यः—ए ठ द्रव्यमां (कर्त्ता के०) कर्त्ता केटला अने अकर्त्ता केटला ?

गुरुः—निश्चय नयें करी ठए द्रव्य पोतें पोताना स्वरूपना कर्त्ता ठे, अने व्यवहारनयें करी अनेक नयनी अपेहायें जोतां तो एक जीव द्रव्य कर्त्ता अने पांच द्रव्य अकर्त्ता जाणवां, ते आवी रीतेंः— जे व्यवहार नयना ठ जेद ठे,तिहां प्रथम शुद्धव्यवहारनयें करी जीव, शुद्ध निर्मल, कर्मथकी रहित एवुं पोतानुं स्वरूप नीपजाववुं तेनो कर्त्ता जाणवो, एटले जे जे आगलां गुणगणानुं ठोडवुं अने उपरलां गुणगणानुं खेवुं तेने शुद्धव्यवहारनयें कर्त्ता कहीयें. एटले पहेले गुणगणे अनंतानुबंधियानी

चोकडी हती, ते खपावी अने चोथे गुणगणे आव्यो, तेवारे जीवने एक
मकत गुण निरावरण थयो अने अप्रत्याख्यानीनी चोकडी खपावी, तेवारे
पांचमे गुणगणे देशविरति गुण पाम्यो, तथा प्रत्याख्यानीनी चोकडी
खपावी, तेवारे ठे सातमे गुणगणे सर्वविरति गुण पाम्यो, तथा सर्व
पाय ह्य थया, तेवारे अगीयारमे, वारमे, गुणगणे प्होंची राग हे
रूप मोहनीय कर्म खपावी, वारमे गुणगणे घाती कर्मनो ह्य करी
तेरमे गुणगणे केवलज्ञान पाम्यो. ए रीतें जेम जेम पूर्वलां गुणगणानुं
ठोडवुं अने उपरला गुणगणानुं लेवुं तेने शुरू व्यवहार नय कहीयें. ए
ले जीव जेम जेम कर्मरूप अशुरूताने टाले, अने गुणरूप शुरूताने नीपजा
वे, ते शुरूव्यवहार नय जाणवो. हवे वीजा अशुरूव्यवहारनयें करी जीव
नां अज्ञान, राग, द्वेष, अनादिकालना शत्रु थइ लागे ठे, तेणें करी जीव
नां अशुरूपाणुं जाणवुं. ए अशुरूतानी चिकाशें करी जीवने समय समय
अननां कर्मरूप दलीयां सत्तायें लागे ठे, ए अशुरूता अनादिनी जाणवी.
ए अशुरू व्यवहारनयें जीव कर्ता, तेनुं स्वरूप कशुं. हवे वीजा शुन
आग्नयें करी जीव, दान, शील, तप, जावना, पूजा, प्रजावना, सेवा,
महि, मा-हर्मी-पासादा, विनय, वेयावच, उपकार, करुणा, दया, यत्ना, मी
ममो-हर-मिन मोखनुं, सर्वे जीवनुं रुहुं चिंतववुं, ए आदि अनेक प्रका
रनी जीवने शुन तरणी जाणवी. ए शुन व्यवहारनयें जीव कर्ता कही
के. ते मोघा अशुरूव्यवहार नयें करी जीव, क्रोध, मान, माया, लोभ,
विषय, ह्याय, निद्रा, विकथा, क्षाम्य, धिनोद, निंदा, ईर्ष्या, वाडी, मूर्खा,
समय, विना, मूया, अज्ञत, मैथुन, परिग्रह, ए आदि अनेक प्रकारनी
जीवने अशुरूकर्ता कहीयें, ए अशुरू व्यवहारनयें जीव, कर्ता जाणवो.
तेरमे सवना अशुरूव्यवहार नयें करी जीव, धन, कुटुंब, परिवार, हाट,
ए-क-तर-मान, ममान, देश, नाकरूप, दान, दासी, चाणोतर, राज,
मो-जेव-व-व-वाडी, वन, आराम, कृपा, वाच्य, मरोचर, नवाण, ए
ए अनेक प्रकारनी कशुं ते पानायही प्रत्यक्षपणे नही ठे, तेने
ए अशुरूव्यवहारनयें करी जाणवें ठे, तेने माझाकें माझाकें कर्ता फ
ए अशुरूव्यवहारनयें करी जाणवें ठे, ए रीतें उपचरित व्यवहार
नयें करी जीव, ए अशुरूव्यवहारनयें करी जीव.

शरीरादिक परवस्तु जे पोताना स्वरूपथकी प्रत्यक्षपणे जुदी ठे, पण पारिणामिक ज्ञावें लोढीञ्चूतपणे एकठी मली रहीं ठे, तेने जीव, पोतानी करी जाणे ठे. पण एवां शरीर तो अनंती वार कस्यां अने अनंती वार मूक्यां, तथापि अज्ञानपणे तेने पोतानां करी जाणे ठे, तेने वास्ते अनेक प्रकारें हिंसादि पाप करी पुष्ट करे ठे, ए रीतें अनुपचरित व्यवहारनयेंकरी जीव कर्त्ता जाणवो. ए ठ प्रकारें व्यवहार नयने मत्तें जीवतुं कर्त्तापणुं देखाड्युं, एम ठ द्रव्यमां कर्त्ता अकर्त्ता पणानुं स्वरूप जाणवुं.

७९८ शिष्यः—ए ठ द्रव्यमां (सव्वगयश्यर के०) सर्वगत एटले सर्वव्यापी द्रव्य केटलां अने ते थकी इतर एटले देश व्यापी द्रव्य केटलां पामीयें ?

गुरुः—ठ द्रव्यमां एक आकाशद्रव्य सर्वलोकालोकव्यापी ठे अने पांच द्रव्य, देशव्यापी जाणवां. कारण के धर्मास्तिकाय असंख्यातप्रदेशी लोकव्यापी जाणवुं अने अधर्मास्तिकायद्रव्य पण असंख्यातप्रदेशी लोकव्यापी जाणवुं. तथा कालद्रव्य गणितकाल ते अढीद्वीप व्यापी जाणवुं. तथा जीवद्रव्य पण लोकव्यापी जाणवुं. एटले जेटला लोकाकाशना प्रदेश ठे, ते टला निगोदना गोला ठे, अने एकेक गोलांमां असंख्याती निगोद रहीं ठे, ते एकेकी निगोदमां अनंता जीव रह्या ठे, माटे जीवद्रव्य लोकव्यापी जाणवुं. तथा पुञ्जलद्रव्य पण एकेक जीवने सत्तायें अनंता कर्मरूप पुञ्जल परमाणुआ लाग्ता ठे, तथा ते थकी बीजा बूटा लोकव्यापी पुञ्जलपरणुआ पण अनंता ठे, ते सर्वलोक व्यापी ठे. ए रीतें ए पांच द्रव्य देशव्यापी जाणवां, अने एक आकाशास्तिकायद्रव्य लोकालोकव्यापिअनंतप्रदेशी ते सर्वव्यापी जाणवुं. ए ठ द्रव्यमां सर्व व्यापी तथा देश व्यापीनुं स्वरूप कळुं.

७९९ शिष्यः—ए ठ द्रव्य (अपवेसा के०) अप्रवेशी एटले एक क्षेत्रें ठ द्रव्य जेलां मली रह्यां ठे, पण कोइ एक बीजांमां प्रवेश करी जली जातांनथी अने एक बीजानुं कोइ कोइनुं काम पण करतां नथी तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—जेम कोइ एक डुकानमां पांच वाणोतर रहेता होय, ते सर्वे पोत पोताना हवाला प्रमाणें काम करता जाय, अने सहु सहुनी मर्यादांमां चाळे, तेम इहां एक क्षेत्रें ठ द्रव्य जेलां रह्यां ठे, पण सहु पोतपोतानुं काम करे ठे, अने पोत पोतानी मर्यादांमां वत्तें ठे, पण निश्चयनयें करी कोइ एक

बीजामां मांहोमांहे जलतां नथी, माटे अप्रवेशी जाणवा. ए परमार्थ ठे. एरीतें पद्द्रव्यनुं स्वरूप वार जांगे करी सामान्यप्रकारें जव्यजीवने जाणवुं.

००० शिष्यः—आगल पन्नावणासूत्रना पाठमध्ये तमें कशुं जे जीव अजीवरूप पद्द्रव्यनुं स्वरूप स्याद्वादादि आठ पदें करी जाणवुं. माहे ते आठ पद कया, तेनां नाम कहो ?

गुरुः—आठ पद ते एक, अनेक, नित्य, अनित्य, सत्य, असत्य, वक्तव्य, अवक्तव्य, ए प्रत्येक द्रव्यमां आठ पद करतां ठ द्रव्यमां अडतालीश पद बस.

०१२ शिष्यः—ए ठ द्रव्यमां एक अनेक पद केम जाणीयें ?

गुरुः—ए पद्द्रव्यने एक पण कह्यीयें अने अनेक पण कह्यीयें केम के धर्म, अधर्म, ए वे द्रव्य खंधरूप लोकाकाश प्रमाणें एक ठे अने एना गुण पर्याय प्रदेश अनेक ठे, एटले गुण अनंता पर्याय अनंता अने प्रदेश असंख्याता जाणवा. इहे आकाशास्तिकायद्रव्य पण खंधरूप लोकालोकप्रमाणें एक ठे अने गुणपर्याय प्रदेश अनेक ठे, एटले गुण अनंता, पर्याय अनंता अने प्रदेश पण अनंता जाणवा. एरीतें त्रण द्रव्यमां एक अनेक पद बसो. जें त्रण त्रण द्रव्यमां एक अनेकपणुं देखाडे ठे. तिहां प्रथम एतद्द्रव्यमां वर्तमानगुण गुण एक जाणवो अने गुणपर्याय तथा समय अनेक ठे, एटले गुण अनंता ठे, पर्याय अनंता ठे, अने समय पण अनंता जाणवा. हम हे अतीत कालें अनंता समय वद्दी गया अने अनागतकालें अनंता समय आगत आसो, तथा वर्तमान काल एक समय मात्र जाणवो. हे पुनः अस्तिहाय द्रव्यमां एक अनेक पद कहे ठे. पुनः द्रव्यना परमाणु अनेक ठे ते पद परमाणुआमां अनंता गुणपर्याय रत्ना ठे, ए पद अनेक ठे पद परमाणुआमां पुनः पणुं एक सारवुं ठे, तेयी एक ठे. हे जीवद्रव्यमां एक, अनेकपणुं कहे ठे. लोकाकाश जीव अनंता ठे, एक कलाकला अनाख्याता, असंख्याता प्रदेश ठे, अने एक ठे प्रदेश अनंता गुण पर्याय ठे. तथा एक ठे गुणमां अनंता अनंता पर्याय ठे अने पर्याय अनंता ठे. हे पद अनेक ठे. ए पद अनेक ठे अनेकपणुं कहे ठे, अनेकपणुं कहे ठे, अनेकपणुं कहे ठे.

०१३ शिष्यः—हे पुनः अस्तिहाय द्रव्यमां एक अनेक पद कहे ठे. पुनः द्रव्यना परमाणु अनेक ठे ते पद परमाणुआमां अनंता गुणपर्याय रत्ना ठे, ए पद अनेक ठे पद परमाणुआमां पुनः पणुं एक सारवुं ठे, तेयी एक ठे. हे जीवद्रव्यमां एक, अनेकपणुं कहे ठे. लोकाकाश जीव अनंता ठे, एक कलाकला अनाख्याता, असंख्याता प्रदेश ठे, अने एक ठे प्रदेश अनंता गुण पर्याय ठे. तथा एक ठे गुणमां अनंता अनंता पर्याय ठे अने पर्याय अनंता ठे. हे पद अनेक ठे. ए पद अनेक ठे अनेकपणुं कहे ठे, अनेकपणुं कहे ठे, अनेकपणुं कहे ठे.

वशें पढ्याथका दुःखी देखाय ठे, तेणें करी सर्वजीव, जूदा जूदा लागे ठे, तेनो श्यो परमार्थ ? तेवारें गुरु कहे ठे, के निश्चय नयें करी सर्वे जीव, सत्तायें सिद्धसमान ठे, तेथीज सर्व जीव कर्म खपावी सिद्धि वरे ठे, तेणें करी सर्व जीवनी सत्ता एक सरखी जाणवी माटे सरखा ठे.

शिष्यः—सर्वे जीव, सिद्ध समान कहो ठो तेवारें अज्ञव्य जीव पण सिद्धसमान थया, तो अज्ञव्य जीव केम मोक्षें जता नथी ?

गुरुः—अज्ञव्यनो स्वजाव एवोज ठे, जे संसारमां फरतां कदाचित् कारण सामग्री मळे, तो पण अज्ञव्यने परावर्तन धर्म नथी, तेणे करी सिद्ध थता नथी, पण ज्ञव्य जीवने परावर्तन धर्म ठे माटे तेने कारण सामग्री मळवा थी पूर्वजावने पळटावी गुणश्रेणी चढी सर्व कर्मने चूर्ण करी सिद्धि पद वरे ठे. अने सर्व जीवना आठ रुचक प्रदेश मुख्य ठे, ते निश्चयनयें करी ज्ञव्य अज्ञव्य बेहुना सिद्ध समान ठे, तेणे करी सर्व जीवनी सत्ता एक सरखी ठे, केम के ए आठ रुचक प्रदेशने कर्म लागतां नथी, तेनी आचारांगसूत्र नी टीकामां साख ठे. ए रीतें षट् ड्रव्यमां एक अनेक पद्दनुं स्वरूप कळुं.

७५४ शिष्यः—षट् ड्रव्यमां नित्य अनित्य पद्द केम जाणीयें ?

गुरुः—ठ ड्रव्य नित्य पण कहेवाय अने अनित्य पण कहेवाय, ते आवी रीतें के धर्मास्तिकायना अरूपी, अचेतन, अक्रिय अने चक्षणसहाय ए चार गुण तथा पर्यायमां धर्मास्तिकायनो खंध, ए पांच नित्य जाणवा, अने देश, प्रदेश तथा अगुरुलघु ए त्रण पर्याय धर्मास्तिकायना अनित्य जाणवा तथा अधर्मास्तिकायना अरूपी अचेतन, अक्रिय अने धिर सहाय ए चार गुण तथा पर्यायमां अधर्मास्तिकायनो खंध, ए पांच नित्य जाणवा, अने देश, प्रदेश तथा अगुरुलघु, ए त्रण पर्याय अनित्य जाणवा. तथा आकाशास्तिकायना अरूपी, अचेतन, अक्रिय अने अवगाहक, ए चार गुण तथा पर्यायमां आकाशास्तिकायनो खंध, ए पांच नित्य जाणवा, अने देश, प्रदेश, तथा अगुरुलघु, ए त्रण पर्याय अनित्य जाणवा, तेमज काल ड्रव्यना अरूपी, अचेतन, अक्रिय, अने नवापुराणा वर्तना लक्ष्ण ए चार गुण नित्य जाणवा, तथा अतीत अनागत, वर्तमान अने अगुरु लघु ए चार पर्याय अनित्य जाणवा. तथा पुद्गल ड्रव्यना रूपी, अचेतन सक्रिय अने गक्षण पूरण मिलण विखरण ए चार गुण नित्य जाणवा.

तथा वर्णं, गंध, रस, फरस, अगुरु लघुसहित ए चार पर्याय पुनलद्रव्य
अनित्य जाणवा, तथा जीवद्रव्यना ज्ञान, दर्शन, चारित्र अने वीर्य
चार गुण अने अव्यावाध, अमूर्त्तिक तथा अनवगाह ए त्रण पर्याय नि
जाणवा तथा एक अगुरुलघु पर्याय, जीवनो अनित्य जाणवो. ए रीतें
द्रव्यमां नित्य अनित्य पद्वनुं स्वरूप कळुं.

उ३६ शिष्यः—पट्ट द्रव्यमां सत् असत् पद्वनुं स्वरूप केम जाणीयं!

गुरुः—ठए द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल अने स्वजावपणे (सत् के)
ठना ठे, अने परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल तथा परजाव पणे (असत् के)
अवता ठे. ह्वे एठ द्रव्यमां स्वद्रव्यादिक चारपणुं देखाडेठे, प्रथम धर्मास्ति
कायनुं स्वद्रव्य ते चलणसहाय गुण तथा अधर्मास्तिकायनुं स्वद्रव्य ते स्थि
रसहाय गुण, तथा आकाशास्तिकायनुं स्वद्रव्य ते अवगाहक गुण, तथा
कायनुं स्वद्रव्य ते नवा पुराणा वर्तना लक्षणगुण, तथा पुनलास्तिकायनुं
स्वद्रव्य ते पूर्णगहन गुण, अने जीवनुं स्वद्रव्य ते ज्ञानादि चेतना लक्षण
गुण. ए ठ द्रव्यमां स्वद्रव्यपणुं कळुं. ह्वे स्वक्षेत्रपणुं देखाडे ठे. एटले स्वक्षेत्र
प्रदेश नणा ठे, माटे ठए द्रव्यमां स्वक्षेत्रपणुं कहे ठे. तिहां प्रथम धर्म अ
ने अधर्म, ए वे द्रव्यना स्वक्षेत्रे असंख्याता प्रदेश जाणवा. तथा आकाश
द्रव्यना स्वक्षेत्रे अनंता प्रदेश जाणवा, तथा काल द्रव्यनो स्वक्षेत्रे एक स
मय जाणवो, तथा पुनलद्रव्यनो स्वक्षेत्रे एक परमाणुं, एवा अनंता परमा
णुवा जाणवा. तथा जीवद्रव्यना स्वक्षेत्रे एक जीवना असंख्याता प्रदेश जा
णवा. ए रीतें ठ द्रव्यमां स्वक्षेत्रपणानो विचार जाणवो, ह्वे ठ द्रव्यमां स्व
क्षेत्रपणुं देखाडेठे. ठए द्रव्यमां पौन पौनानो स्वकाश ते अगुरुलघु पर्या
यमां वरुं ठे. ह्वे ठए द्रव्यमां स्वजावपणुं देखाडे ठे (स्वजाव के) गुण
पर्याय, ते ठए द्रव्यमां पौन पौनाने स्वजाव गुण पर्याय रखा ठे. ते स्वजा
व गुण जाणवो. एन धर्मास्ति काय द्रव्यमां पौनानुं स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाश
अने स्वजावपणानो संबध ठे. पण वीजा पांच द्रव्यना स्वद्रव्यादिक वा
ना तेमो नव नदी. तेमत्र अधर्मास्ति काय द्रव्यमां पौनानां स्वद्रव्य, स्व
क्षेत्र, स्वकाश अने स्वजावपणानां संबध ठे. पण वीजा पांच द्रव्यना
स्वद्रव्यादिक वा ना तेमो नव नदी. तेमत्र आकाशास्ति कायमां, काशमां,
पुनलमां अने जीवमां ए संबध ठे. स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाश अने

स्वप्नाव पणानो संबंध ठे, पण बीजा पांच द्रव्यनां स्वद्रव्यादिक चारनो तेमां संबंध नथी. एम ठ द्रव्य स्वगुणें करी सत् ठे, अने परगुणें करी असत् जाणवां. जे द्रव्य ते गुण पर्यायवंत होय, एटले अनेक पर्याय ते द्रव्य कहीयें, अने स्वद्रव्यनुं आवर्तपणुं ते क्षेत्र कहीयें. तथा उत्पाद व्ययनी वर्तना ते काल कहीयें, तथा विशेष गुण परिणति ते स्वप्नाव परिणति जाणवी, एटले पर्याय प्रमुख ते स्वप्नाव कहीयें. ए रीतें ठए द्रव्यना स्वरूपमां सत् असत् पणानो विचार जाणवो.

७४७ शिष्यः—ठ द्रव्यमां वक्तव्य अवक्तव्य पणानुं स्वरूप केम जाणीयें?

गुरुः—ठ द्रव्यमां (वक्तव्य के०) वचनथी कहेवाय एवा प्रत्येक द्रव्यमां अनंता गुण पर्याय वक्तव्य ठे, अने ठए द्रव्यमां (अवक्तव्य के०) वचनथी कद्या न जाय, एवा अनंता गुण पर्याय अवक्तव्य ठे, तेनुं स्वरूप कहे ठे. श्री तीर्थकर जगवानें सर्व ज्ञाव प्रत्यक्ष पणे दीठा, तेने अनंतमे ज्ञागे वक्तव्या एटले प्ररूप्या अने जे श्री तीर्थकर जगवानें प्ररूप्या, तेनो अनंतमो ज्ञाग श्री गणधर देवें जाळ्यो ते सूत्रमां गुंथ्यो ठे, अने जे सूत्रमां गुंथ्यो, तेने असंख्यातमे ज्ञागें हमणां आगम वर्तें ठे, ए ठ ए द्रव्यमां वक्तव्य अवक्तव्य पद्दनुं स्वरूप जाणवुं. ए रीतें ठए द्रव्यनुं स्वरूप आठ पद्दें जाणे, तेने समकेती कहीयें.

अत्र सूत्रपाठः ॥ गाथा ॥ जीवाईसदहणं, सम्मत्तं एस अइगमो नाणं ॥ तठेव सया रमथ, चरथी एसो डुमुस्कपहो ॥१॥ अर्थः—जीवादिक ठए द्रव्य जे जेहवा ठे, ते तेवा गुण पर्याय सहित जाणे अने नित्य अनित्य पणे समय समय पळटाय ठे, ते सद्दे, तेने समकेती जाणवा. ए रीतें ठए द्रव्यनुं स्वरूप जाणी तेमांथी पांच अजीव द्रव्यने ठांकी ने एकज जीवना स्वगुणमां स्थिर थइ रमण करवुं, तेने चारित्र कहीयें.

हवे प्रथम समकेत शुद्ध करवुं जोश्यें, माटे समकेतनुं स्वरूप देखाडे ठे. नव तत्त्वमां मोक्षनुं कर्ता जीवतत्त्व ठे, अने संवर तथा निर्जारा ए वे गुण ठे, ते मोक्षना उपादान कारण ठे, तथा देव अने गुरु ए वे उपकारी ठे, ते मोक्षना निमित्तकारण जाणवां. ए रीतें जीव, संवर, निर्जारा अने मोक्ष, ए चार उपादेय ठे, एटले आदरवा योग्य ठे, अने शेष पांच तत्त्व हेय ठे, एटले ठांरवा योग्य ठे, एवा जे परिणाम ते समकेत ज्ञान कहीयें, ए

वा समकेत ज्ञानें करी ज्ञबुं थाय, श्री अनुयोग द्वारमां कखुं ठे ॥ गाथा ॥
नाणठमि गिहियवे, अगिहियवे य इठ अठम्मि ॥ जइय वमे वईय जो, से
उवएसो नउं नाम ॥१॥ अर्थः—ज्ञान ते शुं? जे ठ ड्रव्यनुं स्वरूप नित्यानित्त
दि थाठ पदें करी जेबुं ठे, तेबुं जाणीने तेमां जे लेवा योग्य होय ते छी
अने ठांरवा योग्य होय, ते ठांर, एवो जे उपदेश, ते नय उपदेश कहीछे.

वली श्री उत्तराध्ययनसूत्रमां समकेतनी दश रुचि कही ठे. तेनां न
म कहे ठे. एक निःसर्गरुचि, बीजी उपदेशरुचि, त्रीजी आझारुचि, चो
थी सूत्ररुचि, पांचमी श्रद्धारुचि, ठठी संक्षेपरुचि, सातमी अजिगरु
रुचि, आठमी विस्ताररुचि, नवमी क्रियारुचि, अने दशमी धर्मरुचि. ए
दश रुचिनुं जे जीवने ज्ञान थयुं होय, तेहने क्षायिक समकेती जाणवो.
माटे हवे ए दश रुचिनुं स्वरूप शिष्यने जाणवा सारु संक्षेपथी कहे ठे.

७४ए प्रथम निःसर्गरुचि ते जे निश्चय व्यवहार नयें करी नैगमादि सात
नयें करी, नामादि चार निक्षेपे करी, जीव अजीवरूप नवतत्व षट् ड्रव्य
नुं स्वरूप जाणे. तेमां आश्रवरूप पांच तत्व ते उपर त्यागबुद्धि तथा सं
वर निर्झरारूप शुद्ध गुण तेनुं आदरबुं करे, तथा श्री वीतराग ज्ञापित जे
नवतत्व षट् ड्रव्यरूप तेनुं स्वरूप, ड्रव्य, क्षेत्र, काल अने जावथी जाणे.
तथा नामादिचारनिक्षेपे करी सर्व वस्तुनुं प्रमाण करे, ते निःसर्गरुचि कहीयें

७५० बीजी उपदेशरुचि ते एहीज नव तत्व, षट् ड्रव्यने गुरुना उप
देशथी जाणीने सदेहे, प्रतीति करे, तेनुं स्वरूप जाणवाने घणी रुचि राखे,
ते उपदेशरुचि.

७५१ श्रीजी आझारुचि, ते जेना राग, द्वेष अने मोह, क्षय थइ गया ठे
अने जेनुं अज्ञान नदी गयुं ठे, एवा श्रीथरिहंतदेव तेणे जे आझा करी, ते
प्रमाण करे, तेमां हांउ पाण संज्ञा संदिद्ध न थाणे, ते आझारुचि जाणवी.

७५२ चौथी सूत्ररुचि. ते आगमसूत्र, निर्युक्ति, ज्ञाप्य, चृणि अने टीका, एपं
पदमात्रा वचनमात्र आगमसूत्र जाणवानी चाहना राखे, ते सूत्ररुचि जाणवी.

७५३ पांचमी श्रद्धारुचि. ते श्री जगवती तथा नंदीसूत्रमां आ प्रमाणें
साक्षात् जे सुत्रजो वचुं पदमां. चौठे निज्ञानि मिस्मउं तणिउं ॥ नउउं व
॥१॥ वनेके ॥१॥ विधि वीदे अठुंगो ॥१॥ तथा अनुयोग द्वारमां निर्युक्ति

७५४ सातमी अजिगरुचि. ते तथा समवायंगनां "सन्नियुत्ताण" इत्यादिक वणी

साखो ठे ते माटे जे पुरुष पंचांगी माने ते आराधक ठे तेथी पंचांगीनी श्रद्धा राखवी ते श्रद्धारुचि जाणवी.

७५४ ढष्टी अजिगमरुचिते सूत्र सिद्धांत अर्थ सहित जाणे, तथा अर्थविचार सुणवानी जणवानी जेने घणी चाहना होये, तेने अजिगमरुचि जाणवी.

७५५ सातमी विस्ताररुचि, ते ठ ड्रव्यने जाणे, ठ ड्रव्यना प्रदेश जाणे, गुण जाणे, पर्याय जाणे, नाम, क्षेत्र, काल, जाव, ड्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, सात नय, चार निक्षेपा, ठ कारक, प्रमाण, पांच समवाय, ड्रव्यास्तिक दश नय, पर्यायास्तिक ठ नय, कर्ता, कारण, कार्य, निश्चय, व्यवहार, उत्सर्ग, अपवाद, हेय, झेय, उपादेय, चउजंगी, त्रिजंगी, सप्तजंगी, अनेकजंगी, ए रीतें नयप्रमाण सहित नवतत्त्व तथा ढड्रव्यने सर्वहे, ते विस्ताररुचि जाणवी.

७५६ आठमी क्रियारुचि कहे ठे. रत्नत्रयी जे ज्ञान, दर्शन, अने चारित्ररूप आत्मसत्ता ठे, ते निवारण करवा सारु तप, जप, विनय, वैय्यावच्च, जक्ति, व्रत, पञ्चस्काण, समिति गुप्तिरूप चरणसित्तरी, करणसित्तरीने गुणें करी सहित ॥ गाथा ॥ वय समण धम्म संजम, वेयावच्चं च वंज गुत्तीउ ॥

नाणाइ तियं तव को, ह निग्गहाइं इचरण मेयं ॥ १ ॥ अर्थः—पांच व्रत तथा दश प्रकारें श्रमणधर्म, पाळे, सत्तर जेदें संयम आराधे, दश प्रकारनुं वैय्यावच्च करे, नव वाडे ब्रह्मचर्य पाळे, त्रण गुप्तिने आदरे, रत्नत्रयीने आराधे, वार प्रकारना तपने आदरे, क्रोधादिक चार कषायनो निग्रह करे, ए चरणसित्तरीना सीत्तर जेद जाणवा. हवे करणसीत्तरी कहे ठे ॥ गाथा ॥

पिंरुविसोही समिई, जवणा पडिमाय इंदिय निरोहो ॥ पडिखेहण गुत्तीउ, अजिग्गहो चेव करणं तु ॥ १ ॥ अर्थः—चार प्रकारनो पिंरु सूजतो

दीये, श्यासमिति प्रमुख पांच समिति पाळे, अनित्यादि वार जावना जावे, साधुनी वार प्रतिमा वहे, पांच इंदियनो निरोध करे, पञ्चीश पडिखेहण उपयोग सहित करे, त्रण गुप्ति पाळे, तथा ड्रव्य, क्षेत्र, काल अने जाव, ए चार प्रकारें अजिग्रह करे, निश्चयथकी ए करणसित्तरीना सीत्तर बोल पाळे, ए रीतें चरणसीत्तरी अने करणसीत्तरीना गुणें करी जे सहित होय अने आत्मधर्मथी रुचि घणी होय, ते जीव क्रियारुचिवंत जाणवो.

७५७ नवमी संक्षेपरुचि ते अर्थमां तथा ज्ञानमां थोडुं कह्याथी पण घणुं जाणे, कुमतिमां न पडे, जैनमतमां अंतरंग प्रतीति माने, तेने संक्षेपरुचि होय.

८५८ दशमी धर्मरुचि ते पंचास्तिकायनुं स्वरूप जाणवे करी श्रुतज्ञाने सन्नायें अंतरंग निश्चयनयने सत्ताने सईहे, एटले वस्तुगतें अनंतो धर्मरुचि ठे, तेने निरावरण प्रगट करवानी रुचिजेने होय तेने धर्मरुचि जीव कहीये. ए रीतें दश रुचिनुं स्वरूप जाणे, तेने द्वायिकसमकेती कहीयें.

हवे वली ठ ड्रव्यनुं स्वरूप जाणवाने अर्थे एकेक ड्रव्यमां ठ ठ सात्व न्यगुण ठे, तेनां नाम कहे ठे. एकअस्तित्व ते अस्तिपणुं, बीजुं वस्तुत्व ते वस्तुपणुं, त्रीजुं ड्रव्यत्व ते ड्रव्यपणुं, चोथुं प्रमेयत्व ते प्रमेयपणुं, पांचमुं सत्त्व ते सत्त्वपणुं, ठहुं अगुरुत्व, ते अगुरुत्व पणुं. ए ठ गुण जाणवा.

८६४ तिहां प्रथम अस्तिपणुं कहे ठे. ए ठ ड्रव्य पोताना गुण पर्याय अने प्रदेशे करीने अस्ति ठे, तेमां पांच ड्रव्य अस्तिकाय जाणवा. अने एक कालड्रव्यमां अस्तिकायपणुं नथी, जे कारणे धर्म, अधर्म, आकाश अने जीव, ए चार ड्रव्यना असंख्याता प्रदेश मली खंध थाय ठे अने पुनजमां पण खंध थवानी शक्ति ठे, तेथी पांचे ड्रव्य अस्तिकाय जाणवां. अने कालनो समय जे ठे ते कोइ बीजा समयथी मलतो नथी, एटले एक समय विणमे ठे. अने ते पत्री बीजो समय थावे ठे, तेणें करी कालड्रव्य अस्तिकाय न कहेवाय, अने पांच ड्रव्य अस्तिकाय कहेवाय.

८७३ हवे ठ ड्रव्यमां वस्तु पणुं देखाडे ठे. वस्तुत्व ते ठए ड्रव्य एकठां एठ क्षेत्रमां नेजां रखां ठे, जे कारणें आकाशरूप क्षेत्रना एक प्रदेशमां धर्मास्तिकायनो एक प्रदेश रखां ठे, तथा अधर्मास्तिकायनो एक प्रदेश रखां ठे, अने जीव अनंताना अनंता प्रदेश रखां ठे, तथा पुनज परमाणुथा पण नेमात्र अनंता रखां ठे, एम एक आकाश प्रदेशमां पांच ड्रव्य रखां ठे, ते सवें ड्रव्य पोत पोतानी सत्ता बीधां रखां ठे, पण कोइ ड्रव्य कोइ ड्रव्य ना मली, ए ड्रव्यनेप्रिये वस्तुपणुं जाणवुं.

८८२ हवे ए ठ ड्रव्यमां ड्रव्यपणुं देखाडे ठे. ठए ड्रव्य पोत पोतानी अस्तिकाय होय ठे. एटले धर्मास्तिकायमां पोतानो चक्षण सहाय गुण ठे, ते सत्ता क्षेत्रमां नेजां रखां ठे, तथा अधर्मास्तिकायमां पोतानो चक्षण सहाय गुण ठे, ते सत्ता क्षेत्रमां नेजां रखां ठे, तथा जीव अनंताना अनंता प्रदेश रखां ठे, तथा पुनज परमाणुथा पण नेमात्र अनंता रखां ठे, एम एक आकाश प्रदेशमां पांच ड्रव्य रखां ठे, ते सवें ड्रव्य पोत पोतानी सत्ता बीधां रखां ठे, पण कोइ ड्रव्य कोइ ड्रव्य ना मली, ए ड्रव्यनेप्रिये वस्तुपणुं जाणवुं.

ते चालता नथी, पण तेहीज क्षेत्रमां सूक्ष्मनिगोदीया जीव तथा पुज्जल परमाणुआ अनंता रह्या ठे, तेने चालवारूप क्रिया करे ठे, तथा अधर्मास्तिकाय द्रव्य जीव पुज्जलने स्थिरराखवा रूप क्रिया करे ठे, तथा आकाशास्तिकाय द्रव्य सर्व द्रव्यने अवगाहकरूप क्रिया करे ठे. अहीं शिष्य आशंका करे ठे, के अलोकमां पण आकाश द्रव्यने अवगाह शक्ति तेवीज ठे, पण तिहां अवगाहना केम करतो नथी? तेनो उत्तर गुरु कहे ठे, अलोकमां अवगाहक कोइ द्रव्य नथी एटले केने अवगाह क्रिया करे? तथा पुज्जल द्रव्य मलवाविखरवारूप पोतानी क्रिया करे ठे, तथा काल द्रव्य पण पोतानी वर्तनारूप क्रिया करे ठे, तथा जीव द्रव्य पण ज्ञानलक्षण उपयोग रूप क्रिया करे ठे, ए रीतें ठे द्रव्य, पोताने पारिणामिकपणे पोत पोतानी सत्तानी क्रिया करे ठे, ते द्रव्यत्व जाणवुं.

७७५ हवे ए ठे द्रव्यमां प्रमेयपणुं कहे ठे. जे वस्तुनुं प्रमाण करवुं तेने प्रमेयत्व कहीयें. एटले केवली जगवान् पोताना ज्ञानथी जाणे ठे जे ठे द्रव्य मख्यां ठे, ते ठे द्रव्यमां प्रमेयपणुं ठे, ते ठे द्रव्यनुं प्रमाणपणुं देखाडे ठे. धर्मास्तिकायद्रव्य एक, अधर्मास्तिकाय द्रव्य एक, आकाशास्तिकाय द्रव्य एक, अने जीवद्रव्य अनंतां ठे, तेनी गणती कहे ठे तेमां संझी मनुष्य संख्याता ठे, असंझी मनुष्य असंख्याता ठे, नारकी असंख्याता ठे, देवता असंख्याता, तिर्यंचपंचेंद्रिय असंख्याता, वैद्रि असंख्याता, तेंद्रि असंख्याता चौ रिंद्रिय असंख्याता, पृथ्वीकाय असंख्याता, अप्काय असंख्याता, तेउकाय असंख्याता, वाउकाय असंख्याता, प्रत्येक वनस्पति जीव असंख्याता, ए सर्व तेर बोलना जीव जेला करीयें, तेथकी सिद्धना जीव अनंता ठे, अने सिद्धना जीव करतां वादर निगोदना जीव अनंतगुणा जाणवा. वादरनिगोद ते मूला, आडु, नीली हलदर, रतालु, पिंजालु, शकरकंद, गाजर, लसण, सूरण, गरमर प्रमुख कंदमूल ठे, ते सूझना अग्रचाग जेटलुं कंदमूल होय, तेमां पण सर्वसिद्धना जीव करता. अनंतगुणा जीव रह्या ठे. ए रीतें वादर निगोदनो विचार जाणवो. अने सूक्ष्मनिगोदमां तो वली ए सर्वथी अनंतगुणा जीव जाणवा, तेनो विचार कहे ठे. जेटला लोकाकाशना प्रदेश ठे, तेटला निगोदीया गोला ठे, ए रीतें देवचंदजीकृत आगमसारने मतें जाणवुं अने बीजा आचार्य वली एस कहे ठे के जेटला लोकाकाशना प्रदेश ठे, तेने

मनुष्यना एक श्वासोद्वासमां सत्तर जव जाजेरा करे ठे, तेवा उद्वास एक मुहूर्त्तमां ३७७३ थाय ठे ॥ गाथा ॥ पणसठि सहस्स पणसय, ठत्तीसा इग मुहूर्त्त खुहुजवा ॥ आवलियाणां दोसय, ठप्पन्ना एगखुहुजवो ॥ ३ ॥

अर्थ:-निगोदीया जीव एकमुहूर्त्तमां ६५५३६ जव करे ठे,ते निगोदनो एकजव १५६ आवलिकानो ठे ए खुहुकजवनुं प्रमाण ठे ॥ गाथा ॥ अठ्ठि अणंता जीवा, जेहिं न पत्तो तसाइ परिणामो ॥ उववद्यंति चयंवि य, पुणो वि तठेव तठेव ॥ १ ॥ अर्थ:- निगोदमां अनंता जीव एवा ठे, के जे जी व त्रसपणुं केवारें पण पाम्यो नथी अनंतो काल पूर्वे वही गयो ठे, वही अनंतो काल आगल जाशे तो पण ते जीव वारंवार तिहांज उपजे ठे अने तिहांज चवे ठे, ते एकेकी निगोदमां अनंता जीव ठे.

हवे ते निगोदना वे जेद ठे. एक व्यवहारराशि निगोद अने बीजा अ व्यवहारराशि निगोद, तिहां जे जीव, बादर एकेंद्रियपणुं अथवा त्रसपणुं पामीने पाठा निगोदमां जइ पडे ठे, ते निगोदीया जीव व्यवहार राशिया कहीयें. तथा जे जीव, कोइ कालें पण निगोदथी निकलीने बादर एकेंद्रि यादिकपणुं पाम्या नथी, ते जीव, अव्यवहारराशिया कहीयें. ए अव्यवहार राशि निगोदमां जव्य अने अजव्य, एवा वे जातिना जीव ठे, ए स्वरूप सर्व श्रीचुवनजानुकेवलीना चरित्रनी साखें लखुं ठे. तथा इहां मनुष्य पणा मांथी जेटला जीव कर्म खपावी एक समयमां मोहें जाय ठे, तेदसा जीव ते समयमां अव्यवहारराशि सूक्ष्मनिगोदमांथी नीकलीने उंचा आवे ठे. ए टले जो दश जीव मोह जाय तो दश जीव अव्यवहारराशिमांथी निकले, तिहां कोइ समयें ते जीवमां जव्यजीव उंठा निकले तो एक वे अजव्य जीव नीकले, पण व्यवहारराशि जीवमां वधघट थाय नही, तेदखाना तेदखाज रहे, एवा ए निगोदना गोला लोकमां असंख्याता ठे, ते ठ दिशिना आव्या पुजल आहारादि पणे लीए ठे, ए जे ठदिशिनो आहार लीये ठे, ते सकल गोला कहेवाय ठे, अने जे लोकना अंतप्रदेशें निगोदीया गोला रखा ठे, ते त्रणदिशिनो आहार फरसनायें लीये ठे, ते विकलगोला कहेवाय ठे, ए सूक्ष्मनिगोदमां एक साधारण वनस्पतिना स्थावर सूक्ष्मजीव ठे, अने पृथिव्यादिक चार प्रमुखना सूक्ष्मजीव जे लोकव्यापी ठे, ते सर्व प्रत्येक

हे, तिहां एकप्रदेशमां अनंतो अगुरुलघु हे, अने बीजा प्रदेशमां असंख्यातो अगुरुलघु हे एम त्रीजा प्रदेशमां संख्यातो अगुरुलघु हे, ए रीतें असंख्याता प्रदेशमां अगुरुलघुपर्याय घटतो वधतो रह्यो हे, ए अगुरुलघु पर्याय समय समय चले हे, तेथी जे प्रदेशमां असंख्यातो हे ते प्रदेशमां अनंतो थाय हे अने जे प्रदेशमां अनंतो हे ते प्रदेशमां असंख्यातो थाय हे, एम चौदराज लोकमां धर्मास्तिकायना असंख्याता प्रदेश हे, तेमां सरखो समकाळें अगुरु लघु पर्याय फरे हे. एटले जे प्रदेशमां असंख्यातो हे, ते स्थानकें असंख्यातो फीटीने अनंतो थाय हे, तेवारें ते प्रदेशमां असंख्याता पणानो विनाश हे, अने अनंत पणानो उत्पाद हे, ए रीतें अगुरुलघुनो उत्पाद व्यय हे, अने ए धर्मा स्तिकायमां बीजा जे गुण हे ते ध्रुवपणे हे अथवा अगुरुलघु पोतें पण अ गुरुलघुपणे ध्रुव हे माटें उपजवुं विणसवुं अने ध्रुवपणुं ए त्रणे जाव ध र्मास्तिकायना असंख्याता प्रदेशमां सदाकाल समयसमय थइ रह्या हे, ते मज ए त्रणे जाव अधर्मास्तिकायना असंख्याता प्रदेशमां तथा आकाशा स्तिकायना पण अनंता प्रदेशमां सदाकाल समयें समयें थइ रह्या हे. तथा एक जीवना प्रदेश असंख्याता हे, तेमां पण उपजवुं विणसवुं अने ध्रुव पणुं अगुरुलघु पर्यायनो समये समये थया करे हे, एम सर्व जीवने विषे जाणवो, तेमज पुजलपरमाणुआ मांहे पण उपजवुं विणसवुं अने ध्रुव पणुं समयें समयें थइ रह्युं हे, तथा काल ड्रव्यनो वर्तमान समय फिटि ने अतीत थाय हे, एटले ते समये वर्तमानपणानो विनाश हे, अने अती तपणानुं उपजवुं हे, पण कालपणुं ते ध्रुव हे, एम ए ठ ड्रव्यमां स्थूलपणे उत्पादव्ययनुं स्वरूप जाणवुं.

हवे सिद्धज्ञगवान पण ठ ड्रव्यमांहेला जीवड्रव्य हे, तेने पण समय समय उत्पादव्यय अने ध्रुवपणुं थाय हे, ते देखाडे हे. तिहां वस्तुगतें मूलपणे जे ज्ञेयने पलटावे, ते ज्ञानपणुं एटले ते जासपणे परिणमवुं था य, तेवारें पूर्वपर्यायना जासनो व्यय थयो, अने अजिनवपर्यायना जास नुं उत्पादपणुं थयुं अने ज्ञानपणुं ते ध्रुव जाणवुं. ए रीतें सर्वेसिद्धपरमात्मा ने सर्वगुणनी प्रवृत्तिरूप पर्यायनो उत्पाद, व्यय, समय समय थइ रह्यो हे, अने गुण तो ध्रुवपणे जाणवा. एमज धर्मास्तिकायना प्रदेशमां ते क्षेत्रमां रहेला पुजल अने जीवने प्रथम समयें असंख्याता चलणसहायी पणे

परिणमतो हतो, ते बीजे समयें अनंत परमाणु तथा अनंत जीवप्रदेश
 ने चलण सहायी थयो, तेवारें असंख्यात चलण सहायीनो व्यय ववो.
 अने अनंता चलण सहायीनो उत्पाद थयो, तथा चलण सहायीगुणपणुं
 ते ध्रुव जाणवुं. ए रीतें धर्मास्तिकाय द्रव्यमां पण उत्पाद, व्यय थइरणो वे
 तेमज अधर्मास्तिकायादिक द्रव्यने विषे पण जाववो. तथा वली कार्य कारण
 पणुं ते उत्पादव्यय जाणवो, ते अगुरुलघुना चलणनो उत्पाद व्यय कहेवो.
 ए रीतें पंचास्तिकायने विषे जाणवो. अने कालद्रव्य तो उपचारें वे. मावे
 तेनुं स्वरूप पण सर्वे उपचारें कहेवुं. एम सर्वे द्रव्यमां सत्त्वपणुं वे. जो
 अगुरुलघुनो जेद न थतो होय, तो पठी प्रदेशें प्रदेशें मांहोमांहे जेदनुं कहेवो
 पणुं याय, तेथी अगुरुलघुनो जेद सर्वमां वे, अने जेटळुं उत्पाद व्ययनुं
 सत्त्वपणुं एक ते एक द्रव्यपणुं जाणवुं अने जेनुं उत्पादव्ययनुं सत्त्वपणुं
 जूडुं ते द्रव्यपणुं पण जूडुं जाणवुं. ए रीतें सत्त्वपणुं कथुं.

७९४ शिष्यः— ए षट्द्रव्यमां अगुरुलघुत्वने अगुरुलघुपणुं ते शुं कहीयें?

गुरुः—जे द्रव्यमां अगुरुलघु पर्याय वे, ते द्रव्यमां अगुरुलघु हानि
 वृद्धि करे वे, षट्त्रे व प्रकारनी वृद्धि अने व प्रकारनी हानि करे वे, तेमां
 प्रथम व प्रकारनी वृद्धि कहे वे. एक अनंतनागवृद्धि, बीजी असंख्यात
 नाग वृद्धि, त्रीजी संख्यातनागवृद्धि, चोथी संख्यातगुणवृद्धि, पांचमी अ
 संख्यातगुणवृद्धि, ठठी अनंतगुणवृद्धि, द्वये व प्रकारनी हानि कहे वे. एक
 अनंतनागहानि, बीजी असंख्यातनागहानि, त्रीजी संख्यातनागहानि,
 चोथी संख्यातगुणहानि, पांचमी असंख्यातगुणहानि, ठठी अनंतगुणहानि.
 ए रीते ए व प्रकारनी वृद्धि अने व प्रकारनी हानि, सर्वे द्रव्यमां गदाहा
 स सर्वे समवे थइ गरीं वे तेमां वृद्धि ते उपाजवाने कहीयें. अने हानि
 ते विनासवाने कहीयें ए अगुरुलघुपणुं जाणवुं षट्त्रे नद्री गुरु अने न
 द्री लघु तेने अगुरुलघु स्वभाव कहीयें ते सर्वे द्रव्यमां वे, उक्तं च नाम नी
 मंत्रे "सर्वदा सर्व गुणा सर्वपणुणा सर्वधरा सर्वदा अगुरुलघुआणुं" ए
 अगुरुलघु स्वभावने आणुण नथी अने जे आत्मद्रव्यमां अगुरुलघु गु
 णे वे ते जेवण आणुणा सर्वप्रदेशें हानिक्रमाव आय, तेवारें सर्वगुणमां
 ममत्वावें जे वे. ए अतिक्रमे उक्ती परिणामे नद्री, ते अगुरुलघु गुणनुं प्र
 कृतं च षट्त्रे सर्वदा अगुरुलघु स्वभाव ते सर्वद्रव्यमां वे.

हवे गुणनी जावना कहे ठे. तिहां जेटला ठए ड्रव्यमां सरखा गुण ठे, तेने सामान्य गुण कहीयें. तथा जे गुण एक ड्रव्यमां ठे, अने बीजा ड्रव्य मां नथी, तेने विशेष गुणकहीयें. जे गुण कोइ ड्रव्यमां ठे अने कोइ ड्रव्यमां नथी, ते साधारण आसाधारण गुण कहीयें. ठए ड्रव्यमां अनंतागुण, अनं तापर्याय अने अनंता स्वजाव ते सदा शाश्वता ठे, श्रीकेवलीचगवाने प्ररूप्या ते सर्वे जेम ठे, तेम सदहणापूर्वक यथार्थ उपयोग सहित श्रुतज्ञानादि क गुणथी यथार्थ पणे जाणवा ए निश्चयज्ञान ठे, ते मोक्षनुं कारण ठे, जे जीव ज्ञान पाम्यो ते जीव विरति करे ठे, तेने चारित्र कहीयें. एटले श्रुतज्ञाननुं फल ते विरति ठे, अने विरति जे ठे, ते मोक्षनुं तत्काल कारण ठे. ए रीतें ठ ड्रव्यनुं स्वरूप सामान्यप्रकारें करी बालकबुद्धि जीवोने अर्थे प्रकाश्युं, तेनुं जाणपणुं करतां थकां समकेतरूप रत्ननी प्राप्ति थाय.

ए६७ हवे जे जीव समकेतरूप रत्न पाम्यो, ते जीवने स्वरूपनुं ध्यान करवा रूप विचार लखीयें ठैयें. १ हुं एक बुं, महारो कोइ नथी, २ महारो आत्मा शाश्वतो ठे, ३ हुं ज्ञान, दर्शनं करी सहित बुं, ४ धन कटुंवादिक महारा स्वरूपथकी बाह्य वस्तु अलगी वस्तु ठे ते सर्व संयोगें मली ठे, अने वियोगें जाशे तेमां महारे शो बगाड थवानो ठे, ५ तन धन कुटुंवादिक नो संयोग एटले मिलाप तेने विषे जीव मुंजायो थको दुःखनी परंपरा प्रत्यें पामे ठे. ६ ए शरीरादि पुत्र, कलत्र, परिवार प्रमुख ते संयोगी वस्तु महारा स्वरूप थकी जूदी ठे, ७ ते सर्वेने हुं मन, वचन, कायायें करी वो सिराबुं बुं. ८ हुं चेतन बुं, अने ए पुजलनो स्वजाव ते अचेतन ठे, ए हुं अरूपी बुं, ए पुजलरूपी ठे, माहारो ज्ञानादि चेतना लक्षण स्वजाव ठे, ए पुजलनो जड स्वजाव ठे, १० हुं अमूर्ति बुं आ पुजल मूर्ति ठे, ११ हुं स्वाजाविक बुं, आ पुजलविजाविक ठे, १२ हुं (सुचि केणं) पवित्र बुं ए पुजल अपवित्र ठे, १३ महारो शाश्वतो स्वजाव ठे, अने आ पौजलिक वस्तु जे मने मली ठे, ते सर्व अशाश्वती ठे, १४ महारं ज्ञानादिरूप ठे, आ पुजलनुं पूर्ण गलनरूप ठे, १५ महारं केवारें स्वरूपथकी न चलबुं एवो अचलित स्वजाव ठे, अने पुजलनो चलित स्वजाव ठे, १६ महारं ज्ञान, दर्शन, चारित्र मय स्वरूप ठे, अने पुजल वर्णगंधादि रूप ठे, हुं वर्णगंधादिकथी रहित बुं, १७ हुं शुरु निर्मल बुं, १८ हुं बुरु बुं, हुं ज्ञानानंदी बुं, १९ हुं

नो विलासी तुं, ५३ तुं बाधापीडारूप दुःखथी रहित अनंत अव्यावाधसुख
नो विलासी तुं, ५४ महारं स्वरूप कोइ द्रव्य अवगाही शके नहिं माटे
अनवगाही महारं स्वरूप ठे, ५५ तुं अगुरुलघु एटले महोटो नही, अने
ठोटो पण नही, बली जारी नही, अने हलवो पण नही एवो तुं, ५६ तुं
मनरूपपरिणामथी रहित न्यारो अपरिणामी तुं, ५७ तुं इंद्रियरूप विका
रथी रहित न्यारो इन्द्रायोगी, अनिंद्रिय तुं, ५८ तुं दशप्राणरूप पुजलथी
रहित महारो खेल न्यारो ठे, तेथी अप्राणी तुं, ५९ तुं (अयोनि के०)
चोराशीलाख जीवायोनिरूप परित्रमण पणाथी रहित निश्चयदेव तुं; ६०
तुं असंसारि एटले चारगतिरूप संसारथी रहित पूर्ण आत्मारामी तुं, ६१
तुं जन्म जरा मरण रूप दुःखथी रहित अमर तुं, ६२ तुं (अपर के०)
सर्वपरंपराथी रहित न्यारा खेलवालो तुं, ६३ तुं (अव्यापी के०) वि
जावरूप जडपणाथी रहित महास्वरूपमां सदाकाल व्यापी रह्यो तुं,
६४ तुं अनास्ति एटले महारं कोइ कालें नास्तिपणुं नथी, तुं महारा ख
द्रव्यादिकें करीने सदाकाल अस्तिपणे वर्तुं तुं, ६५ तुं अकंप एटले को
इनो कंपाव्यो कंपुं नही, एवो अनंतवीर्यरूप शक्तिनो धणी तुं, ६६ तुं
अविरोध एटले कर्मरूप शत्रुनो रुंध्यो रुंधाउं नही, सदाकाल निर्लेप कर्म
रूप मलथी रहित न्यारो थको महारा पारिणामिक जावें रह्यो वर्तुं तुं, ६७
तुं अनाश्रव एटले शुजाशुजविजाव दशारूप आश्रवथी रहित सदाकाल
न्यारो वर्तुं तुं, जेम मंकने संयोगें स्फटिकने कलंक लागे, पण मूलख
जावें जोतां तो स्फटिक शुरु निर्मल ठे, तेम तुं पण महारे स्वजावें निर्लेप
रह्यो वर्तुं तुं. ६८ महारं स्वरूप बद्धस्थना लख्यामां न आवे माटे
अलख तुं, ६९ तुं अशोक एटले जन्म, जरा, मरण अने जयरूप शो
क संतापथी रहित सदाकाल नीरोगी अमररूप वर्तुं तुं. ७० तुं अलौ
किक एटले लौकिक मार्गथी रहित महारो खेल न्यारो वत्तें ठे, ७१
तुं ज्ञाने करी लोकालोकनुं स्वरूप एक समयमां जाणवाने सामर्थ्य वा
नू तुं, माटे लोकालोक ज्ञायक तुं, ७२ तुं शुरु एटले निर्मल कर्मरूप
मलथी रहित तुं, ७३ तुं (चिद् के०) ज्ञान अने (आनंद के०) चारित्र
तेणें करी सहित चिदानंद तुं, एतुं महारं स्वरूप सदाकाल शाश्वतुं वत्तें ठे,
हवे ए ठ द्रव्यमां अगीथार सामान्य स्वजाव ठे, ते उलखावे ठे. १ अ

स्ति स्वज्ञाव, २ नास्तिस्वज्ञाव, ३ नित्यस्वज्ञाव, ४ अनित्यस्वज्ञाव, ५ एतद्
स्वज्ञाव, ६ अनेकस्वज्ञाव, ७ ज्ञेदस्वज्ञाव, ८ अज्ञेदस्वज्ञाव, ९ ज्ञव्यस्वज्ञाव,
१० अज्ञव्यस्वज्ञाव, ११ परमस्वज्ञाव. ए अग्नीश्वार स्वज्ञावनां नाम कर्मां
एदंतिहां प्रथम अस्तिस्वज्ञाव ते पोतानी अपेक्षायें ठतापणे ठए ड्रव्य
पोताना परिणामिक ज्ञावें करी परिणमे ठे, ते अस्तिस्वज्ञाव जाणवो.
एदंतीजो नास्तिस्वज्ञाव ते परनी अपेक्षायें पोतें मूलस्वज्ञावें सर्वें ड्रव्य प
मां परिणनतां नथी, एटले परमां पोताना परिणामिकपणानुं नास्तिपणुं ठे.
एदंतीजो नित्यस्वज्ञाव ते सर्वेंड्रव्य पोतपोताना अनेक प्रकारना पर्णाव
नेविणे स्वड्रव्यपणे सदाकाल शाश्वतां वत्तें ठे, माटे स्वड्रव्यपणे करी सर्व ड्र
व्यनो नित्यस्वज्ञाव जाणवो.

तमोही, इत्यादिक पूर्वे कक्षा ठे ते प्रमाणे जीवमां अनेकप्रकारें जेदस्वज्ञाव जाणवो. अने अजीवमां तो धर्मास्तिकायमां चलणसहायपणुं अधर्मास्तिकायमां स्थिरसहाय पणुं आकाशास्तिकायमां अवगाहना पणुं कालमां न वा पुराणा वर्तनापणुं पुञ्जलमां पूर्णगलनपणुं एम अनेक प्रकारें जीव अ जीवरूप ठ ड्रव्य जूदे जूदे जेदें परिणमे ठे, ते सर्व जेदस्वज्ञाव जाणवो तथा वली धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकायादिकमां जेदस्वज्ञाव ते जेम बेसताने वे ठापणे सहाय करे, उठताने उठतापणे सहाय करे, सूताने सूतापणे सहाय करे, चालताने चालवापणे सहाय करे, हालताने हालवापणे सहाय करे, एम एकद्रव्य अनेकप्रकारें जूदे जूदे जेदें परिणमे माटे ते जेदस्वज्ञाव कहीयें.

ए१५ तथा आठमो अजेदस्वज्ञाव ते जीवद्रव्यना जे द्रव्यगुणपर्याय्य ते जीवनी साथें एकरूप अजेदपणे ठे. ते मधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायादिक ना पण जाणवा माटे तेने अजेदस्वज्ञाव कहीयें. जेम शरीरमां जेदस्वज्ञाव जोतां तो हाथनो ज्ञाव जूदो, पगनो ज्ञाव जूदो, नाकनो ज्ञाव जूदो, आं खनो ज्ञाव जूदो, ए रीतें सर्व जूदे जूदे जेदे परिणमे ठे. ते जेदस्वज्ञाव जाणवो. अने अजेदस्वज्ञाव जोतां तो ए हाथपगादिक सर्वे कायामां अ जेदरूप एक पणे वत्तें ठे, ते अजेद स्वज्ञाव जाणवो.

ए१७ हवे नवमो ज्ञव्यस्वज्ञाव अने दशमो अज्ञव्यस्वज्ञाव ए वे साथें कहे ठे. तिहां जे जीवमां पलटणपणुं ठे. ते जीवने कोइदिवसें कारण साम ग्री मलवाथी पलटाइ श्रेणीजावें चढी सिद्धिरूप कार्य प्रत्यें निपजावशे, ते ज्ञव्यस्वज्ञाव जाणवो. तथा अनेक प्रकारें कारण रूप सामग्री मलशे, पण मनःपरिणाम पलटावी प्रतिबोध नही पामे, ते अज्ञव्य स्वज्ञावजाणवो.

वली ज्ञव्यजीवमां निश्चय व्यवहारनयें करी ज्ञव्य अज्ञव्यस्वज्ञाव, उल खावे ठे. तिहां व्यवहारनयें करी जीव, चार गतिमां नवा नवा ज्ञव करी च वहुं उपजहुं करे ठे, ते व्यवहारनयें करी जीवमां ज्ञव्यस्वज्ञाव जाणवो. अने निश्चयनयें करी जीव, पारिणामिकजावें सदाकाल शाश्वतो वत्तें ठे, कोइनो ठेद्यो ठेदाय नही, जेद्यो जेदाय नही, ए रीतें निश्चयनयें करी जीव अखंरूप ठे, ते जीवमां निश्चयनयें करी अज्ञव्यस्वज्ञाव जाणवो.

वली निश्चय व्यवहारनयें करी जीवमां ज्ञव्य अज्ञव्यस्वज्ञाव उलखावे ठे.

तिहां सकल कर्म क्य करी लोकने अंतें विराजमान एवा सिद्धपरमात्माने ज्ञानादि अनंतचतुष्टयरूप ठता पर्याय प्रगट्या ठे, ते पर्याय कोइ काळें पलटशे नही, माटे ए निश्चय नयें करी सिद्धनो अज्ञव्यस्वजाव जाणवो. तथा जे श्रीसिद्धपरमात्माने सामर्थ्य पर्याय प्रवर्तनारूप समय समय अने तो उत्पाद व्यय थइ रह्यो ठे, ते व्यवहारनयें पलटणस्वजावें करी श्रीसिद्धपरमात्मां ज्ञव्य स्वजाव जाणवो.

हवे पुनलद्रव्यमां ज्ञव्य अज्ञव्य स्वजाव उलखावे ठे. तिहां पुनलद्रव्य ना अनंता परमाणुथा ठे, ते निश्चयनयने मते नित्य सदाकाल शाश्वता वर्तें ठे एट्ये ए मूलस्वजावें करी कोइकाळें पलटशे नही, ते अज्ञव्य स्व जाव जाणवो. तथा व्यवहारनयने मते करी पुनलना खंध बने ठे, ते स्थिति प्रमाणे रहे ठे. वती पाठा विलरे ठे, ते सर्वे ज्ञव्यस्वजावें जाणवा.

हवे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायादिक द्रव्यमां ज्ञव्य अज्ञव्य स्वजाव उलखावे ठे. तिहां परद्रव्य आश्रयी पद नाग हानि वृद्धिरूप समय समय ते पलटण पाणुं पाय ठे, ते ज्ञव्यस्वजाव जाणवो अने मूलस्वजावें जोता परद्रव्य पारिणामिह जावे करी पोतपोताने स्वजावें रह्या वर्तें ठे, तेमां पलटण पाणुं नगी, साजा पलटता नगी माटे ते अज्ञव्यस्वजाव जाणवो.

अज्ञ अज्ञानां परम स्वजाव कहे ठे जे उत्कृष्ट स्वजाव तेने परमस्व जाव रहीं, तिहां जी तद्रव्यमां ज्ञान दर्शनरूप परमस्वजाव जाणवो. एट्ये हाने करी अज्ञानागुण, विशेषतागुणे परिणमे ठे, अने दर्शने करी अज्ञाना गुण, सामान्यगुणे परिणमे ठे. माटे ए परमस्वजाव जाणवो. तथा पुनल प्रमा समस्वजाव तो जे वेतना रक्षित अतीवस्व जावस्वजाव, जे गुण अने दुःखे नगी जाणवो ए पुनलमां पोतानां परमस्वजाव जाणवो, तथा धर्मास्तिकाय द्रव्य समय समय अज्ञाना जीव पुनलने नलण महागिणोप परिणमे ठे तथा अधर्मास्तिकाय विद्यामहागिणो परिणमे ठे, तथा आकाश स्वजाव, अज्ञानागुणे परिणमे ठे, तथा काल द्रव्य तथा पुराणा पाणुं पोतने जे ज्ञव्य अज्ञानां वेतपोतानां उत्कृष्टा स्वजाव वर्तें ठे, ते परमस्व जाव रहीं, माटे ए द्रव्यमां अतीवस्व जाव सामान्यस्वजावमां विद्या कर्मा, एते जे द्रव्यमां एते परमस्वजाव ते ते उत्तमस्वजाव, ए वेतनस्वजाव, ए वेतनस्वजाव, ए अतीवस्वजाव, ए अतीवस्वजाव, ए अतीवस्वजाव, ए अतीवस्वजाव.

६ अनेकप्रदेश स्वज्ञाव, ७ शुद्धस्वज्ञाव, ८ अशुद्धस्वज्ञाव, ९ विज्ञावस्वज्ञाव, १० उपचरितस्वज्ञाव. ए दश विशेषस्वज्ञावनां नाम जाणवां,

ए०ए तिहां प्रथम चेतनस्वज्ञाव ते एक जीवद्रव्यमांहेज ठे, केम के सर्व जीव सत्तायें शुद्धज्ञानादि चेतना रूप गुणे करी सहित निश्चयनयें ज्योतिः स्वरूपी एक सरखा सामान्यपणे करी जाणवा. अने व्यवहारनयें करी संसारी जीव, चार गतिरूप संसारमां शरीरादि कर्मने योगें करी वत्तें ठे, पण निश्चयनयें करी सत्तायें सिद्धसमान ठे, ते जीवमां चेतनस्वज्ञाव जाणवो.

ए०० बीजो अचेतन स्वज्ञाव ते एक जीवद्रव्य विना शेष पांच द्रव्यमां चेतना रहित अजीवरूप जडस्वज्ञाव ठे, ते अचेतन स्वज्ञाव जाणवो.

ए०१ त्रीजो मूर्त्तिस्वज्ञाव ते एक पुद्गलद्रव्यमां ठे, अने व्यवहारनयें करी तो संसारी जीव, चार गतिरूप संसारमां वत्तें ठे, तेमां पण मूर्त्तिस्वज्ञाव जाणवो.

ए०२ चोथो अमूर्त्तिस्वज्ञाव, ते एक पुद्गलद्रव्यवर्जित शेष चार द्रव्यमां ठे, अने निश्चयनयें करी पांचमा जीवद्रव्यमां पण अमूर्त्ति स्वज्ञाव जाणवो.

ए०३ पांचमो एकप्रदेश स्वज्ञाव, ते जीव द्रव्यआश्रयी तो जीव, लघु शरीरमां उपन्यो होय, तेवारें लघु अइ संकोचाय, एटले जेम एकप्रदेश संकोच स्वज्ञाव ठे, तेम असंख्याते प्रदेशे पण संकोच स्वज्ञाव जाणवो अने पुद्गलद्रव्यमां जेम बशेर पाणीनी लोटीमां बशेर खान पडे, ते सर्व पाणीमां समाइ जाय, पण पाणी बाहेर नीकले नही, तेम पुद्गलद्रव्यनो संकोचस्वज्ञाव पारो, हींगलो, लींबु प्रमुख वस्तुने संयोगें बने ते एकप्रदेश स्वज्ञाव जाणवो.

ए०४ षष्ठो अनेकप्रदेश स्वज्ञाव कहे ठे. जेम जीव महोटा शरीरमां उपन्यो तो महोटो थाय, एटले लोकाकाशना जेटला प्रदेश ठे, तेटला एक जीवना प्रदेश ठे, पण आवरणने अज्ञावें शक्तिनो प्रकाश प्रगटे, ते जीवमां अनेकप्रदेशस्वज्ञाव जाणवो. तथा पुद्गलमां अनेकप्रदेशस्वज्ञाव ते पुद्गलना जे अर्कतुल्यप्रमुख पोचा खंध थाय, ते अनेकप्रदेशस्वज्ञाव जाणवो.

ए०५ सातमो विज्ञावस्वज्ञाव कहे ठे. जीव, पोतानो मूलस्वज्ञाव त्यागीने परस्वज्ञावें परिणम्यो, जेम पोतानो परमशांतरसमय स्वज्ञाव त्यागीने क्रोधादिक चार कषायने विषे परिणम्यो, ए जीवद्रव्यनो विज्ञावस्वज्ञाव जाणवो. तथा पुद्गलद्रव्यमां दूटो परमाणुर्द पोतानो मूलस्वज्ञाव त्यागीने खंधमांहेजल्यो, तेने जीवें ग्रहण कस्यो, ते विज्ञावस्वज्ञावें परिणम्यो कहेवाय.

६०६ आठमो शुद्धस्वप्नाव. ते सकल कर्मने क्ये जीवने सिद्धिरूपकार्य बीष जे अने केवलज्ञानानादिक लक्ष्मी प्रगटे, ते जीवमां शुद्धस्वप्नाव जाणवो. तथा पुनलद्रव्यमां खंधयकी रहित वूटो परमाणुड रहे ते शुद्धस्वप्नावें जाणवो.

६०७ नवमो अशुद्धस्वप्नाव ते जीवने मतिज्ञान, श्रुतज्ञान अविधिज्ञान, मनः प्रयवज्ञान रूप जे कायोपशमजावें इंद्रियने अनुयायीरूप जीवने गुण परि लमे. ते जीवनां अशुद्धस्वप्नाव जाणवो अने पुनलद्रव्यमां जे परमाणुआ मांडोमांडे मळी खंध जाव पामे, ते अशुद्धस्वप्नाव जडपरिणतिरूप जाणवो.

६०८ दशमो उपचरितस्वप्नाव ते जे पोताना स्वप्नावयकी चिन्न पुनलने मंत्रांगे थाव ते परस्वप्नाव ठे. तेने उपचारें करी बोलावीयें जेम जीवमां स्त्रीपणुं अने जडपणुं स्थापीयें, जेम शरीररूपी ठे, ते जडरूप ठे तेनो सं सगे जीवने लाग्यो ठे ते जीवने उपचरितस्वप्नाव जाणवो अने पुनलने वेननपणुं कळीयें, ते पुनलमां उपचरितस्वप्नाव जाणवो एटखे पुनलनेत नने लाग्यो अने स्त्री ठे पण अतिसूक्ष्म ठे माटे नर्मवस्तुयें न देखाय, ते अमान मानार ठे तेने स्थापीयें, ते उपचरितस्वप्नाव पुनलमां जाणवो. ए. मने जीव, यजीवत्य पट्टद्रव्यमां ए. दश विशेष स्वप्नाव जाणवा.

यां जीवने लागां तेने जावपणे दुःखरूपविपाके जीव जोगवे. ए रीतें अशुद्ध प्रकारें चोचंगीयें करी जीवणुं स्वरूप जाणवुं.

ए०० शिष्यः—अशुद्धप्रकारें जीवणुं स्वरूप द्रव्यथकीने जावथकी, जावथकीने द्रव्यथकी, द्रव्यथकीने जावथकी, केम जाणीयें ?

गुरुः—ए अशुद्धव्यवहारनयने मत्तें जाणवुं जेकारणे अशुद्धप्रकारें जीवणुं स्वरूप द्रव्यथकी तो जीवद्रव्य असंख्यात प्रदेशी जाणवो अने जावथकी क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा, हास्य, विनोद, ए आदि अशुद्ध जावना अनेक प्रकार जाणवी. अने ए अशुद्धजावनी चि काशें करी अनंता द्रव्यरूप कर्मनां दक्षीयां जीवने लागे, ते अनंतां अशुद्ध द्रव्यरूप कर्मनां दक्षीयां जीवने लागां, तेने जावपणे जीव नरक तिर्यचनी गति पामीने जोगवे, ए अशुद्धप्रकारें चोचंगीयें करी जीवणुं स्वरूप जाणवुं.

ए०१ शिष्यः—शुद्धप्रकारें जीवणुं स्वरूप द्रव्यथकी ने जावथकी, जावथकीने द्रव्यथकी, द्रव्यथकीने जावथकी केम जाणीयें ?

गुरुः—ए शुद्धव्यवहारनयने मत्तें जाणवुं जे कारण शुद्ध प्रकारें जीवणुं स्वरूप द्रव्यथकी तो जीवद्रव्य असंख्यात प्रदेशी जाणवो अने शुद्धजाव ते दान, शील, तप, जाव, उपकार, करुणा, दया, यत्ना आदिक शुद्धजावना अनेक प्रकार जाणवा अने ए शुद्धजावनी चिकाशें करी अनंता शुद्धकर्मरूप द्रव्य नां दक्षीयां जीवने लागे ते अनंतां शुद्धकर्मरूप द्रव्यनां दक्षीयां जीवने लागा तेने जावपणे जीव मनुष्य देवताना जव पामीने जोगवे. ए शुद्ध प्रकारें जीवणुं स्वरूप चोचंगीयें करी जाणवुं.

ए०२ शिष्यः—शुद्ध प्रकारें जीवणुं स्वरूप द्रव्यथकी ने जावथकी, जावथकी ने द्रव्यथकी केम जाणीयें ?

गुरुः—ए शुद्धव्यवहारनयने मत्तें जाणवो. तिहां चोथा गुणगणाधी मांभीने यावत् तेरमा चौदमा गुणगणा लगे शुद्धजाव जाणवो. ते शुद्ध प्रकारें जीवणुं स्वरूप द्रव्यथकी तो जीवद्रव्य असंख्यात प्रदेशी ठे, अने शुद्धजाव ते शुद्धाशुद्धविकाररूप परपुजल तेथकी विरक्तजाव एटवे उदासी परिणाम अने पोताना स्वरूपमां रहेवुं, ते शुद्धजाव जाणवो. अने ए शुद्धजावरूप स्वरूपमां रहेतां जीवने द्रव्यरूप कर्मनां दक्षीयां आवतां रो काय, ए शुद्धप्रकारें जीवणुं स्वरूप, चोचंगीयें करी जाणवुं.

ए७३ शिष्यः—निश्चयथकी जीवनुं स्वरूपद्रव्यथकीने जावथकी केम जाणीये ?

गुरुः—निश्चयनयें जीवनुं स्वरूप द्रव्यथकी तो जीवद्रव्य असंख्यात प्रदेशी ठे, अने जावथकी तो सकलकर्म थकी रहित, शुद्ध, निर्मल, चिदानंर, परमज्योति, सहजानंदी, पूर्णानंदी, अजर, अमर, अखंड, अक्षित, सिद्धिरूप कार्य निष्पन्न, अनंत सुखजोगी, विज्ञावसुखत्यागी आपस्वरूपमां रमता एवा अनंता सिद्धपरमात्मा सादि अनंतमे जांगे वत्ते ठे, ए जावथकी स्वरूप जाणवुं, ए निश्चयनयें जीवनुं स्वरूप, वे जंगीयें करी कणुं. ए रीतें जीवनुं स्वरूप कणुं. हवे अजीवना स्वरूपमां द्रव्यजावनुं लक्षण कहेठे:-

ए७४ शिष्यः—धर्मास्तिकायद्रव्यनुं स्वरूप द्रव्यथकीने जावथकी अने जावथकीने द्रव्यथकी ए त्रिजंगीयें करी केम जाणीये ?

गुरुः—द्रव्यथकी तो धर्मास्तिकायद्रव्य असंख्यात प्रदेशी कहीयें, अने जावथकी तो धर्मास्तिकायनुं नदणसहायीपणुं जाणवुं, तथा ए जावथकी ने नजणसहायीपणुं ते द्रव्यथकी अनंता जीव पुजलने विषे जाणवुं. ए रीते धर्मास्तिकायनुं स्वरूप, द्रव्यजावनी त्रिजंगीयें करी जाणवुं.

ए७५ शिष्यः—अधर्मास्तिकायनुं स्वरूप द्रव्यथकीने जावथकी तथा जावथकीने द्रव्यथकी केम जाणीये ?

गुरुः—द्रव्यथकी तो अधर्मास्तिकायद्रव्य असंख्यात प्रदेशी कहीयें, अने जावथकी तो अधर्मास्तिकायनुं निरसहायीपणुं जाणवुं तथा ए जावथकी ने निरसहायीपणुं ते द्रव्यथकी अनंता जीव पुजलने विषे जाणवुं. ए रीते अधर्मास्तिकायनुं स्वरूप द्रव्य जावनी त्रिजंगीयें करी जाणवुं.

ए७६ शिष्यः—आहर्मास्तिकायनुं स्वरूप द्रव्यथकीने जावथकी तथा जावथकीने द्रव्यथकी केम जाणीये ?

गुरुः—द्रव्यथकी तो आहर्मास्तिकायद्रव्य अनंत प्रदेशी कहीयें, अने जावथकी तो आहर्मास्तिकाय द्रव्यनुं अविगाहनाक्षयपणुं जाणवुं, तथा ए जावथकीने अविगाहनाक्षयपणुं ते द्रव्यथकी अनंता जीव पुजलने विषे जाणवुं. ए रीते आहर्मास्तिकायनुं स्वरूप द्रव्यजावनी त्रिजंगीयें करी जाणवुं.

ए७७ शिष्यः—अधर्मास्तिकायनुं स्वरूप द्रव्यथकी ने जावथकी तथा जावथकीने द्रव्यथकी केम जाणीये ?

गुरुः—द्रव्यथकी तो अधर्मास्तिकायना अनंता परमाणुथा जो कर्मां वा

श्रुता ठे,ते जाणवा अने जावथकी तो पुजलद्रव्यनुं गलण पूर्णपणुं जाणवुं तथा ए जावथकी जे गलणपूर्णपणुं ते द्रव्यथकी अनंता बंधने विषे जाणवुं. ए रीतें पुजलास्तिकायनुं स्वरूप द्रव्य जावनी त्रिजंगीयें करी जाणवुं.

एण्ण शिष्यः—कालद्रव्यनुं स्वरूप द्रव्यथकी ने जावथकी तथा जावथकीने द्रव्यथकी केम जाणीयें ?

गुरुः—द्रव्यकी तो कालद्रव्यनो एक समय लोकालोकमां वर्त्ते ठे ते जाणवो, अने जावथकी कालद्रव्य नवा पुराणा वर्त्तना रूप जाणवुं, तथा ए जावथकी जे नवा पुराणा वर्त्तना रूप ते द्रव्यथकी जीव अजीव द्रव्य रूप वस्तुने विषे जाणवो. ए रीतें कालद्रव्यनुं स्वरूप द्रव्यजावनी त्रिजंगीयें करी जाणवुं.

ए रीतें षट्द्रव्यनुं स्वरूप द्रव्यजावनी चोजंगीयें करी, त्रिजंगीयें करी तथा बे जंगीयें करी विचारतां थकां समकेतनी शुद्धि थाय.

हवे नव तत्त्वनुं स्वरूप द्रव्यजावनी चोजंगीयें करी देखाडे ठे, तेमां जीव अने अजीव ए बे तत्त्वनुं स्वरूप आगल ठ द्रव्यना स्वरूपमां कहुं, हवे शेष पुण्यादिक सात तत्त्वनुं स्वरूप, द्रव्यजावनी चोजंगीयें करी कहे ठे.

एण्ण शिष्यः—नव तत्त्वमांथी पुण्यतत्त्वनुं स्वरूप जावथकीने द्रव्यथकी तथा द्रव्य थकीने जावथकी केम जाणीयें ?

गुरुः—जावथकी तो पुण्यवांधवाना नव प्रकार ठे. तेमां प्रथम साधु, साधवी, श्रावक अने श्राविकारूप चतुर्विध श्रीसंघने अंतरंग रागसहित अन्न देवनी रुचि ते अन्नपुण्य जाणवुं. वीजुं पाणपुण्य ते साधु साधवी प्रमुखने प्राशुक जलदेवानी रुचि जाणवी, त्रीजुं क्षेणपुण्य ते साधु साधवी प्रमुखने रहेवा सारु निरवद्यजगा देवानी रुचि. चोथुं सयणपुण्य ते साधु, साधवी प्रमुखने सूवाने अर्थें पाट तथा बेसवाने वाजोठ प्रमुख देवानी रुचि, पांचमुं वस्त्रपुण्य ते साधुसाधवी प्रमुखने कपडां, कांवली आदिक धर्मोपकरण प्रमुख देवानी रुचि. ठहुं मनःपुण्य ते जगतना जीवनुं मने करी रूडुं चिंतववुं अर्थात् सर्वजीवने धर्म पमाडीकर्मरूप दुःखथकी मूकावी सुखिया करी मोक्षनगरें प्होचाडुं? एवी जावना मने करी जावे, ते जीव जिननाम कर्म उपार्जन करे, सातमुं वचनपुण्य ते मीतुं, मनोहर प्रीतिकारी, हितकारी सूत्रमर्यादायें आज्ञा प्रमाणे घणा जीवने उपकाररूप वचन बोलवानी

ए जावनी चिकारों करी जीवने सत्तायें पापरूपकर्मनां दलीयां लागे, तेद्रव्य पाप कहीयें. अने ए द्रव्यपापनां दलीयां जे सत्तायें बंधाणां, ते आगल जा वपणे तिर्यंच अने नारकीना जव पामीने व्याशी प्रकारें कडवा विपाक जी व जोगवे, ए रीतें द्रव्यजावनी चोजंगीये करी पापनुं स्वरूप जाणवुं.

१००१ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी आश्रवनुं स्वरूप जावथकीने द्रव्यथकी तथा द्रव्यथकी अने जावथकी केम जाणीयें ?

गुरुः— जाव आश्रव ते मिथ्यात्व, अविरति, कषाय अने योग, ए जाव आश्रवनी चिकारों जीवने शुजाशुजविकाररूप कर्मना दलीयां लागे, तेने द्रव्यआश्रव कहीयें. अने ए द्रव्यआश्रवनां दलीयां जे जीवनी सत्तायें लागीं, तेने चारगतिरूप संसारमां जावपणे जीव जोगवे ते जावथी जाणवुं, ए रीतें द्रव्यजावनी चोजंगीयें करी आश्रवनुं स्वरूप जाणवुं.

१००२ शिष्यः—नव तत्त्वमांथी संवरनुं स्वरूप, द्रव्यथकीने जावथकी तथा जावथकीने द्रव्यथकी केम जाणीयें ?

गुरुः—सामायिक, प्रतिक्रमण, पोसह, व्रत, पञ्चकाणरूप संवर करी एक जगायें रहेवुं, तेने द्रव्यसंवर कहीयें अने जे जीव अजीवरूप वेचण करी अंतरंग सत्तागतना उपयोगमां वर्त्तवुं, तेने जावसंवर कहीयें. पढी ते अंतरंग सत्तागतना उपयोगरूप जावसंवरमां जीवने रहेतां थकां द्रव्यरूप आठ वर्गनां दलीयां आवतां रोकाय, ते द्रव्यथी जाणवुं. ए रीतें द्रव्यजावनी चोजंगीयें करी संवरनुं स्वरूप जाणवुं.

१००३ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी निर्झरानुं स्वरूप द्रव्यथकीने जावथकी जावथकीने द्रव्यथकी केम जाणीयें ?

गुरुः—बार जेदें तपस्या करवी, तेने द्रव्यनिर्झरा कहीयें. अने जावनिर्झरा तो शब्द समजिरूढनयने मतें ज्ञानरूप दृष्टिये करी अंतरंग स्वसत्ता परसत्तारूप वेंचण करवी, तेने जाव निर्झरा कहीयें. अने ए रीतें एक अंतरमुहूर्त्त स्वसत्ता परसत्तारूप जीवने वेंचण करतां द्रव्यरूप आठ कर्मनां दलीयां जे जीवने सत्तायें रह्यां ठे, ते दलीयाने खपावे, ते द्रव्यदलीयाने खपाव्या कहीयें. ए रीतें द्रव्यजावनी चोजंगीयें करी निर्झरानुं स्वरूप जाणवुं,

१००४ शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी बंधतत्त्वनुं स्वरूप जावथकीने द्रव्यथकी तथा द्रव्यथकीने जावथकी केम जाणीयें ?

गुरुः—पुनः पुनः जीवने संसर्गों जे कर्म बंधाय तेने जावथकी बंध कहीयें एटले पुनः पुनः पीपासारूप विषयसुखनी तृष्णा अंतरंग लालचरूप परिणाम, तेने जावबंध कहीयें, अने ए जावबंध एटले अंतरंग इंद्रियसुखनी लालचरूप परिणामनी चिकाशें करी जे आठ कर्मरूप दलीयां जीवने लागे ते अव्यबंध जाणवो, जेमे तेदने संसर्ग वस्तुने धूडलागे तेनी परे जीवने पोताना माग परिणामना बगाड रूप चिकाशें करी ज्ञानावरणादि आठकर्मरूप धूस जीवने लागे, ते अव्यबंध जाणी लेवो अने ए अव्यबंधरूपकर्मना दलीयाने जीव चारगतिरूप संसारमां जावपणे जोगवे, ते जाव जाणवो. ए रीतें अव्य बावनी चोचंगीयें करी बंधनुं स्वरूप जाणवुं.

१००५ शिष्यः—ए नवतत्त्वमांथी मोक्षनुं स्वरूप अव्यथकीने जावथकी केम?

गुरुः—चारमे गुणगणे राग, द्वेष, अज्ञान, तथा मोहनीयकर्मनो रूप कथ्यो, अने तेरमे गुणगणे केवलज्ञान पाम्यो, तेने अव्यमोक्षपद कहीयें, तथा अष्ट हमे ह्य करी, अष्टगुणसंपन्न लोकने अंतैविराजमान, सारि अने नमे नागे तेने छे एता सिद्धपरमात्मा तेने जावमोक्षपद कहीयें, ए री तेने चोचंगीयें करी मोक्षतनुं स्वरूप जाणवुं, ए रीतें एटले अव्य नव तत्व नुं स्वरूप, अव्यभावनी चोचंगीयें, त्रिचंगीयें, वचंगीयें करी देखाउवुं.

हो ए नव तत्व एटले अव्यनुं स्वरूप कर्ता, कारण अने कार्यरूप त्रि चंगीयें रूप देखाउवुं.

रना अशुभकारणथकी जीवने नरक तिर्यचनी गतिरूप कार्य नीपजे, ए रीतें अशुभप्रकारें जीवनुं स्वरूप त्रिजंगीयें करी जाणवुं.

१००८ शिष्यः—नवतत्त्वमांशुभप्रकारेंजीवनास्वरूपमांकर्ता, कारणनेकार्यतेशुं गुरुः—कर्ता, जीव, अने दान, शील, तप, ज्ञाव, ए आदि अनेक प्रकारें शुभकारण थकी जीवने देव मनुष्यजवरूप कार्य नीपजे ठे.

१००९ शिष्यःएनवतत्त्वमांशुभप्रकारेंजीवनास्वरूपमांकर्ताकारणनेकार्यतेशुं गुरुः—कर्ता जीव अने शुभ कारण ते आ जव परजव इंद्रियसुखनी वांठा रहित, यशःकीर्त्तिनी वांठा रहित, एक पोतानो आत्मा कर्मवशे दुःखी ठे, तेने कर्मरूप बंधीखानाथकी ठोडाववारूप जे साधन करवुं, ते शुभकारण जाणवुं अने एवा शुभकारण सेवन कस्यार्थी जीवने कर्मरूप दुःखनो राशि त्रूटे, अने अनंतसुखनो राशि प्रगटे, ते रूप कार्य जाणवुं. ए रीतें शुभ प्रकारें जीवनुं स्वरूप त्रिजंगीयें करी कथुं.

१०१० शिष्यः—ए नव तत्त्वमां निश्चयनयें करी जीवमां कर्ता, कारण ने कार्य ते शुं कहीयें ?

गुरुः—निश्चय नयें करी जीव, मोक्षरूप कार्यनो कर्ता जाणवो. एट द्वे कर्ता तो जीव अने कारण तो शुभशुक्लध्यान रूपातीत परिणाम रूपक श्रेणी, ए कर्मक्षयनां कारण जाणवां. तथा ए कारणथकी सकल कर्मरहित शुभ चिदानंद परमज्योति एवुं सिद्धिरूपकार्य जीवने नीपजे, ए निश्चयनयें करी जीवनुं स्वरूप त्रिजंगीयें करी जाणवुं. ए नव तत्त्वमां जीवनां स्वरूपमां त्रिजंगीयो कही. हवे अजीवनुं स्वरूप त्रिजंगीयें करी कहे ठे.

१०११ शिष्यः—धर्मास्तिकायमां कर्ता कारण अने कार्य ते शुं कहीयें ?

गुरुः—कर्ता जीव अने कारणरूप धर्मास्तिकाय मळ्यो, तेवारें जीवने हा लवा चालवा रूप कार्य नीपनुं ए धर्मास्तिकायमां त्रिजंगी जाणवी.

१०१२ शिष्यः—अधर्मास्तिकायमां कर्ता, कारण अने कार्य ते शुं कहीयें ?

गुरुः—कर्ता जीव अने कारणरूप अधर्मास्तिकाय मळ्यो, तेवारें जीवने स्थिर रहैवारूप कार्य नीपनुं ए अधर्मास्तिकायमां त्रिजंगी जाणवी.

१०१३ शिष्यः—आकाशास्तिकायमां कर्ता कारण अने कार्य ते शुं कहीयें ?

गुरुः—कर्ता जीव अने कारणरूप आकाशास्तिकाय मळ्यो, तेवारें जीवने श्रव गाहनारूप कार्य नीपनुं. ए आकाशास्तिकायनुं स्वरूप त्रिजंगी यें करी कथुं.

१०१४ शिष्यः—कालद्रव्यमां कर्ता कारण अने कार्य ते शुं कहीयें ?

गुरुः—कर्ता जीव अने कारणरूप कालद्रव्य मध्युं तेवारें जीवने नवा पुराणारूप कार्य नीपन्युं एम कालद्रव्यनुं स्वरूप त्रिजंगीयें करी जावतुं.

१०१५ शिष्यः—पुजलास्तिकायमां कर्ता, कारण अने कार्य ते शुं कहीयें ?

गुरुः—कर्ता जीव, अने कारणरूप पुजलद्रव्य मध्यो, तेवारें जीवने स मय समय अनंतां कर्मरूप दक्षीयां लेवां, अने अनंता कर्मरूप दक्षीयां खेरववां, तेरूप कार्य नीपन्युं एम पुजलास्तिकायना स्वरूपमां त्रिजंगी जाणवी. ए रीतें जीव, अजीवरूप षट्द्रव्यनुं स्वरूप त्रिजंगीयें करी कणुं.

ह्वे नव तत्वमां जीव अने अजीव ए वे तत्त्वनुं स्वरूप षट्द्रव्यना स्वरूपमां कहेवाणुं शेष पुण्यादि सात तत्त्वनुं स्वरूप त्रिजंगीयें करी कहेवे.

१०१६ शिष्यः—नव तत्वमांथी पुण्यामां कर्ता कारण अने कार्य ते शुं कहीयें ?

गुरुः—कर्ता जीव अने कारण ते ठ कायनी दयारूप परिणाम, परोपकार करतो, मनोहर लखित वचन बोलतो, करुणाजावना जावतो, कुकर्मी जीव देनी तेनी उपर दया चिंतवतो, गुणवंत जीव देखी अत्यंत प्रमोद पवतो, सर्ग जीवने पोता समान जाणी, तेने दुःखयकी मूकाववानी चिंता हरतो, एवा परिणामरूप कारणयकी जीव महापुण्यरूप कार्य उपार्जन करे.

१०१७ शिष्यः—ए ना नरामां पापमां कर्ता, कारण अने कार्य ते शुं कहीयें ?

गुरुः—हना जीव अने कारण तो हिंसा, मृषा, चोरी, मैथुन, निंदा, देवता, निव्याय, अन्न, दाम्य, विनोद, कुतूहल, पारकां गिद्ध जोतो, क एम मन मोत्रतो, अने ह जीवने संताप उपजावतो, एवा परिणामरूप पापयकी जीव महापापरूप कार्य उपार्जन करे. ए पापमां त्रिजंगी कही.

१०१८ शिष्यः—अन नत्वमां आश्रवमां कर्ता, कारण अने कार्य ते शुं कहीयें ?

गुरुः—आश्रवमां हना जीव अने कारण तो एके था नव पापवने अने कथा इंद्रियगुणा संशय्य परिणामें जे अजुन कारण मेळवी तापन मवतुं जे अजुन कारण त्वय आश्रव जाणवुं अने निव्याय, अन्न, देवता, कर्मी कर्मीयन निव्याय्य परिणामें कर्मी जे स्वर्गां मेळववां, जे अजुनकारण एम आश्रव जाणवुं अने एवा अजुन कारण मेळवयाची जे था नव पापवने अजुन कारण त्वय अश्रव जाणवुं अने निव्याय्य परिणामें कर्मी प्राणि आपन कार्यव्य आश्रव जाणवुं. एम आश्रव कर्तुं नवत्य त्रिजंगीयें कर्मी जाणवुं.

१०१एशिष्यः—एनवतत्त्वमां संवरमां कर्ता, कारण अने कार्य ते शुं कहीयें ?

गुरुः—कर्ता जीव अने कारण तो नव तत्व षट्द्रव्यरूप जीव अजीवनी वेंचण करी अंतरंग निश्चयनयें ज्ञानस्वरूपी सत्तायें सिद्धसमान एवी जीव सत्ताने ध्यावे, अने अजीवसत्ताने जडरूप जाणी त्याग करे, एवुं संवररूप कारण जीवने मळे, तेवारें शुजाशुच विज्ञाविक सुख उपरथी मूर्छा टले, अने अनंत स्वाभाविक सुखरूप कार्य नीपजे, ए संवरमां त्रिजंगी कही.

१०२शिष्यः—ए नव तत्त्वमांथी निर्जारातत्त्वमां कर्ता, कारण अने कार्य ते शुं ?

गुरुः—कर्ता जीव अने अंतरंग इष्टानो रोध करी पौञ्जलिक सुखनी वांठा रहित थको एक पोतानो आत्मा कर्मरूप जालमां वींटाणो ठे, तेने शुद्ध निरावरण ज्ञान स्वरूपी ज्योतिरूप प्रगट करवानी वांठायें बार जेदें तपस्या रूप कारणने मेलवतो थोडा कालमां आवरण रहित थइ परमानंद सुखरूप कार्य निपजावे. ए रीतें निर्जारातत्त्वनुं स्वरूप, त्रिजंगीयें करी जाणवुं.

१०३शिष्यः—ए नव तत्त्वमां बंधमां कर्ता, कारण अने कार्य ते शुं कहीयें ?

गुरुः—कर्ता तो जीव अने कारण तो पुञ्जद्रव्यने संसर्गें करी जीव, कर्मने बांधे ठे. एटले वर्ण गंधादिक, रस, फरस प्रमुख पुञ्जलनी रचना तेने देखीने मोहदृष्टियें करी जीव व्यामोह पामे ठे. पठी तीवरागें करी विषयसुखनां कारण मेलवे, ए तीवरागनी चिकारें जीव, कर्मरूप दलीयां नो बंध पाडे, तेवारें बंधरूप कार्य नीपजे, एम बंधतत्त्वमां त्रिजंगी कही.

हवे आगल पन्नवणासूत्रना पाठमध्ये कछुं ठे जे मोक्षनिःकर्माविस्था रूप सिद्धपरमात्मानुं स्वरूप जाणे, तेने ज्ञानी कहीयें. अने अंतरंग सद्वहे तेने निश्चय समकेत ठरे तेनो खुदासो करे ठेः—समकेतविनानी सर्व करणी ते एकडा विनानां मीमां सरखी जाणवी, एटले कांइ पण देखे लागे नहीं तेमाटें समकेत ठे, ते दीवा समान ठे, जेम दीवा विना घरनेविषे अंधारामां कांइ पण वस्तु सूजे नहीं, तेम चित्तरूपीया घरनेविषे पण समकेतरूप दी पक विना कांइ मालम पडे नहीं, तथा वदी समकेत ठे, ते वीजना चंद्रमा समान ठे, जेम वीजनो चंद्रमा उगे, तेवारें लोकना जीवने पूर्णमासीनी प्रतीति थाय जे हवे पूर्णमासी अवश्य थाशे, तेम चित्तने विषे समकेतरूप वीज उगे. तेवारें मोक्षरूप पूर्णमासीनी प्रतीति थाय, तथा जेम कोइएक स्त्रीयें पांचशेर चोखा चूले मूक्या होय, तेमांहेलो एक दाणो चांपी जोतां

पाका काचा चोखानुं ज्ञान थाय. तेम समकेतरूप एक गुण आवेशी सिद्धना
 अमना गुणनुं ज्ञान थाय. तथा जेम कोइ एक व्यापारी गोधमनी बोरगत
 ग्या थाव्यो. तिहां गोधमनी कोठार सो कलशीनो जरेलो हतो. तेमांशी
 एक मूठी दरीने वानकी जोइ, तेवारें तेने सो एकलशी गोधम अमुक जात
 नात्रे. तेनुं ज्ञान अयुं. तेम समकेतरूप एक गुण ते वानकी समान ठे. ते
 जां जीवने आवे, तां तेने सिद्धजगवानना सर्व गुणनुं ज्ञान थाय. तेवारें
 तेने निरुनां सुख प्रगट करवानो जाव उपजे एतुं ए समकेत सर्वात्मठे.

१३३३ शिष्यः—सिद्धपरमात्माना केटला जेद ठे ?

गुरुः—गाथा ॥ जिण अजिण तिठतिठा, गिहि अन्न साखिंग डी नरनपुं
 म्मा ॥ वनेव नगं गुळा. नुळ मोळिहणिकाय ॥१॥ अर्थः—प्रथम जिनसिद्ध
 ने तीर्थ हरने कहीये. वीजा अजिणसिद्ध ते सामान्यकेवलीने कहीये. वीजा
 नरेसिद्ध ने जे तीर्थ हर गाय ते नत्तुं भिसंघनी स्थापना करे, ते संघने
 केवले कहीये. ते तीर्थे प्रात्यां पत्री जे मोळें गया, तेने तीर्थसिद्ध कहीये
 म्मा गां पं पां मंती प्रापनाज मकंदाजिहनी परें जे मोळें गया, ते अ

गुरुः—प्रथम श्रीऋषभादि चोवीश तीर्थंकर प्रमुख ते नामेकरी सिद्ध जाणवा. वीजा क्षेत्रथकी सिद्ध ते सर्वसिद्धआश्रयी पीस्तादीश दाख यो जन सिद्धशिला प्रमाणें जाणवा, अने एकसिद्ध आश्रयी तो पोताना शरीरना प्रमाणमध्येथी त्रीजो चाग घटाडी वाकी बे चागना शरीरप्रमाणें आत्मप्रदेशनो घन करी ते प्रमाणें क्षेत्र फरसीने सिद्ध रह्या ठे. त्रीजा कालथकी सर्व सिद्ध जगवान् तो अनादि अनंत चांगे रह्या ठे. अने एकसिद्ध आश्रयी तो सादि अनंत चांगो जाणवो, केम के सिद्धि वख्या तेनी आदि ठे, अने फरी पाहुं संसारमां कोइकादें आवतुं नथी, त्यां सिद्धत्वमांहेज रहेवुंठे, माटे अंत नथी तथा चोथा जावथकी सिद्धजगवान् तो शुचाशुचविकार रूप जे जाव तेथकी निवृत्तिने पोताना स्वजावमां वत्तें ठे, तथा पांचमा द्रव्यथकी सिद्धना जीव असंख्यातप्रदेशरूप जाणवा. ठठा गुणथकी सिद्धपरमात्माने एकेक प्रदेशें ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप अनंतागुण प्रगट्या ठे, तथा पर्यायथकी तो सातमो उत्पाद अने आठमो व्यय तथा नवमो ध्रुव, एटले पर्यायथकी सिद्धना जीवने समय समय अनंता अनंत नवा नवा ज्ञेयनी वर्तना रूप पर्यायनो उत्पाद व्यय थइ रह्यो ठे अने गुण तो ध्रुवाध्रुव पणेज वत्तें ठे, तेणे करी समय समय अनंता सुखनुं आस्वादनरूप सिद्ध परमात्मा सुख विलसे ठे. हवे उत्पाद व्ययनुं स्वरूप कहे ठे. वस्तु गतें मूलपणे जे ज्ञेयने पलटावे, ते ज्ञानपणुं एटले ते चासनपणे परिणमवुं थाय, तेवारें पूर्वपर्यायना चासननो व्यय थयो अने अजिनव पर्यायना चासननो उत्पाद थयो, तथा ज्ञानपणुं ते ध्रुव जाणवुं. ए सामान्यप्रकारें उत्पाद व्ययनुं स्वरूप कळुं जो विशेष रीतें कहीयें, तो बाल जीवनी समजाणमां नावे. ए रीतें नवचंगीयें करी सिद्धपरमात्मानुं स्वरूप जाणवुं.

१०४७ हवे नित्य, अनित्य, एक, अनेक सत्, असत्, वक्तव्य अने अवक्तव्य ए आठ पदें करी सिद्धनुं स्वरूप उलखावे ठे. तिहां प्रथम नित्य अनित्यपद कहे ठेः—ज्ञानादिक अनंतगुण सिद्धजगवानने प्रगट्या ठे, ते सदा काल नित्यपणे शाश्वता वत्तें ठे. तेमाटे सिद्धने नित्य कहियें, तथा ए ज्ञानादिक अनंतगुण जे सिद्धने प्रगट्या ठे, तेने विषे अगुरुलघु पर्याय समयसमय हा निवृद्धिरूप उपजवो विणसवो करे ठे, तेमाटें सिद्धने अनित्य पण कहीयें. तथा ए अगुरुलघु पर्याय समयसमय हानिवृद्धिरूप उपजवो विणसवो करे

ठे, ते अनित्यपणुं ठे तेने विषे पण सिद्ध जगवानना ज्ञानादिक अनंतगुण नित्यपणे वत्तें ठे, ते अनित्यमां नित्यपणुं ठे अने पूर्वोक्त ज्ञानादिक गुण नित्यपणे ठे तेमां अगुरुलघुनुं अनित्यपणुं ठे, ते नित्यमां अनित्यपणुं ठे. ए रीतें नित्यमां अनित्य अने अनित्यमां नित्य पद्दनो विचार जाणवो.

१०४ए इवे सिद्धमां एक अनेक पद्द कहे ठे:-प्रथम श्रीरुषजादि एतुं नाम लेतां तो सिद्ध एक ठे तेथी सिद्धने एक कहीयें, अने गुणपर्याय त या प्रदेश ए सिद्धने अनेक ठे एटले गुण अनंता, पर्याय अनंता, प्रदेश अ संग्याता, माटे सिद्धने अनेक पण कहीयें. तथा ए गुण, पर्याय अने प्रदेश अनेक ठे, तेमां पण पोतापणे ते सिद्ध एक वत्तें ठे, एटले एकमां अनेक अने अनेकमां एक पद्दनो विचार कखो.

१०५? इवे सिद्धमां सत् असत् पद्द देखाडे ठे:-तिहां स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वज्ञात्र, अने स्वज्ञापणे करी सिद्ध सत् ठे अने परद्रव्य, परक्षेत्र, परफाल, तथा परज्ञायें करी सिद्ध असत् ठे. तिहां स्वद्रव्य ते सिद्धमां ज्ञानादि गुण जाणना अने स्वक्षेत्र ते पोताना असंख्यातप्रदेशरूप क्षेत्रने अवगाहीने तथा ठे, तथा स्वज्ञात्र ते पोतानो अगुरुलघुपर्याय सर्वगुणमां सिद्धने तांनि मूर्तिरूप अमृतो निणसो करे ठे तथा स्वज्ञाय ते पोताना गुणपर्याय जाणना, ए सर्वे द्रव्यादिक चार तेंणे करी सिद्धपरमात्मा सत् ठे अने परद्रव्य, परक्षेत्र, परफाल अने परज्ञापणामां सिद्धनुं पोतानुं असात्पणुं वत्तें ठे. माटे ए मत्मां अमत् अने अमत्मां मत् पद्दनो विचार जाणवो.

पोताना असंख्यात प्रदेशरूप क्षेत्र तेने अवगाही रह्या ठे, तथा स्वकाल ते समय समय उत्पाद व्ययनी वर्तनारूप जाणवो अने स्वजाव ते अनंता ज्ञानपर्याय, अनंता दर्शनपर्याय, अनंता चारित्रपर्याय, अनंता अगुरुलघु पर्याय तेणें करी सिद्धने अस्तिपणुं ठे, माटे ए स्यात्अस्ति जांगो कहीयें.

बीजो स्यान्नास्तिजांगो कहे ठे. सिद्धमां परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल अने परजाव ए चारेनुं नास्तिपणुं ठे. तेणे करी स्यान्नास्ति जांगो कहीयें.

हवे स्यादस्तिनास्ति त्रीजो जांगो सिद्धमां कहे ठे. तिहां प्रथम जंगमां कहुं जे स्वगुणें अस्ति ठे, अने बीजा जांगामां कहुं जे परगुणें नास्ति ठे, ए वे जांगा सिद्धने एक समयें ठे, किंवा समयांतरे ठे? तेनो उत्तर गुरु कहे ठे, के जे समयें सिद्धने स्वगुणनी अस्ति ठे, तेहीज समयें सिद्धने परगुणनी नास्तिपणुं ठे, तेथी सिद्धने अस्ति नास्ति ए वे जांगा जेला एक समयमांजठे.

हवे स्यात् अवक्तव्य नामें चोथो जांगो कहे ठे. तिहां स्यात्अस्तिनास्ति ए वे जांगा एक समयें ठे, परंतु स्यात् अस्ति एटवुं वचन कहेतां थकां अ संख्याता समय लागी, तेवार पठी स्यात् नास्ति नामें बीजो जांगो कह्यो. एटवे जे समयें अस्तिजांगो कह्यो, ते समयें नास्तिपणुं कहेवामां न आ वुं अने नास्ति कहेतां ते समयें अस्तिपणुं नावुं तेवारें अस्ति केतां नास्तिपणानो मृषावाद लागो किंवा नास्ति केतां अस्तिपणानो मृषावाद लागो, एम एक समयमां वे वचन बोळ्यां जाय नही जेम एक अक्षर बोल तां असंख्याता समय लागी जाय, ल्यार पठी बीजो अक्षर बोलवामां आवे, तेमाटे सिद्धने चोथो जांगो अवक्तव्य कह्यो एटवे (अवक्तव्य के०)वच नथी अगोचर, वचनथी कहुं जाय नही माटे अवक्तव्यजांगो जाणवो.

शिष्य पूठे ठे के तमें अवक्तव्यपणुं कहुं ते अवक्तव्यपणुं सिद्धने अस्ति धर्मनुं ठे, किंवा नास्तिधर्मनुं ठे? तेवारें गुरु कहे ठे, जे ते वचनपणे स्याद स्ति स्यान्नास्ति ए वे जांगा अवक्तव्य ठे, एटवे पांचमो स्यादस्ति अव क्तव्य अने ठठो स्यात्नास्ति अवक्तव्य ए वे जांगा कह्या.

हवे सातमो स्यात् अस्ति नास्ति युगपत् अवक्तव्य जांगो कहे ठे. ए टवे स्यात्अस्तिपणुं नास्तिपणुं युगपत् एक समय ठे, पण वचनथी अ वक्तव्य ठे माटे ए सातमो जांगो पण सिद्धमां जाणवो.

१०६९ हवे सिद्धनुं स्वरूप नित्यानित्यादिनी सप्तजंगीयें करी उलखावे ठे.

स्यान्नित्यं, स्यादनित्यं, स्यान्नित्यानित्यं, स्यादवक्तव्य, स्यान्नित्य अवक्तव्य, स्यादनित्य अवक्तव्य, स्यान्नित्यानित्य युगपत् अवक्तव्य, ए सातठे.

तिहां स्यान्नित्यनामे प्रथम चांगो उलखावे ठे. एटखे (स्यात् के०) अनेकतापणे सर्व अपेक्षायें करी अने (नित्यं के०) शाश्वतपणे वक्तें ठे. तेने स्यात्नित्य चांगो कहीयें. ते सिद्धजगवानने ज्ञानगुणना ठता पर्याय अनंता, दर्शनगुणना ठता पर्याय अनंता, चारित्रगुणना ठता पर्याय अनंता, अने वीर्यगुणना ठता पर्याय अनंता, एम अनंता ठता पर्याय तेसिद्धनेविषे सदाकाल शाश्वता नित्यपणे वक्तें ठे, माटे स्यात् नित्यं चांगो ठे,

द्वे सिद्धमां स्यादनित्यं ए बीजो चांगो कहे ठे. श्रीसिद्धपरमात्माने अनंता ठता पर्याय जे प्रगट्या ठे, ते एकेक पर्यायने विषे अनंता सामर्थ्य पर्याय रूप ज्ञेयनी वर्तना समय समय थई रही ठे, एटखे अजि नवपर्यायनुं उपजनुं अने पूर्वपर्यायनुं विणसनुं थाय ठे. माटे ए सिद्धमां अनित्यपणुं जाणनुं तेथी स्यादनित्यरूप बीजो चांगो कह्यो.

द्वे सिद्धमां स्यान्नित्यअनित्यरूप बीजो चांगो कहे ठे. तिहां सिद्धमां पूर्वोक्त ठता पर्याय नित्य ठे, अने सामर्थ्य पर्याय अनित्य ठे. ए वे जांगो एक समय ठे, तिंता समयानरे ठे? त्यां गुरु कहे ठे, के जे समय ठता पर्यायनुं नित्यपणुं ठे, ते समयें ज सामर्थ्य पर्यायनुं अनित्यपणुं पण ठे. तेथी सिद्धने नित्य अने अनित्य ए वे जांगो जेव्हा एक समयें ठे, ए स्यान्नित्य अनित्य नामें बीजो चांगो कह्यो.

द्वे सिद्धमां स्यादवक्तव्य नामें चौथो चांगो कहे ठे. शिष्य कहे ठे. ए वे नित्य, अनित्य वे जांगो एक समयें ठे, तो आपणे स्यान्नित्य कहेयें व्होंय? असें व्याख्याना समय लागे, तेव्हा परती स्यादनित्य कहेयें व्होंय. माटे नित्य कहेते ते समयें अनित्यपणुं नाडनुं अने अनित्य कहेते ते समय नित्यपणुं नाडनुं एटखे नित्य कहेतां अनित्यपणा नवे गुण मार जाणवे किंवा अनित्य कहेतां नित्यपणांनो घुपामाद लाग्यां तेव्हा ए कहेते. वे एम एहसमयें वे वचन बोझां न जाय, केम के ए कहेते वे वचन अय-व्यथा समय जाणे, तेव्हा परती बीजो अक्षर बोझ मार जाणे माटे वे स्यादवक्तव्यनामें चौथो चांगो सिद्धमां कह्यो ठे, एटखे अवक्तव्य एम अवक्तव्य अथोवा अथोव अवक्तव्य कह्यो जाय वही.

एवुं सांजदी शिष्य कहे ठे के हे गुरुजी ! तमे अवक्तव्य पाणुं कहुं ते अवक्तव्य पाणुं सिद्धपरमात्माने नित्यधर्मनुं ठे, किंवा अनित्यधर्मनुं ठे ? तेवारें गुरु कहे ठे, के वचनपणे नित्य अनित्य ए वे जांगा अवक्तव्य ठे, एटले पां चमो स्यान्नित्य अवक्तव्य अने ठठो स्यादनित्य अवक्तव्य जांगो कह्यो.

हवे सातमो स्यान्नित्य अनित्य युगपत् अवक्तव्य जांगो कहे ठे. एटले ए स्यात् नित्यानित्य पाणुं युगपत् एकसमय ठे पण वचनशी अवक्तव्य ठे माटे स्यात् नित्यानित्य युगपत् अवक्तव्य सातमो जांगो सिद्धमां जाणवो.

१०७४ वली सिद्ध परमात्मानां एक अनेकनी सप्तजंगीयो करवी. जेम के स्यादेकं, स्यादनेकं, स्यादेकानेकं, स्यादवक्तव्यं, स्यादेकअवक्तव्यं, स्यादअनेकावक्तव्यं, स्यादेकानेकयुगपदवक्तव्यं. ए रीतें एक अनेकनी सप्तजंगीयें करी सिद्ध परमात्मानुं स्वरूप गुरुमुखें जाणवुं.

१०७१ वली सिद्धपरमात्मानां स्यात्सत्यं, स्यादसत्यं, स्यात्सत्यासत्यं, स्यादवक्तव्यं, स्यात्सदवक्तव्यं, स्यादसदवक्तव्यं, स्यात्सत्यासत्यं युगपदवक्तव्यं, ए सत्या सत्यनी सप्तजंगीयें करी सिद्धनुं स्वरूप विचारवुं.

१०७७ वली सिद्धमां ज्ञव्य अज्ञव्य स्वज्ञावनी सप्तजंगी करवी ते आवी रीतें स्याद्ज्ञव्यस्वज्ञाव, स्यादज्ञव्यस्वज्ञाव, स्याद्ज्ञव्याज्ञव्यस्वज्ञावं, स्यादवक्तव्यं, स्याद्ज्ञव्यस्वज्ञाव अवक्तव्यं, स्यात् अज्ञव्यस्वज्ञाव अवक्तव्यं, स्यात्ज्ञव्यस्वज्ञाव अज्ञव्य स्वज्ञाव युगपदवक्तव्यं, ए सप्तजंगीयें करी सिद्ध परमात्मानुं स्वरूप विचारवुं.

१०७५ वली सिद्धमां गुणपर्यायनी सप्तजंगी करवी, ते आवी रीतें स्यात् गुणं, स्यात्पर्यायं, स्यात्गुणपर्यायं, स्यात्अवक्तव्यं, स्यात्गुणअवक्तव्यं, स्यात्पर्याय अवक्तव्यं, स्यात्गुणपर्याययुगपदवक्तव्यं. ए रीतें गुणपर्यायनी सप्तजंगीयें करी सिद्ध परमात्मानुं स्वरूप विचारवुं. एम अनंती सप्तजंगीयो सिद्ध परमात्माने विषे वस्तुधर्में रही ठे पण तेनो विस्तारें अर्थ करतां ग्रंथ वधे, माटे ए सामान्य प्रकारें बीजरूप सप्तजंगीनो विचार कह्यो.

११०१ हवे मोक्षनिष्पन्न स्वरूपसिद्ध अवस्थामां पदकारक लगावे ठे. तिहां प्रथम ज्ञानगुणमां ठ कारक लगावे ठे. प्रथम कर्त्ता ते सिद्धनो जीव, बीजुं कारण रूप ज्ञानगुण ठे, त्रीजुं ते ज्ञानगुणें करीने अनंता ज्ञेयपदार्थ जाणवा रूप कार्य करवुं ठे, तेणे करी समय समय अज्ञितव पर्यायनुं जा

पणुं संप्रदानं जाय, ते चोथुं संप्रदान, अने समय समय पूर्वपर्यायिना जाणपणानो व्यय यतो जाय, ते पांचमुं अपादान, अने ज्ञानगुण ध्रुवुं ध्रुवणे जाणवुं ते ठहुं आधार, ए सिद्धना ज्ञानगुणमां ठ कारक कथां.

११०७ इवे सिद्धने दर्शनगुणमां ठ कारक कहे ठे. प्रथम कर्ता सिद्धनो जीव. त्रीजुं तेने दर्शनगुण कारण मध्युं तेणे करी त्रीजुं अनंता दृश्यपदार्थने देवत्वारूप कार्य करवुं ठे, चोथुं अज्ञिनवपर्यायनुं समयसमय देखवा पणुं संज्ञननुं जाय ते संप्रदान. पांचमुं पूर्वपर्यायिना देखवा पणानो समयसमय व्यय यतो जाय. ते अपादान, आधार ते दर्शनगुण ध्रुवन ध्रुवणे जाणवो.

१११३ इवे सिद्धने चारित्र्यगुणमां पट्टकारक कहे ठे प्रथम कर्ता सिद्धनो जीव. त्रीजुं चारित्र्यगुण कारण मध्युं, त्रीजुं अनंता गुणने विषे रमण करवा रूप मां ठे करवुं ठे. चोथुं संप्रदान ते अज्ञिनवपर्यायनुं रमण पणुं समय समय संज्ञननुं जाय. पांचमुं अपादान ते पूर्वपर्यायिना रमणपणानो समय समय व्यय यतो जाय, ठहुं आधार ते चारित्र्यगुण ध्रुवुं ध्रुवणे जाणवुं.

१११७ इवे सिद्धना वीर्ये गुणमां पट्टकारक कथावे ठे, प्रथम कर्ता सिद्धनो जीव. त्रीजुं कारणरूप वीर्यगुण, त्रीजुं अनंतागुणने विषे सहायरूप मां ठे करवुं ठे. चोथुं संप्रदान, ते अज्ञिनव पर्यायनुं सहायपणुं समय समय संज्ञननुं जाय. पांचमुं अपादान ते पूर्वपर्यायिना सहायपणानो समय समय व्यय यतो जाय. ठहुं आधार ते वीर्यगुण ध्रुवुं ध्रुवणे जाणवुं. ए सिद्धना सिद्धेदपमां पट्टकारक जाण मा. ए त्रिने सिद्धपरमात्माने अनंता गुणने विषे पट्टकारक रूप अनंतां चक्र द्वागी रवां ठे, तेनुं जाणपणुं कमी विषय मां ठे. मां ठे विषये ते प्राणी, गण्ठा दिवसमां परमानंद पद पाते.

११२७ हवे चार निक्षेपे करी सिद्ध परमात्मानुं स्वरूप उलखावे ठे. प्रथम (नामसिद्ध के०) सिद्ध एवुं नाम ते त्रणे काल एकरूप पणे शाश्वतुं वर्त्ते ठे, बीजो स्थापनासिद्ध ते श्रीजिनप्रतिमा स्थापवी अथवा देहमान मध्येथी त्रीजो जाग घटाडी वे जाग शरीर प्रमाणे आत्मप्रदेशनो घन करी स्थापना रूप क्षेत्र अवगाही रह्या ठे. त्रीजो द्रव्यसिद्ध ते तेरमे चौदमे गुणगणे केवलीजगवान् वर्त्ते ठे. ते जव्यशरीर आश्रयी द्रव्य सिद्ध जाणवो अने जे सिद्धि वस्या तेना शरीरनी जक्ति करियें, ते जशरीरनुं द्रव्य जाणवुं तथा शुद्ध निर्मल असंख्यात प्रदेशने विषे ज्ञानादि अनंतगुण रूप ठता पर्याय वस्तुरूप प्रगट्या ठे, ते तद्रव्यतिरिक्त शरीर आश्रयी द्रव्यनिक्षेपो जाणवो ए त्रण प्रकारें सिद्धनो द्रव्यनिक्षेपो जाणवो. तथा सिद्धनो स्वरूप सामर्थ्यपर्याय प्रवर्त्तना रूप अनंतो धर्म प्रगट्यो ठे, तेणे करी सदा काल नवा नवा ज्ञेयनी वर्त्तना रूप पर्यायनो उत्पाद, व्यय, समय समय अनंत अनंतो थइ रह्यो ठे. तेथी सिद्ध परमात्मा अनंतुं सुख जोगवे ठे. ते जावनिक्षेपो जाणवो. ए रीतें चारनिक्षेपे. सिद्ध परमात्मानुं स्वरूप जाणवुं,

११३१ शिष्यः—सिद्धपरमात्माना स्वरूपमां अजोगी, उपजोगी अने जोगी, एवी त्रिजंगी उपजे ठे माटे तेणे करीने सिद्धनुं स्वरूप केम जाणीयें ?
 गुरुः—सिद्धपरमात्मा शुजाशुजना हेतु इंद्रियसुखना विकाररूप जोगथकी रहित ठे, तेमाटे सिद्धने अजोगी कहीयें. तथा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, ए आदि अनंता गुण प्रगट्या ठे. ते वारंवार एना ए गुण जोगव्यामां आवे ठे, तेथी सिद्धने उपयोगी कहीयें. जे एकवार जोगव्यामां आवे, तेने जोग कहीयें. अने जे वारंवार जोगव्यामां आवे, तेने उपजोग कहीयें. तथा सिद्धना एकगुणने विषे अनंतानंत पर्यायनी समय समय उत्पादव्ययरूप नवा नवा ज्ञेयनी वर्त्तना थइ रही ठे, तेणें करी सिद्धपरमात्मा, समय समय अनंतसुखना आस्वादनरूप जोग करे ठे, तेमाटे पर्यायथकी सिद्धने जोगी कहीयें. ए रीतें शुजाशुजरूप विजावना जोगथकी सिद्ध रहित ठे, तेमाटें अजोगी कही बोलाव्या अने ज्ञानादि अनंतपर्यायरूप गुणथकी सिद्धने उपजोगी कही बोलाव्या, एटले ठता पर्यायरूप गुण वारंवार फरी फरीने एना ए जोगव्यामां आवे माटे, तपजोग ठे तथा सिद्धना सामर्थ्य पर्याय समय समय नवा नवा ज्ञेयनी वर्त्त

नाख्य पलटाय ठे. तेमाटे समय समय नवनवुं अनंतुं सुख जोगवे ठे एर
 वे पर्यायकी सिद्धने जोगी कही बोलाव्या, ए परमार्थ ठे. ए रीतें त्रि
 जंगीयें करी सिद्ध परमात्मानुं स्वरूप जाणवुं.

११३३ शिष्यः—सिद्धपरमात्मानो नित्यस्वभाव कहीयें, अने अनित्य
 स्वभाव पण कहीयें, तेनो श्यो पामार्थ?

गुरुः—सिद्धने ज्ञान, दर्शन, चारित्र अने वीर्य, ए चार गुण तथा अज्ञा
 वाध, अमूर्त्ति, अने अनवगाहक, ए त्रण पर्याय नित्य ठे तेमाटे ए नित्य
 स्वभाव कहीयें अने एक अगुरुत्वधु पर्याय सिद्धने सर्वगुणमां उपजवा वि
 गमवा रूप हानि वृद्धि करे ठे, ते माटे सिद्धनो अनित्यस्वभाव कहीयें,
 एतडे अज्ञान्तिनयें करी सिद्धनो नित्यस्वभाव कहीयें अने पर्यायास्ति
 त्वयें करी सिद्धनो अनित्य स्वभाव कहीयें ए परमार्थ जाणवो.

११३५ शिष्यः—सिद्धनुं परमात्मानां अस्ति तथा नास्तिपणुं केम जाणीयें?

गुरुः—सिद्ध परमात्माने ज्ञानादि अनंतनतुष्टयरूप लक्ष्मी प्रगट अइ ठे,
 तेनु सिद्धने अस्तिपणुं जाणनुं, अने परस्वभाव शुभाशुभरूप जे इंद्रिय
 मुख तेनु सिद्धने नास्तिपणुं जाणनुं.

११३६ शिष्यः—सिद्धने योगी कहीयें अने अयोगीपण कहीयें तेनो सो परमार्थ

गुरुः—सिद्धने ज्ञान, दर्शन अने चारित्र रूप त्रण गुण प्रगट तथा ठे
 माटे ए त्रण गुणे करी योगी कहीयें. तथा मन, वचन अने काया, ए
 त्रण जोगयो सिद्ध रीतिव ठे, माटे अयोगी कहीयें.

११३७ शिष्यः—सिद्धने कर्ता कहीयें अने अकर्तापण कहीयें तेनो श्यो परमार्थ?

गुरुः—ज्ञानना ज्ञानोप अर्जना ठे तेणे करी सिद्ध परमात्मा अने कर्तेव
 रूप ज्ञानने जाणनापण कार्य करे ठे, अने अर्जना दर्शनना पर्याय
 तेणे करी ज्ञान अने कर्तेव ज्ञाननापणे देवभाष्य कार्य करे ठे माटे सिद्धने
 तेना कर्ते कहीयें. अने शुभाशुभादि कारणां इंद्रियमुखना तेनु पण ते
 जाणनापण विनासिक रूप तेना सिद्धने अकर्ता कहीयें.

११३८ शिष्यः—सिद्ध परमात्मानो नित्यस्वभाव पण कहीयें, अने

अनित्य स्वभाव पण कहीयें, तेनो श्यो परमार्थ?

गुरुः—तेने स्वभाव स्वभाव ठे तेने नित्यस्वभाव कहीयें, अने तेने प
 ण अनित्य स्वभाव पण तेने अनित्यस्वभाव कहीयें. इहा सिद्धपरमात्माने जे

न, दर्शन अने चारित्र ए आदि अनंता गुण प्रगट्या ठे, तेनो कोइ का
विनाश थवानो नथी, एटले ते कोइ काळें पलटाशे नही, तेमाटे ए अत्रव
खजाव सिद्धमां कहीयें. अने सिद्धने एक अगुरुत्वधु पर्याय करी अनंत
गुणमां हानिवृद्धिरूप समय समय उत्पाद व्यय थाय ठे, ते पलटण स
जाव ठे. तेणे करी सिद्ध परमात्माने जव्यखजाव कहीयें.

११४३ शिष्यः—सिद्ध परमात्माने लाज कहीयें अने अलाज पण क
हीयें तेनो शो परमार्थ ?

गुरुः—सत्तागतें अनंतुं सुख प्रगटयुं, तेनो सिद्धने लाज कहीयें अने शु
जाशुजविकाररूप इंद्रिसुखना जे जोग तेनो सिद्धने अलाज कहीयें.

११४५ शिष्यः—सिद्ध परमात्माने ग्राहकखजाव कहीयें, अने अग्राहक
खजाव पण कहीयें, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—सिद्ध परमात्मायें शुक्लध्यानरूप अग्नियें करी सर्व कर्म वाली पो
ताना स्वरूपनुंग्रहण करी लोकनेअग्रजागें जइ अनंतसुखरूप आखाद
ननुं ग्रहण कछुं ठे तेमाटे ग्राहकखजाव कहीयें, अने चारगतिरूप संसा
रमां मोहनीकर्मने वशे हता, तेवारें समय समय अनंता कर्मरूप दलीयानुं
ग्रहण रता हता, तेथकी हमणां निवर्त्या, माटे अग्राहकखजाव कहीयें.

११४७ शिष्यः—सिद्ध परमात्मानो स्थिरखजाव कहीयें, अने अस्थिर
खजाव पण कहीयें, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—सिद्धपरमात्मा सकल कर्म खपावी पोतानुं रूप निपजावी लोक
ने अंतें सादि अनंतमे जांगे ने आकाशप्रदेशरूप क्षेत्र अवगाही रह्या ठे,
तिहां थकी कोइ काळें ए प्रदेश मूकी बीजे प्रदेशे जवुं नथी तेमाटें स्थिरख
जाव कहीयें. अने जे अनंतगुण सिद्धने प्रगट्या ठे, तेनुं पण कोइकाळें वि
नाशपणुं नथी, ते पण सिद्धनो स्थिरखजाव कहीयें तथा पर्यायनुं समय
समय, पलटणपणुं ठे एटले पर्यायें करी हानिवृद्धि थाय ठे ते सिद्ध पर
मात्मानो अस्थिरखजाव जाणवो.

११४८ शिष्यः—सिद्धने रक्षक कहीयें अने अरक्षक कहीयें, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—सिद्ध परमात्माने सत्तायें ज्ञानादि अनंतगुणरूप जे लक्ष्मी प्रगट
थइ ठे. तेना रक्षक ठे माटे सिद्धने रक्षक कहीयें, अने पुजवादि विजाव
रूप जे लक्ष्मी ते थकी सिद्धरहित ठे, तेमाटे तेना अरक्षक कहीयें.

११५१ शिष्यः—सिद्ध परमात्मानो अचलितस्वभाव कहीयें, अने चञ्चलस्वभाव पण कहीयें, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—सिद्ध परमात्माने सत्तागतें ज्ञानादि अनंतगुण प्रगट्या ठे, तेनो कोइ काळें विनाश नथी माटे सिद्धनो अचलित स्वभाव कहीयें, अने न वा नवा ज्ञेयनी वर्तनारूप समय समय उत्पादव्यय थाय ठे, तेमाटे सिद्धपरमात्मानो चञ्चित स्वभाव कहीयें.

११५३ शिष्यः—सिद्धपरमात्मानो रमणिक स्वभाव कहीयें, अने श्रमणिक स्वभाव पण कहीयें, तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—गुह्यध्यानरूप अशियें करी घाती अघाती रूप कर्म आवरण वा सो ज्ञानादि अनंतगुणरूप पोतानुं स्वरूप प्रगट कखुं, तेने विपे सिद्धपरमात्माने रमणिकपणुं ठे अने इंद्रियसुखनी हेतु एवी जे परस्वभाव रूप विनाशशा निद्रांशकी सिद्धने श्रमणिक पणुं जाणवुं.

११५५ शिष्यः—सिद्ध परमात्मानो व्यापक स्वभाव कहीयें अने अजापक स्वभाव पण कहीयें तेनो श्यो परमार्थ ?

गुरुः—सिद्धपरमात्माने सत्तागतें सामान्य विशेषरूप ज्ञान, दर्शन आदि अनेना गुण प्रगट्या ठे, तेमां व्यापकपणुं जाणवुं, अने परस्वभावरूप विनाशशा शक्ती सिद्ध परमात्मा रक्षित ठे, तेमाटे तेमां अद्व्यापकपणुं जाणवुं एही ठे असीयें कमी सिद्धपरमात्मानुं स्वल्प कखुं.

११५७ शिष्यः—सिद्ध परमात्माना अन्वयी गुण कहीयें तेंगें. १ अनंतज्ञानमय, २ अनंतदर्शनमय, ३ अनंतचारित्र्यमय, ४ अनंतनमोमय, ५ अनंतगोपमय, ६ अनंतशान्तमय, ७ अनंतदात्ममय, ८ अनंतगोपमय, ९ अनंतअपरोक्षमय, १० अनंतवचनमय, ११ सिद्धपरमात्माना अन्वयी गुण कहेता.

११५८ शिष्यः—सिद्धपरमात्माना अन्वियें तेंगें. १ कौशिकित, २ अज्ञानरहित, ३ अज्ञानरहित, ४ अज्ञानरहित, ५ अज्ञानरहित, ६ अज्ञानरहित, ७ अज्ञानरहित, ८ अज्ञानरहित, ९ अज्ञानरहित, १० अज्ञानरहित, ११ अज्ञानरहित, १२ अज्ञानरहित, १३ अज्ञानरहित, १४ अज्ञानरहित, १५ अज्ञानरहित, १६ अज्ञानरहित, १७ अज्ञानरहित, १८ अज्ञानरहित, १९ अज्ञानरहित, २० अज्ञानरहित, २१ अज्ञानरहित, २२ अज्ञानरहित, २३ अज्ञानरहित, २४ अज्ञानरहित, २५ अज्ञानरहित, २६ अज्ञानरहित, २७ अज्ञानरहित, २८ अज्ञानरहित, २९ अज्ञानरहित, ३० अज्ञानरहित, ३१ अज्ञानरहित, ३२ अज्ञानरहित, ३३ अज्ञानरहित, ३४ अज्ञानरहित, ३५ अज्ञानरहित, ३६ अज्ञानरहित, ३७ अज्ञानरहित, ३८ अज्ञानरहित, ३९ अज्ञानरहित, ४० अज्ञानरहित, ४१ अज्ञानरहित, ४२ अज्ञानरहित, ४३ अज्ञानरहित, ४४ अज्ञानरहित, ४५ अज्ञानरहित, ४६ अज्ञानरहित, ४७ अज्ञानरहित, ४८ अज्ञानरहित, ४९ अज्ञानरहित, ५० अज्ञानरहित, ५१ अज्ञानरहित, ५२ अज्ञानरहित, ५३ अज्ञानरहित, ५४ अज्ञानरहित, ५५ अज्ञानरहित, ५६ अज्ञानरहित, ५७ अज्ञानरहित, ५८ अज्ञानरहित, ५९ अज्ञानरहित, ६० अज्ञानरहित, ६१ अज्ञानरहित, ६२ अज्ञानरहित, ६३ अज्ञानरहित, ६४ अज्ञानरहित, ६५ अज्ञानरहित, ६६ अज्ञानरहित, ६७ अज्ञानरहित, ६८ अज्ञानरहित, ६९ अज्ञानरहित, ७० अज्ञानरहित, ७१ अज्ञानरहित, ७२ अज्ञानरहित, ७३ अज्ञानरहित, ७४ अज्ञानरहित, ७५ अज्ञानरहित, ७६ अज्ञानरहित, ७७ अज्ञानरहित, ७८ अज्ञानरहित, ७९ अज्ञानरहित, ८० अज्ञानरहित, ८१ अज्ञानरहित, ८२ अज्ञानरहित, ८३ अज्ञानरहित, ८४ अज्ञानरहित, ८५ अज्ञानरहित, ८६ अज्ञानरहित, ८७ अज्ञानरहित, ८८ अज्ञानरहित, ८९ अज्ञानरहित, ९० अज्ञानरहित, ९१ अज्ञानरहित, ९२ अज्ञानरहित, ९३ अज्ञानरहित, ९४ अज्ञानरहित, ९५ अज्ञानरहित, ९६ अज्ञानरहित, ९७ अज्ञानरहित, ९८ अज्ञानरहित, ९९ अज्ञानरहित, १०० अज्ञानरहित.

१५ गंधरहित, १६ आहाररहित, १७ निहाररहित, १८ रोगरहित, १९ जयरहित, २० शोकरहित, २१ जुगुप्सा रहित, ए व्यतिरेक गुण जाणवा. १२७५ हवे सिद्धपरमात्माना अन्वयी अने व्यतिरेक ए वे गुण जेला ल खीयें ठीयें. निराकार, १ निराखंब, ३ निराशी, ४ निरुपाधि, ५ निर्विकारी, ६ अक्षय, ७ अनादि, ८ अनंत, ९ अखंड, १० अक्षर, ११ अनक्षर, १२ अचल, १३ अकल, १४ अमल, १५ अगम, १६ अनादमी, १७ अरूपी, १८ अकर्मि, १९ अवंधक, २० अनुदय, २१ अनोदिक, २२ अजेदी, २३ अवेदी, २४ अछेदी, २५ अखेदी, २६ असखायी, २७ अलोशी, २८ अजोगी, २९ अव्याबाध, ३० अनंतअनवगाही, ३१ गुरुलघु, ३२ अपरिणामी, ३३ अनिंद्रिय, ३४ अविकारी, ३५ अयोनि, ३६ अव्यापी, ३७ अनाश्रयी, ३८ अकंप, ३९ अविरोधी, ४० अखंडित, ४१ अनाश्रव, ४२ अलख, ४३ अशोक, ४४ अलोक, ४५ लोकालोकज्ञायक, ४६ स्वद्वयवंत, ४७ स्वक्षेत्रवंत, ४८ स्वकालवंत, ४९ स्वज्ञाववंत, ५० द्रव्यास्तिकपणे नित्य, ५१ पर्यायास्तिकपणे अनित्य, ५२ गुणपर्यायपणे नित्यानित्य, ५३ सिद्धस्वरूपी, ५४ स्वसत्तावंत, ५५ परसत्तारहित, ५६ स्वक्षेत्रअवगाहिक, ५७ परक्षेत्रस्वपणें अनवगाहिक. ५८ धर्मास्तिकायथकी जिन, ५९ अधर्मास्तिकायथकी जिन, ६० आकाशास्तिकायथकी जिन, ६१ पुद्गलास्तिकायथकी जिन, ६२ कालथकी जिन, ६३ स्वज्ञावना कर्ता, ६४ परज्ञावना अकर्ता, ६५ लोकप्रमाणें अवगाहनावंत, ६६ शुद्ध, ६७ बुद्ध, ६८ अमर, ६९ अपर, ७० अपरंपर, ७१ स्वज्ञावरमणी, ७२ सहजानंदी, ७३ पूर्णानंदी, ७४ अजर, ७५ अविनाशी, ७६ एक, ७७ असंख्य, ७८ अनंत, ७९ अनंतगुणें करी विराजमान.

शिष्यः—सिद्ध परमात्माने दान अनंतुं ठे. लाज अनंतो ठे, जोग अनंतो ठे, उपजोग अनंतो ठे, तेनो श्यो परमार्थ ? तथा ते दान कोने आपे ठे ? लाज शानो थाय ठे ? जोग ते शेनो ठे. अने उपजोग ते शेनो ठे ?

गुरुः—सिद्ध परमात्माने वीर्यगुण ते सहकार दीये ठे तेम ज्ञानगुणना उपयोग विना वीर्य फुरी शके नही तेथी वीर्यने सहाय ज्ञान गुणनुं ठे तथा ज्ञानमां रमण ते चारित्रनुं सहाय ठे, एम एक गुणने अनंतगुणनुं सहाय ठे. हवे जे गुण सहाय दीये ठे ते तो आत्माना गुणमां दान धर्म

ठे, ते सिद्धना जीव प्रति समय अनंत स्वगुण सहाय रूप अनंतुं दान पं
 तें पोताने आपे ठे तथा जे गुणने जे गुणनी सहाय रूप शक्तिनी प्राप्ति
 ते सिद्धना जीवने लाज ठे तथा सिद्धना जीव पोताना पर्यायने प्रतिसम
 यें जोगवे ठे ते जोग ठे तथा सिद्धना जीव स्वात्ताविक जे स्वगुण तेने वा
 वार जोगवे ठे माटे तेनो उपजोग ठे एम सिद्धने दान स्वरूपनुं ठे, लाज
 पण स्वरूपनो ठे, जोग स्वपर्यायनो ठे अने स्वात्ताविक स्वगुणनो उपजोग ठे

ए रीतें एक सिद्ध आश्रयी ए स्वरूप किंचिन्मात्र दाख्युं ठे. एवा अनंत
 सिद्ध वत्तें ठे, तेमाटे एक सिद्धनुं स्वरूप जाण्युं एटखे सर्वसिद्धनुं स्वरूप
 जाण्युं तेथी एक सिद्धनुं स्वरूप जेना जाण्णामां आवे, तेने ज्ञानी कहीयें.
 अने जेनी श्रद्धामां वेसे, अंतरंग सईहे, तेने समकेती कहीयें. एवा पुरुषने
 सिद्धनां मुय नजीक ठे, एवा पुरुष संसारमां जे रहा ठे, ते मात्र जयस्वि
 तिना जांकयकी रहा ठे, अने एवी उखखाणना धणी जे सिद्धपरमात्माने
 नमस्कार करे ठे. एटखे नमोसिद्धाणं कहे ठे. ते घणी निर्झारा करे ठे. ते
 माटे तेने निश्चय समोत्तना धणी कहीयें.

तथा जेणें एवी रीतनी उखखाण करी नथी, अने जे "नमोसिद्धाणं"
 कही सिद्धने नमस्कार करे ठे, ते मूजे जेम रामनो उधार करे ठे, तेनी
 पें आत्मण जाण्युं, सिद्धां मुधी मिथ्यात्व ठे, पण निर्झारा थाय नही,
 केम ते निजोग तो उखखाणने हाथ ठे, माटे सिद्धनुं स्वरूप जाणना
 पणें मय करतो, जेणें एकप्र हारें सिद्धनुं स्वरूप न जाण्युं तेनो द्रव्यनिक
 से ठे. अणु उमोद्वं ए श्रीअनुयोगद्वारनुं वचन ठे,

एवी कहे ठे, जे पर, अकार, मात्रा, शुद्धमिद्वान वांचतां, पुत्रता,
 अर्थ कां ठे, एम मुदें सईहे ठे, ते पण शुद्ध निश्चय मत्ता उखख्या विना
 मय द्रव्यनिकने ठे. अने जे मात्र विना द्रव्यनय ठे, ते पुण्यबंधनुं कारण
 ठे पण मोक्षनुं कारण नथी, एटखे जे जीव, कर्माणीक्य कथतपस्या करे
 ठे, एम जीव अजीवनी मत्ता उखखी नथी, तेने जयस्वी मूत्रमां अत्रवी अथ
 वण्णायकी कथा ठे तथा प्र वाच्यथी एरुची तपस्याक्य कर्माणी कां ठे,
 जेने सोनने माथु कहेरगां व ते मूत्रमादी ठे. श्रीउत्तमाश्रयनामां "नम
 सिद्धाणं" ए इत्यने तथा "नमोसिद्धाणं" ए इत्यने जे जाकी
 ते ठे. ते मिथ्यात्व ठे.

तथा कोइ गणितानुयोग जे नारकी देवताना बोल अथवा यतिश्राव
नो आचार जाणीने कहे जे अमें ज्ञानी ठैयें ? परंतु ते ज्ञानी नथी, जे
व्यगुणपर्यायनुं स्वरूप जाणे, तेने ज्ञानी कहीयें. उत्तराध्ययनना मोह
गार्गाध्ययनमां कळुं ठे. तथा च तत्सूत्रं ॥ एवं पंचविहं नाणं, द्वाण्यगुणा
ए य ॥ पञ्चवाण्य सवेसिं, जं नाणिहिं दंसीआ ॥ १ ॥ अर्थः—पांच प्रकारें
ज्ञाननुं स्वरूप. तथा षड्रव्यनुं स्वरूप, गुणपर्याय सहित जाणे, तेने
सम्यग्ज्ञानी जाणवा. तिहां प्रथम पांच प्रकारें ज्ञाननुं तथा षट्द्रव्यनुं
स्वरूप रूपी अरूपी पणे निश्चयव्यवहारथी जाणे, तथा उत्सर्ग अपवादथी
जाणे, तथा देशव्यापी सर्वव्यापी पणे जाणे, तथा प्रत्यक्ष परोक्ष ए बे
प्रमाणे करी जाणे, तथा कर्त्ता कारणने कार्यपणे जाणे, तथा हेय ज्ञेय
उपादेयपणे जाणे. तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल अने जावथकी जाणे, तथा
नामादिक चार निक्षेपे रजुसूत्रनयने मत्तें जाणे, तथा शब्दनयने मत्तें
चार निक्षेपे जाणे, तथा समजिरूढ नयने मत्तें चार निक्षेपे जाणे, तथा
पंच समवायें करी जाणे, तथा षट् कारकें करी जाणे, तथा नैगमा
दिक सप्त नयें करी जाणे, तथा नित्य अनित्यादिक आठ पक्षें करी जाणे
तथा निश्चयव्यवहारथी जाणे, तथा नाम, द्रव्य, क्षेत्र, काल, जाव, गुण,
पर्यायथकी जाणे, तथा उत्पाद, व्यय, ध्रुवपणे जाणे. ए रीतें पांच ज्ञाननुं
तथा षट्द्रव्यनुं स्वरूप जाणे, तेने निश्चय सम्यक्ज्ञानी जाणवा.
हवे ए उपर प्रश्न कह्या तेनो अर्थ करवाथकी आ ग्रंथ घणो वधे,
माटे एमांथी केटलाएक प्रश्ननो अर्थ रहस्य जाणवा सारु करुं बुं, ते
प्रमाणें विस्तार बुद्धिना धणी हशे ते सर्वनो अर्थ विचारी खेशे.
प्रथम पांच प्रकारें ज्ञाननुं स्वरूप तथा षट्द्रव्यनुं स्वरूप रूपी अरू
पीपणे निश्चय व्यवहारथी जाणवा आश्रयी कहीयें ठैयें. तिहां प्रथमनां
चार ज्ञान ते इंद्रियने अनुयायी ठे अने रूपी पदार्थने देखे ठे, अने ए चार
ज्ञाननो उपयोग पाठो टली जाशे, केम के अवधिज्ञान अने मनःपर्यव ज्ञान
नो उपयोग ठठा सातमा गुणठाणा लगें ठे अने श्रुतज्ञाननो उपयोग
वारमा गुणठाणा सुधी ठे, पठी नथी. एटले चार ज्ञान ते इंद्रियने अनु
यायी व्यवहारनयने मत्तें रूपीपणे प्रगळ्यां अने देखे पण रूपी पदार्थने
ठे माटे रूपी जाणवा अने एक केवलज्ञान ते शुद्धनिश्चयनयें अरूपी पणे

काश, पुञ्जल अने काल ए पांच द्रव्यना अनंता गुण, अनंता पर्याय ते ना जाणपणारूप प्रतीति गुरुमुखें करवी, ते सर्वे अपवादें कारणरूप ठे, अने एक जीवद्रव्यनुं स्वरूप, शुद्ध, निर्मल चिदानंदरूप परमज्योति, अविनाशी, अविचल, सर्वविज्ञावथकी रहित शुद्ध निश्चयनयें करी सत्तायें सिद्ध समान ज्ञानादि अनंतगुणरूप ठता पर्याय तथा सामर्थ्यपर्याय रूप अनंत शक्तिनो धणी, तेनुं स्वरूप ते उत्सर्ग कार्यरूप जाणवुं, ए बीजो प्रश्न.

हवे त्रीजा प्रश्नमध्ये पांच प्रकारनुं ज्ञान तथा षट् द्रव्यनुं स्वरूप देश व्यापी तथा सर्वव्यापी पणे जाणवुं ते कहे ठे, मतिश्रुतादि चार ज्ञान, ते पोतपोतानी मर्यादा प्रमाणें उपयोग दीधे लोकमां एना पर्याय प्रवर्त्ते, ते प्रमाणें ज्ञेयपदार्थ जाणे, माटे देशव्यापी जाणवां अने एक केवलज्ञाननो उपयोग ते प्रयास विना सर्वपर्याय लोकालोकमां व्यापी रह्या ठे. तेणे करी सर्व ज्ञेयपदार्थ एक समयमां जाणे ठे, माटे सर्वव्यापी जाणवो.

हवे ठ द्रव्यमां देशव्यापी अने सर्वव्यापी पणुं कहे ठे. तिहां धर्मास्ति काय अने अधर्मास्तिकाय, ए वे द्रव्य लोकव्यापी असंख्यात प्रदेशी जाणवा, तेमज एक जीवद्रव्य, असंख्यातप्रदेशी ठे एवा अनंता जीवद्रव्य ठे ते पण लोकव्यापी जाणवां, तथा पुञ्जलद्रव्यना परमाणुआ अनंतप्रदेशी, ते पण लोकव्यापी जाणवा. तथा कालद्रव्यनो समय एक पण प्रवर्त्तन काल ते अहीक्षीप व्यापी जाणवो, अने एक आकाशद्रव्यना अनंता प्रदेश ते लोकालोकव्यापी जाणवा. एरीतें एक आकाश विना पांच द्रव्य लोक व्यापी ठे, माटे देशव्यापी जाणवां अने एक आकाशद्रव्य ते लोकालोकमां व्यापी रह्यो ठे माटे सर्वव्यापी ठे. ए त्रीजो प्रश्न थयो.

हवे चोथा प्रश्नने विषे पांच प्रकारें ज्ञान तथा षट्द्रव्यनुं स्वरूप प्रत्यक्ष अने परोक्ष ए वे प्रमाणें करी देखाडे ठे. तिहां प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाणना वे ज्ञेद ठे. एक सर्व प्रत्यक्ष अने बीजुं देशप्रत्यक्ष तेमां केवलज्ञानें करी षट् द्रव्यना अनंता गुण अने अनंतापर्यायरूप लोकालोकना सर्वज्ञाव प्रत्यक्ष पणे जाणे, ते सर्वप्रत्यक्ष जाणवुं अने मनःपर्यवज्ञान ते मनोवर्गणाने प्रत्यक्षपणे जाणे, बीजुं अवधिज्ञान ते पुञ्जल वर्गणाने प्रत्यक्षपणे जाणे, ए सर्व देशप्रत्यक्ष जाणवा. हवे बीजुं परोक्षज्ञान ठे ते परोक्षप्रमाणना त्रण ज्ञेद ठे, एक आगमप्रमाण ते आगमं करी नरक, तिर्यच, मनुष्य, ते

जीव जाणे, न आदरे, अने न पाले, चोथा जीव जाणे, न आदरे, अने पाले, हवे एनो अर्थ जूदो जूदो लखीयें ठैयें.

तिहां पहेला जीव जे जाणे, आदरे, अने पाले, ते उलखावे ठे. जीव अजीव, नव तत्व अने षट् द्रव्यनुं स्वरूप साते नयें करी जाणे, अछा वीश उपनयें करी जाणे, द्रव्य, क्षेत्र, काल जावरूप चोत्रंगीयें करी जाणे, नित्य अनित्यादि आठ पदें करी जाणे, द्रव्यजावें करी जाणे, निश्चय व्यवहारें करी जाणे, नयसंयुक्त चार चारनिहेपे करी जाणे, ए रीतें त्रिन्न त्रिन्न प्रकारें जाणी अंतरंग जासन सहित प्रतीति करी चार गतिरूप संसारथकी उदासी जावें त्यागरूपवैरागें पंच महाव्रत शुरू रीतें आदरे, अने जेवी रीतें आदरे, तेवीरीतें मोक्षनिःकर्मारूप साध्य चोखो राखीने पाले जीव साधुमुनिराज ठेसातमे गुणठाणे वर्तता कंचन पात्र समान जाणवा.

हवे बीजा जीव जे जाणे आदरे अने न पाले, ते जीव उलखावे ठे. एटले आगल जे जीव अजीवरूप षट् द्रव्यनुं नवतत्व स्वरूप कछुं ते प्रमाणे अंतरंग जाणपणा रूप जासन सहित प्रतीति करे, तथा चार गतिरूप संसारथकी उदासीजावें त्यागरूप वैरागें शुरू रीतें पांच महाव्रत गुरुमुखें उच्चरे, अने साध्य एक आत्माने कर्मथकी सूकाववा रूप निःकर्मा अवस्थानो राखीने पंच महाव्रत शुरू रीतें पाले, पण पूर्वकर्मरूप उदयजावने योगें करीने व्रतथकी चूक्यो मनःपरिणामविषे अशक्त थयो ॥ गाथा ॥ जे जाको जैसो उदे, तव सोए ते थान ॥ शक्ति मरोडे जीवकी, उदय महाबलवान ॥ १ ॥ एवी रीतें उदयजावने योगें करी व्रतथकी परिणाम खश्या पण वेष मूके नही, पडिक्कमाणुं पडिलेहणादि क्रिया यथाशक्तियें साचवे, विषयसुख ते विषपान समान दारुण दुःखना दातार करी जाणे मनने विषे जूरणा घणी करे, पण बूटी शके नही, अने जे साधु, मुनिराज शुरूमार्गी जिनआज्ञाना पालक होय, तेने देखी घणो प्रेम धरे, तेनी सेवा करे, एवा व्रतपालवानी अजिलाषा राखे अने शुरू मार्गनो उपदेश आपी, लोकने प्रतिबोधे, धर्म पमाडे, ते जीव, व्रतथकी चूक्या पण समकेतनी सदहणायें करी सहित ठे, माटे संवेगपही जाणवा. ए बीजो जंग.

हवे त्रीजा जे जीव जाणे, न आदरे, अने न पाले, ते उलखावे ठे. ते जीव सम्यगूदृष्टि चोथागुणठाणावासा जाणवा. एटले आगल जी

व अजीवरूप नव तत्त्व, पद्द्रव्यनुं स्वरूप कर्तुं ते प्रमाणे सर्व जाणे. अंतरंग पणे सर्वहे. कार्य कारण, धर्म प्रत्ये उलखे, स्वदया परदया जाणे. न्वताव विजावनो यथार्थपणे विचार करी सर्वहे, आत्माने उपादान कागपणे जाणे. उपादानकार्य जाणे, तथा आत्मिकसुख इंद्रियजनितसुखनी प्रतीति करी साध्य चोखो राखी वीतरागनी आज्ञायें अनेक प्रकारें साधन करे. तेजीव, संसारथकी उदासी जावें वत्तें, संसारने बंधीखानारूप करी जाणे. अने व्रत लेवानी रुचि घणी करे, पण अव्रतने उदयें करी संसाररूप जाडमांधी वूटो शके नही, एवा जीव जाणे खरा पण आदरे नही अने साधे पण नही. ए त्रीजो जंग कसो.

द्वयें चोखा ते जीव जाणे न आदरे अने पाक्षे तेने उलखावे ठे. ते जीव पदुचरसमी हेव जाणवा. पटवे आगल नाव कखा, ते प्रमाणें सर्व जाणे ते नव गनि पदुधारी पनतिपणाने उदयें करी तिलां व्रतनुं आदरकुं नशी वसति वर पावताने जाणे तें ठे. माडे जाणे न आदरे अने पाक्षे ए नो ते नव ए नव जाणवा अर्थ विचारी बोधना करे ते ज्ञानीपुरुष जाणवा.

ते जीव पावतानुं साध्य जाणवाने नोरांगी दागीयें ठेयें. तिलां पहेवा जीव न जाणे न आदरे अने न पाक्षे. ती जा जीव न जाणे, न आदरे अने पाक्षे. ए नव ए नव जाणे पादरे अने पाक्षे, नोखा जीव न जाणे, आदरे अने न पाक्षे ए नव ए नव जाणे जीव उदावताने अर्थ दागीयें ठेयें.

ते जीव ते जीव न जाणे, न आदरे अने न पाक्षे तेजीव मिथ्यादर्शि ते जीव ते जीव अन्वयमनी जाणवा. तेने जीव अजीवता स्वरूप जाणुं नोरांगी अने नवनी आख्या विना अनेक प्रकारें अन्वयविधिं मिथ्यादर्शि ए नव ए नव जाणे ए नव ए नव जाणे विचार कसो.

ते जीव ते जीव न जाणे, न आदरे अने पाक्षे, ते जीव उदावताने. ते जीव ते जीव अन्वयमनी जाणवा. तेने जीव अजीवता स्वरूपनी उदावताने ए नव ए नव जाणे ए नव ए नव जाणवा नशी तेम पांन आदरे ए नव ए नव जाणे ए नव ए नव जाणवा. ए ती जा नव.

ते जीव ते जीव न जाणे, न आदरे अने पाक्षे, ते जीव उदावताने. ते जीव ते जीव अन्वयमनी जाणवा. तेने जीव अजीवता स्वरूपनी उदावताने ए नव ए नव जाणे ए नव ए नव जाणवा नशी तेम पांन आदरे ए नव ए नव जाणे ए नव ए नव जाणवा. ए ती जा नव.

अनित्यादि आठ पदों करी ज्ञासनरूप प्रतीति करी नहीं, अने उपादान पणुं न जाणे, उपादान कारणपणुं न जाणे, उपादानकार्यपणुं न जाणे, साधक बाधक अने सिद्धादि स्वरूप चौद गुणठाणानो विचार न जाणे, लौकिक धर्म न जाणे, लोकोत्तर बाह्यकारणरूप धर्म न जाणे, लोकोत्तर अंतरकारणरूप धर्म न जाणे, तथा लोकोत्तर अंतरकार्यरूप धर्म पणुं न जाणे अने जीवसत्तारूप द्रव्यगुणपर्यायनुं स्वरूप न जाणे तथा अजीव सत्तारूप ज्ञावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मरूप विचार न जाणे, तथा साध्य साधनरूप खेवानी प्रतीति कस्या विना नरकनिगोदनां दुःखथकी वीहीतो थको सुखनी लालचें पुण्यरूप फलनी वांठायें निवृत्तिरूप चारित्र्य अंगीकार करी, पांच महाव्रत शुरु रीतें पाले ठे, बहेंतालीश दोष टाढी आहार दीये ठे, मांखाना पांच दोष टाले ठे, अने पडिक्रमणुं पडिलेहणादि क्रिया शुरु रीतें साचवे ठे, ते द्रव्यलिंगी जीव जाणवा. ए त्रीजो जंग कह्यो.

हवे चोथा जे जीव न जाणे, आदरे अने न पाले, ते उलखावे ठे, ते जीव जिनमतलिंगी वेषधारी जाणवा. एटले पोतानो पाट मेलववारू प नाम राखवा सारु बालपणे शिष्यने वेचाता लइ अनेक प्रकारें दुःखें करी जिनमतना शास्त्र जे अंगोपांगादिक तथा परमतनां शास्त्र जे ज्योतिष्य वैद्यकादिक ते जणावे, जणावी पाढीने महोटा करे, पण अंतरंग सत्ताग तना जाणपणारूप ज्ञासन रहित तेणें करी जीवादिक नव पदार्थना परमार्थने न जाणे, अने अज्ञावें करी रुचि विना पांच महाव्रतरूप उच्चारें करी जैनलिंग धखुं ठे, पण उकायना आरंजने विषे प्रवर्तें ठे, सावयरूप पापकर्मना आदेश उपदेश दीये ठे ॥ अत्र गाथा ॥ निर्दय हृदय उकायमां, जे मुनिवेषे प्रवर्तें रे ॥ गृही यतिधर्मथी बाहिरा, ते निर्धन गति वरतें रे ॥ १ ॥ ए परमार्थ जाणवो. एटले ते जीव न जाणे, अने व्रत आदरे पण पाले नही, माटे जिनमतलिंगी वेषमात्रें जाणवा. ए चोथो ज्ञांगो कह्यो. ए रीतें जाण अजाण पणानुं स्वरूप जाणवा सारु चोत्रंगी कही ठे.

॥ दोहा ॥

॥ आत्मदृष्टिदेखीयें, पुजल चेतनरूप ॥ परपरिणति होय वेगली, न पडे ते जवकूप ॥ १ ॥ आत्मज्ञावें सिद्ध ठे, परज्ञावें ठे बंध ॥ निजस्वरूप अविस्लोकतां, मिटे अनादि धंध ॥ २ ॥ जेने पुजल योग ठे, तेहनी न धरे

व अजीवरूप नव तत्व. पदद्रव्यनुं स्वरूप कष्टुं ते प्रमाणे सर्व जाणे, अंतरंग पाणे सर्दहे, कार्य कारण, धर्म प्रत्ये उलखे, स्वदया परदया जाणे. स्वभाव विभावना यथार्थपाणे विचार करी सर्दहे, आत्माने उपादान कारणापाणे जाणे, उपादानकार्य जाणे, तथा आत्मिकसुख इंद्रियजनितसुखनी प्रतीति करी साध्य चोखो राखी वीतरागनी आज्ञायें अनेक प्रकारें साधन करे. तेजीव. संसारथकी उदासी जावें वत्तें, संसारने बंधीखानारूप करी जाणे. अने व्रत खेवानी रुचि घणी करे, पण अत्रतने उदयें करी संसाररूप जाडमांशी वृद्धो शके नही, एवा जीव जाणे खरा पण आदरे नही अने पासे पण नही. ए त्रीजो जंग कह्यो.

दुवे चोखा जे जीव जाणे न आदरे अने पासे तेने उलखावे ठे. ते जीव अनुत्तमार्गी देव जाणवा. एटसे आगस जाण कहा, ते प्रमाणे सर्व जाणे ते पण मति आश्रयी अत्रतिपाणाने उदयें करी तिहां व्रतनुं आदरनुं नशी करती व्रत पायसने जावेज वत्तें ठे, माटे जाणे न आदरे अने पासे ए चोखो जाण. ए नाम जांमाना अर्थ विनारी तोखना करे ते ज्ञानीपुरुष जाणवा.

दुवे अज्ञाननुं मारुप जाणवाने चोखंगी वरसीमें ठेयें. तिहां पहेला जीव न जाणे, न आदरे अने न पासे. तीजा जीव न जाणे, न आदरे अने पासे, चौथा जीव न जाणे, आदरे अने पासे, चोखा जीव न जाणे, आदरे अने पासे, ए नाम प्रकाशा जीव उदाभावाने अर्थ वरसीमें ठेयें.

दुवे अज्ञाननुं जीव न जाणे, न आदरे अने न पासे तेजीव मिथ्यादृष्टि उदरे जाणाने अन्यइशेनी जाणवा. तेने जीव अजीवरूप स्वरूप जाणवली. अने जिन जिननी आत्मा विना अनेक प्रकारें अन्यलिंगें मिथ्यापद रूप उदा कल्या हवे, ए पहेला जांमाना विचार कह्यो.

दुवे अज्ञाननुं जीव न जाणे, न आदरे अने पासे, ते जीव उदाभावने ठे. ते जीव अज्ञाननुं जाणवा, तेने जीव अजीवना स्वरूपनी उदाभाण जाणवा अने अने अज्ञाननुं स्वल्प पण जाणना नशी. तेम पांच आश्रय न जाणवली. आदरे अज्ञाननुं जीव जाणवा. ए त्रीजो जंग.

दुवे अज्ञाननुं जीव न जाणे, आदरे अने पासे, ते उदाभावने ठे, ते जीव अजीवनी स्वरूप. कार्यकारण प्रविशयक जाणवा. तेने जीव अजीव अज्ञाननुं अज्ञाननुं स्वल्प स्वल्प नये करी, विदये करी, आदरे अज्ञाननुं

अनित्यादि आठ पदों करी ज्ञासनरूप प्रतीति करी नहीं, अने उपादान पणुं न जाणे, उपादान कारणपणुं न जाणे, उपादानकार्यपणुं न जाणे, साधक बाधक अने सिद्धादि स्वरूप चौद गुणगणानो विचार न जाणे, लौकिक धर्म न जाणे, लोकोत्तर बाह्यकारणरूप धर्म न जाणे, लोकोत्तर अंतरकारणरूप धर्म न जाणे, तथा लोकोत्तर अंतरकार्यरूप धर्म पण न जाणे अने जीवसत्तारूप द्रव्यगुणपर्यायनुं स्वरूप न जाणे तथा अजीव सत्तारूप ज्ञावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मरूप विचार न जाणे, तथा साध्य साध नरूप खेवानी प्रतीति कख्या विना नरकनिगोदनां दुःखथकी वीहीतो थको सुखनी साधनं पुण्यरूप फलनी वांछायें निवृत्तिरूप चारित्र अंगीकार करी, पांच ब्रह्मव्रत शुद्ध रीतें पाळे ठे, वहेतालीश दोष टाळी आहार लीये ठे, सांख्यान पांच दोष टाळे ठे, अने पडिक्कमणुं पडिलेहणादि क्रिया शुद्ध रीतें साचवे ठे, ते द्रव्यलिंगी जीव जाणवा. ए त्रीजो जंग कह्यो.

हवे चोथा जे जीव न जाणे, आदरे अने न पाळे, ते उलखावे ठे, ते जीव जिनमतलिंगी वेपधारी जाणवा. एटले पोतानो पाट मेलववारू प नाम राखवा सारु बालपणे शिष्यने वेचाता लइ अनेक प्रकारें दुःखें क री जिनमतना शास्त्र जे अंगोपांगादिक तथा परमतनां शास्त्र जे ज्योतिष्य वैयकादिक ते जणावे, जणावी पाळीने महोटा करे, पण अंतरंग सत्ताग तना जाणपणारूप ज्ञासन रहित तेणें करी जीवादिक नव पदार्थना पर मार्यने न जाणे, अने अज्ञावें करी रुचि विना पांच ब्रह्मव्रतरूप उच्चारे करी जैनलिंग धर्युं ठे, पण ठकायना आरंजने विषे प्रवर्त्तें ठे, सावयरू प पापकर्मना आदेश उपदेश दीये ठे ॥ अत्र गाथा ॥ निर्दय हृदय ठका यमां, जे मुनिवेषे प्रवर्त्तें रे ॥ गृही यतिधर्मथी बाहिरा, ते निर्धन गति व र्तें रे ॥ १ ॥ ए परमार्थ जाणवो. एटले ते जीव न जाणे, अने व्रत आद रें पण पाळे नही, माटे जिनमतलिंगी वेपमात्रें जाणवा. ए चोथो जंगो रे पण पाळे नही, माटे जिनमतलिंगी वेपमात्रें जाणवा सारु चोजंगी कही ठे. कह्यो. ए रीतें जाण अजाण पणानुं स्वरूप जाणवा सारु चोजंगी कही ठे.

॥ दोहा ॥

॥ आत्मदृष्टिदेखीयें, पुजल चेतनरूप ॥ परपरिणति होय वेगली, न पडे ते जवकूप ॥ १ ॥ आत्मज्ञावें सिद्ध ठे, परज्ञावें ठे बंध ॥ निजस्वरूप अ विलोकतां, मिटे अनादि धंध ॥ २ ॥ जेने पुजल योग ठे, तेहनी न धरे

आश ॥ शुद्धात्म अनुभव जस्यो, शाश्वत सुख विधास ॥ ३ ॥ चेतन
 स्वरूप आतमा, सो अनादि गुणलीन ॥ पण ते प्रगटे अनुभवें, समकेत
 दृष्टि पीन ॥ ४ ॥ नम जयो जडजावमें, तेणे सावरण स्वजाव ॥ निरावरण
 तो संपजे, आपें आप स्वजाव ॥ ५ ॥ शुद्धद्रव्य शुद्धात्मा, व्यापक सकल
 ज्ञाव ॥ शुद्ध द्रव्यगुण पज्ञावे, मटे मोहमद ताव ॥ ६ ॥ इम जावत शिव
 तत्व रस, ते अद्यात्म सार ॥ ताके गुणकी वर्णना, सुणतां होय सुखकारा ॥ ७ ॥
 ॥ देशी चोपाइनी ॥

विमाविजय त्रे कृमा जंनार, जिन उत्तमपदना दातार ॥ एवा गुरु नि
 त्य नयो सह, निजरूप प्रगटे सुख लहो बहु ॥ ८ ॥ अमिय कुंशर तसु
 प्रगामी पाय, ग्रंथ कियो जविजन सुखदाय ॥ अल्पबुद्धि में रचना करी,
 गुरु करों पंजित जन मळी ॥ ९ ॥ मरुधर पाद्री नगर मजार, चोमासुं ५
 गी हने अपार ॥ वर्ष व्यासी संवत अडार, महाशुदि पांचम ने रविजार ॥
 १० ॥ प्रश्नोत्तर ग्रंथ कीभो सार, आत्म अर्थीने हितकार ॥ जणतां गुणतां
 जय जयहार, जगमी दीक्षा पामे अपार ॥ ११ ॥ इति पंजित श्रीकृंर
 विजयती विरचित प्रश्नोत्तर ग्रंथः संपूर्णः ॥ श्लोक संख्या ॥ ६६६१ ॥

मूलाः- आ ग्रंथ आपतांज एना बीजा पृष्ठनी वेही दीष्टीमां (वाजिब्रमां
 मज्जो मन्त्र होय.) ते वे हाणे कंपाजीटरनी नूदाथी "वा विजयमां भेक्ष उ
 पित प्रभुत नुसहित होय" एम शइ मयं वे. तेमज बीजापण जे जे स्थान
 वे अशुद्धतामय योग महागामी अथेजा होय ते सर्वे स्थले पांचनार
 मोटे योग नुसामे पांचजु. आ पुस्तक मुद्रित करतां जे हांइ श्रीजिनवचन
 विरचित महागामी कर्मायुं होय ते आपाण रूप कुण्डलने हे सामस्त आ
 अथ स्वयं कर्माय सज्जनोनी मनक मिथ्या करे नुं.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्री श्री कृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनसंवादात् ॥
 प्रश्नोत्तर ग्रंथः समाप्तः ॥

अथ ठूटक बोली लखीयें ठैयें.

सुगाम, सुगाम, सुजात, सुभ्रात, सुतात, सुमात, सुवात, सुकुल, सुवल, सुधा, सुपुत्र, सुपात्र, सुक्षेत्र, सुदान, सुमान, सुरूप, सुविद्या, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, सुवेश, सुदेश. एटलां वानां पुण्यविना न पामीयें.

सुमति, शीलवंत, संतोषी, सत्संगी, स्वजन, साचा बोला, सत्पुरुष, समे ला, सुलक्षण, सुलज्जा, सुकुलीन, गंजीर, गुणवंत, गुणझ, एवा पुरुषनो संग करवाथी धर्म पामीयें. चुगल, चोर, ठलयाही, अधर्मी, अधम, अविनी त, अधिक बोला, आनाचारी, अन्यायी, अधीरा, अधूरा, निःस्नेही, कुलक्षण, कुबोला, कुपात्र, कूडाबोला, कुशीलिया, कुशासनी, कुलखण, चूना, चूठ. एवा पुरुषनो संग न करवो.

केटलाएक दोष मुख्यतायें जेने होय तेनां नाम कहे ठे:—रजपुतने क्रोध घणो होय, क्षत्रीने मान घणुं होय, गणिका अने वणिकने माया घणी होय, ब्राह्मणने लोच घणो होय, मित्रने राग तथा हेत घणुं होय, शोक्यने द्वेष घणो होय, जुगारीने शोक घणो होय, चोरनी माताने चिंता घणी होय, कायरने ज्ञय घणो होय. इत्यादिक श्रीविशेषावश्यकमां घणा बोल ठे.

हवे धर्म कर्म केवी रीतें होय ते कहे ठे. धर्म तो आत्मजावें शुद्धोपयोगें होय अने कर्म तो अशुद्धोपयोगें तथा शुद्धाशुद्ध जावें होय जेवी करणी एट ले जेवी क्रिया तेवां कर्म होय अने धर्म तो अक्रिया रूपें होय जेवो शुद्धोपयोग वृद्धिवंतो होय तेवो धर्म पण वृद्धिवंतो होय.

महोटी चौदविद्यानां नाम:—एकनजोगामिनी, बीजी परशरीर प्रवेशिनी, त्रीजी रूपपरावर्त्तनी, चोथी स्तंजनी, पांचमी मोहनी, ठठी सुवर्णसिद्धि, सातमी रजतसिद्धि, आठमी रससिद्धि, नवमी बंधयोजिनी, दशमी शक पराजयनी, अगीयारमी वशीकरणी, वारमी चूतादिदमनी, तेरमी सर्व संपत्करी, चौदमी शिवपदप्रापणी.

वक्ताना चोद गुण लखीयें ठैयें. पहेलो प्रश्नव्याकरणोक्त शोल बोलनो जाण पंक्ति होय, बीजो शास्त्रार्थ विचारी जाणे, त्रीजो वाणी मांहे मीठाश होय, चोथो प्रस्ताव अवसर उलखे, पांचमो सत्य बोले, ठठो सांजलनारना संदेहनो छेद करे, सातमो बहुशास्त्रवेत्ता गीतार्थ उपयोगी होय, आठमो अर्थने विस्तारी तथा संवरी जाणे, नवमो व्याकरण रहित ठतां कंठनी जा

वामां पण अमशब्द न बोले, दशमो वाणीये करी सजाजनोने रीजपमाडे
श्रगीवारमो प्रक्षाय्ये ग्राहक, वारमो अहंकार रहित, तेरमो धर्मवंत, चो
नो संतोषवंत. ए चोद बोळनो जाण होय ते वक्ता जाणवो.

इये श्रोताना चोद गुण कहे ठे:- एक जक्तिवंत, बीजो मीठावोळो, श्मीने
गर्वरहित. चोथो सांजळता उपर रुचि, पांचमो चंचलता रहित एण्वतो पण
नांदडे अने थारे, ठठो जेवुं सांजळ्युं तेवुं प्रगट अक्षरे कहे, अ प्रणीत धर्म
नो जाण. आठमो घणा शास्त्र सांजळानां रहस्य जाणे, ब थाय.

आठमु न होय, दशमो जेने धर्म सांजळतां निझा नगे वचन सांजळी तेने
वंत होय. वारमो ज्ञानारूप गुण होय, तेरमो जेनी देवतापणे उपजे, ते दे
वतेनेना पात्रजयी वणा गुण बोडे, चोदमो जोड्नी वस्तिना स्थानके मूके
चोडनी नाणे नाण नेच पाश्चिमाट न हरे, ए चोनेन रोग रहित निराबाध करे.

श्रीग. कथाय. अने तेरता ए चार वेतां एहस्तु ते देवता जो पोताना धर्मा वा
नार ही जीने न गोडना अने अन्धर्मीय ही अष्ट थयो जाणी करी तेने
पदेवता अने नयानि जारा मजसून विणे स्थापन करे, तो उंसिंगण थाय.
देवता अने च. ए लि. ले. ४ करतो जी. ४. नरकापु बांधे, तेनां नाम.

पणे ए अने ए अने. २ मदापशियदमां वरवो थ हो.
ए अने ए अने ए अने. ३ आमिगतां आदार करतो थ हो.
ए अने ए अने ए अने. ४ जी. ४ नीयेनापु बांधे, तेनां नाम ॥

ए अने ए अने ए अने. ५ विअपमापाने करे करी.
ए अने ए अने ए अने. ६ ए अने ए अने ए अने. ७ ए अने ए अने ए अने.
ए अने ए अने ए अने. ८ ए अने ए अने ए अने. ९ ए अने ए अने ए अने.

ए अने ए अने ए अने. १० ए अने ए अने ए अने. ११ ए अने ए अने ए अने.
ए अने ए अने ए अने. १२ ए अने ए अने ए अने. १३ ए अने ए अने ए अने.
ए अने ए अने ए अने. १४ ए अने ए अने ए अने. १५ ए अने ए अने ए अने.

ए अने ए अने ए अने. १६ ए अने ए अने ए अने. १७ ए अने ए अने ए अने.

पर्यंत जरतारनो योग मले तथा अनेक उपाय करे तो पण पुत्ररूप फलनी प्राप्ति न थाय, तेनी पेरे अज्ञव्यनो जीव पण व्यवहारथी चारित्रनी क्रिया आदरे नवमा प्रैवेयक पर्यंत जाय परंतु सिद्धिरूप मोक्षफल पामे नही.

१ वे त्रीजा ज्ञव्याज्ञव्यनां लक्षण कहे ठे. जेम कोशक बाह्यविधवा स्त्री होय

१ रूपवती शक्ती ठे परंतु जरतारना योगने अज्ञावें पुत्ररूप फल पामे

३ रूप सहित एक जातें ज्ञव्य जीव तो ठे, परंतु कर्मनी विशेष निविडताने

॥ बृहदार राशिमांथी निकलीने व्यवहार राशिमां उंचाज नही

१ अज्ञव्य जीव अनेक पथीने अज्ञावें मोक्षरूप फलनी प्राप्ति पण न पामे.

३ ते थकी ज्ञव्य जीव अनंत जीव कहे ठे एक जवाजिनंदी ते मिथ्यादृष्टि

॥ अंतिम चतुःशती ते साधु सुनिराज जाणवा.

१ श्रीडुप्पसह नामा आचार्य. कहे ठे. एक सधन रात्रि समान

३ नाश्ल नामा श्रावक. ४ से जाणवा. जेमां कोश अज्ञुवाळुं

॥ पात्र चार प्रकारनां कहे. १ गानुसारी जीव जाणवा.

१ श्री जिनेंद्र. २ श्री साधु. ३ देशविरतिश्रावक. ४ अने वारमा गुणगणा

॥ अणाहारकना चार प्रकार ॥ १ जगवान जाणवा.

१ विग्रहगतिवंत, २ केवलसमुद्रघातकारक, ३ चउदमे गुणगणा

॥ मनुष्यनी चार अवस्थानां नाम ॥ १ अज्ञुवाळुं

१ गजावस्था. २ बाह्यावस्था. ३ यौवनावस्था. ४ वृद्धावस्था. ५ चोथी

॥ चार प्रकारें कुंज ठे, तेनां नाम ॥ १ श्या

१ मधुनो घडो ने मधुनुं ढाकणुं २ मधुनो कुंजने विषनुं ढाकणुं.

३ विषनो कुंजने मधुनुं ढाकणुं. ४ विषनो कुंजने विषनुं ढाकणुं.

॥ एज प्रकारें चार जातिना पुरुष होय ते कहे ठे ॥

१ एक पुरुष निर्मल निष्पाप अने जिह्वाथी पण मीतुं मधुरुं बोले.

२ एक पुरुष निर्मल निष्पाप उतां जिह्वायें कडवुं बोले.

३ एक पुरुष एक लक्ष पापवाला होय अने जिह्वायें मीतुं मधुरुं बोले.

४ एक पुरुष एक लक्ष पापवालो होय अने जिह्वायें पण कडवुं बोले.

॥ पञ्चकाण करवानी चतुर्गती ॥

१ पञ्चकाणनो करावनार गुरु जाण होय, अने करनार शिष्य ते पण जाण

होय, २ प्रथम जंग अत्यंतशुद्ध उत्तम जाणवा.

॥ चार प्रकारना पुष्प कहाँ ठे ॥

- १ रूपसहित पण गंध रहित. २ गंधसहित पण रूपरहित.
३ गंध सहित अने रूप सहित. ४ गंध रहित अने रूप रहित.

॥ एम चार प्रकारना पुरुष कहाँ ठे ॥

- १ रूपवंत पण शील रहित. २ शील सहित अने रूप रहित.
३ रूप सहित अने शील सहित. ४ रूप रहित अने शील रहित.

॥ चार प्रकारें उपरा उपर अनंता कहाँ ठे ॥

- १ अज्ञव्य जीव अनंता ठे. २ ते थकी सिद्धना जीव अनंता ठे.
३ ते थकी ज्ञव्य जीव अनंता ठे. ४ ते थकी जातिज्ञव्य जीव अनंता ठे.

॥ अंतिम चतुर्विध संघनां नाम ॥

- १ श्रीडुप्पसह नामा आचार्य. २ फट्ठुसिरी महा सति साधवी.
३ नाश्ल नामा श्रावक. ४ सबसिरीनामा श्राविका.

॥ पात्र चार प्रकारनां कहाँ ठे ॥

- १ श्री जिनेंद्र. २ श्री साधु. ३ देशविरतिश्रावक. ४ अविरति सम्यग्दृष्टि.

॥ अणाहारकना चार प्रकार ॥

- १ विग्रहगतिवंत, २ केवलसमुद्घातकारक, ३ चउदमे गुणगणे. ४ श्रीसिद्ध.

॥ मनुष्यनी चार अवस्थानां नाम ॥

- १ गर्जावस्था. २ बाळ्यावस्था. ३ यौवनावस्था. ४ वृद्धावस्था.

॥ चार प्रकारें कुंज ठे, तेनां नाम ॥

- १ मधुनो घडो ने मधुनुं ढाकणुं २ मधुनो कुंजने विषनुं ढाकणुं.
३ विषनो कुंजने मधुनुं ढाकणुं. ४ विषनो कुंजने विषनुं ढाकणुं.

॥ एज प्रकारें चार जातिना पुरुष होय ते कहे ठे ॥

- १ एक पुरुष निर्मल निष्पाप अने जिह्वाथी पण मीतुं मधुरुं बोले.
२ एक पुरुष निर्मल निष्पाप ठतां जिह्वायें कडवुं बोले.
३ एक पुरुष एक लक्ष पापवाला होय अने जिह्वायें मीतुं मधुरुं बोले.
४ एक पुरुष एक लक्ष पापवालो होय अने जिह्वायें पण कडवुं बोले.

॥ पञ्चस्काण करवानी चतुर्जंगी ॥

- १ पञ्चस्काणनो करावनार गुरु जाण होय, अने करनार शिष्य ते पण जाण होय, ए प्रथम जंग अत्यंतशुद्ध उत्तम जाणवो.

पञ्चस्काणनो करावनार गुरु जाण अने करनार शिष्य अजाण होय, तें
जाण गुरु पञ्चस्काणना करनारने पूठे, जाण करे, केहे के हे अमुका ! तने
गुरु पञ्चस्काण कराव्युं ठे, तेवी रीतें पालजे एम शिष्य पण पाले तो गुरु
जांगो जाणवो. अने न पूठे न पाले, तो अशुरू जांगो जाणवो.

३ पञ्चस्काणनो करनार शिष्य जाण होय, ते शिष्य जाणतो ठतो गीतायें
कृते अज्ञावें पर्यायें करी महोटा एवा महात्माने समीपें अथवा पित्रादि
कृते गुरु स्थानकें मानीने तेमनी साखें पञ्चस्काण करे, तो ते शुरू जाणवुं.
परंतु जो ठते गीतायें पण अजाण गुरु पासेंथी प्रोताने ठंदे पञ्चस्काण
करे, तो अशुरूजांगो थाय, एम समजवुं.

४ पञ्चस्काण करावनार गुरु अने पञ्चस्काण करनार शिष्य, ए वेहु अजा
ण होय तो ते जांगो अत्यंत अशुरू श्री वीतरागदेवें कह्यो ठे.

॥ सावु ठ कारणें आहार लीये, तेनां नाम कहे ठे.

१ शुभानां वेदनायें आहार लीये.

२ आभार्यादिकनां वेद्यायें करवाने अर्थें आहार लीये.

३ हेतुविकी मार्गें शोधवाने कारणे आहार लीये.

४ मंगल पापमाने कारणे आहार लीये.

५ नीतिव्य रक्षाने कारणे आहार लीये.

६ शुभचाने करवाने कारणे आहार लीये.

॥ सावु ठ कारणे आहार न लीये, तेनां नाम कहे ठे ॥

१ भाग्यदिकसंगें अर्थे थकें न जमे.

२ भाग्यने उपयुगे तय कारणे न जमे.

३ बुद्ध वेदनां उदय अथवा व्रदाचर्यें राखवाने अर्थें न जमे.

४ कृते पापपाप विमोक्षे तय करवाने अर्थें न जमे.

५ वेदनां अर्थें यथावत् चालने अथवा घुट्टी पडते न जमे.

६ अथवा तय अर्थें अथवा अर्थें न जमे.

श्री गुरुदेवाय नमः
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

